


॥ श्रीः ॥ १७३५

अमरकोशः ।

श्रीमदमरसिंहविरचितः ।



मुरादाबादवास्तव्यश्रीयुतगौडवंशावतंसभोलानाथा-
त्मजपण्डितरामस्वरूपकृतभाषाटीकया
शब्दानुक्रमणिकया च समेतः ।



सोऽय

खेमराज श्रीकृष्णदासत्रेष्ठिना
मुम्बय्यां

(खेतवाडी ७ वीं गली खम्बाटा छैन)

स्वर्माये “श्रीवेङ्कटेश्वर” (स्टीम्)-यन्त्रालये

मुद्रयित्वा प्रकाशितः ।



पौष सवत् १९७०, शके १८३९.

पुनर्मुद्रणादि सर्वाधिकार “श्रीवेङ्कटेश्वर” यन्त्रालयाध्यक्षने

स्वाधीन रक्ता है

श्रीः ।

अमरकोशस्य अकारादिक्रमेण शब्दानुक्रमणिका ।



शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.				
अ			अक्षरविन्यास	१४६	१६	अग्रायी	१३६	२१				
अक्ष	२७७	११	अक्षवती	१९५	४४	अग्नि	१४	५३				
अंश	१८३	८९	अक्षाम्रकीलक	१५३	५६	अग्निकण	१४	५७				
अशु	२३	३३	अक्षान्ति	४३	२४	अग्निचित्	१३४	१२				
अशुक	१२७	११५	अक्षि	{ १२३	९३	अग्निज्वाला	८८	१२४				
अशुमती	८७	११५		{ २९०	२२	अग्नित्रय	१३५	२०				
अशुमत्फला	७६	११३	अक्षिकूटक	१५०	३८	अग्निभू	१२	३९				
अस	१२०	७८	अक्षिगत	२०५	४५	अग्निमन्थ	७९	६६				
अंसल	११३	४४	अक्षीव	{ ७३	३१	अग्निमुखी	७५	४२				
अहति	१३७	३०		{ १७५	४१	अग्निशिव	१२९	१२४				
अहस्	२८	२३	अक्षोट	७२	२९	अग्निशिखा	{ ८१	११८				
अकरणि	२२७	३९	अक्षौहिणी	१५८	८१		{ ९०	१३६				
अकूपार	४९	१	अखड	२०९	६५	अग्न्युत्पात	{ २५	१०				
अकृष्णकर्मन्	२०५	४६	अखात	५४	२७		{ २३७	५८				
अक्ष	{	७७	५८	अखिल	२०९	६५	अग्र	{	२०७	५८		
		१७३	४३	अग	२३१	१९			२६३	१८३		
		१८२	८६	अगद	११५	५०			अग्रज	११३	४३	
		१९५	४५	अगर्दकार	११६	५७			अग्रजन्मन्	१३२	४	
२६८	२२१	अगम	६८	५	अग्रतःसर	१५६	७२					
अक्षत	१७४	४७	अगस्त्य	२१	२०	अग्रतस्	{	२७३	२४६			
अक्षदर्शक	१४४	५	अगाध	५२	१५			२७६	७			
अक्षदेविन्	१९५	४३	अगार	६२	५	अग्रमांस	११७	६४				
अक्षधूर्त्	१९५	४३	अगुरु	{	७८	६२	अग्रिय	{	११३	४३		
अक्षर	२६०	१८२							१२९	१२६	२०७	५८
अक्षरचञ्चु	१४५	१५							१२२	१२७	अग्रिय	२०७
अक्षरचण	१४५	१५	अगुरुशिक्षा	७८	६२	अग्नेदिधिपु	१०९	२३				

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
अणु	{ १६९	२०	अतिवक्तृ	२०३	३५	अदर्शन	२२३	२२
	{ २०८	६२	अतिवाद	३६	१४	अदितिनन्दन	७	८
अड	१०३	३७	अतिविषा	८४	९९	अदृश	१७	६१
अडकोश	१२०	७६	अतिबेल	१६	६६	अदृष्ट	१४८	३०
	{ ५२	१७	अतिशक्तिता	१६२	१०२	अदृष्टि	४६	३७
अडज	{ १०२	३३	अतिशय	{ १६	६६	अद्धा	२७७	१२
	{ २०६	५१				अद्भुत	{ ४२	१७
अतट	६६	४	अतिशस्त	१३४	४१			
अतर्कित	२७६	७	अतिशोभन	२०७	५८	अद्भर	२००	२०
अतलस्पर्श	५२	१५	अतिसस्कृत	२४१	८०	अद्य	२७९	२०
अतसी	१६८	२०	अतिसर्जन	२२५	२८	अद्रि	{ ६५	१
	{ २७२	२४१	अतिसारकिन्	११६	५९	अद्रि	{ २५७	६३
अति	{ २७५	२	अतिसौरभ	७३	३३		अद्वयवादिन्	८
	{ २७६	५	अतीक्ष्ण	२४४	९४	अधम	{ २५३	१४४
अतिक्रम	{ २२६	३३	अतीत	२७८	१७		{ २०७	५४
	{ २५४	१५०	अतीतनौक	५१	१४	अधमर्ण	१६६	५
अतिचरा	९२	१४६	अतीन्द्रिय	२११	७९	अधर	{ १२२	९०
अतिच्छत्र	९६	१६७	अतीव	२७५	२		{ २६२	१८९
अतिच्छत्रा	९३	१५२	अत्तिका	४१	१५	अधरेद्युस्	२७९	२१
अतिजव	१५६	७३	अत्यन्तकोपन	२०२	३२	अधस्	४६	१
अतिथि	१३८	३४	अत्यन्तीन	१५७	७६	अधामार्गव	८२	८८
अतिनिर्हारिन्	३१	१०	अत्यय	{ १६४	११६	अधिक	१८१	८०
अतिनु	५१	१४				अत्यर्थ	{ २५४	१५०
अतिपथिन्	६१	१६	अत्यल्प	२०८	६२			
	{ १३९	३७	अत्याहित	२२४	७७	अधिकृत	१४४	६
अतिपात	{ २२६	३३	अत्रि	२२	२७	अधिकृत	२०५	४२
अतिप्रसिद्ध	२६७	२१८	अत्रि	२२	२७	अधित्यका	६७	७
अतिमात्र	१६	६७	अथ	२७३	२४७	अधिप	१९८	११
अतिमुक्त	८०	७२	अथो	२७३	२४७	अधिभू	१९८	११
अतिमुक्तक	७२	२६	अदञ्च	२०८	६३			
आतोरिक्त	२१०	७५						

शब्द	पृ.	श्लोक	शब्द	पृ.	श्लोक	शब्द	पृ.	श्लोक		
अप्रेतर	१५६	७९	अंगुलिमुद्रा	११६	१०८	अभिनवपदा	१	१९		
अप्य	१०७	५८	अंगुली	१२१	८२	अभिनवोनि	९८	८		
अप्य	{	१८	२३	अंगुलीबन्ध	१२६	१०७	अभिर	{	६४	१३
		१३२	२७	अंगुष्ठ	१२२	८२			२६०	१८१
अपमर्षज	१४१	४७	अग्नि	१२९	७१	अभिज्ञ	२१	७२		
अप्यमा	१७८	६७	अभिनामक	६९	१२	अभिज्ञय	१५९	८६		
अंक	{	२	१७	अभिपरीक्षा	८३	९२	अभ्युक्ता	४१	११	
		२२८	४	अर्कही	१७९	७	अभ्यस्त	८९	१२७	
अंकुर	६८	४	अपक	६५	१	अठ	{	२	३	३८
अंकुश	१५१	४१	अपका	५८	१			२०६	४८	
अकांठ	७२	२९	अभिज्ञान	२६९	२२५	अज्ञान	३१	७		
अंकय	३९	५	अण्ड	५२	१४	अभिस्त	२१५	९८		
अंम	{	११८	७	अण्डमण्ड	९७	४	अंजन	१८	३	
		१७६	७	अण्ड्युत	८	१९	अंजनकेपी	८९	११	
		२७९	१९	अण्ड्युतामज	९	२३	अंजनावती	१८	५	
अंगाद	१२६	१०७	अण्ड	{	१८	७६	अंजलि	१२१	८५	
अंगय	६४	१३	अण्ड	{	२३१	६	अंजला	{	२७५	२
अंजना	{	१८	५	अण्डगणिका	९१	११९			२७७	१२
		१५	३	अण्डगर	४७	५	अटनी	१५९	८४	
अंगविधेय	४१	१६	अण्डगण	११	१५	अटरूप्य	८५	१३		
अंगवर्तस्कार	१२८	१२१	अण्डन्य	१६३	१९	अटनी	६७	१		
अंगहार	४१	१६	अण्डमीषा	९२	१४५	अट्टाप्य	११८	३५		
अंगार	१७१	३	अण्ड्युमी	८८	११९	अट्ट	{	६४	१२	
अंगारक	२२	२५	अण्ड	१६	६६			२५	१३१	
अंगारबानिका	१७१	२९	अण्डा	८२	८६	अणक	२	५४		
अंगारवाहरी	७६	४८	अण्डा	१८	७६	अणम्य	१६६	७		
अंगारवाही	८३		अण्डा	१७२	१६	अणि	१५३	५६		
अंगारवाहरी	१७१	२९	अण्डा	१८९	११	अणिमत्	११	३६		
अणीकार	१०	५	अण्डित	२३८	६२	अणीयत्	२०८	६९		
अणीकृत	२१७	१८	अण्डित	१४०	४६					
अणीकृत	१८२	८५	अण्डित							

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
अणु	{ १६९	२०	अतिवक्तृ	२०३	३५	अदर्शन	२२३	२२
	{ २०८	६२	अतिवाद	३६	१४	अदितिनन्दन	७	८
अड	१०३	३७	अतिविषा	८४	९९	अदृश्	१७	६१
अडकोश	१२०	७६	अतिबेल	१६	६६	अदृष्ट	१४८	३०
अंबज	{ ५२	१७	अतिशक्तिता	१६२	१०२	अदृष्टि	४६	३७
	{ १०२	३३	अतिशय	{ १६	६६	अद्वा	२७७	१२
	{ २०६	५१		{ २२१	११	अद्भुत	{ ४२	१७
अतट	६६	४	अतिशस्त	१३४	४१	{ ४२	१९	
अतर्कित	२७६	७	अतिशोभन	२०७	५८	अद्गर	२००	२०
अतलस्पर्श	५२	१५	अतिसंस्कृत	२४१	८०	अद्य	२७९	२०
अतसी	१६८	२०	अतिसर्जन	२२५	२८	आदि	{ ६५	१
अति	{ २७२	२४१	अतिसारकिन्	११६	५९		{ २५७	६३
	{ २७५	२	अतिसौरभ	७३	३३	अद्वयवादिन्	८	१४
	{ २७६	५	अतीक्ष्ण	२४४	९४	अघम	{ २५३	१४४
आतिक्रम	{ २२६	३३	अतीत	२७८	१७		{ २०७	५४
अतिचरा	९२	१४६	अतीतनौक	५१	१४	अघमर्ण	१६६	५
अतिच्छत्र	९६	१६७	अतीन्द्रिय	२११	७९	अघर	{ १२२	९०
अतिच्छत्रा	९३	१५२	अतीव	२७५	२		{ २६२	१८९
अतिजव	१५६	७३	अत्तिका	४१	१५	अघेरद्युस्	२७९	२१
अतिथि	१३८	३४	अत्यन्तकोपन	२०२	३२	अघस्	४६	१
अतिनिर्हारिन्	३१	१०	अत्यन्तीन	१५७	७६	अघामार्गव	८२	८८
अतिनु	५१	१४	अत्यय	{ १६४	११६	अधिक	१८१	८०
अतिपायिन्	६१	१६		{ २५४	१५०	अधिकर्द्धि	१९८	११
अतिपात	{ १३९	३७	अत्यर्थ	१६	६६	अधिकाग	१५५	६३
	{ २२६	३३	अत्यल्प	२०८	६२	अधिकार	१४८	३१
अतिप्रसिद्ध	२६७	२१८	अत्याहित	२२४	७७	अधिकृत	१४४	६
अतिमात्र	१६	६७	अत्रि	२२	२७	अधीक्षत	२०५	४२
अतिमुक्त	८०	७२	अथ	२७३	२४७	अधित्यका	६७	७
अतिमुक्तक	७२	२६	अथो	२७३	२४७	अधिप	१९८	११
अतिरिक्त	२१०	७५	अदम्ब	२०८	६३	अधिभू	१९८	११

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक
आधिरोहिणी	६५	१८	अनपञ्च	५२	१४	अनिष्ठ	{ ७	१०
आधिवासन	१३१	१३४	अनह्वह	१७७	६०	अनिष्ठ	{ १५	६२
आधिबिभा	१ ५	७		{ १७	१	अनिष्ठ	{ १६	६५
आधिभ्रमणी	१७१	२९	अनन्त	{ ४७	४	अनीक	{ १५७	७८
आधिष्ठान	२४९	१३६		{ १४१	८१	अनीक	{ १६२	१ ४
अधीन	१९९	१६		{ ४८	२	अनीकस्य	१४४	६
अधीर	२ १	२६	अनन्ता	{ ८३	९२	अनीकिनी	{ १५७	७८
अधीश्वर	१४३	२		{ ८६	११२	अनीकिनी	{ १५८	८१
अधुना	२८	२३		{ ९	१३६	अनु	२७३	४८
अधृष्ट	२ १	२६	अकल्प्य	{ ९	३६	अनुक	९	२३
अधोऽक्ष	१२७	११७	अकल्प्यवृष्टि	२११	७९	अनुकम्पा	४२	१८
अधोक्षत्र	८	२१	अनय	२५४	१४९	अनुकर्ष	१५४	५७
अधोमुपग	४६	१	अनर्षक	३७	२	अनुकस्य	१३९	४
अधोमुख	२ १	३३	अनल	१४	५४	अनुकामी	१५७	७६
अप्यस	{ १४४	६	अनवधानता	४४	३	अनुकार	२२२	१७
	{ २६९	२२५	अनवधरत	१६	६६	अनुकम	१३८	३६
अप्यवताव	४४	२९	अनवल्कर	२ ७	५६	अनुक्रीष	४२	१८
अप्याराम	२५३	१४४	अनवउर्ध्व	२ ७	५७	अनुग	१११	७८
अप्यारूक	१३३	७	अनसु	१५३	५२	अनुमह	१२१	१३
अप्यारहार	३	३	अनागतताय	१ ६	८	अनुपर	१५६	७१
अप्यूडा	१ ५	७	अनाठर	२५६	१५७	अनुज	११६	४३
अप्येवना	१३८	३२	अनादर	४३	२२	अनुजीविन्	१४४	९
अप्यग	१४६	१७	अनामय	११४	५	अनुवपन	१९५	४३
अप्यन्	६१	१५	अनामिका	१२१	८२	अनुवाप	{ ४३	२५
अप्यनीम	१४६	१७	अनापाठकृन्	२१४	९४	अनुवाप	{ २५४	१४८
अप्यस्य	१४६	१७	अनारत	१६	६५	अनुत्तम	२ ७	५७
अप्यर	१३८	३३	अनार्षतिष्ठ	९२	१४३	अनुत्तर	२६२	१९
अप्यर्षु	१३५	२७	अनारत	१२७	११२	अनुनय	२७९	१८
अनघर	७	२१	अनिमित्त	२१७	२१८	अनुरह	३११	७८
अनर्ग	९	६५	अनातद्वय	९	२७	अनुरादीना	१९२	३

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
अनुपमा	१८	४	अन्तःपुर	६३	११	अन्दुक	१५१	४१
अनुप्लव	१५६	७१	अन्तक	१४	५९	अन्ध	{ ११७	६१
अनुबन्ध	२४४	९८	अन्तर	२६१	१८७		{ २४५	१००
अनुबोध	१२८	१२२	अन्तरा	२७७	१०	अन्धकारपु	१०	३४
अनुभव	२२४	२७	अन्तराभवसत्त्व	२५१	१३३	अन्धकार	४६	३
अनुभाव	{ ४३	२१	अन्तराय	२२३	१९	अन्धतमस्	४६	३
			अन्तराल	१८	६	अन्धस्	१७५	४८
अनुमती	२५	८	अन्तारिक्ष	१७	१	अन्धु	५४	२६
अनुयोग	३५	१०	अन्तरीप	५०	८	अन्न	{ १७५	४८
अनुरोध	१४५	१२	अन्तरीय	१२७	११७			
अनुलाप	३६	१६	अन्तरे	२७७	१०	अन्य	२१२	८२
अनुलेपन	२९१	२३	अन्तरेण	{ २७५	३	अन्यतर	२१२	८२
अनुवर्त्तन	१४५	१२				२७७	१०	अन्यतरेद्युस्
अनुवाक	२८८	१७	अन्तर्गत	२१२	८६	अन्येद्युस्	२७९	२१
अनुशय	२५४	१४७	अन्तर्धा	१९	१२	अन्वक्	२११	७८
अनुष्ण	१९०	१८	अन्तर्धि	१९	१२	अन्वक्ष	२११	७८
अनुहार	२२२	१७	अन्तर्द्वार	६४	१४	अन्वय	१३२	१
अनूक	२३०	१३	अन्तर्मनस्	१९७	८	अन्ववाय	१३२	१
अनूचान	१३३	१०	अन्तर्वल्नी	१०९	२२	अन्वाहार्य	१३७	३१
अनूनक	२०९	६५	अन्तर्वाणि	१९७	६	अन्विष्ट	२१७	१०५
अनूप	६०	१०	अन्तर्वींशिक	१४४	८	अन्वेषणा	१३७	३२
अनूरु	२३	३२	अन्तावसायेन्	१८८	१०	अन्वेपित	२१७	१०५
अनृद्यु	२०५	४६	अन्तिक	२०९	६७	अप् (आप्)	४९	३
अनृत	{ ३७	२१	अन्तिकतम	२०९	६८			
			१६५	२	अन्तिकाश्रय	२२३	१९	अपक्रम
अनेकप	१४९	३४	अन्तिका	१७१	२९	अपघन	११८	७०
अनेहस्	२४	१	अन्तेवासिन्	{ १३४	११	अपचय	२२२	१६
अनोकह	६८	५				१९०	२०	अपचायित
अन्त	{ १६४	११६	अन्त्य	२११	८१	अपचित	२१६	१०१
			२११	८१	अत्र	११८	६६	

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक
अपथिति	{ १३८	३४	अप्याम्ब	१३	२	अप्सरस्	{ ७	११
	{ २३९	६७	अप्यु	११२	८४		{ १३	५२
अपट्ट	११६	५८	अपत्तह	१९	१६	अफळ	६८	७
अपत्न	११	२८	अपत्तर्प	१९	१३	अवह	३७	२०
अपत्तपा	४३	२३	अपत्तम्ब	२१२	८४	अवद्यमुञ्ज	२०१	३६
अपत्तप्रिण्णु	२	२८	अपत्तकर	१८३	५५	अवज्ज	१०४	९
अपत्त	३१	१७	अपत्तनात्	१९९	१९	अवाप	२१२	८३
अपत्तिन्	३१	१७	अपत्तहार	२२२	१६	अव्य	{ १९	१४
अपत्तान्तर	२	९	अपत्तपथि	४९	२		{ २३३	३२
अपत्तिश	१८	५				अव्यवोति	८	१७
अपत्तेश	{ ४५	३३	अपाङ्ग	{ १२३	९४		{ २७	२०
	{ २३७	२१६		{ २३१	२१	अव्य	{ २४३	८८
अपत्तस्त	२	४	अपान	{ १५	६३		{ २१३	१४६
अपत्तेश	३३	२		{ १९९	७३	अव्यि	{ ४९	१
अपत्तान	१६४	११	अपामार्ग	८९	८८		{ २४५	१
अपत्तस्वर	२१८	१	अपाहृत	१९९	१५	अव्यिकफ	१८५	१०५
अपत्तमिता	{ ८५	१	अपाघ्न	१६४	११३	अव्यिज्जम्ब	४१	१४
	{ ९३	१४९	अपि	२७३	२४९	अमन	९५	१६४
अपत्तपुस्तक	१५६	६८	अपिबान	१९	१३	अभया	७७	५९
अपत्तप	१४८	३६	अपिन्त्य	१५५	३५	अभापन	१३८	३६
अपत्तक	२४	३	अपूप	१७४	४८	अभिक	२०	२४
अपत्तपुस्त	२७९	२०	अपुर्गह	११३	४३	अभिक्रम	१३१	९६
अपत्तजा	११	३७	अप्यति	१५	६१	अभिक्रिया	२५५	१५६
अपत्तपर	३६	१७	अप्यित्त	१४	५६	अभिप्रह	२२१	१३
अपत्तर्ग	२१	७	अप्रकाण्ड	६८	९	अभिप्रहण	२२२	१७
अपत्तजन	१३७	३	अप्रगुण	२१	७२	अभिधातिन्	१४५	११
अपत्तार	{ ३६	१३	अप्रत्यक्ष	२११	७०	अभिधर	१५६	७१
	{ १४३	८९	अप्रधान	२७८	६	अभिधर	२२३	१९
अपत्तारण	{ १९	१२	अप्रहत	५९	५	अभिजन	{ १३२	१
	{ २४९	१२५	अप्राग्	२७८	३०		{ २४६	१

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
अभिजात	२४२	८२	अभिशाप	३५	११	अभ्यवकर्षण	२२२	१७
अभिज्ञ	१९६	४	अभिषङ्ग	२३१	२४	अभ्यवस्कन्दन	१६३	११०
अभितसु	{ २०९ २७५	{ ६७ २५५	अभिषव	{ १९४ १४१	{ ४२ ४२	अभ्यवहृत	२१८	१११
अभिधान	३५	८	अभिषेणन	१६१	९५	अभ्याख्यान	३५	१०
अभिध्या	४३	२४	अभिष्टुत	२१७	११०	अभ्यागम	१६२	१०५
अभिनय	४२	१६	अभिसम्पात	१६२	१०५	अभ्यागारिक	२९६	१२
अभिनव	२११	७७	अभिसारिका	१०६	१०	अभ्यादान	२२४	२६
अभिनवोद्भिद	६८	४	अभिहार	{ २२२ २५८	{ १७ १६८	अभ्यान्त	११६	५८
अभिनिर्मुक्त	१४२	५५	अभिहित	२१७	१०७	अभ्यामर्द	१६२	१०५
अभिनिर्माण	१६१	९५	अभीक	२००	२४	अभ्याश	२०९	६७
अभिनीत	{ १४७ २४१	{ २४ ८१	अभीक्ष्णम्	{ २७५ २७७	{ १ ११	अभ्यासादन	१६३	११०
अभिपन्न	२५०	१२८	अभीप्सित	{ २०७ २१८	{ ५३ ११२	अभ्युत्थान	१३८	३४
अभिप्राय	२२३	२०	अभीष्ट	८४	१००	अभ्युदित	१४२	५४
अभिभूत	२०४	४०	अभीरुपत्री	८४	१०१	अभ्युपगम	३०	५
अभिमर	२६६	२१४	अभीषण	२१९	६	अभ्युपपत्ति	२२१	१३
अभिमान	{ ४३ २४७	{ २२ ११०	अभीषु	२६७	२१९	अभ्युष	१७४	४७
अभियोग	२२१	१३	अभीष्ट	२०७	५३	अभ्र	{ १७ १८	{ १ ६
अभिरूप	२५१	१३१	अभ्यग्र	२०९	६७	अभ्रक	१८४	१०७
अभिलाव	२२४	२४	अभ्यन्तर	१८	६	अभ्रपुष्प	७२	३०
अभिलाष	४४	२८	अभ्यमित	११६	५८	अभ्रमातंग	१३	४६
अभिलाषुक	२००	२२	अभ्यमित्रीण	१५७	७५	अभ्रसु	१८	४
अभिवादक	२०१	२८	अभ्यमित्रीय	१५७	७५	अभ्रमुवल्लभ	१३	४६
अभिवादन	१३९	४१	अभ्यमित्र्य	१५७	७५	अभ्रि	५१	१३
अभिध्याति	२१९	६	अभ्यर्ण	२०९	६७	अभ्रिय	१८	८
अभिशास्त	२०४	४३	अभ्यर्हित	२४२	८३	अभ्रेष	१४७	२४
अभिशास्ति	१३८	३२				अमत्र	१७२	३३
						अमर	७	७

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक		
अमरावती	१२	४५	अम्यद्वा	८	७१	अरपट्ट	२८९	१८		
अमरार्थ	७	८				८२	८४	अरणि	१३५	१९
अमरि	४३	२६				९१	१४	अरण्य	३७	१
अमरपत्र	२०२	३२	४१	१४	२९	२२				
अमरु	१८४	१	मम्मिका	११	३७	अरण्यानी	६७	१		
अमरु	८९	१२७	मम्बु	४९	४	अरुणि	१२२	८६		
अमा	२७३	२५	मम्बुकपा	१९	११	अरर	३२	१७		
अमांत	११३	४४	मम्बुज	७८	६१	अरु	७७	५७		
अमारु	१४३	४	मम्बुभृत्	१८	१७	अरुर्षि	५७	३९		
अमावस्या	२५	८	अम्बुवैतस्	७३	३०	अरुप्रति	१४५	११		
अमावास्या	२५	८	अम्बुसरण	७७	११	अरु	२१	७१		
अमिष	१४५	११	अम्बुक्त	३७	२	अरि	१४५	१		
अमुत्र	२७६	८	अम्मत्	४९	४	अरिज	५१	१३		
असृणा	९५	१९४	अम्मोबह	५७	४१	अरिमैह	७६	५०		
अमृत	{ १३ ३१ ४९ ११७ १६६ २४	{ ४८ ६ ३ २८ ३ ७३	अम्मव	४९	५	अरिप्रमुखा	६३	८		
			अम्ब	३१	९		७३	३१		
			अम्बुशोणिका	९१	४		७८	३२		
			अम्बुवैतल	९१	१४१		अरिह	९२	१४८	
			अम्बान	८	७३		१७५	५३		
			अम्बिका	७५	४३		११०	२		
अमृता	{ ७७ ७७ ८२	{ ५८ ५९ ८२	अम	२९	२७	२३३	३६			
			अमपन	२६	१३	२५	४४			
			अमरु	१८४	९८	२२	२९			
अमरावत्यस्	७	८	अबाप्रतिमा	१९३	३५	अरुण	३२	१५		
अमोघा	८५	१	अवाचित	१६६	३	अरुणा	८४	९९		
अम्बर	{ १७ २६	{ १ १८१	अभि	२७९	१८	अरुणु	२१२	८३		
			अमोघ	१७	२५		७५	४२		
अमरुप	१७१	३	अयोपन	२३४	३७	अरुणकर	२६३	१८९		
अमरु	१८७	३	अर	१७	६४	अरुत्	११५	५४		

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
अशोक	२१६	१००	अर्थशात	३४	५	अशोत्र	९४	१५७
अर्क	{ २२ २२८	{ २९ ४	अर्थिन्	{ १४४ २०६	{ ० ४९	अशोरोगयुत	११६	५९
अर्कपर्ण	८१	८१	अर्थ्य	{ १८५ २५६	{ १०४ १६०	अर्हण	१३८	३४
अर्कबन्धु	८	१५	अर्दना	२१९	६	अर्हित	२१६	१०१
अर्काह	८१	८०	अर्दित	२१५	९७	अलक	१२३	९३
अर्गल	६५	१७	अर्ध	{ २० २०	{ १६ १६	अलका	१६	७०
अर्ध	२३२	२७	अर्धचन्द्रा	८६	१०९	अलक्त	१२९	१२५
अर्ध्य	१३८	३३	अर्धनाव	५२	१४	अलक्ष्मी	४८	२
अर्चा	{ १३८ १९३	{ ३५ ३६	अर्धरात्र	२५	६	अलगर्द	४७	५
अर्चित	{ २१६ २४२	{ १०१ ८५	अर्धनाव	५२	१४	अलकरिष्णु	{ १२४ २०१	{ १०० २९
अर्चिस्	{ १४ २७०	{ ५७ २३०	अर्धरात्र	२५	६	अलकर्तृ	१२४	१००
अर्जक	८१	८०	अर्धर्च	२९५	३२	अलकर्मिण	१९९	१८
अर्जुन	{ ३२ ७५ ९६	{ १३ ४५ १६७	अर्धहार	१२५	१०६	अलकार	१२४	१०१
अर्जुनी	१७८	६७	अर्धोरुक	१२८	११९	अलकृत	१२४	१००
अर्णव	{ ४९ २३७	{ १ ५७	अर्धुद	{ २८९ २९५	{ १९ ३३	अलीक्रिया	१२४	१०१
अर्णस्	४९	४	अर्भक	१०३	३८	अल्मू	{ २७४ २७७	{ २५२ ११
अर्तन	२२५	३२	अर्भ	२९५	३४	अलर्क	{ ८१ १९१	{ ८१ २२
अर्ति	२३९	६८	अर्भ्य	{ १६५ २५३	{ १ १४६	अल्स	१९०	१८
अर्थ	{ १८३ २४२	{ ९० ८६	अर्भ्यमन्	२२	२८	अलात	१७१	३०
अर्थना	{ १३८ २१९	{ ३२ ६	अर्भ्या	१०७	१४	अलावू	९४	१५६
अर्थप्रयोग	१६६	४	अर्भ्याणि	१०७	१४	अलि	{ ९९ १०२	{ १४ २९
			अर्भ्या	१०७	१५	अलिक	१२३	९२
			अर्भ्यन्	{ १५१ २०७	{ ४४ ५४	अलिजर	१७१	३१
			अर्भ्याक्	२७८	१६	अलिन्	२०२	२९
			अर्भ्यास्	११५	५४	अलिन्द	६४	१२
			अर्भ्यास	११६	५९	अलिका	२२९	१२

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक		
अल्प	९	८	६१	भवदात	{ ३२ १३	भवरीण	२१४	९४		
अस्पठनु	११४	४८		{ २४१ ८	भवरोष	६३	१२			
अस्पमारिप		१२६	भवदान	२१	३	भवरोषन	६३	११		
अस्पतरस	७४	२२	अवदाह	९५	१६५	भवरोह	६९	११		
अस्मिष्ठ	२	८	६२	अवदारण	१६८	१२	भवस्य	३१	१३	
अस्पीयत्	२	८	६२	अवदीण	२१३	८९	भनच्छु	३२	१३	
अवकर	६५	१८	अवध	२७	७४	अवक्ष्य	१२	७९		
अवकीर्णम्	१४२	५४	अवधारण	२३	१७८	अवक्षिप्त	२४६	८४		
अवकुह	२०१	३९	अवधि	२४५	९९	अवस्तुज	८३	९५		
अवकेशित्	६८	७	अवध्वस्त	२१४	९४	अववाद	१४७	२५		
अवक्रम	१८१	७९	अवन	२१९	४	अवस्वप्	२७८	१६		
अवगमित	२१७	१	६	अवनत	२१	७	अवस्वपाय	२	१८	
अवगात	२१७	१	८	अवनाड	११३	४५	अवहृष्य	२४६	१४	
अवगति	{ २१४	९३	अवनाय	२१४	२७	अवतर	२१४	२४		
			अवनि	५८	३	अवधान	२२३	३८		
अवगीर्ण	२१७	११	अवन्तिघोम	१७२	३९	अवशित	{ २१५ ९८			
अवग्रह	{ १९	११	अकम्प	६८	६	अवस्कर	{ १११ ६७	२५८ १३७		
			अवमथ	१३७	२७					
अवग्रह	१९	११	अवभ्रम	११३	४५	अवस्था	२९	२९		
अवगूर्मित	२१४	९४	अवम	२७	५४	अवहार	५३	२३		
अवका	४३	३२	अवमत	२१७	१०६	अवहित्वा	४५	३४		
अवकात	२१७	१	६	अवमत्	१६२	१	९	अवहोष्य	४३	२३
अवकट	४६	२	अवमानना	४३	२३	अवाह	{ १९८ १९	२ २ २३		
अवकीट	११२	४५	अवमानित	२१७	१				६	
अवकृ	१२२	८८	अवयव	११८	७	अवगन्तुषी	९३	१५२		
अवर्तत	२६९	२२७	अवर	१५	४	अवाग्र	३१	७		
अवर्तनत	४३	३	अवरज	११३	४३	अवाधी	१७	१		
अवर्तिका	१७८	६९	अवर्तित	२२६	३७	अवाप्य	३७	२१		
अवर्द्ध	१९४	४	अवरवर्ण	१८७	१	अवार	५	८		

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
अवासस्	२०४	३९	अश्मगर्भ	१८३	९२	असतीसुत	११०	२६
अवि	{ १०८	२०	अश्मज	१८५	१०४	असन	७५	४४
	{ २६५	२०७	अश्मन्	६६	४	असमीक्ष्यकारिन्	१९९	१७
अविग्र	७९	६७	अश्मन्त	१७१	२९	असार	२०७	५६
अवित	२१७	१०६	अश्मपुष्प	८८	१२२	असि	१६०	८९
अविद्य	३१	७	अश्मरी	११६	५६	असिक्ती	१०८	१८
अविनीत	२००	२३	अश्मसार	१८४	९८	असित	३२	१४
अविरत	१६	६५	अश्रान्त	१६	६५	असिधावक	१८८	७
अविलंबित	{ १५	६५	अश्रि	१६०	९३	असिधेनुका	१६०	९२
	{ २१२	८३	अश्रु	१२३	९३	असिपुत्री	१६०	९२
अविस्पष्ट	३७	२१	अश्लील	३६	१९	असु	१६५	११९
अवीचि	४८	१	अश्व	१५१	४३	असुधारण	१६५	११९
अवीरा	१०६	११	अश्वकर्णक	७५	४४	असुर	७	१२
अवेक्षा	२२५	२८	अश्वत्य	७१	२१	असूर्क्षण	४३	२३
अव्यक्त	२३८	६२	अश्वयुक्	२१	२१	असूया	४३	२४
अव्यक्तराग	३२	१५	अश्ववडव	२८८	१६	असृग्धरा	११७	६२
अव्यण्डा	८२	८६	अश्व	१५२	४६	असृज्	११७	६४
अव्यथा	{ ७७	५९	अश्वभरण	२३५	४४	असौम्यस्वर	२०३	३७
	{ ९२	१४६	अश्वारोह	१५४	६०	अस्त	{ ६६	२
अव्यय	२९५	३४	अश्विन्	१३	५१		{ २१३	८७
अव्यवहित	२०९	६८	अश्विनी	२१	२१	अस्तम्	२१८	१७
अग्रनाया	१७६	५४	अश्विचीसुत	१३	५१	अस्ति	२१९	१८
अग्रनायिन	२००	२०	अश्वीय	१५२	४८	अस्तु	२७८	१३
अग्रनि	१३	४७	अष्टापद	{ १८४	९५	अस्त्र	१५८	८२
अग्रि	२१८	१११	अष्टीवत्	{ १९५	४६	अस्तिन्	१५६	६९
अग्रिन्वी	११६	११	अश्लोण	११९	७२	अस्थि	११८	६८
अशुभ	२९१	२३	असकृन्	२७५	१	अस्थिर	२०५	४३
अशोप	२०९	६५	असती	१०६	१०	अस्फुटवाच्	२०३	३७
अशोक	७८	६४						
अशोकरोहिणी	८२	८५						

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
अस	{	११७	अहान	२७५	०	भास्पाठ	२१७	१७
		१२३		आ		भास्पायिका	१४	५
		२५७		आ (आः)	२७२	२४	भाग्य	१३८
असप	१५	५	आम्	२७८	१६	भाग्	{ १४८ ०६	
अस्र	१२३	१३	आकम्पित	२१२	८७		{ २७ २१	
अस्वच्छन्द	१९९	१६	आकर	६६	७	भागू	३ ७	
अस्वाम	७	८	आकथ	२६८	२२१	आमीप्र	१३५	१७
अस्तर	२ ३	३७	आकस्य	१२४	९९	आमहम्पिक	२६	१४
अस्वाध्याय	१४२	५३	आकार	{ २२२ १५		आमहामणी	२१	२३
अहसु	२ ६	५		{ २५७ १६२		आह	२७२	२३०
अहंकार	४३	२२	आकारगुति	४५	३४	आक्षिप	४२	१६
अहंकारवान्	२ ६	५०	आकारण	३५	८	आक्षिपत	२१	२४
अहन्	२४	७	आकाश	१७	२	आचमन	१३८	३६
अहमहमिका	१६२	१ १	आक्षीष	२१२	८५	आचाम	१७७	४९
अहम्पूर्विका	१६२	१	आकुञ्ज	२१	७२	आचार्य	१३३	७
अहम्माति	३१	७	आकृति	२५७	१६२	आचार्या	१ ७	१४
अहर्षति	२२	३	आफन्द	२८३	९	आचार्यानी	१ ७	१
अहर्षुञ्ज	२४	२	आक्षीड	३७	३	आचित	१८२	८७
अहत्कर	२२	२८	आक्षीघ	३६	१५	आच्छादन {	१९	१३
अहद	२७५	२५७	आक्षीघन	२१	६		१२७	१७७
अहार्य	६७	१	आधारण	३६	१५		२४	१२५
अहि	{	४७	आधारणा	७६	१५	आच्छुरितक	४७	३४
		२७१	आधारित	७ ४	४२	आच्छीहन	१९७	२३
अहित	१४५	११	आधेय	३६	१३	आच्छक	१८	७७
अहितुण्डिका	४८	११	आध्वगच्छ	१९	४४	आजानेय	१५१	४४
अहिमथ	१४८	१	आप्	८	१०	आभि {	१६२	१ ६
अहिभुज	२३२	३	आप्मुह	७	६		२३३	३३
अहेय	८४	१ १	आपेट	१९७	२३	आभीष	१६५	१
अही	२७७	९	आपसा	३५	८	आभू	४८	३
अशोचन	३६	१२				आरा	१४७	७०

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक.
आज्य	१७५	५२	आत्मभू	{ ८	१६	आनन	१२२	८९
आटि	१०१	२५		{ ९	२६	आनन्द	२८	२५
आढम्बर	{ १६३	१०८	आत्मम्भारि	२००	२१	आनन्दशु	२८	२५
	{ १५८	१६८	आत्रेयी	१०८	२०	आनन्दन	२१९	७
आडि	१०१	२५	आथर्वण	२२७	४३	आनर्त	२३८	६४
आढक	१८२	८८	आदर्श	१३२	१४०	आनाय	५२	१६
आढकिक	१६७	१०	आदि	२११	८०	आनाय्य	१३६	२१
आढकी	{ ९०	१३०	आदिकारण	२९	२८	आनाह	११५	५५
	{ २८३	७	आदितेय	७	८	आनुपूर्वी	१३८	३६
आढथ	१९८	१०	आदित्य	{ ७	८	आन्घसिक	१७१	२८
आणवीन	१६६	७		{ ७	१०	आन्वीक्षिकी	३४	५
आतङ्क	२२९	१०		{ २२	२८	आपक्व	१५०	४७
आतघन	२४८	११५	आदिनव	२२५	२९	आपगा	५५	३०
आततायिन्	२०५	४४	आदृत	२४२	८५	आपण	६२	२
आतप	{ २३	३४	आदेष्टृ (घा)	१३३	७	आपणिक	१८०	७८
	{ २८९	२०	आद्य	२११	८०	आपत्प्राप्त	२०४	४२
आतपत्र	१४९	३२	आद्यमाशक्त	१८२	८५	आपद	१५८	८२
आतर	५१	११	आद्युन	२००	२१	आपन्न	२०४	४२
आतापि	१००	२१	आद्योत	२२८	३	आपन्नसत्त्वा	१०९	२२
आतिथेय	१३८	३३	आधार	५५	२९	आपामित्यक	१६६	४
आतिथ्य	१३८	३३	आधि	{ ४४	२८	आपान	३९४	४२
आतुर	११६	५८		{ २४४	९७	आपीड	१३१	१३६
आतोद्य	३९	५	आधूत	२१२	८७	आपीन	१७९	७३
आत्तगर्व	२०४	४०	आधोरण	१५४	५९	आपूपिक	{ १७१	२८
आत्मगुप्ता	८२	८६	आध्यान	४४	२९		{ २२७	४०
आत्मघोष	१००	२०	आनक	{ ४०	६	आप्त	१४५	१३
आत्मज	११०	२७		{ २२८	३	आप्य	४९	५
आत्मन्	{ २९	२९	आनकदुन्दुभि	९	२२	आप्यायन	२४८	११५
	{ २४७	१०९	आनत	२१०	७०	आप्रच्छन्न	२२०	७
			आनद्ध	३९	४	आप्रपद	१२८	११९

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
आमदीन	१२८	११९	आम्रावक	७२	२७	आरोहण	१५	१८
आप्य	१२८	१२१	आम्रावित	१५	१२	आतमस	८	७४
आप्लाव	१२८	१२१	आपत्	२०	१९	आतव	१८	११
आरन्ध	१६८	११	आपतन	१२	७	आश	१७	१९
आमरण	१२४	१	आवृत्ति	{ १४८	२०	आशक	१७३	१७
आमापल	३६	१५		{ २४	७२	आश्व	{ ४१	१४
आमास्वर	७	१०	आवत	१	१६	आश्व	{ ११२	३
आभीर	१७६	५७	आवाग	१२७	११४	आशा	११	३०
आभीरपक्षी	६५	७	आवुष	१५१	१२	आशावर्ष	८	८
आभीरी	१७	११	आवुषिक	१७८	६७	आश्विन	१७७	६२
आभीक	४	८	आवुषीय	१७८	६७	आश	१८५	११
आग्नेय	१११	११७	आवुष्पत्	१७	६	आश्वि	१६४	११५
आमगन्धर्व	१२	१२	आवुष	१३८	१०	आश्व	६२	५
आमन्त्र	४०	१	आवोपन	१६९	१३	आश्वका	५८	२९
आमव	११५	५१	आवृष्ट	१८४	७	आश्वस्य	१९	१८
आमयाविन्	११६	५८	आवृष्य	७१	७१	आश्व	१७७	११
आमक	२९५	३३	आवृष्यक	१७३	१९	आश्व	१९	१५
आमक्री	७७	५७	आवृषि	२२३	१७	आश्व	{ ६	१४
आमिद्धा	१३६	२३	आवृष्य	२२४	२६	आश्व	{ ६७	४
आमिष	{ ११७	६३	आवृष्य	१८	२३	आश्व	{ १७	१२
	{ १६८	१२३	आवृष्य	१९३	३४	आश्वि	{ १७	१२
आमिषादिन्	१९९	१९	आवृष्य	२७९	२४२	आश्वि	{ १७	१२
आमुक	१५५	६५	आवृष्य	२४९	१२५	आश्वि	{ १७	१२
आमोद	{ २८	२४	आवृष्य	१७	२	आश्वि	{ १७	१२
	{ ११	१	आवृष्य	१७	२८	आश्वि	{ १७	१२
	{ २४३	११	आवृष्य	१८	२३	आश्वि	{ १७	१२
आमृषिन्	३५	११	आवृष्य	७१	२४	आश्वि	{ १७	१२
आम्राव	{ १३	३	आवृष्य	११४	५	आश्वि	{ १७	१२
	{ ७२	७	आवृष्य	{ १२७	११४	आश्वि	{ १७	१२
आम्र	७१	१३	आवृष्य	{ २११	२१८	आश्वि	{ १७	१२

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
आवसित	१७०	२३	आशुग	{ १५	६२	आसार	{ १९	११
आवाप	५५	२९		{ १५९	८६		{ १६१	९६
आवापक	१२६	१०७		{ २३१	१९		आसुरी	१६९
आवाल	५५	२९	आशुनीहि	१६८	१५	आसेचनक	२०७	५३
आविश	७९	६७	आशुशुक्षणि	१४	५५	आस्कन्दन	१६२	१०४
आविद्ध	{ २१०	७१	आश्वर्य	४२	१९	आस्कन्दित	१५२	४८
	{ २१३	८७	आश्रम	१३२	४	आस्तरण	१५१	४२
आविध	१२६	३६	आश्रय	{ १४६	१८	आस्था	२४३	८८
आविल	५२	१४	{ २२१	११	आस्थान	१३४	१५	
आविस्	२७७	१२	आश्रयाश	१४	५४	आस्थानी	१३४	१५
आवुक	४१	१२	आश्रव	{ ३०	५	आस्पद	२४४	९४
आवुत्त	४१	१२		{ २००	२४	आस्फोट	८१	८०
आवृत्	१३८	३६		{ २००	२४	आस्फोटनी	१९३	३३
आवृत्त	२१३	९०	आश्रुत	२१७	१०८	आस्फोटा	{ ७९	७०
आवेगी	९१	१३७	आश्व	१५२	४८	{ ८५	१०४	
आवेशन	६३	७	आश्वत्थ	७०	१८	आस्य	१२२	८९
आवेशिक	१३८	३४	आश्वयुज्	२७	१७	आस्या	२२३	२१
आशसितृ	२०१	२७	आश्विन	२७	१७	आसव	२२५	२९
आशसु	२०१	२७	आदिवनेय	१३	५१	आहत	{ ३७	२१
आशय	२२३	२०	आश्वीन	१५२	४७	{ २१३	८८	
आशर	१५	५९	आषाढ	{ २७	१६	आहितलक्षण	१९७	१०
आशा	{ १७	१	आसक्त	{ १४०	४५	आहव	१६२	१०५
	{ १६७	२१६	आसन	१९७	९	आहवनीय	१३५	१९
आशितगवीन	१७६	५९	आसना	{ १३१	१३८	आहार	१७६	५६
आशीविप	४७	७	आसन्दी	{ १४६	१८	आहाव	५४	२६
आशिसु	२६९	२२८	आसन्न	{ १५०	३९	आह्वय	४८	९
आशु	{ १५	६५	आसव	२२३	२१	आहं	२७६	५
	{ १६८	१५	आसादित	२८४	९	आहोपरुषिका	१६२	१०१
				२०९	६६	आह्वय	३५	७
				१९४	४१	आह्व	३५	८
				२१६	१०४			

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
आम्रपरीन	२२८	११	आम्नातक	७२	१७	आरोहण	६५	१८
आपस्य	१२८	१०१	आर्षेणित	३५	१२	आर्षेणित	८	७४
आप्लाव	१२८	१२१	आपयत	२	९	आसक	१८	२१
आवम्भ	१६८	१३	आपयतन	६२	७	आसक	१७	१५
आभरण	१०४	१	आपयति	{ १४८	२	आसक	१०३	१०
आमापय	३६	१५	आपयति	{ २४	७२	आसक	{ ४१	१६
आभास्वर	७	१०	आपयत	१	१६	आसक	{ ११२	३
आमीर	१७३	५७	आपाम	१२७	११४	आसा	११	१७
आमीरपक्षी	६५	७	आसुष	१५८	१२	आसक्ति	७०	८
आमीरी	१७	१३	आसुषिक	१७५	६७	आसिम्प	१७७	६२
आमीक	४	४	आसुषीय	१५७	६७	आस	१८७	१३
आभोग	१३१	१३७	आसुष्यत्	१९७	६	आसम्भ	१६४	११५
आमयन्निन्	३२	१२	आसुष	१३५	१२	आसक	६२	५
आमनस्व	४९	३	आसापन	१६२	१	आसकनाश	५५	२९
आमय	११५	५१	आसकूट	१८४	९७	आसकस्य	१९	१८
आमयाधिन्	११६	५८	आसकम्भ	७१	२३	आसन	१५	४१
आमकक	२९५	३३	आसनाकक	१७३	३	आसप	३३	१५
आमककी	७७	५७	आसति	२२६	३७	आसि	{ ६	१४
आसिष्ठा	१३३	२३	आसम्भ	२२४	२६	आसि	{ ६७	४
आसिप	{ ११७	३३	आसक	३८	२३	आसिम्प	{ १७	१२
	{ २३८	२२३	आस	१९३	३४	आसिम्प	३०	७
आसिष्ठातिन्	१९	१९	आसक	२७२	२४२	आसिष्ठा	६४	१२
आसुक्त	१५५	६५	आसपन	२४९	१२५	आसी	२३३	१९८
आसीद	{ २८	२४	आसाम	३७	२	आसीद	१७	८१
	{ ३१	१	आसकिक	१७	२८	आस	१७१	३१
	{ ७४१	९१	आसक	३८	२३	आसक	२२८	३
आसोधिन्	३२	११	आसक	७१	२४	आसकन	२०५	३१
आसाप	{ ३३	२	आसक	११४	५	आसपन	१७७	३३
	{ ७२	७	आसक	{ १२७	११४	आसति	३७	४
आस	७३	३३	आसक	{ २११	२३८	आसति	३७	४

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
आवसित	१७०	२३						
आवाप	५५	२९	आशुग	{ १५ १५९ २३१	{ ६२ ८६ १९	आसार	{ १९ १६१	{ ११ ९६
आवापक	१२६	१०७	आशुग्रीहि	१६८	१५	आसुरी	१६९	१९
आवाल	५५	२९	आशुशुक्षणि	१४	५५	आसेचनक	२०७	५३
आविम	७९	६७	आश्रयं	४२	१९	आस्कन्दन	१६२	१०४
आविद्ध	{ २१० २१३	{ ७१ ८७	आश्रम	१३२	४	आस्कन्दित	१५२	४८
आविध	१२६	३६	आश्रय	{ १४६ २२१	{ १८ ११	आस्तरण	१५१	४२
आविल	५२	१४	आश्रयाश	१४	५४	आस्था	२४३	८८
आविस्	२७७	१२				आस्थान	१३४	१५
आवुक	४१	१२	आश्रव	{ ३० २०० २००	{ ५ २४ २४	आस्थानी	१३४	१५
आवुत्त	४१	१२	आश्रुत	२१७	१०८	आस्पद	२४४	९४
आवृत्	१३८	३६	आश्व	१५२	४८	आस्फोट	८१	८०
आवृत्त	२१३	९०	आश्वत्थ	७०	१८	आस्फोटनी	१९३	३३
आवेगी	९१	१३७	आश्वयुज्	२७	१७	आस्फोटा	{ ७९ ८५	{ ७० १०४
आवेशन	६३	७	आश्विन	२७	१७	आस्य	१२२	८९
आवेशिक	१३८	३४	आश्विनेय	१३	५१	आस्या	२२३	२१
आशसितृ	२०१	२७	आश्वीन	१५२	४७	आस्रव	२२५	२९
आशसु	२०१	२७	आषाढ	{ २७ १४०	{ १६ ४५	आहत	{ ३७ २१३	{ २१ ८८
आशय	२२३	२०	आसक्त	१९७	९	आहितलक्षण	१९७	१०
आशर	१५	५९	आसन	{ १३१ १४६ १५०	{ १३८ १८ ३९	आहव	१६२	१०५
आशा	{ १७ १६७	{ १ २१६	आसना	२२३	२१	आहवनीय	१३५	१९
आशितगन्धिन	१७६	५९	आसन्दी	२८४	९	आहार	१७६	५६
आशीविप	४७	७	आसन्न	२०९	६६	आहाव	५४	२६
आशिस्	२२९	२२८	आसव	१९४	४१	आह्वय	४८	९
आशु	{ १५ १६८	{ ६५ १८	आसादित	२१६	१०४	आहं	२७६	५
						आहोपरुषिका	१६२	१०१
						आह्वय	३५	७
						आह्वा	३५	८

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
आम्रन्दीन	१२८	११९	आम्रावक	७२	२७	आरोहण	६५	१८
आम्ब	१२८	१२१	आम्बुवित	३५	१२	आर्तगण	८	७४
आम्बुव	१२८	१२१	आयत	२	९	आयतव	१	८
आम्बुव	१६८	११	आयतन	६२	७	आय	१	७
आमरण	१२४	१	आयति	{ १४८	२	आयक	१७३	१७
आमापण	२६	१५		{ ७४	७२	आय	{ ४१	१६
आमास्थिर	७	१०	आयत	१	९	आय	{ १३२	३
आमीर	१७६	५७	आयाम	१२७	११४	आया	११	१७
आमीरपत्नी	६५	७	आयुष	१५८	१२	आयार्थित	७९	८
आमीरी	१	७	आयुषिक	१५५	६७	आयर्ष्य	१७७	६२
आमीक	४९	४	आयुषीय	१५५	६७	आय	१८७	१
आमोम	१३१	१३७	आयुष्मात्	१९७	६	आयम्मा	१६८	११५
आमगन्धिन्	३२	१२	आयुष	१३५	१२	आयय	६२	७
आमनस्व	४९	३	आयोष्य	१३२	१	आय्याक	७८	२९
आमय	११५	५१	आयकूट	११४	७	आयत्य	१	१८
आमयाधेन्	११६	५८	आयव्य	७१	२२	आय्यन	१५	४१
आमम्बक	२९५	३३	आयमाक	१७३	३९	आयण	३६	१५
आमम्बकी	७७	५७	आयति	२२६	३७		{ ९	१४
आर्तमिषा	१३६	२३	आरम्भ	२२४	२६	आकि	{ ६७	४
	{ ११७	६३	आरव	३८	७३		{ ७	१२
आरिप	{ २६८	२२३	आरा	१९६	३४	आरिग्य	३०	५
आरिषासेन्	१	९	आरात्	२७२	२४२	आरिष्य	६४	१२
आमुक्त	१५५	६५	आराधन	७४	१२५	आरि	७६३	१०८
	{ ९८	२४	आरागम	६७	२	आरिड	१७	८५
आमोह	{ ३१	१	आराकिक	१७	२८	आरा	१७१	३१
	{ २४२	९१	आराक	३८	२३	आरौक	७२८	३
आमरिग	३७	११	आरेव	७१	२४	आरौकन	२७५	३१
	{ ३३	७	आरौम्य	११४	५	आरान	१७२	३३
आमाव	{ ७२	७	आरौद	{ १७७	११८	आरात	७	६
आम	७३	३३		{ ७१	२३	आराति	६७	८

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
आवसित	१७०	२३	आशुग	{ १५	६२	आसार	{ १९	११
आवाप	५५	२९		{ १५९	८६		{ १६१	९६
आवापक	१२६	१०७		{ २३१	१९		आसुरी	१६९
आवाल	५५	२९	आशुग्रीहि	१६८	१५	आसेचनक	२०७	५३
आविश	७९	६७	आशुशुक्षणि	१४	५५	आस्कन्दन	१६२	१०४
आविद्ध	{ २१०	७१	आश्वर्य	४२	१९	आस्कन्दित	१५२	४८
	{ २१३	८७	आश्रम	१३२	४	आस्तरण	१५१	४२
आविध	१२६	३६	आश्रय	{ १४६	१८	आस्था	२४३	८८
आविल	५२	१४	{ २२१	११	आस्थान	१३४	१५	
आविस्	२७७	१२	आश्रयाश	१४	५४	आस्थानी	१३४	१५
आवुक	४१	१२	आश्रव	{ ३०	५	आस्पद	२४४	९४
आयुक्त	४१	१२		{ २००	२४	आस्फोट	८१	८०
आवृत्	१३८	३६		{ २००	२४	आस्फोटनी	१९३	३३
आवृत	२१३	९०	आश्रुत	२१७	१०८	आस्फोटा	{ ७९	७०
आवेगी	९१	१३७	आश्व	१५२	४८	{ ८५	१०४	
आवेगन	६३	७	आश्वत्थ	७०	१८	आस्य	१२२	८९
आवेशिक	१३८	३४	आश्वयुज्	२७	१७	आस्या	२२३	२१
आशसितृ	२०१	२७	आश्विन	२७	१७	आसव	२२५	२९
आशसु	२०१	२७	आश्विनेय	१३	५१	आहत	{ ३७	२१
आशय	२२३	२०	आश्वीन	१५२	४७	{ २१३	८८	
आशर	१५	५९	आषाढ	{ २७	१६	आहितलक्षण	१९७	१०
आशा	{ १७	१	आसक्त	{ १४०	४५	आहव	१६२	१०५
	{ १६७	२१६	आसन	१९७	९	आहवनीय	१३५	१९
	१७६	५९	आसना	{ १३१	१३८	आहार	१७६	५६
आशितगवीन	१७६	५९	आसन्दी	{ १४६	१८	आहाव	५४	२६
आशीविष	४७	७	आसन्न	{ १५०	३९	आह्य	४८	९
आशिसु	२६९	२२८	आसव	२२३	२१	आहो	२७६	५
आशु	{ १५	६५	आसादित	२८४	९	आहोपकषिका	१६२	१०१
	{ १६८	१५		२०९	६६	आह्वय	३५	७
				१९४	४१	आह्ला	३५	८
				२१६	१०४			

शब्द	पृष्ठ.	स्थक	शब्द.	पृष्ठ	स्थक	शब्द.	पृष्ठ.	स्थक.
आप्रन्दीन	१२८	११९	आप्रातक	७२	२७	आरोहण	६५	१८
अप्य	१२८	१२१	आश्लेषित	१५	१२	आर्षगण	८	७४
आप्यम्ब	१२८	१२१	आपत	२०९	६९	आतष	१८	२१
आबन्ध	१६८	१३	आवतन	६२	७	आश्र	१०७	१५
आभरण	१०४	१	आवृत्ति	{ १४८	२९	आश्रक	१७३	३७
आभाषण	३३	१५		{ २४	७२	आर्ष	{ ४१	१४
आभास्वर	७	१०	आवृत्त	१९	१६		{ ११२	३
आभीर	१७६	५७	आर्षाम्	१२७	११४	आभा	११	३७
आभीरपत्नी	६५	७	आशुष	१७८	८२	आर्षार्थ	५९	८
आभीरी	१७	१३	आशुषिक	१७७	६७	आर्षम्ब	१७७	६२
आभीक	४९	४	आशुषीम	१७७	६७	आश्र	१८७	१३
आभोग	१११	१३७	आशुष्यत्	१७	६	आश्रम्ब	१६४	११५
आभगन्धिन	३२	१२	आशुष	१७५	१२	आश्रव	६७	७
आभनस्त्र	४९	२	आश्रयन्	१६२	१३	आश्रवाक	५५	२९
आभय	११५	५१	आश्रुत्	१८४	७	आश्रव	१	१८
आभवाधिन	११६	५८	आश्रयथ	७१	७३	आश्रान	१७०	४१
आभकक	२९५	३३	आश्रनाकक	१७३	३९	आश्रय	३३	१५
आभकधी	७७	५७	आश्रति	२२३	३७	आश्रि	{ ६	१४
आभिक्षा	१३६	२३	आश्रम	२२४	२३		{ ६७	४
आभिय	{ ११७	६३	आश्रव	३८	२३		{ १७	१२
	{ २६८	५२३	आश्र	१९३	३४	आश्रिम्ब	३	७
आभिक्षाठिन	१९	१९	आश्रुत्	७७२	२४२	आश्रिन्द	३६	१२
आमुक्त	१५५	६५	आश्रधन	७४	१२७	आश्री	२६३	१०८
आमोद	{ ९८	२४	आश्रम	६७	२	आश्रीठ	१७	८५
	{ ३१	१	आश्रकिक	१७९	२८	आश्र	१७१	३१
	{ ६४३	९१	आश्रव	३८	२३	आश्रोक	२०८	३
आमाश्रिम्	३२	११	आश्रवत	७१	२४	आश्रोकन	२२७	३१
आमाय	{ ३३	२	आश्रिम्ब	११४	५	आश्रयन	१७२	३३
	{ ७९	७	आश्रीद	{ १७७	११४	आश्रव	७	६
आप	७३	३३		{ ७७१	२३८	आश्रति	६७	६

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
ईषिका	{ १५०	३८	उज्ज्वल	४२	१७	उत्तरेद्युस्	२७९	२०
	{ १९३	३२	उत्तज	६२	६	उत्तान	५२	१५
ईहा	४४	२७	उडु	२१	२१	उत्तानशय	११२	४१
इहामृग	१०८	७	उडुप	५१	११	उत्थान	१४८	११८
			उड्डीन	१०३	३७	उत्थित	२४२	८५
उ	२७९	१८		{ २१६	१०१	उत्पत्तितृ	२०१	२९
उक्त	२१७	१०७	उत	{ २७२	२४३	उत्पत्ति	२९	३०
उक्ति	३३	१		{ २७६	५	उत्पत्तिष्णु	२०१	२९
उक्थ	२९४	३०	उताहो	२७६	५	उत्पन्न	२४२	८५
उक्षन्	१७७	५९	उत्क	१९७	८	उत्पल	{ ५६	३७
उखा	१७१	३१	उत्कट	{ ९०	१३४		{ ८९	१२६
उख्य	१७४	४५		{ २००	२३	उत्पलशारिवा	८६	११२
			उत्कण्ठा	४४	२९	उत्पात	१६३	१०९
उग्र	{ १०	३२	उत्कर	१०४	४२	उत्फुल्ल	६८	७
	{ ४२	२०	उत्कर्ष	२२१	११	उत्स	६६	५
	{ १८७	२	उत्कलिका	४४	२९	उत्सर्जन	१३७	२९
उग्रगन्धा	{ ८५	१०२	उत्कार	२२६	३६	उत्सव	{ ४६	३८
	{ ९२	१४५	उत्क्रोश	१०१	२३		{ २६६	२०९
उच्च	२०९	७०	उत्त	२१७	१०५	उत्सादन	१२८	१२१
उच्चटा	९५	१६०	उत्तस	२६९	२२७	उत्साह	{ ४४	२९
उच्चण्ड	२१२	८३	उत्तत	११७	६३		{ १४६	१९
उच्चार	११८	६७	उत्तम	२०७	५७	उत्साहन	२४८	११५
उच्चावच	२१२	८३	उत्तमर्ण	१६६	५	उत्साहवर्धन	४२	१८
उच्चैःश्रवस्	१२	४५	उत्तमा	१०५	४	उत्सुक	१९७	९
उच्चैर्घृष्ट	३५	१२	उत्तमाग	१२३	९५	उत्सृष्ट	२१७	१०७
उच्चैस्	२७८	१७	उत्तर	{ ३५	१०	उत्सेध	{ ६९	१०
उच्छ्रय	६९	१०		{ २६२	१९०		{ २४४	९६
उच्छ्राय	६९	१०	उत्तरा	१७	२	उदक्	२८०	२३
उच्छ्रित	{ २०९	७०	उत्तरासग	१२८	११७	उदक	४९	४
	{ २४२	८५	उत्तरीय	१२८	११८	उदक्या	१०८	२१
उच्चासन	१६४	११५						

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
आदान	३५	८	रन्गीबरी	८४	२०	इष्टकापय	११	२१५
			रन्दु	१९	२३	इष्टगन्ध	३२	२१
इधु	१५	२३३	रन्ध्र	१२	४१	इष्टार्थोद्युक्त	१९७	९
	८४	९८		१७	२	इष्टि	२३४	३९
इधुगन्धा	८५	१४	रन्ध्रकु	७५	४५	इष्टास	१५९	८३
	८६	१	रन्ध्रमान	७९	६७			
	९७	१६३	रन्ध्रवाक्पी	९४	१५६	इष्टिय	१२३	९३
इधुर	८५	१४	रन्ध्रपुरव	७९	६		२२५	३१
इधुराकु	९४	१५६	रन्ध्राणिका	७९	६८	इष्टाणिका	१८	२
इधु	२१	७४	रन्ध्रानी	११	३६	इष्टित	२१७	११
	२२२	१५	रन्ध्राणा	१२	४७	इष्टि	२३९	६८
इधुव	२२०	१५	रन्ध्राणुष	१९	१	इष्टव	२३७	५७
इधुनी	७	४६	रन्ध्राण	७	१६	इष्टित	२१३	८७
इधु	४४	२७	रन्ध्राणरज	८	२	इष्टि	११५	५४
इधुजली	१६	९						
इधुधील	१३३	८	इन्दिब	३१	८	इष्टार्थ	८	१५५
				११७	६२	इष्ट्या	८३	७४
इधुपर	१७७	६२	इन्दिमाथ	३१	८	इष्टि	१६०	१
इधु	२३५	४२	इम्पन	६९	१३	इष्टि	२१७	१
	१८	१६	इम	१४	३५	इष्टी	१९	१
इधु	२१२	८२	इम्प	१८	१			
	२६७	११	इम्प-	१०	१	इष्ट	१७	३
इधुदु	७७	२१						
इधि	२७२	२५५	इधु	१४	३	इष्टान	१	२
				७५९	१७१	इष्टिय	११	३६
इधि	१३४	१२	इधुला	२१	२३	इष्टु	१८	१७
इधिग	१८	१	इधु	२७७	९			
इधि	१६	१	इधु	७७	१७	इधुपर	१८	१
इधुनम्	२८	२३	इधु	१५	१७	इष्टि	११	३६
इधु	१	१३	इधु	१६	८८	इष्टु	२७६	८
इधु	१७७	११७		११३	२१	इष्टान्	२७	१३
इधु	५६	१३		१३६	५७	इष्टा	१६८	१४

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
उपक्रम	{ १३४	१३	उपभृत्	१३६	२५	उपसम्पन्न	{ १३६	२६
	२२४	१३९	उपभोग	२२३	२०		१७४	४५
	२५२	१३९				उपसर	२२४	२५
उपकोश	३६	१३	उपमा	{ १९३	३६	उपसर्ग	१६३	१०९
				१९४	३७	उपसर्जन	२०८	६०
उपगत	२१७	१०९	उपमातृ	२५९	१७६	उपसर्वा	१७९	७०
उपगूहन	२२५	३०	उपमान	१९३	३६	उपसूर्यक	२३	३२
उपग्रह	१६५	११९	उपयम	१४२	५६	उपस्कर	१७२	३५
उपग्राह्य	१४८	२८	उपयाम	१४२	५६	उपस्थ	१२०	७५
उपग्न	२२३	१९				उपस्पर्श	१३८	३६
उपचारित	२१६	१०२	उपरक्त	{ २५	१०	उपहार	१४९	२८
				२०५	४३	उपह्वर	२६१	१८३
उपचाय्य	१३५	२०	उपरक्षण	१४९	३३	उपाशु	१४७	२३
उपचित	२१३	८९	उपराग	२५	९	उपाकरण	१३९	४०
उपचित्रा	८७	८७	उपराम	१२६	३७	उपाकृत	१३६	२५
उपजाप	१४७	२१	उपरि	२६१	१८३	उपात्यय	{ १३९	३७
उपज्ञा	१३४	१३	उपल	६६	४		२२६	३३
उपतप्त	२२२	१४	उपलब्धार्थी	३४	५	उपादान	२२२	१६
उपताप	११५	५१	उपलब्धि	२९	१	उपाधि	{ ४४	२८
उपत्यका	६७	७	उपलम्भ	२२४	२७		१९८	१२
उपदा	१४८	२८	उपला	२६४	१९९	उपाध्याय	१३३	७
उपधा	१४७	२१	उपवन	६७	२	उपाध्याया	१०७	१४
उपधान	१३१	१३७	उपवर्त्तन	५९	८	उपाध्यायानी	१०७	१५
उपधि	४८	३०	उपवास	१३९	३८	उपाध्यायी	{ १०७	१४
उपनाह	४०	७	उपविपा	८४	९९		१०७	१५
उपनिधि	१८१	८१	उपवीत	१४१	४९	उपानह	१९२	३०
उपनिषद्	२४३	९३	उपशाल्य	६५	२०	उपाय(चतुष्टय)	१४६	२०
उपनिष्कर	६१	१८	उपशाय	२२५	३२	उपायन	१४८	२८
उपन्यास	३५	९	उपश्रुत	२१७	१०९	उपालम्भ	३६	१४
उपपति	१११	३५	उपस	१२७	११७	उपावृत्त	१५२	५०
उपवह	१३१	१३७						

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक
उदम	२९	७	उद्वार	२२६	६७	उद्वान्त	{ २४९ १६ २१७ ९०	
उदम	२९७	२९	उद्वीम	२८९	१९	उद्वान्त	१६४ ११७	
उदधि	४९	१	उद्वृण	२१३	८	उद्वान्त	१४७ ७६	
उदम्य	६५	७	उद्वमाह	२२६	३७	उद्वान्त	{ ९६ १६९ २२१ १९	
उदम्या	१७६	५५	उद्व	२८	२७	उद्वान्त	१८ १२	
उदम्यत्	४९	१	उद्वन	२२६	३५	उद्वान्त	२९ ७	
उदम्यन्	५४	२६	उद्वान्न	१९२	२७	उद्वान्त	२९ ६९	
उदम्य	६६	२	उद्वान्त	२९४	२६	उद्वान्त	२४२ ८५	
उद्वर	१२	७७	उद्वान्त	१४८	२६	उद्वान्त	२२१ १९	
उद्वर्क	१४८	२९	उद्वान्त	७३	३४	उद्वान्त	२२१ १२	
उद्वरित	६२	४	उद्वरित	२१४	९७	उद्वान्त	{ ८१ ७७ ११० ६	
उद्वरित्	१७५	५३	उद्वरित	१६४	१११	उद्वान्त	१६४ ११५	
उद्वरित	३४	४	उद्वरित	४६	३८	उद्वान्त	२ २१	
उद्वरित	१७	६३	उद्वरित	४६	३८	उद्वान्त	{ १६४ ११७ १९१ २६	
उद्वर	{ १९७ २६२	८ १९२	उद्वरित	२१४	२६	उद्वान्त	{ ४४ २६ २ २३	
उद्वरित	१४५	१	उद्वरित	१७१	२९	उद्वान्त	११७ ६	
उद्वरित	३५	९	उद्वरित	१६६	४	उद्वान्त	११७ ६	
उद्वरित	२१७	१	उद्वरित	२१३	१	उद्वान्त	{ १६४ ११७ १९१ २६	
उद्वरित	१७	२	उद्वरित	७३	५१	उद्वान्त	{ ४४ २६ २ २३	
उद्वरित	{ ७९ ८८	७ १०२	उद्वरित	२३	७१	उद्वान्त	११७ ६	
उद्वरित	{ ७१ १८४	७ ७	उद्वरित	२२१	१२	उद्वान्त	२९ ६७	
उद्वरित	७	१४८	उद्वरित	७१३	८९	उद्वान्त	६३ १	
उद्वरित	१७	२५	उद्वरित	२२१	११	उद्वान्त	६३ १	
उद्वरित	२१७	७	उद्वरित	२४८	११७	उद्वान्त	{ ८ ११७ १०२ ३७	
उद्वरित	१२७	११२	उद्वरित	२९७	३३	उद्वान्त	८ ११७	
उद्वरित	१६	६६	उद्वरित	५३	२	उद्वान्त	१०२ ३७	
उद्वरित	११५	१७	उद्वरित	१२८	१२१	उद्वान्त	८४ ९६	

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
ऊर्मिमत्	२१०	७१	ऊमुक्षिन्	१२	४४	एकाग्र्य	२११	८०
ऊप	५८	४	ऊप्य	९८	१०	एकान्त	१६	६७
ऊपण	१७२	३६	ऊप्यकेतु	९	२७	एकान्दा	१७८	६८
ऊपर	५८	५	ऊषभ	{ ३९ १ ८७ ११६ १७७ ५९ २०८ ५९	एकायन	२११	७९	
ऊपवत्	५८	५			एकायनगत	२११	८०	
ऊष्मागम	२७	१९			एकावली	१२५	१०६	
ऊह	३०	३	ऊषि	१४०	४३	एकाशील	८१	८१
ऊक्थ	१८३	९०	ऊष्यप्रोक्ता	{ ८२ ८७ ८४ १०१	एकाशीला	८२	८५	
					एड	११४	४८	
ऊक्ष	{ २१ ७७ ९७	{ २१ ५७ ४	ए	{ २११ २१२ २३०	एडक	१८०	७६	
					एडगज	९२	१४७	
					एडमूक	२०३	३८	
ऊक्षगन्धा	९१	१३७	एक	२३०	१६	एडूक	६२	४
ऊक्षगान्तिका	८६	११०	एकक	२११	८२	एत	९८	१०
ऊच्	३४	३	एकगुरु	१३४	१२	एतर्हि	३३	१७
ऊजीष	१७२	३२	एकतान	२११	७९	एव	६९	१३
ऊजु	२१०	७२	एकताल	३९	३	एधस्	६९	१३
ऊजुरोहित	१९	१०	एकदन्त	११	३८	एधा	२२०	१०
ऊण	१६६	३	एकदा	२८०	२२	एधित	२११	७६
ऊत	{ ३७ १६६	{ २२ २	एकधु	१७८	६५	एनस्	२८	२३
			एकधुरावह	१७८	६५			
ऊतीया	२२५	३२	एकधुरीण	१७८	६५	एरण्ड	७६	५१
ऊतु	{ २६ २३८	{ १३ ६१	एकपदी	६१	१५	एला	८८	१२५
			एकपिङ्ग	१६	६९	एलापर्णी	९१	१४०
ऊतुमती	१०८	२१	एकयष्टिका	१२५	१०६	एलावालुक	८८	१२१
ऊते	२७५	३	एकसर्ग	२११	८०	{ २७४ २५० २७६ ९ २७७ १२ २७८ १५ २७८ १६		
ऊत्विज्	१३५	१७	एकहायनी	१७८	६८			
ऊद्ध	१७०	२३	एकाकिन्	२११	८२			
ऊद्धि	८६	११२	एकाम्र	{ २११ ७९ २६२ १९०	एवम्		२७८	१५
ऊडु	७	८			एवम्		२७८	१६

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
उपासंग	१६०	८८	उपवी	१३	५२	उष्णप	२६८	२२
उपासन	१९	८६	उर्वी	५८	३	उष्णोष्णाम	२७	१९
उपासना	१३८	३५	उवाक	९४	१५५	उष्णक	७७	१८
उपासित	२१६	१२	उष्ण	१९	९	उस	२३	३३
उपाहित	{ २५ १ २१४ १२		उष्णक	{ ९० १५ २२८ ६		उसा	१७८	६६
उपेन्द्र	८	२	उष्णस	१७	२	उत	२१६	१०१
उपोदिका	९४	१५७	उसूतसक	७३	३४	उपह	१७	७६
उपोद्गत	३९	९	उसूतिन्	५२	१८	ऊन	२५	१९८
उपहृष्ट	१५७	८	उस्का	२८४	१	ऊन्	२७९	१८
उभयगुह	२७	७१	उसुक	१७१	३	ऊररी	२७४	२५४
उमा	{ ११ ३६ १६ २		उसू	११२	३१	ऊरस्य	१६५	१
उमापति	१	३४	उसूज	२११	८१	ऊरी	२७४	२५४
उम्य	१६६	७	उसूय	११६	७७	ऊरीकृत	२१७	१८
उर-धुनिका	१२	१४	उसूष	१०८	१२	ऊर	११	७३
उरग	४७	१	उसूत	७	६	ऊरक	१६५	१
उरच्छद	१५७	६४	उसूतन्	२२	२५	ऊरकनर्भन्	१११	७१
उरस	११	७६	उसूरी	७	१६४	ऊर	२७	१८
उरगात्म्य	७	१४७	उसूषा	८६	७	ऊरकस्वच्छ	१७१	१५
उरस्र	११	७६	उसूष्य	१६	५४	ऊरकम्बिन्	१५७	७
उररी	२७८	२५४	उसूम्	२४	९	ऊरकनाम	१३	१३
उररीकृत	२१७	१८	उषा	२७	१८	ऊरक	७३६	५०
उरम्	१	७८	उषागति		९७	ऊरकानु	{ १८ ७६ १८६ १०७	
उरगिग	१७	७६	उषाग	७१५				
उरस	११	७८	उष	१८	७५	ऊरक	७	७
उरस्य	१७७	७६	उष्य	{ ७७ १ १ १		ऊरकानु	११६	४७
उर	७	६१				ऊरकानु	११४	६७
उरस्य	७६	७१	उषागति	२७	१९	ऊरि	७	७
उरग	७८	४	उषिका	१७	७	ऊरिका	१२६	१७

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.			
ऊर्ध्वमत्	२१०	७१	ऊर्ध्वदिन्	१२	४४	एकाम्य	२११	८०			
ऊप	५८	८	ऊप	९८	१०	एकान्त	१६	६७			
ऊरण	१७२	३६	ऊरणकेतु	९	२७	एकाब्दा	१७८	६८			
ऊपर	५८	५	ऊपभ	३९	१	एकायन	२११	७९			
ऊपवत्	५८	५		८७	११६	एकायनगत	२११	८०			
ऊपमागम	२७	१९		१७७	५९	एकावली	१२५	१०६			
ऊह	३०	३		२०८	५९	एकाश्रील	८१	८१			
			ऊपि	१४०	४३	एकाश्रीला	८२	८५			
ऊक्थ	१८३	९०	ऊप्यप्रोक्ता	८२	८७	एउ	११४	४८			
				८४	१०१	एउक	१८०	७६			
ऊक्ष	}	२१	ए	}	२११	एउगज	९२	१४७			
		७७				५७	२१२	८२	एउमूक	२०३	३८
		९७				४	२३०	६६	एउक	६२	४
ऊक्षगन्धा	९१	१३७	एकक	२११	८२	एत	९८	१०			
ऊक्षगन्धिका	८६	११०	एकगुरु	१३४	१२	एतर्हि	२८०	२३			
ऊच्	३४	३	एकतान	२११	७९	एव	६९	१३			
ऊजीप	१७२	३२	एकताल	३९	३	एवस्	६९	१३			
ऊजु	२१०	७२	एकदन्त	११	३८	एधा	२२०	१०			
ऊजुरोहित	१९	१०	एकदा	२८०	२२	एधित	२११	७६			
ऊण	१६६	३	एकधु	१७८	६५	एनस्	२८	२३			
ऊत	}	३७	एकधुरावह	१७८	६५	एरण्ड	७६	५१			
		१६६	२	एकधुरीण	१७८	६५	एला	८८	१२५		
ऊतीया	२२५	३२	एकपदी	६१	१५	एलापर्णी	९१	१४०			
ऊतु	}	२६	एकपिङ्ग	१६	६९	एलावालुक	८८	१२१			
		२३८	६१	एकयष्टिका	१२५	१०६	}	२७४	२५०		
ऊतुमती	१०८	२१	एकसर्ग	२११	८०	२७६		९			
ऊते	२७५	३	एकहायनी	१७८	६८	२७७		१२			
ऊत्विज्	१३५	१७	एकाकिन्	२११	८२	२७८		१५			
ऊद्ध	१७०	२३	एकाम	}	२११	७९	}	२७८	१६		
ऊद्धि	८६	११२								२६२	१९०
ऊमु		७									

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक
एपथिका	१९३	३२	भोपथी	{ ६८	१	ककुपथी	११९	७४
ए				{ ९	२३५	ककुन्दर	११९	७५
ऐकागारिक	१९१	२४	भोपथीश	२	१४		{ १७	१
ऐगुद	७	१८	भोष	१२२	९०	ककुम	{ ४	७
ऐण	९८	८	भौ				{ ७५	४५
ऐणम	९८	८	भौसक	१७७	६		{ १२०	७९
ऐतिम	१३४	१२	भौषिती	२९७	३९	कक	{ २६७	२१९
ऐन्द्रिक	२११	७९	भौषित्य	२९७	३९		{ १७१	४२
ऐरावण	१३	४६	भौषानपादि	२१	२	करया	{ २५३	१०८
	{ १३	४६	भौसुक	२६९	२२९	कक	९९	१३
ऐरावठ	{ १८	३	भौदिग	१७१ -	२८	ककटक	१५७	६४
	{ ७४	३८	भौदिक	२	२१	ककव	१२६	१३८
ऐरावठी	१९	९	भौपागवक	२२७	३९	ककतिफा	१३२	११९
ऐरविष	१६	६	भौपिक	१४७	२४	ककस	११८	६९
ऐरेम	८८	१२१	भौपकत्व	११	१८	ककौकक	११	११
ऐरुर्न	११	३६	भौमीन	१६६	७	ककु	१६९	२०
ऐरमस्	२७	२	भौरक	१८	७७	कक	१२३	९५
	श्लो		भौर	११	२८	ककर	२७	५५
भौकस्	२७	२३३	भौषेदिक	१३०	३	ककिए	२७८	१४
	{ ४	९	भौष	१४	५६		{ ६	१
भौष	{ १३	३९	भौषीर	२६१	१८५	कक	{ ८९	१२८
	{ २३२	२७	भापय	{ ९	१३५	कक	७३	२१
भौकार	३४	४	भौषक	१८	७७	ककपी	२७१	१३२
भौजम्	२७	२३३		क		ककम्	११५	७३
भौद्रूप	८	७६		{ २२८	५	ककपुर	११६	५८
भौद्रु	७	६		{ २२८	७	ककपुप	८३	९२
भौदन	१०५	४८	कस	१७२	३२		{ ४८	९
भौम	२७७	१२	कसापति	८	२१	ककुक	{ १५७	६३
भौर	२२		ककुव	१४३	२	ककुकिन्	१४४	८

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
कट	119	७४	कण	201	६२	कनक	१८३	९४
	171	२६	कणा	172	३६	कनकालुका	१४९	३२
233	३४	कणिश	169	२१	कनिष्ठा	१२१	८२	
								कटक
कटभी	९३	१५०	कटकारिका	८३	९३	कनीयसू	201	
								कटम्भरा
कटाक्ष	१२३	९४	कण्ठ	१२२	८८	कन्दा	९४	
								कटाह
कटि	११९	७४	कडू	११५	५३	कदराल	७२	
								कटिप्रोथ
कटी	120	७५	कण्डोल	१७०	२६	कन्दर्प	९	
								कटु
कटुतुम्बी	३१	९	कतृण	९६	१६६	कन्दु	१७१	
								कटुरोहिणी
कटुफल	२३३	३५	कदध्वन्	६१	१६	कन्धरा	१२२	
								कटुवग
कठिञ्जर	७४	४०	कदवक	203	४०	कन्या	१०६	
								कठिन
कठिञ्जक	२१०	७६	कदर्य	७६	५०	कपर्द	११	
								कठार
कडगर	210	७६	कदाचित्	16	११३	कपाट	६५	
								कटय
कटार	३३	१६	कदुष्ण	२७५	४	कपालभूत	१०	
								कटार
कटार	१७२	३५	कटु	३३	१६	कपिकच्छु	८२	
								कटार

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक			
कवित्व	७१	२१	कमला	९	२७	करम	१२१	८१			
कविह	१३	११	कमलासन	८	१७		११	७			
कविष्ठा	१८	४	कमलसूत्र	१८६	१	करभूषण	१०६	१८			
		६३	कमित्तु	२	२३	करमर्दक	७९	६७			
		१२	कम	४६	३८	करम्म	१७१	७८			
कविमहती	८४	९७	कम्यन	२१	७४	करकह	१०१	८३			
कविद्य	३३	१६	कम्म	२१	७४	करबाह	१६	८९			
कपीतन	७२	२७	कम्बल	१२७	११६	करवाहिका	१६	९			
		४३		२६३	१९४	करपीर	८१	७७			
		६३	कम्बलिसमझ	१५३	५२	करवाला	१२१	८२			
कपोत	९९	१४	कम्बि	१७२	३४	करशीकर	१	३७			
कपोतपात्रिका	६४	१	कम्बु	५३	२३	करहाट	५७	४३			
कपोतामि	८९	१२९	कम्बुपीषा	१२२	८८	करहाटक	७६	५२			
कपोक	१२२	९	कम्ब	७	७४	करास	२६१	२५			
कफ	११७	६२	कम्	७	७४	करगणित	१६३	१७			
कफित्	११७	६	कर	७२	३३	करिष्य	१४९	३६			
कफोपी	१२	८				१४८	२७	करित्	१४९	३४	
ककम्भ	४९	४	करक	७८	६६	करिपिपत्नी	८४	९७			
						१६१	११८	करक	२२८	६	करिशाक
ककरी	१	११९	करवा	१	१२	करीर	८१	७७			
		९७	करज	७२	४७	करीर	१५९	१७३			
		४	करज	८९	१२९	करीर	१७१	५३			
ककम्	२७४	२	करजक	७६	४७	करण	४२	१७			
ककठ	७३	२१	करट	१	२	करणा	४२	१८			
ककठी	७६	२४	करट	२३३	३४	करटु	१	१९			
ककठटु	१४	४६				करण	१८७	२	करणु	२३६	५२
ककन	७	२६	करण	२३७	७४	कराट	११८	६९			
ककन	४९	३				करण	२८	१८	करक	१७२	४६
						७७	४	करणिया	५	३३	करकट
	२६३	१	करण	१९३	३४	करकटी	१४	१५५			

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.			
कर्कश	७८	३६	कर्मकर	{ १८९	१९	कल्पिक	१९०	१८			
कर्करी	१७१	३१	कर्मकार	{ १९०	१९	कल्पित	१७१	३१			
कर्करेट्ट	१००	१९	कर्मकार	१९०	१९	कल्पिणी	८३	९३			
कर्कश	{	०३	१३६	कर्मक्षम	१०९	१८	कल्पित	१०१	२३		
		११०	७६	कर्मन्त	१०९	१८	कल्प	१६३	१०४		
		२१७	२१७	कर्मण्या	१०५	३८					
कर्कश	९१	१५५	कर्मदिग्	१३९	४१	कल्प	{	२०	१५		
कर्कशूर	९३	१५४	कर्मवृत्त	२१०	३		{	२५	११		
कर्कशूरक	९०	१३५	कर्मशील	१९९	१८	कल्पद	{	२६३	१०८		
कर्ण	१०३	९८	कर्मशूर	१९९	१८	कल्पानिधि	{	१११	८		
कर्णजलीकम्	९९	१३	कर्मसन्निव	१४३	८	कल्पप	{	१९	१८		
कर्णधार	५१	१२	कर्मोर	९५	१६०	कल्पय	{	२५०	१२९		
कर्णपूर	२६९	२०७	कर्मन्दिश्य	३१	८	कल्प	{	१६८	१६		
कर्णवेष्टन	१२५	१०३	कर्प	१८२	८६	कलि	{	१६२	१०५		
कर्णिका	{	१०५	१०३	कर्पक	१६६	६	कलिका	{	२६३	१९८	
		२३०	१५	कर्पफल	७७	५८		{	७०	१६	
कर्णिकार	७८	६०	कर्पू	२६८	२२२	कलिगा	{	७९	६७		
कर्णिरिय	१५३	५२	कल	३९	३	कलिद्रुम	{	९९	१६		
कर्णोजप	२०५	४७	कलकल	३८	२५	कलिमारक	{	७७	५८		
कर्त्तरी	१९३	३३	कलक	{	२०	कलिल	{	७६	४८		
कर्दम	५०	९		{	२२८		{	२१२	८५		
कर्पट	१२७	११५	कलन	२६०	१७८	कल्प	{	२८	२३		
कर्पर	११८	६८	कलवीत	२४१	७६	कल्पेवर	{	५२	१४		
कर्पराश	२५९	१७५	कलम्ब	{	१५९	कल्क	{	११९	७०		
कर्परो	१८५	१०१		{	१७२		{	२३०	१४		
कर्पूर	१३०	१३०	कलभ	१४९	३५	कल्प	{	२८	२१		
कर्पूर	{	१५	६०	कलम	१७०	२४		{	२८	२१	
		३३	१७	कलम्बो	९४	१५७	कल्पना	{	१३९	३९	
		१८३	९४	कलरव	९९	१४	कल्पवृक्ष	{	१४७	२४	
कर्मन्	२१८	१	कलल	११२	३८	कल्पान्त	{	१५१	४२		
								{	१३	५०	
									{	२८	२२

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक	
कस्मात्	२८	३३	कस्तूरी	१३	१२९	काञ्चनाह्वय	७८	६९	
कस्मात्	३३	१७	कङ्कार	७६	३६	काञ्चनी	१७३	४१	
कृष्ण	२४	२	कङ्क	१	२२	काञ्चो	१२६	१०८	
		११६	७७	काञ्चिवात्	३	४	काञ्चिक	१७३	२९
		२७६	१५९	काक	१	२	काङ्क	२३५	४३
कस्या	३७	१८	काकत्रिधा	८४	९८	काण्डपृष्ठ	१५५	६७	
कस्याग	२८	२५	काकतिन्मुक्त	७४	३९	काण्डवत्	१५६	६	
कक्षीम	७	६	काकनासिका	८७	११८	काण्डीर	१५६	६९	
कक्ष	१७०	६४	काकपत्र	१०३	९६	काण्ठेष्टु	१५	१४	
कक्ष	१५१	५४	काकपत्रक	७४	७९	कातर	०	१	
कक्षि	२२	२५	काकमाषी	३	१५१	कात्यायनी	११	३६	
		१३३	५	काकमुषा	८९				१३३
कक्षिका	१	४९	काकषी	७९	२	कादम्ब	१	२३	
कक्षिय	०	३७	काकांगी	८७	११८	कादम्बरी	१	३	
कक्षोष्ण	२३	३५	काकिणा	२८४	९	कादम्बिनी	१८	८	
कक्ष्य	१३६	२६	कानु	३३	१२	काद्रवेय	४७	४	
कक्षा	११०	३१	काकुद	१२०	१	कामन	६७	१	
कक्षाह	०	४४	काकुम्भु	७४	३९	काननि	१	२४	
कक्षिपु	२	१३	काकौमुदिका	७८	३१	कान्त	२	७२	
कक्षोठ	२/६	३३	काकौदर	६७	७	काम्नाखट	८	१३८	
कक्षोदना	११८	६९	काकौठ	६८	१	काम्ना	१	७	
कक्षमल	१३३	१	कांछा			४४	२३	काम्नातार	६९
कक्ष्य	१	४७	कांछी	४४	२७	काम्नातक	२७५	१७२	
		६४	१						काम्नातर्पिणी
कक्ष्य	१	३२	काञ्च	१/४	९	कान्ति	०	१७	
कक्ष्य	१	६	काञ्चि	१/२	३				
कक्ष्य	१	५	काञ्चरमार्गी	७७	४५	काञ्चरिदिक	१७१	७८	
		५	काञ्चिन्	२१३	१९	काञ्चिदीक्षीक	०	४२	
कक्ष्य	२७८	७	काञ्चन	१८३	५	कापय	३१	१६	

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
कापोत	{ १०४	४३	कारम्भा	७७	५६	कालक	११४	४९
	{ १८६	१०९		{ ८६	१११	कालकठक	१००	२१
कापोताजन	१८४	१००	कारवी	९३	१५२	कालकूट	४८	१०
	{ ९	२५		{ १७२	३७	कालखड	११८	६६
काम	{ ४४	२८		{ १७३	४०	कालधर्म	१६४	११६
	{ १७६	५७	कारवेष्ट	९३	१५४	कालपृष्ट	१५९	८३
	{ २५२	१३८	कारा	१६५	११९	कालमेयी	८३	९६
कामगामिन्	१५७	७६	कारिका	२३०	१५	कालमेपिका	{ ८३	९०
कामन्	२००	२४	कारीप	२२७	४३		{ ८६	१०९
कामपाल	१	२३	कार	१८७	५	कालमेपी	८३	९६
कामम्	२७७	१३	कारणिक	१९८	१५	कालशेय	१७५	५३
कामयितृ	२००	२४	कारण्य	४२	१८	कालसूत्र	४८	२
कामिनी	{ १०५	३	कारोत्तर	१९४	४२			
	{ २४७	११२	कार्त्तस्वर	१८३	९५	कालस्कन्ध	{ ७४	३८
कामुक	२००	२३	कार्तातिक	१४५	१४		{ ६९	६८
कामुका	१०६	९	कार्त्तिक	२७	१७	काल	{ ८३	९४
कामुकी	१०६	९	कार्त्तिकिक	२७	१८		{ ८६	१०९
कापिल्य	९२	१४६	कार्त्तिकेय	१२	३९		{ १७२	३७
काम्बल	१५३	५४	कात्स्न्य	२६०	१७८	कालागुरु	१२९	१२७
काम्बविक	१८८	८	कार्पास	{ १२६	१११	कालानुसार्य	{ ८८	१२२
काम्बोज	१५१	४५		{ २९६	३५		{ १२९	१२६
काम्बोजी	९१	१३८	कार्पासी	८७	११६	कालाय	१६८	१६
काम्यदान	२१९	३	कार्म	१९९	१८	कालायस	१८४	९८
	{ ११९	७१	कार्मण	२१९	४	कालिका	२३०	१५
काय	{ १४१	५०	कार्मुक	१५९	८३	कालिन्दी	५५	३२
			कार्घ्य	७५	४४	कालिन्दीभेदन	९	२४
कायस्था	७७	५६	कार्षापण	१८२	८८	काली	११	३६
कारण	२९	२८	कार्षिक	१८२	८८			
कारणा	४९	३		{ १४	५९	कालीयक	१२९	१२६
कारणिक	१९७	७	काल	{ २४	१	कालेयक	८४	१०१
कारण्डव	१०२	३४		{ ३२	१४	काल्यक	९०	१३५
				{ २६३	१९४	काल्या	१७९	७०

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
कावाचिक	१५५	६६	किसिपत्	२७९	८	किसिपत्	२८	२३
कावरी	५३	३५	किसुक्क	५३	२२	किसिपत्	२३८	२२३
काव्य	२२	२१	किबस्क	५७	४३	किशीर	१५२	४९
काद्य	९५	१६२	किटि	९७	२	किशु	२२९	७
कादमरी	७४	३१	किट्ट	११८	६५	किसम्भ	७	१४
कादम्य	७४	३६	किण	२८९	१८	कीकस	११८	६८
कास्मीर	९२	१४	किणिही	८२	८	कीषक	९५	१३३
कास्मीरकन्मन्	१२	१२४	किण्य	१९४	४२	कीनाथ	२६७	२१५
कास्वपि	२३	३२	कित्त	८१	७७	कीर	१	२१
कास्वपी	५८	२	कित्त	१५	४३	कीर्ति	३५	२१
काठ	६९	१३	किन्नर	७	११	कील	१३	७७
काठकुवाळ	५१	१३	किन्नर	१७	७१	कीलक	१९७	७३
काठवस्	१८८	९	किन्नरेश	१६	६९	कीलक	४९	३
काद्य	१७	१	किन्	२७४	२५१	कीलक	२६४	२
		११						
		४१						
काद्याम्बुवाहिनी	५१	११	किन्मु	७७३	५	कीलित	२४	४७
काठीला	८३	११३	किन्मुत्	२७	५	कीया	९७	३
काठ	११५	२	किन्म्यान	२३	४८	कु	५८	३
काठमद्य	२८*	१	किन्पुरुष	१७	७१	कुकर	११४	४८
कासर	७	४	किरण	२३	३३	कुकुम्भ	११९	७
कासार	५४	२८	किरात	१९	२	कुन्क	२६४	७३
कास्य	२३९	६७	किरातविष्ट	७	१४३	कुन्कुट	९	१७
किबदन्ती	३४	७	किरि	७	२	कुन्कुम्भ	१३	३५
किषाक	१६	२१	किरीट	१२१	१२	कुन्कुम्भ	९	१३२
		१६३	किर्मीरि	३३	१७	कुन्कुम्भ	१९१	२१
किष्क	७२	७	किस्	२७८	२५४	कुधि	१२	७७
किफीरिभि		१६	किष्मत्		५३	कुधिम्मति	२	२१
किन्नर	१	१७	किष्काठन्	११७	६१	कुम्भ	१२९	१२३
किन्दिषी	१२६	११	कित्तियक	१७१	२६	कुष	१२	७७

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.		
कुचन्दन	१३०	१३२	कुच्य	६२	४	कुप्य	२०७	५४		
कुचर	२०३	३७	कुणप	{	१६५	११८	कुप्य	१८३	९१	
कुचाग्रं	१२०	७७								
कुज	२२	२५	कुणि	{	८९	१२८	कुवेर	{	१६	६८
कुञ्चित	२१०	७१								
कुञ्ज	{	६७	कुठ	१९९	१७	कुवेराधी	७७	५५		
		२३३	३१	कुण्ड	{	१११	३६	कुब्ज	११४	४८
कुञ्जर	{	१४९	३४							
		२०८	५९	कुण्डल	१२५	१०३	कुमार	{	१२	४७
कुञ्जराशन	७१	२०	कुण्डलिन्	४७	७	कुमारक	७२	२५		
कुञ्जल	१७३	३९	कुण्डी	१४०	४६	कुमारी	{	८०	७३	
कुट	{	६८	५	कुतप	१३७					३१
		१७२	३२	कुतुक	४४	३१				
कुटक	१६८	१३	कुतुप	१७२	३३	कुमुद	{	१८	३	
कुटज	७९	६६	कुतू	१७२	३३	कुमुदप्राय	५९	९		
कुटन्नट	{	७७	५७	कुतूहल	४४	३१	कुमुदवान्धव	१९	१३	
		९०	१३१	कुत्सा	३६	१३				
कुटिल	२१०	७१	कुत्सित	२०७	५४	कुमुदिका	७४	४०		
कुटी	{	६२	६	कुथ	{	९६	१६६	कुमुद्वत्	५९	९
		२९७	३८							
कुटुम्बव्यापृत	१९८	११	कुदाल	७१	२२	कुम्वा	१३५	१८		
कुटुम्बिनी	१०५	६	कुनटी	१८६	१०८	कुम्भ	{	७३	३४	
कुट्टनी	१०८	१९	कुनाशाक	८३	९१					
कुट्टिम	२९५	३४	कुन्त	१६०	९३	कुम्भकार	१८८	६		
कुठर	१८०	७४	कुन्तल	१२३	९५					
कुठार	१६०	९२	कुन्द	{	८०	७३	कुम्भसम्भव	२१	२०	
कुठेरक	८१	७९								
कुडगक	२८८	१७	कुन्दुरु	{	८८	१२१	कुम्भिका	५६	३८	
कुडघ	१८२	८९								
कुडमल	७०	१६	कुन्दुरकी	८८	१२४	कुम्भी	७४	४०		
						कुम्भीर	५३	२१		
						कुम्भ	९८	८		

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक
कुरगाक	१९१	२४	कुर्या	५	३४	कुरुर	१९८	१४
कुरणक	{ ८ ८०	{ ७४ ७५	कुरक	{ ७४ २९८	{ ३६ ४२	कुरट	{ ८४ २४	{ १० ४२
कुरवक	८	७४	कुरवक	५६	३७		२३४	३७
कुरर	१ १	२३	कुराद	२ १	३७	कुरटकन	१९१	२६
कुरवक	८	७५	कुरिन्द	१८८	६	कुरट्यास्मि	७६	४७
कुरविन्द	९५	१५९	कुरिणी	५२	१६	कुरट्य	२१	७३
कुरविस्त	१८२	८६		{ ९६ २६७	{ १६६ २१६	कुर	७४	२६
कुर	{ १४ ११२	{ ४१ १	कुर	{ २८ १७	{ ७६ २	कुरक	{ ५ ५१	{ १ १२
कुरक	{ ७४ ९६ १८८	{ ३९ १५ ५	कुराक	१८४	९	कुरव	१५४	५७
कुरट्य	१ ६	१	कुरी	१८९	१२	कुरवे	१२३	९२
कुरीख्य	१८५	१ २	कुरीख्य	५७	४	कुरवेदीर्घ	९१	१४२
कुरीयम	१ ६	७	कुरीयम	५७	४	कुरवेका	१७४	४४
कुर्याकिका	१८८	५	कुर्याक	{ ११५ २५	{ १२६ ३४	कुरवेन	४५	३३
कुर्याकिक	११२	२	कुर्याक	१६६	४	कुरवेर	१२	८
कुर्याक	१ ३	३७	कुर्याक	१६६	५	कुर्याक	१२८	११८
कुर्याक	१८८	६	कुर्याक	७	१७	कुर्याक	७२	२१
कुर्याक	१ ६	७	कुर्याक	१६६	५	कुर्याक	७०	४
कुर्याक	१ ३	३७	कुर्याक	१६६	५	कुर्याक	४	१८५
कुर्याक	१८८	६	कुर्याक	७	१७	कुर्याक	१०	१९
कुर्याक	१८५	१ २	कुर्याक	१८५	१ १	कुर्याक	९८	१२
कुर्याक	१ ३	४७	कुर्याक	२६	२६	कुर्याक	९	१७
कुर्याक	८३	४	कुर्याक	{ १८६ २ १	{ १ ६ १३६	कुर्याक	१२२	८८
कुर्याक	१६२	३	कुर्याक	४४	३	कुर्याक	{ ४ १४७	{ ४ ५७
कुर्याक	{ १६ २	{ १८ ७१	कुर्याक	१७३	३८	कुर्याक	२४१	७७
कुर्याक	१०३	३	कुर्याक	१४२	७३	कुर्याक	१५५	६८
कुर्याक	११८	६८	कुर्याक	१६	१	कुर्याक	७१	२४
			कुर्याक	२९	१	कुर्याक	१९६	४

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक
कृतलक्षण	१९७	१०	कृषिक	{ १६६	६	कैलि	४५	३२
कृतसापत्निका	१०५	७		{ १६८	१३	कैवल	२६४	२०३
कृतहस्त	१५५	६८	कृपीवल	१६६	६	केश	१२३	९५
कृतान्त	{ १४	५८	कृष्ट	१६७	८	केशपर्णी	८२	८९
	{ २३८	६४	कृष्टि	१३३	६	केशपाशी	१२४	९७
कृताभिषेका	१०५	५	कृष्ण	{ ८	१८	केशव	{ ८	१८
कृतिन्	{ ११३	६		{ २६	१२	केशवेद्य	{ ११३	४५
	{ १९६	४		{ ३२	१४	केशाम्बुनाम	१२४	९७
				{ १७२	३६	केशिक	८८	१२२
कृत्त	२१६	१०३	कृष्णपाकफल	७९	६७	केशिक	११३	४५
कृत्ति	१४०	४६	कृष्णफला	८३	९६	केशिन्	११३	४५
कृत्तिवासस्	१०	३१	कृष्णभेदि	८२	८६	केशिनी	८९	१२६
कृत्या	२५६	१५८	कृष्णाला	८४	९८	केशर	{ ५७	४३
कृत्रिमधूपक	१२९	१२८	कृष्णलोहित	३३	१६		{ ७२	२५
कृत्स्न	२०९	६५	कृष्णवर्त्मन्	१४	५४		{ ७८	६४
कृपण	२०६	४८	कृष्णवृन्ता	७७	५५		{ ७८	६५
कृपा	४२	१८	कृष्णसार	९८	१०		कैसरिन्	९७
कृपाण	१६०	८९	कृष्णा	८४	९६	कैटभजित्	८	२२
कृपाणी	१९३	३३	कृष्णिका	१६९	१९	कैडर्य	७४	४०
कृपालु	१९८	१५	ककर	११४	४९	कैतव	{ ४४	३०
कृपीटयोनि	१४	५३	कैका	१०२	३१		{ १९५	४४
कृमि	९९	१३	कैफिन्	१०२	३०	कैदारक	१६७	११
कृमिकोशोत्थ	१२६	१११	कैतकी	९६	१७०	कैदारिक	१६७	११
कृमिघ्न	८५	१०६	कैतन	{ १६२	९९	कैदार्य	१६७	११
कृमिज	१२९	१२६		{ २४७	११४	कैरव	५६	३७
कृश	२०८	६१	कैतु	२३८	६०	कैलास	१६	७०
कृशानु	१४	५४	कैदर	२८९	२०	कैवर्त	५२	१५
कृशानुरेतस्	१०	३३	कैदार	१६७	११	कैवर्तीमुस्तक	९०	१३२
कृशाश्विन्	१८९	१२	केनिपातक	५१	१३	कैवल्य	३१	६
कृषि	१६५	२	कैयूर	१२६	११७	कैशिक	१२३	९६

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
भैरव	१२३	१६	कोष्ठक	{ १३ १२९	कौमोदकी	१	२८	
कीक	{ ८८	७	{ १०२ १६	कौमटिनेय	११	२०		
कोकनद	५७	४२	कोकन्दक	८१	१९	कौमटेय	{ १९ २६	
कोकनदरक्षवि	३२	१५	कोकम्बक	४	७	{ ११ २७		
कोकिस	१	१९	कोकम्बली	८४	९७	कीकटेर	१९ २६	
कोकिसरा	८५	१४	कोला	८४	९७	कौम्बिन	२४८ ११६	
कोटर	१९	१३	कोलाहल	३८	२५	कोळेयक	१९१ २१	
कोट्यी	१ ८	१७	कोली	७४	३६	कौणिक	{ ७२ ३४	
काटि	{ १५९	८४	कोविद	१३३	५	{ २२ १		
	{ १६	६	कोविदार	७१	२२	कौणेय	१२६ १११	
	{ २३४	३८	कोष	{ १३ ३७	३७	कौस्तुभ	१ २८	
काटिवपा	९	१२३	कोशफळ	{ २६८ २२१	२२१	ककष्य	१९३ ३४	
कौटिमा	१६७	१२	कोशाफळ	२३	१३	ककर	{ ८१ ७७	
कोटार	२८	१८	कानातकी	२२	८	{ १ १९		
कोठ	११७	७४	कोप	१८३	११	कतु	१३४ १९	
कोण	{ ४	६	कोप	२३४	४	कतुर्ष्वसिन्	१ ३४	
	{ १६	३	कोष्य	२३	३७	कतुमुञ्	७ ९	
कांदक	१ ९	१३	कौकुटिक	२३	१७	कयम	१६४ ११५	
काद्रप	१६८	१६	कौलेयक	१६	८१	कन्दम	{ १६३ १ ७	
काव	८३	२६	कौलक	१८८	१	{ २४ १२३		
कोपना	१ ७	४	कौलिक	१८	१४	कम्बित	१५७ ३५	
कोपिन्	२ २	३२	कोयव	१७	७	कम	१३ ३९	
कोमल	७७१	७८	कातुक	४६	३१	कमुक	{ ७८ ४१	
कोर्वाष्टक	१ ३	३७	कोतहल	४६	२१	{ ७ ४१		
कोरक	७	३७	काइवीष	१६७	८	{ १ १६		
कोरंगी	८	१२७	कीन्ती	८८	१२	कमलक	१८ ७५	
कारक्य	१६८	१६	कीर्त्तिक	१५६	७	कपविमपिक	१८७ ७८	
कांत	{ ५१	११	कीर्त्तन	२४	१२२	कपिक	१८१ ७९	
	{ ७४	३६	कीमारी	११	३५	कष्य	१८१ ८१	
	{ ९७	२	कीमुदी	२७	१६	कष्य	११७ ६३	

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.				
कव्यात्	१५	५९	क्लिशित	१२५	९८	क्षपाकर	२०	१५				
कव्याद	१५	५९	क्लिष्ट	३७	१९	क्षम	२५३	१४२				
कायिक	१८१	७				२१५	९८	क्षमा	२५३	१४२		
क्रिया	{ २१८	१	क्लीतक	८६	१०९	क्षमितृ	२०२	३१				
		२५५	१५७	क्लीतिकिका	८३	९४	क्षमिन्	२०२	३१			
क्रियावत्	१९९	१८	क्लीव (व)	{ ११२	३९	क्षत्	२०२	३१				
क्रीडा	{ ४५	३२				२६६	२१३	क्षय	{ २८	२२		
		४५	३३	क्रेडा	२२५	२९	११५				५१	
कुच्	१००	२२	क्लोमन्	११८	६५	क्षय	{ २२०	७				
कुध्	४३	२६	क्लण	{ ३८	२४				क्षय	{ २५३	१४५	
कुष्ट	४५	३५				क्लणन	३८	२४				क्षव
कूर	{ २०६	४७	क्लथित	२१४	९५				क्षवथु	११५	५२	
		२१०	७६	क्लाण	३८	२४	क्षान्त	२१५				९७
		२६२	१९१	क्षण	{ २६	११						
क्रेतव्य	१८१	८१	क्षणदा				२४	४	क्षारक	७०	१६	
क्रेय	१८१	८१		क्षणन	१६४	११४						क्षारमृत्तिका
क्रीड	{ ९७	२	क्षणप्रभा				१९	९	क्षारित	२०४	४३	
		१२०		७७	क्षतज	११७						६४
क्रीष	४३	२६	क्षतत्रत	१४२			५४	क्षिपा	२२१	११		
क्रीधन	२०२	३२			क्षत्	{ १५४					५९	क्षित
क्रीणयुग	६१	१८	क्षत्रिय	१४३			१	क्षिप्र	{ १५	६४		
क्रीष्टु	९७	५			क्षत्रिया	१०७					१४	क्षिया
क्रीष्टुविज्ञा	८३	९३	क्षत्रियी	१०७			१५	क्षीर	{ ४९	४		
क्रीष्टी	८६	११०			क्षत्रियाणी	१०७					१४	क्षीर
क्रीच	१००	२२	क्षपा	२४			४	क्षीर	{ २६०	१८२		
क्रीचन्दारण	१२	४०										
कूम	२२१	१०										
कूमथ	२२१	१०										
क्लिन्न	२१७	१०५										
क्लिन्नाक्ष	११६	६०										

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
श्रीरविकृति	१७४	४४	श्रेय	{ १६७	११	सोमधर	१	२९
श्रीरविवारी	८१	११				{ २६	१८	सजाका
श्रीरञ्जुन	८३	११	श्रीश्रव	{ २०	२९	संभ	११४	४५
श्रीरानी	८४	१				{ २३२	३३	संजन
श्रीरिका	७५	४५	श्रीप्राचीन	१६६	१	संजरीट	९०	१५
श्रीरोष	४९	२	श्रपण	२२१	११	सठ	२८८	१०
श्रीव	२	२३	श्रेपनी	७१	१५	सटवा	१३१	११८
शुण	११५	५२	शुपिण्ड	२१८	१११	सङ्ग	{ ९७	४
शुव	११५	५२	शुम	{ २८	२६			
शुवामिबन्धन	१६९	१९				{ ८९	१२८	सङ्गिन्
शुद्र	{ २१	४८	शुनी	५८	२	सण्ड	{ २	१६
शुद्रभटिका	१२६	११	शुविद्य	२१८	१११	संभविहार	१७३	४१
शुद्रशोष	५३	२३	शुद्र	१८६	१७	संभिक	१६८	१६
शुद्रा	{ ८१	४	शुम	{ १४	२२	सभिर	७६	४९
शुद्राव्यमस्वसंघात	२	१९	शुव	२१४	९१	सभिर	९१	१४१
शुब	१७६	७४	शुमा	५८	१	सभित	१	२८
शुभित	२	२	शुमास्त	{ ११	१	सभित	१६८	१२
शुभ	६८	८				{ १४३	१	सभुर
शुमा	१६९	२	शुभ	४८	९	सर	{ २३	३७
शुम	{ ८७	१	शुभ	{ १६३	१			
						{ १७२	४९	सरपण
शुमक	७४	४	शुभित	२७	३४	सरपत	११३	४६
शुमप	२८९	२	शुम	२	१	सरपुगा	९१	१६९
शुभिन	१८८	१				{ १७	१	सरसजरी
शुभक	{ १२	१	शुग	{ १२	३२	सय	७९	६९
						{ २४८	६१	सयुष्म
				{ २३१	१०	सङ्ग	११५	७६

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
खजूर	{ ९६ १७० १८४ ९६		गगन	१७	१	गण्डकारी	९१	१४१
खजूरी		९६ १७०	गङ्गा	५५	३१	गण्डशैल	६६	६
खर्व	{ ११३ ४६ २०९ ७०		गङ्गाधर	१०	३४	गंडाली	९४	१५९
			गज	१४९	३४	गंडीर	९४	१५७
खल	२०५	४७	गजता	१४९	३६	गडूपद	५३	२२
खलपू	१९९	१७	गजबन्धनी	१५१	४३	गंडूपदी	५४	२४
खलिनी	२२७	४२	गजभक्ष्या	८८	१२३	गडूषा	२८४	१०
खलीन	१५२	४९	गजानन	११	३८	गतनासिक	११४	४६
खलु	२७४	२५५	गजा	६३	८	गद	११५	५१
खलेदारु	१६८	१५	गडक	५२	१७	गद्य	२९४	३१
खल्या	२२७	४२	गडु	२८९	१८	गत्री	१५३	५२
खात	५४	२७	गडुल	११४	४८	गघ	३१	७
खादित	२१८	११०	गण	{ १०३ १५८ २३५	४० ८१ ४६	गंधकुटी	८८	१२३
खारी	१८२	८८				गघन	२४७	११५
खारीक	१६७	१०				गघनाकुली	८७	११४
खारीवाप	१६७	१०	गणक	१४५	१४	गंधफली	{ ७७ ५६ ७८ ६४	
खिल	५९	५	गणदेवता	६	१०			
	{ ८९ १३० १५२ ४९		गणनीय	२०८	६४	गन्धमादन	६६	३
			गणरात्र	२४	६	गन्धमूली	९३	१५४
खुरणस्	११४	४७	गणरूप	८१	८०	गन्धरस	१८५	१०४
खुरणस	११४	४७	गणहासक	८९	१२८	गन्धर्व	{ ७ ११ १४ ५२ ९८ ११ १५१ ४४ २५१ १३३	
खेट	२०७	५४	गणाधिप	११	३८			
खेय	५५	२९	गणिका	८०	७१			
खेला	४५	३३	गणकारिका	७९	६६			
खोड	११४	४९	गणित	२०८	६४			
ख्यात	२९७	९	गणय	२०८	६४	गन्धवह	१५	६२
ख्यातगर्हिण	२१४	९३	गण्ड	{ १२२ १५०	९०	गन्धवहा	१२२	८९
ख्याति	२२०	९	गण्डक			९७	४	गन्धवाह
						गन्धसार	१३०	१३१

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
धीरविद्वति	१७४	४४	धेन	{ १६७	११	उगोभर	१	७०
धीरविवाही	८६	११		{ २६	१८	नवाका	१०२	१
धीरज्ञाता	८६	११	धेनस	{ २	२०	संज्ञ	११६	१
धीरवी	८४	१		{ २११	११	संज्ञन	१	१
धीरिका	७	४७	धेनाभीप	१६६	६	संज्ञीठ	९०	१
धीरोद	४९	२	धपम	२२१	११	उद	२८८	१
धीष	२	२१	धेपपी	७१	११	उरुवा	१११	११
धुत्	११७	७२	धनिठ	२१८	१११			
धुत्	११७	५२		{ २८	२६	ताक	{ ९७	८
धुताभिजनन	१६९	१	धेम	{ ८	१२८	सङ्गिन्	९७	
				{ २९७	१४			
धुत्	{ २ ३	४८	धीषी	७८	२	तण्ड	{ २	११
	{ १५९	१७७	धोद	१६१	९९	संज्ञपरञ्च	१	१
धुत्पटिका	१२६	११	धीविद्य	२१८	१११	संज्ञविकार	१७१	४१
धुत्पल	५१	२१	धीत्र	१८६	१ ७	संज्ञिक	१६८	१६
धुत्त्रा	{ ८१	९४	धीम	{ ६४	१२	सङ्गिर	७६	४९
	{ २५९	१७७		{ १२७	१११	सङ्गिप	९१	१४१
धुत्त्राभ्यस्त्वर्त्तपात्	२	१९	धुत्	२१४	९१	सङ्गीत	१ २	२८
धुत्	१७६	७४	रमा	५८	१	सङ्गि	६६	७
धुत्पित	२	२	समान्तर	{ ६७	१	सङ्गिप	१६८	१२
धुत्प	६८	८		{ १४१	१	सङ्गीत	९६	१६९
धुत्मा	१६९	२	स्वेद	४८	९			
धुत्	{ ८५	१ ४	स्वेदा	{ १६१	१ ७	सर	{ २१	१५
	{ १७२	४९	स्वेदित	{ २१५	४१	सङ्गीत	१११	४६
धुत्क	७४	४		२ ५	१४	सङ्गीत	१११	४६
धुत्प्र	२८९	२		२		सङ्गीत	९१	११९
धुत्तिन्	१८८	१		{ १७	१	सङ्गीत	८२	८९
				{ २११	१८			
धुत्क	{ १	१६		{ १ २	१२	सङ्गीत	७९	६९
	{ २२	१	सङ्गीत	{ १५९	८६	सङ्गीत	८६	१११
	{ २७८	६१		{ २११	१	सङ्गीत	११५	५१

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
खजूर	{ ९६	१७०		ग	१	गण्डकारी	९१	१४१
	{ १८४	९६	गगन	१७	१	गण्डशील	६६	६
खजूरी	९६	१७०	गङ्गा	५५	३१	गंडाली	९४	१५९
	{ ११३	४६	गङ्गाधर	१०	३४	गङ्गीर	९४	१५७
खर्व	{ २०९	७०	गज	१४९	३४	गङ्गपद	५३	२२
			गजता	१४९	३६	गङ्गपदी	५४	२४
खल	२०५	४७	गजबन्धनी	१५१	४३	गङ्गषा	२८४	१०
खलपू	१९९	१७	गजभक्ष्या	८८	१२३	गतनासिक	११४	४६
खलिनी	२२७	४२	गजानन	११	३८	गद	११५	५१
खलीन	१५२	४९	गजा	६३	८	गद्य	२९४	३१
खलु	२७४	२५५	गडक	५२	१७	गत्री	१५३	५२
खलेदार	१६८	१५	गडु	२८९	१८	गघ	३१	७
खल्या	२२७	४२	गडुल	११४	४८	गंघकुटी	८८	१२३
खात	५४	२७		{ १०३	४०	गघन	२४७	११५
खादित	२१८	११०	गण	{ १५८	८१	गंघनाकुली	८७	११४
खारी	१८२	८८		{ २३५	४६	गंघफली	{ ७७	५६
खारीक	१६७	१०	गणक	१४५	१४		{ ७८	६४
खारीवाप	१६७	१०	गणदेवता	६	१०	गन्धमादन	६६	३
खिल	५९	५	गणनीय	२०८	६४	गन्धमूली	९३	१५४
	{ ८९	१३०	गणरात्र	२४	६	गन्धरस	१८५	१०४
	{ १५२	४९	गणरूप	८१	८०		{ ७	११
खुरणस	११४	४७	गणहासक	८९	१२८	गन्धर्व	{ १४	५२
खुरणस	११४	४७	गणाधिप	११	३८		{ ९८	११
खेट	२०७	५४	गणिका	{ ८०	७१		{ १५१	४४
खेय	५५	२९	गणकारिका	{ १०८	१९		{ २५१	१३३
खेला	४५	३३	गणित	२०८	६४	गन्धर्वहस्तक	७६	५०
खोड	११४	४९	गणैय	२०८	६४	गन्धवह	१५	६२
ख्यात	२९७	९	गण्ड	{ १२२	९०	गन्धवहा	१२२	८९
ख्यातगर्हिण	२१४	९३		{ १५०	३७	गन्धवाह	१५	६२
ख्याते	२२०	९	गण्डक	९७	४	गन्धसार	१३०	१३१

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.
गन्धारमन्	१८७	१०२	गदमांड	७७	४३	गम्भ	१७	५
गन्धिक	१८५	१२	गद्वन	२	२२	गम्मा	१७७	६०
गन्धिमी	८८	१२३	गर्भ	{ ११२	३९	गम्भूत	६१	१८
गन्धोत्तमा	१९४	३९		{ २५१	१३५	गहन	{ ६७	१
गंधोत्थी	११	२७	गमक	१३१	१३५		{ २१२	८
गमस्ति	२३	३३	गमागार	६३	८	गहर	{ ३६	६
गमीर	७२	१५	गमार्शय	११२	१८		{ २३१	१८१
गम	१६१	९५	गर्भिणी	१०९	२२	गगिय	{ १८३	९४
गमन	१६१	१०५	गर्भोपपाठिनी	१७९	६९		{ २७७	१५७
गमायी	७४	३५	गर्भुव	९६	१६७	गगिबकी	८७	११७
गम्भीर	५२	१५	गर्भ	४३	२२	गाढ	१६	६७
गम्भ	२१४	१२	गर्भित	२४६	१३	गाभिन्य	१०	२२
गरण	१२३	३७	गहय	३६	१३	गाहिक	१७	८४
गरक	४८	०	गह्य	२७	७४	गाहीय	१७	८४
गघ	७०	६९	गह्यवादिन्	२०३	३७	गाभ	{ ११०	७०
गरिमन्	११	३६	गह्य	१२७	८८		{ १७०	४
गरिष्ठ	२१८	११२	गह्यङ्गल	१७७	६३	गाभानुष्ठानी	१३	१३३
गरी	७	६०	गह्यन्तिका	१७१	३१	गान	३८	२६
गहक	१०	२०	गह्यित	२१६	१४	गाग्धार	३८	१
गहङ्गमत्र	८	१९	गह्योदय	१७२	४८	गापपी	७६	४९
गहङ्गामत्र	२३	३२	गम्ना	२२७	४२	गापामत	१८३	१
गहत्	१३	३६	गहन	०८	११	गापिभ	१०	२३
गहामत्	{ १०	२९	गहक	१८४	१००	गाहृत्त	१३५	१९
	{ १०७	३४	गवाघ	६३	९	गाह्य	७३	३३
	{ २३०	५८	गवाधी	९४	१७६	गिर	३३	१
गर्भी	१८	७४	गवाधी	१०६	५८	गिरि	{ ६७	१
गर्भित	{ १०	८	गवेडु	१७	२५		{ २२१	११
	{ १४०	३६	गवेडुका	१७०	२५	गिरिकर्णी	८५	१०४
गह	४६	२	गवङ्ग	१३७	३२	गिरिका	८	१२
गहन	१८०	७०	गवङ्ग	२१७	१०५	गिरिक	१८७	१०४

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
गिरिजा	११	३७	गुन्द्र	९५	१६२	गृञ्जन	९२	१४८
गिरिजामल	१८४	१००	गुन्द्रा	{ ७७	५५	गृधु	२००	२२
गिरिमल्लिका	७९	६६		{ ९५	१६०	गृध्र	१००	२१
गिरिश	१०	३१	गुप्त	{ २१३	८९	गृध्रसी	२८४	१०
गिरीन्ना	१०	३१		{ २१७	१०६	गृष्टि	९३	१५०
गिलित	२१८	११०	गुप्तवाद	२५८	१६७		{ ६२	४
गीत	३८	२६	गुप्त	२४०	७४	गृह	{ ६२	५
गीर्णि	२२१	११	गुरण	२२१	११		{ २७१	२३८
गीर्वाण	७	९		{ २१	२४	गृहगोधिका	९८	१२
गीष्पति	२१	२४	गुरु	{ १३३	७	गृहपति	१४५	१५
गुग्गुलु	७३	३४		{ २५७	१६२	गृहयालु	२०१	२७
गुच्छ	{ १२५	१०५	गुर्विणी	१०९	२२	गृहस्थूण	२९४	३०
	{ १६९	२१	गुल्फ	११९	७२	गृहागत	१३८	३४
गुच्छक	७०	१६		{ ६८	९	गृहाराम	६७	१
गुच्छार्द्ध	{ १२५	१०५	गुल्म	{ ११८	६६	गृहावग्रहणी	६४	१३
गुञ्जा	८४	९८		{ १५८	८१	गृहिन	१३२	३
गुड	२३४	४२	गुल्मिनी	{ २५३	१४२	गृहीवृ	२०१	२७
गुडपुष्प	७२	२७		{ ६९	९			
गुडफल	७२	२८	गुवाक	९६	१६९	गृह्यक	{ १०४	४३
गुडा	८५	१०५	गुह	१२	३९		{ १९९	१६
गुहूची	८२	८२	गुहा	{ ६६	६	गन्दुक	१३१	१३८
				{ ८३	९३	गोह	६२	४
	{ २९	२९	गुह्य	२५५	१५४	गौरिक	{ ६७	८
	{ १५९	८५	गुह्यक	७	११		{ २२९	१२
गुड	{ १७१	२८	गुह्यकेश्वर	१६	६८	गैरेय	१८५	१०४
	{ १९१	२७	गूढ	२१३	८९		{ १७७	६०
	{ १३५	४७	गूढपाद	४७	७	गो (गौ)	{ १७८	६६
गुणवृक्षक	५१	५२	गूढपुष्प	१४५	१३		{ २३२	२५
गुणत	२१३	८८	गूय	११८	६८	गोकन्टक	८४	९३
गुटित	२१३	८९	गूय	२१५	९६	गोकर्ण	{ ९८	१०
गुद	३१९	७३	गूय				{ १२१	८३

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
गोकर्षी	८२	८४	गोपाक	१०६	५७	गोस्तनी	८५	१७
गोकुक्	१०६	५८	गोपी	११	११२	गोस्थानक	६	११
गोसुरक	१४	९९		६४	१६	गौतम	८	१७
गोधर	२१	८	गोपुर	९	१३२	गौभार	९७	६
गोशिखा	८८	११९		२६	१८२	गौधय	९७	६
गोडुम्बा	९४	१७६	गोप्यक	१९	१७	गाधर	९७	६
गोड	२८९	१८	गोमत्	१७६	५८		३२	११
	६५	१	गामव	१७५	५	गौर	३२	१४
गोन	१३७	१	गौमासु	७	७		१६२	१८९
	२६	१८	गोमिन्	१७६	५८	गौरी	११	२६
गोत्रमिद्	१२	४२	गौरव	१७७	५६		१६	८
	७१	३	गोर्द	११८	६५	गौरीन	६	१३
गोत्रा	१७७	६	गाढ	२८९	२	गम्य	२६	१७९
गोदारव	१६८	१४	गोष्क	१११	३६	गम्यि	७७	१६२
गोदुह	१७६	७	गोषा	१८६	१८	गम्यिक	१८६	११
गामन	१७६	७८	गोष्ठी	७४	३९	गम्यित	२१२	८६
गोषा	१५७	८६		८४	१२	गम्यिष्य	९	१३२
गोषापदी	८७	११९	गोष्ठीमी	४	१५९		७४	३७
गोषि	१२३	२		१८६	१११	गम्यिक	८१	७७
गोषिका	५३	२२	गोष्ठीमनी	७७	५५	गम्य	३७	२
गोष्म	१६९	१८	गोष्ठीव	१७	५		११८	१११
गोन्व	९	११२	गोष्ठीव	८	१९		२५	६
गोन्व	४७	४		२४३	९१	गम	२२	८
	१४४	७	गोष्ठीर्य	१३	१३१		२७१	२६६
गोष	१७६	५७	गोष्ठी	६	१३	गमणीकम्	११६	५५
	२७	१३	गोष्ठीपति	७	१३	गमपति	२२	६
गोपति	१७७	६२	गोष्ठी	१३८	१५	गमपितृ	२१	२७
गोस्व	१८५	१४	गोष्ठीव	२४४	९४	गम	३५	१९
गोपानदी	६४	१५	गोष्ठीव्य	१७६	५७	गमाम	२५२	१४१
गोपित	२१७	१३	गोष्ठीव	१२५	१०५	गमामपी	२३६	१४९

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
ग्रामतक्ष	१८८	९	घण्टारवा	८५	१०७	घोणिन्	९७	२
ग्रामता	२२७	४०	घन	१८	७	घोंटा	७४	३७
ग्रामार्धान	१८८	९		३९	४			
ग्रामान्त	६५	२०		४०	९	धोर	४२	२०
ग्रामोणा	८३	९४		१६०	९१	घोष	६५	२०
ग्राम्य	३७	१९		२०९	६६	घोषक	८७	११७
ग्राम्यधर्म	१४२	५७	घनरस	४९	५	घोषणा	३५	१२
ग्रावन्	६५	१	घनसार	१३०	१३०	घ्राण	१२२	८९
			घनाघन	१४७	११०	घ्राणतर्पण	३२	११
			घर्म	४५	३३	घ्रात	०१३	९०
ग्रास	१७६	५४	घस्मर	२००	२०	घ		
ग्राह	५३	२१	घल	२४	२	च	२७२	२४१
			घाटा	१२२	८८			
ग्राहिन्	७१	२१	घाटिक	१६१	९७	चकोरक	१०३	३५
ग्रीवा	१२२	८८	घात	१६४	११५	चक्र	१०	२८
ग्रीष्म	२७	१८	घातुक	२०१	२८		५०	७
ग्रीवेयक	१२५	१०४	घास	९६	१६७		१००	२२
ग्लस्त	२१८	१११	घुटिका	११९	७२		१५३	५६
ग्लह	१९५	४५	घुण	२८९	१८		१५७	७८
ग्लान	११६	५८	घूर्णित	२०२	३२	२६०	१८२	
ग्लास्तु	११६	५८	घृणा	४२	१८	चक्रकारक	८९	१२९
ग्लौ	१९	१४				२२५	३२	चक्रपाणि
घट	१७२	३२	घृणि	२३६	५१	चक्रमर्दक	९२	१४७
						घृण	२३	३३
घटना	१६३	१०७	घृत	१७५	५२	चक्रला	९५	१६०
घटा	१६३	१०७				२४०	७६	चक्रवर्तिन्
घटीयन्त्र	१९२	२७	घृष्टि	९७	२	चक्रवर्तिनी	९३	१५३
घट्ट	२८९	१८	घोटक	१५१	४३	चक्रवाक	१००	२२
घण्टापथ	६१	१८	घोणा	१२२	८९	चक्रवाल	१८	६
घण्टापाटलि	७४	३९					६५	२

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
चल	२१०	७४	चाप	९९	१६	चित्रशिरसिन्	२२	२७
चलदल	७१	२०	चिकित्सक	११६	५७	चित्रशिरडिज	२१	२४
चलन	२१०	७४	चिकित्सा	११४	५०	चित्रा	{ ८२	८७
चलाचल	२१०	७४	चिकुर	{ १२३	९५		{ ९४	१५६
चलित	{ १६१	९६	चिकुण	{ २०५	४६	चिन्ता	४४	२९
		८७			१७४	४६	चिपिटक	१७४
चषिका	८४	९८	चिकस	२९६	३५	चिबुक	१२२	९०
चव्य	८४	९८	चिचा	७५	४३	चिरक्रिय	१९९	१७
चषक	१९५	४३	चित्	{ २९	१	चिरतन	२११	७७
चषाल	१३५	१८				{ २७५	३	चिरप्रसृता
चाक्रिक	१६१	९७	चिता	४४	२९	चिरत्रिल्व	७६	४७
चाङ्गरी	९१	१४०	चिता	१६५	११७	चिररात्राय	२७५	१
घाटकैर	१००	१८	चिति	१६५	११७	चिरस्य	२७५	१
चाण्डाल	१९०	२०	चित्त	२९	३१	चिराय	२७५	१
चाण्डालिका	१९२	३१	चित्तविभ्रम	४४	२६	चिरिटी	१०६	९
चातक	९९	१७	चित्तसमुन्नति	४३	२२	चिञ्चिम	५२	१८
चातुर्वर्ण्य	१३२	२	चित्ताभोग	३०	२	चिह्न	{ १००	२१
चाप	१५९	८३	चित्या	१६५	११७			
चाम्भ	१४८	३१	चित्र	{ ३३	१७	चिह्न	२०	१७
चामीकर	१८३	९५				{ ४२	१९	चीन
चामुण्डा	११	३५	{ २६०	१७८	वीर	२९४	३१	
चाम्पेय	{ ७८	६३	चित्रक	{ ७६	५१	वीरी	१०२	२८
		७८				६५	{ ८१	८०
चार	{ १४५	१३	चित्रकर	१८८	७	चुक	{ ९१	१४१
		२२२	१४	चित्रकृत्	७२			
चारटी	९२	१४६	चित्रतडुला	८५	१०६		{ २८९	२०
चारण	१८९	१२	चित्रपर्णी	८३	९२	चुक्रिका	९१	१४०
चारु	२०६	५२	चित्रभानु	{ १४	५६	चुह	११६	६०
चाचिन्मप	१२८	१२२				{ २२	३०	चुलि
चालनी	१७०	२६		{ २४६	१०५	चूचुक	१२०	७७

शब्द,	पृष्ठ	रक्षक	शब्द,	पृष्ठ	रक्षक	शब्द	पृष्ठ	रक्षक
				७		शित	२२६	१ ३
पूजा	{ १ २ ३१					शिर	४६	२
	{ १२४	९७	कामक	१८०	७१	शिरित	२१३	९९
पूजामणि	१३५	१ २	कामाक्षी	११	१३७	शित	२१३	१ ३
पूजात्म	९५	१६	कत्र	१४०	३२	शिरकहा	८२	८२
पूत	७१	३३		{ ८५	१ ५	शिरिका	१६०	९२
पूष	{ ११	१३४	कना	{ १३	१३७	शिरक	१०४	४३
	{ १६१	९९		{ १७१	३७	शिरम	२१९	७
पूषकुण्डस	१२३	९६	कनाक्षी	८०	११५			
पूषि	२८४	१		{ ६९	१४	ज		
पूषिका	१७	३८	कद	{ १ ३	३६		{ ७९	३
पेटक	१९	१७	कदम	६	१४	काल	{ २४१	८
पद	१७७	१२	कामिन्	६४	१४		{ ९	३
पेठकी	७३	७९	कामन्	८४	३	जागवी	{ २४	७१
पेतन	२९	३		{ २२३	२	जगत्प्राण	१५	३२
पेतना	२०	१७	काम्प	{ २४३	८८	जगर	१५५	६४
पेतव	३९	३१		{ १३६	२९	जगल	१९७	४१
पित्त	६०	७	काम्पस	{ २७	२३२	जग्व	२१८	१११
पित्र	७६	१५	काम	{ १४७	२२	जग्नि	१७६	७७
पित्ररस	१६	७		{ २१५	१८	जग्न	११	७४
पौषिक	३६	१५	काम	१३३	१०८	जगतेकला	७८	६१
	{ ११०	११५	कामि	{ ७	१७			
	{ २६४	२ २		{ ७३	३४	जगन्म	{ २११	८१
				{ १८	७६		{ २५६	१७९
प्राय	{ १ ४	३	कामा			जगन्मज	{ ११३	४३
			कामाक्षी				{ १८७	१
पौरुपुत्री	८९	१२३		{ ११३	४४	जगन्म	२१	७४
पौल	१२८	११८	काम	{ २१६	१०३	जगन्मतर	२१	७३
पौर	१९१	२४	काम	१३४	११	जगन्मतर	२१	७३
पौरिका	१ १	२५	कामित	२१७	१	जगन्म	११०	७२
पौर्य	१ १	२५	काम्प	१३३	६	जगन्मकारिक	१७६	७३
पुत्र	११६	१ ४	कामा	२५६	१५७	जगन्म	१५६	७३

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.		
जटा	{	६९ ११	जनि	{	२९ ३०	जयन्त	१३	४६		
		१२४ ९७	जनी		९३ १५३	जयन्ती			७९	६५
		२३४ ३८			१०६ ९	जया			७९	६५
जटाजूट	११	३५	जनुस्	२९	३०	जय्य	१५७	७४		
जटामांसी	९०	९३४	जन्तु	२९	३०	जरण	१७२	३६		
जटिन्	७३	३२	जन्तुफल	७१	२२	जरत्	११३	४२		
जटिला	९०	१३४	जन्मन्	२९	३०	जरद्रव	१७७	६१		
जठर	{	२२० ७७	जन्मिन	{	२९ ३०	जरा	११२	४१		
		२१० ७६	जन्म		१४३ ५८	जरायु			११२	३८
		२६२ १८९			१६२ १०३	जरायुज			२०६	५०
जड	{	२० १९	जन्म्यु	{	२५६ १५९	जल	{	४९ ३		
		२०३ ३८			२९ ३०			२९१ २३		
जडुल	११४	४९	जप	१४१	४७	जलजन्तु	५३	२०		
जतु	१२९	१२५	जपापुष्प	८०	७६	जलघर	१८	७		
जतुक	१७३	४०	जम्पती	११२	३८	जलनिधि	४९	२		
जतुका	१०१	२६	जम्बाल	५०	९	जलनिर्गम	५०	७		
जतुकृत्	९३	१५३	जम्बीर	{	७२ २४	जलनीली	५६	३८		
जतूका	९३	१३५							८१ ७९	जलपुष्प
जत्रु	१२०	७८	जम्बु	७१	१९	जलप्राय	६०	१०		
जत्तक	११०	२८	जम्बुक	{	९७ २२८	जलमुक्	१८	७		
जनगम	१९०	१९							७१ १९	जलव्याल
जनता	२२७	४२	जम्बू	७१	१९	जलशुक्ति	५३	२३		
जनन	{	२९ ३०	जम्म	७२ २४	१२ ४३	जलाधार	५४	२५		
		१३२ १	जम्मभेदिन							
जननी	११०	२९	जम्भल	७२	२४	जलाशय	{	५४ २५		
जनपद	५९	८	जम्भीर	७२	२४	९५ १६४				
जनयित्री	११०	२९	जय	{	७९ ६०	जलोच्छ्वास	५०	१०		
जनश्रुति	३४	७							१६३ ११२	जलौकस्
जनार्दन	८	१९	२३१ १६	जलौका	५३	२२				
जनाश्रय	६३	९	जयन	२३१ १२	जल्पाक	२०३	३६			

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक			
अस्थित	२१७	१०७	आमि	२५३	१४२	आरक	१७२	३३			
अव	{	१५	६४	आम्बव	७१	१९	आर्ष	११३	४२		
		१५३	७३	आम्बूनद	१८४	९७	आर्षवक्र	१२७	११७		
अवन	{	१५१	४५	आयक	१२९	१०५	आर्षि	२२	९		
		१५३	७३	आया	१०५	६	आर्षि	{	२१	२४	
		२२६	३८	आयावीम	१८०	१२	आर्षि	{	१३५	११९	
अवनिका	१२८	१२	आयापती	११२	३८	आर्षक	{	७१	४४		
अहुतनवा	५५	३१	आयु	११७	७	आर्षक	{	९१	१४२		
आमरा	२२३	१९	आर	१११	३५	आर्षकीव	१	३	३५		
आगरितु	२	२	आर	{	५२	१६	आर्षकीव	{	४९	१	
आमरुक	२	२	आर	{	२३४	२	आर्षकीव	{	१६७	१	
आताया	२२३	१९	आरक	७	१३	आर्षनी	९१	१४२			
आंगलिक	४८	११	आरक	१८९	१४	आर्षनीया	१	१४२			
आधिक	१५६	७३	आरकी	८७	११८	आर्षनीपप	१६५	१७			
आय	{	२९	३१	आस्म	{	१९	१६	आर्षतिका	{	८२	८२
		२४२	८५	आस्म	{	१९९	१७	आर्षतिका	{	८२	८३
आयक	१८३	९५	आस्म	२	२	आर्षती	१९	१४२			
आयवेदद	१४	५३	आस्म	८३	९	आर्षी	९१	१४२			
आतामत्या	१	८	आस्म	१५७	७७	आर्षी	१६५	१२			
आति	{	२९	३१	आस्म	८	१३	आर्षीवक	१८९	१४		
		८	७२	आस्म	{	१२	४२	आर्षिका	३५	१	
		२३९	३८	आस्म	{	१५७	७७	आर्षिकाक	१६५	१२	
आती	७१	१९	आस्म	{	२१	७१	आस्म	३३	१३		
आतीकोश	१३	१३२	आस्म	{	२५२	१४१	आस्म	१	१३७		
आतीक	१३	१३२	आस्म	४७	८	आस्म	१३३	२५			
आद	२७५	४	आस्म	१२३	९१	आस्म	२२३	३८			
आतोश	१७७	३१	आस्म	११३	४२	आस्म	४५	३५			
आनु	११९	७२	आस्म	{	१८	७	आस्म	४५	३५		
आवास	१८९	११	आस्म	{	७९	३९	आस्म	{	१५७	७४	
आमातु	१११	३२	आस्म	{	२३७	५८	आस्म	{	१५७	७७	

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
जेमन	१७६	५६	ज्योतिष्	२७०	२३०	ज्यन	१५३	५२
जेय	१५७	७४	ज्योत्स्ना	२७	१६	डहु	७८	६०
जैत्र	१५७	७४	ज्योत्स्नी	८७	११८	डिडिम	४०	८
जैवातृक	{ १९ १९७ २२९	{ १४ ६ ११	ज्योत्स्नी	२४	५	डिडोर	१८५	१०५
			ज्वर	{ ११६ २२६	{ ५६ ३८	डिम्य	२२२	१४
			ज्वलन			१४	५३	डिम्म
जौगक	१२९	१२६	ज्वाल	१४	५७	डिम्भा	११२	४१
जोत्स्नी	८७	११८	ज्ञ			डुडुभ	४७	५
जोषम्	२७४	२५१	ज्ञटा	८९	१२७	डुलि	५४	२४
ज्ञ	१३३	५	ज्ञाटि	२७५	२	ड		
ज्ञपित	२१५	९८	ज्ञर	६६	५	डका	३९	६
ज्ञप्त	२१५	९८	ज्ञर्क्षर	४०	८	त		
ज्ञप्ति	२९	१	ज्ञहरी	२८४	१०	तक्र	१७५	५३
ज्ञातसिद्धान्त	१४५	१५	ज्ञप	५२	१७	तक्षक	२२८	४
ज्ञाति	१११	३४	ज्ञषा	८७	११७	तक्षन्	१८८	९
ज्ञातृ	२०२	३०	ज्ञाटल	७४	३९	तट	५०	७
ज्ञातेय	१११	३५	ज्ञाटलि	२९७	३८	तटिनी	५५	३०
ज्ञान	३०	६	ज्ञावुरु	७४	४०	तडाग	५४	२८
ज्ञानिन्	१४५	१४	क्षिटी	{ ८० ८०	{ ७४ ७५	तडित्	१९	९
ज्ञ्या	{ ५८ १५९	{ २ ८५	क्षिटी			८०	७४	तडित्वत्
ज्ञ्याघातवारण			१५९	८४	क्षिणिका	१०२	२८	तण्डक
ज्ञ्यानि	२२०	९	क्षीरुका	१०२	२८	तण्डुल	८५	१०६
ज्ञ्यायस्	{ ११३ २७१	{ ४३ २३५	टक	१९३	३४	तण्डुलीय	९०	१३६
			टिट्टिभक	१०३	३५	तत	{ ३९ २१२	४
ज्येष्ठ	{ २६ २३४	{ १६ ४१	टीका	२८३	७	ततस्		२७५
			टुटुक	७७	५६	तत्काल	१४८	२९
ज्योतिरिंगण	१०२	२८	ड			तत्त्व	४०	९
ज्योतिषिक	१४५	१४	डमर	२२२	१४			
ज्योतिष्मती	९३	१५०	डमरु	४०	८			

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक
वत्स	११७	१	वपयश्चासह	१४	४२	वत्स	{ १२१	१ २
वथा	२७६	१	वपन	{ २२	३१	वत्स	{ २१	७५
वथागत	८	१३	वपनीय	{ ४८	१	वत्स	१७५	५
वप्य	३७	२२	वपसु	{ २६	१७	वत्स	{ १५	६४
वपु	२७	३	वपसु	{ २७	२३२	वत्स	{ १६२	१ २
वपुर्षि	१८१	८१	वपस्व	२३	१५	वत्स	११७	६३
वदा	२८	२२	वपस्विन्	२३	१५	वत्सिन्	{ १५६	७३
वदात्त	१४८	२९	वपस्विन्	१३९	४२	वत्सिन्	{ २७	१२८
वदानीम्	२८	२२	वपस्विनी	०	१३४	वदि	७१	१
वदन्	११	२७	वद	२२	२६	वद	६८	७
वदु	{ ११	७१	वदप	२२	२६	वदप	११३	४२
	{ २ ८	६१	वदपनी	{ २२	२६	वदपनी	१ ६	८
	{ २ ०	६६	वदपनी	{ ४६	३	वदपनी	३	३
	{ २४०	११३	वदपस्विनी	{ २७	१३१	वदपनी	३४	५
वदुः	१७७	६४	वदस्विनी	२४	४	वदपनी	७	६५
वदुः	११९	७१	वदात्त	{ ७९	६८	वदपनी	१२१	८१
वदुः	२१५	९९	वदात्तपत्र	{ २९५	३३	वदपनी	१७७	६१
वदुः	१४	७३	वदिस	१२९	१२३	वदपनी	१७७	६१
वदुः	{ १ ३	३६	वदिस	४६	३	वदु	१७२	३४
	{ १२४	३६	वदिसा	२४	५	वदु	{ १३४	१४
वदुः	१९२	२८	वदी	२४	४	वदु	{ १७६	७६
वदुः	१६९	१७	वदोऽपु	२४३	८९	वदुः	{ २१	४
वदुः	{ ९९	१३	वदोप	२७१	२३८	वदुः	{ १३५	१९
	{ १८८	३	वदुः	९७	१	वदुः	{ ४४	७८
वदुः	७६१	१८५	वदुः	७	७	वदुः	{ १७६	७७
वदुः	१२७	११२	वदुः	७५	३	वदुः	{ १५	८४
वदुः	८२	८७	वदुः	७५	३	वदुः	{ २६४	२ ७
वदुः	{ ४६	३७	वदुः	{ ७१	३	वदुः	२५०	१७७
	{ २७	१७६	वदुः	{ ८	७३	वदुः	२५	१३१
वदुः	२७	१	वदुः	५१	११	वदुः	२८	२७
			वदुः	५१	११	वदुः	२१७	९९

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
सस्कर	१९१	२४	तालपत्र	१२५	१०३	तिरन्	{ २७५	२५६
तांडव	{ ४०	१०	तालपर्णी	८८	१२३		{ २७६	६
	{ २९५	३४	तालमूलका	८७	११९	तिरस्करिणी	१२८	१२०
तात	११०	२८	तालवृन्तक	१३२	१४०	तिरस्किया	४३	२२
तात्रिक	१४५	१५	ताला	९	२४	तिरीट	{ ७३	३३
तापस	१३९	४२	ताली	{ ८९	१२७		{ २९४	३०
तापसतरु	७५	४६		{ ९६	१७०	तिरोधान	१९	१३
तापिन्ध्र	७९	६८	तालु	१२२	९१	तिरोहित	१६४	११२
तामरस	५७	४०	तावत्	२७३	२४६	तिर्यञ्च	२०३	३४
तामलकी	८९	१२७	तिक्त	३१	९			
तामसी	२४	५	तिक्तक	{ ३१	९		{ ७४	४०
ताम्बूलवल्ली	८८	१२०		{ ९४	१५५	तिलक	{ ११४	४९
ताम्बूली	८८	१२०	तिक्तशाख	७२	२५		{ ११८	६५
ताम्रक	१८४	९७	तिग्म	२३	३५		{ १२९	१२३
ताम्रकर्णी	१८	५	तिट् सुवन्तचय	३३	२	तिलकालक	११४	४९
ताम्रकुट्टक	१८८	८	तितउ	१७०	२६	तिलपर्णी	१३०	१३२
ताम्रचूड	९९	१७	तितिधा	४३	२४	तिलपिज	१६९	१९
तीर	{ ३९	२	तितिधु	००२	३१	तिलपेज	१६९	१९
	{ २५७	१६६	तित्तिरि	१०२	३५	तिलित्स	४७	५
ताकरजित्	१२	४०	तिथि	२८	१	तित्य	१६६	७
तारका	{ २१	२१	तिनिग	७२	२६	तित्व	७३	३३
	{ १२३	९२	तित्तिडी	७५	४३			
तारा	२१	२१	तित्तिडीक	१७२	३५	तिथ्य	{ २१	२२
तारुण्य	११२	४०	तिन्दुक	७४	३८		{ २५४	१४७
ताक्ष्य	{ १०	२९	तिन्दुकी	२८४	८	तिष्यफला	७७	५७
	{ २५३	१४५	तिमि	५३	१९			
ताक्ष्यशैल	१८५	१९२	तिमिगिल	५३	२०	तीक्ष्ण	{ २३	३५
	{ ४०	९	तिमित	२१७	१०५		{ १८४	९८
	{ ९६	१६८	तिमिर	४६	३	तीक्ष्णगन्धक	७३	३१
ताल	{ १२१	८३						
	{ १८५	१०३						
						तीर	५०	७

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक
तीर्थ	{ १११	५०	तुरङ्ग	१५१	४३	तुष्णीकाम	२००	९
	{ २४२	८६	तुरागम	११	४३	तुष	{ ९६	१६७
तीव्र	१६	६७	तुरागवदन	१७	७१		{ ९६	१६७
तीमवैदना	४९	३	तुराघाह	१२	४४	तुषमुम	९६	१७
तु	{ २७७	२४२	तुरकम्भ	१२९	१२८	तुषवान्य	१७०	२७
	{ २७८	१५	तुष्क	१८२	८७	तुषप्यत्र	९५	१६
	{ २७६	५	तुषाकीटि	१२६	१०९	तुषरात्र	९६	१६८
तुष्ट	{ ७२	२५	तुषामाल	१८२	८१	तुषशून्य	७९	६०
	{ २९	७०	तुष्म	१९२	३६	तुष्मा	९२	१६१
द्विती	९१	११९	तुष्मगान	१७६	५५	तुष्तीमाकृत	१६७	९
तुष्क	२७	५६	तुष्कर	३१	९	तुष्तीमाप्रकृति	११०	३
तुष्ट	१२२	८९	तुष्करिका	९	१११	तुष्ट	२१६	१३
तुष्किरी	{ ८०	११६	तुष्ट	{ ७७	५८	तुष्टि	१७९	५६
	{ ९१	१२९		{ १६९	९२		{ ४४	२७
तुष्ट	१८५	१०१		{ २०	१८	तुष्ट	{ १०१	५२
तुष्ट्य	{ ८३	१५	तुष्टार	{ २	१०	तुष्टक	२	२२
	{ ८९	१२५		{ ७	१	तुष्ठा	२३६	७१
तुष्टाञ्जन	१८५	१	तुष्टित	२	१८	तुष्टान	९५	१६१
तुष्ट	१९	७७	तुष्टिन	१६	८८	तुष्टनक	९५	१६२
तुष्टपरिमूत्र	१९०	१८	तुष्टी	१६	८९	तुष्टनी	८२	८३
तुष्टिन्	११३	४४	तुष्टीर	१६	८८	तुष्टम्	{ ११७	६२
तुष्टिम	{ ११३	४४	तुष्ट	७५	४१		{ ७७	२३४
	{ ११७	६१	तुष्ट	१	६५	तुष्टित	२१४	९१
तुष्टिक	{ ११३	४४	तुष्ट	{ ७५	४१	तुष्टिम	२२७	९
	{ ११७	६१		{ १८७	१	तुष्टिमम	१७४	४४
तुष्ट	८९	१२७	तुष्टिका	१०१	३०	तुष्टित	१८४	९९
तुष्टप्रव	१८८	६	तुष्टर	२५७	१६५	तुष्टिता	१९१	३३
तुष्ट (ब) रिका	९	१३१	तुष्टीम	२७७	९	तुष्टिर	१४	४५
तुष्ट	१६१	१	तुष्टीमि	२४	३९	तुष्टिर्णिक	११	१३१
तुष्टी	९४	११५	तुष्टीमि	१४	३९			
तुष्ट	१५१	४३	तुष्टीमि	१४	३९			

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
तैलपायिव ।	१०१	२६	त्रास	४२	२१	त्रिसव्य	२४	३
तैलपाता	२८३	६	त्रिक	{ ४०	१०	त्रिसीत्य	१६७	९
तैलीन	१६६	७		{ १२०	७६	त्रिस्रोतस्	५५	३१
तैष	२६	१५	त्रिककुद्	६०	२	त्रिहल्य	१६७	९
तोफ	११०	२८	त्रिकट्ट	१८६	१११	त्रिहायणी	१७८	६८
तोफक	९९	१७	त्रिका	५४	२७		{ ८९	१२५
तोफम	१६८	१६	त्रिक्ट	६६	२	त्रुटि	{ २०८	६२
तोटक	२९४	३०	त्रिखट्ट	२९८	४१		{ २३४	३७
तोत्र	{ १५०	४१	त्रिखट्टी	२९८	४१	त्रेता	{ १३५	२०
	{ १६७	१२	त्रिगुणाकृत	१६७	९		{ २३९	६९
तोदन	१६७	१२	त्रितक्ष	२९८	४१	त्रोटि	१०३	३६
तोमर	१६०	९३	त्रितक्षी	२९८	४१	त्र्यब्दा	१७८	६८
तोय	४९	४	त्रिदश		७	त्र्यबक	१०	३३
तोयपिप्पली	८६	१११	त्रिदशालय	६	६	त्र्यम्बकसख	१६	६८
तोरण	६४	१६	त्रिदिव	६	६	त्र्यूपण	१८६	१११
तौर्यंत्रिक	४०	१०	त्रिदिवेश	७	७	त्व	२१२	८२
त्यक्त	२१७	१०७	त्रिपथगा	५५	३१	त्वक्क्षीरी	१८६	१०९
त्याग	१३७	२९	त्रिपुटा	{ ८५	१०८	त्वक्पत्र	९०	१३४
त्रषा	४३	२३		{ ८९	१२५	त्वक्सार	९५	१६०
त्रसु	१८५	१०५	त्रिपुरान्तक	१०	३३	त्वच्	{ ६९	१२
त्रथी	{ ३३	३	त्रिफला	१८७	१११		{ ११७	६२
	{ ३४	३	त्रिमण्डी	८५	१०८	त्वच	९०	१३४
त्रस	२१०	७४	त्रियामा	२४	४	त्वचिसार	९५	१६०
त्रसर	२२४	२४	त्रिलोचन	१०	३२	त्वरा	२२४	२६
त्रस्त	२०१	२६	त्रिवर्ग	{ १४३	५७	त्वरित	{ १५	६४
त्राण	{ २१७	१०६		{ १४६	१९		{ १५६	७३
	{ २२०	८	त्रिविक्रम	८	२०	त्वरितोदित	३७	२०
त्रात	२१७	१०६	त्रिविष्टप	६	६	त्वष्ट	२१५	९९
त्रायन्ती	९३	१५०	त्रिवृत्	८५	१०८		{ १८८	९
त्रायमाणा	९३	१५०	त्रिवृता	८५	१०८	त्वष्टृ	{ २३३	३५

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक
विट् (पृ)	{ २३	२४	दवाहय	१७५	५३	दमित	२ ७	६३
	{ २६८	२२५	दृष्टम	१२	१४७	दग्	{ ४२	२१
त्रिपाम्पति	२२	३	दृष्टय	११६	५०		{ २६१	१८४
त्सद	१६	९	दृष्टरोमिन्	११६	५९	दरत्	२८४	९
	५		दमित्य	७१	२१	दरिद्र	२ ६	४९
बंध	१ १	२०	दक्षिण	७१	२१	दरी	३६	६
बंधन	१७१	६४	दक्षिणकन्तु	१७५	७८	दशुर	५४	२४
दक्षिण	१५५	६	दनुज	७	१२	दर्पक	९	२५
दक्षी	१ १	२७	दन्त	१२२	९१	दर्पण	१३२	१४
दक्षिन्	१०	२	दन्तपापन	७६	६०	दर्भ	६	१६६
दक्ष	१९	१	दन्तभाग	७	४	दर्भि	१७२	३४
दक्षिण	१९७		दन्तघाठ	{ ७१	२१	दर्भिकर	४७	८
दक्षिणस्व	१५४	६		{ ७२	२६	दध	{ २५	८
दक्षिणा	१७	१	दन्तघाटा	११	१४		{ १६१	४८
दक्षिणामि	१३७	१	दन्तावक	१४०	३४	दर्शनक	१४४	६
दक्षिणाद	१ १	२४	दन्तिका	९२	१४४	दर्शन	२२५	३१
दक्षिणार्ह	१ ७	८	दन्तिन्	१६९	३४	दक्ष	६९	१४
दक्षिणीय	१९७	५	दन्तशक	४७	८	दक्ष	२६५	२ ६
दक्षिणैर्मन्	१ १	२४	दम्	२ ८	६१	दक्षिण	७ ९	६९
दक्षिण्य	१ ७	५	दम्	{ १४६	२१	दक्षिण्य	२	६९
दक्ष्य	२१५	९		{ २१	३	दक्षन	१२२	१
दक्षिणा	१७	४९	दम्प	२१	३	दक्षनशातत	१२२	
	{ २३	३१	दमित	२१५	९७	दक्षक	८	१४
	{ १४६	२	दमुना	१४	५६	दक्षमिन्	११९	४१
दक्ष	{ १६६	२१	दम्पती	११२	३८	दक्षमीत्य	२४३	८७
	{ ११८	७९	दम्प	४४	३		{ १२७	११४
	{ ७३४	४३	दम्प्रीति	१३	८७		{ २६७	७१६
दक्ष्य	१४	५	दम्प	१७७	६७	दक्षानीकिनी	१ ८	८१
दक्षनीति	३४	५	दया	४२	१८		{ १७७	११
दक्षिण्यम्	१८	७४	दयात्	१ ८	७७		{ १ ९	७४

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.		
दस	१३	५१	दारु	{ ६९	१३	दिवस	२४	२		
दहन	१४	५५		{ ७७	५३	दिवस्पति	१२	४२		
दाक्षायणी	{	११	३७	दारुण	४२	२०	दिवा	२७६	६	
		२१	२१	दारुहरिद्रा	८४	१०२	दिवाकर	२२	२८	
दाक्षाय्य	१००	२१	दारुहस्तक	१७२	३४	दिवाकीर्ति	{	१८८	१०	
दाडिम	७८	६४	दार्वाघाट	९९	१७			१९०	१९	
दाडिमपुष्पक	७६	४९	दार्विका	{	८८	११९	दिविषद्	७	८	
दाडपाता	२८३	६		{ १८५	१०१	दिवौकस्	{	७	७	
दात	२१६	१०३	दार्वा	८४	१०२			२६९	२२६	
दात्यूह	१००	२१	दाव	२६५	२०६	दिव्यगायन	२५१	१३३		
दात्र	१६८	१३	दाविक	५६	३६	दिव्योपपादुक	२०६	५०		
दान	{	१३७	२९	दाग	५२	१५	दिश्	१७	१	
		१४६	२०	दाशपुर	९०	३३१	दिश्य	१७	२	
		१५०	३७	दास	१९०	१७	दिष्ट	{	२४	१
७	१२	दासी	८०	७४	२९	२८				
दानवारि	७	९	दासीसम	२९२	२७	२३३	३५			
दानशौड	१९७	६	दासेय	१९०	१७	दिष्टान्त	१६४	११६		
दांत	{	१४०	४२	दासेर	१९०	१७	दिष्टया	२७७	१०	
		२१५	९७	दिगम्यर	२०४	३९	दीक्षान्त	१३७	२७	
दाति	२१९	३	दिग्गज	१८	४	दीक्षित	१३३	८		
दापित	२०४	४०	दिग्ध	{	१६०	८८	दीदिवि	१७५	४८	
दामन्	१७९	७३		{ २१३	९०	दीधिति	२३	३३		
दामनी	१७९	७३	दित	२१६	२०३	दीन	२०६	४९		
दामोदर	८	१८	दितिमुत्त	७	१२	दीप	१३१	१३८		
दाभिमक	२३०	१७	दिधिपु.	१०९	२३	दीपक	२२९	११		
दायाद	२४३	८९	दिधिपू	१०९	२३	दीप्ति	२३	३४		
दारद	४८	११	दिन	२४	२	दीप्य	८६	१११		
दारा	१०५	६	दिनान्त	२४	३	दीर्घ	२०९	६९		
दारित	{	२१६	१००	दिव	{	६	६	दीर्घकोशिका	५४	२५
					{ १७	२	दीर्घदर्शिन	१३३	६	

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
त्वित् (प्)	{ २३ २६	२४ २२५	दवाहव	१७१	७३	दीपित	२७	६३
त्वियाम्भति	२७	३	दहृम	१२	१४७	दर	{ ४२ २६१	{ २१ १८४
त्तव	१६	९	दहृष	११६	५९	दरत्	२१४	९
	५		दहृरोयिम्	११६	५९	दारद	२६	४०
दंश	११	२७	दधित्य	७१	२१	दरी	६६	६
दंशान	१५५	६४	दधिकछ	७१	२१	दरुंर	५४	२४
दधित	१५५	६५	दधिसक्त	१७५	७८	दरुपक	९	२५
दशी	११	२७	दद्युब	७	१२	दरुपण	११२	१४
दंशून्	१०	२	दद्व	१२२	०१	दरुर्मे	९६	१६६
दश	१९	१०	दन्तपावन	७६	४०	दरुर्नि	१७२	३४
दक्षिण	१९७		दन्तमाग	५	४	दरुर्निकर	४७	८
दक्षिणस्य	१५४	६	दन्तघाठ	{ ७१ ७२	{ २१ २४	दरुण	{ २५ १४१	{ ८ ४८
दक्षिणा	१७	१	दन्तघाटा	९१	१४	दरुणक	१४४	६
दक्षिणामि	१३५	१९	दन्तबळ	१४०	३४	दरुणन	२२७	३१
दक्षिणार	११	२४	दन्तध	९२	१४४	दरुण	६०	१४
दक्षिणार्ह	१९७	५	दन्तध	१४९	३४	दरुण	२६५	२६
दक्षिणीन	१९७	५	दन्तध	४७	८	दरुण	७०	६९
दक्षिणैर्यम्	१९१	२४	दन्तध	२८	६१	दरुण	२९	६९
दक्षिण्य	१७	५	दन्तध	{ १४६ २१	{ २१ ३	दरुण	१२२	१
दन्व	२१५	९	दन्तध	२१९	३	दरुण	१२२	
दरीवका	१०५	४९	दन्तध	२१५	९७	दरुण	८	१४
	{ २३ १४६ १४६ १५८ २३४	{ ३१ २ २१ ७९ ४२	दन्तध	२१५	९७	दरुण	८	१४
दरुण			दन्तध	१८	५६	दरुण	११३	४३
			दन्तध	११२	३८	दरुण	२४३	८७
			दन्तध	४४	३	दरुण	{ १२७ २६७	{ ११४ २१६
दरुण	१८	७९	दन्तध	१३	४७	दरुण	{ १२७ २६७	{ ११४ २१६
दरुणनीति	३४	५	दन्तध	१७७	६२	दरुणनीतिनी	१७८	८१
दरुणनीतिम्	१८०	७४	दन्तध	४२	१८	दरुण	{ १४५ १९१	{ ११ २४

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
दक्ष	१३	५१	दारु	{ ६९	१३	दिवस	२४	२
दहन	१४	५५	{ ७७	५३	दिवस्पति	१२	४२	
दाक्षायणी {	११	३७	दारुण	४२	२०	दिवा	२७६	६
{ २१	२१	दारुहरिद्रा	८४	१०२	दिवाकर	२२	२८	
दाक्षाय्य	१००	२१	दारुहस्तक	१७२	३४	दिवाकीर्ति {	१८८	१०
दाडिम	७८	६४	दार्वाघाट	९९	१७	{ १९०	१९	
दाडिमपुष्पक	७६	४९	दार्विका	{ ८८	११९	दिविषद्	७	८
दाडपाता	२८३	६	{ १८५	१०१	दिवौकस्	{ ७	७	
दात	२१६	१०३	दार्वी	८४	१०२	{ २६९	२२६	
दात्यूह	१००	२१	दाव	२६५	२०६	दिव्यगायन	२५१	१३३
दात्र	१६८	१३	दाविक	५६	३६	दिव्योपपादुक	२०६	५०
दान {	१३७	२९	दाश	५२	१५	दिश्	१७	१
{ १४६	२०	दाज्ञपुर	९०	३३१	दिश्य	१७	२	
{ १५०	३७	दास	१९०	१७	दिष्ट	{ २४	१	
दानव	७	१२	दासी	८०	७४	{ २९	२८	
दानवारी	७	९	दासीसभ	२९२	२७	{ २३३	३५	
दानशौड	१९७	६	दासेय	१९०	१७	दिष्टान्त	१६४	११६
दांत {	१४०	४२	दासेर	१९०	१७	दिष्टया	२७७	१०
{ २१५	९७	दिगम्बर	२०४	३९	दीक्षान्त	१३७	२७	
दाति	२१९	३	दिग्गज	१८	४	दीक्षित	१३३	८
दापित	२०४	४०	दिग्ध	{ १६०	८८	दीदिवि	१७५	४८
दामन्	१७९	७३	{ २१३	९०	दीधिति	२३	३३	
दामनी	१७९	७३	दित	२१६	२०३	दीन	२०६	४९
दामोदर	८	१८	दितिमुत्त	७	१२	दीप	१३१	१३८
दाम्भिक	२३०	१७	दिधिपु.	१०९	२३	दीपक	२२९	११
दायाद	२४३	८९	दिधिपू	१०९	२३	दीप्ति	२३	३४
दारद	४८	११	दिन	२४	२	दीप्य	८६	१११
दारा	१०५	६	दिनान्त	२४	३	दीर्घ	२०९	६९
दारित	२१६	१००	दिव	{ ६	६	दीर्घकोशिका	५४	२५
				{ १७	१	दीर्घदर्शिनू	१३३	६

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
शोषपुत्र	४७	८	शबल	११३	४४	शम्भु	१	६
शीर्षबुध	७७	५७	शुभनम्	१९७	८	शशाङ्क	२३८	६२
शीर्षक	१९९	१७	शुभ्र	२	३	शशि	{ १२३	३
शीर्षिका	७५	२८	शुर्वर्ष	१८४	९६	शश्व	{ २३४	६८
शुल	{ ४९	३	शुर्विष	२	३	शश्वन्तु	२१	९
	{ २१	२३	शुद्ध	१४५	१	शश्व	{ ७	७
शुभ्रपरिषी	८६	११४	शुक्लवदन	१२	४४	शश्व	{ ४१	१३
शुभ्रपम	२७८	१४	शुक्ल	२८	२३	शश्वकान्धन	८	२१
शुभ्रपर्व	८३	९१	शुद्ध	२७९	१९	शश्वकुसुम	१२	१२५
शुभ्रपर्वी	८३	९४	शुभ्र	८९	१२८	शश्वलातक	५४	२७
शुभ्रक	१२७	११३	शुभ्रित	११	२८	शश्वलातविक	६६	३
शुभ्र	१७५	५१	शुभ्र	१४६	१६	शश्वलम्ब	१२१	१७
शुभ्रिका	८४	१	शुभ्री	१	८	शश्वलम्बक	१६	१६६
शुभ्रम	२	१४८	शुभ्र	१४६	१६	शश्वल	११	५
शुभ्रमि	{ ४	३	शुभ्र	२१६	१२	शश्वता	७	९
	{ २५१	११६	शुभ्र	२७९	१८	शश्वताक	७९	६९
शुभ्र	६१	१६	शुभ्रधिन्	११३	३	शश्वत	१४१	५२
शुभ्रकामा	८३	९२	शुभ्रा	९४	१७८	शश्वदाय	७७	५४
शुभ्रक	२८	२३	शुभ्रिका	११८	६७	शश्वद्व	२	३४
शुभ्रकर	२७८	१७१	शुभ्र	१२८	१२	शश्व	{ १९५	४५
शुभ्र	१४६	१७	शुभ्र्या	१५१	४२	शश्व	{ २४८	११७
शुभ्रक	१	४९		{ १६	६७	शश्वलतम	७२	२५
शुभ्रक	४८	१	शुभ्र	{ २१	७६	शश्वभूष	१४१	५२
शुभ्रक	३२	१२		{ २३५	४५	शश्वमातृक	३	१२
शुभ्रकचर	१२४	२५	शुभ्रकचि	२१	७५	शश्वमोनि	७	११
शुभ्रक	११	३७	शुभ्रक	२८९	१९	शश्वर	१११	३२
शुभ्रक	२	४७	शुभ्रक	२१२	८६	शश्वर	१८०	११
शुभ्रक	१०	१२	शुभ्रक	१२३	९३	शश्वरिष्यिन्	२३३	३५
शुभ्रक	११५	५४	शुभ्रक	६६	४	शश्वरमा	१३	४८
शुभ्रक	५४	२५	शुभ्रक	१४८	२०	शश्वरपुत्र	१४१	५२

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.						
देवाजीव	१८९	११	दोहदवती	१०९	२१	द्रुणी	२८४	९						
देवी	४१	६३	दुः (स्)	१७	२	द्रुत	१५	६४						
									८२	८३	२०	१७	२१३	८९
									९०	१३३				
देवृ	१११	३२	दुमणि	१२	३०									
देश	५९	८	दुम्न	१८३	९०	द्रुम	६८	५						
देशरूप	१४७	२४	द्यूत	१९५	४४	द्रुमामय	१२९	१२५						
देह	११९	७१	द्यूतकारक	१९५	४४	द्रुमोत्पल	७८	६०						
देहली	६४	१३	द्यूतकृत्	१९५	४३	द्रुवय	१८२	८५						
दैतेय	७	१२	द्यौ (द्योः)	६	६	द्रुहिण	८	१७						
दैत्य	७	१२				१७	१	द्रोण	९९	१४				
दैत्यगुरु	२२	२५	द्यौत	२३	३४	१८२	८८							
दैत्या	८८	१२३	द्रष्ट	१७५	५१			२३६	४९					
दैत्यारि	८	१९	द्रव	४५	३२	द्रोणकाक	१००			२१				
दन्य	२५५	१५३				१६४	१११	द्रोणक्षीरा	१७९	७२				
दैर्घ्य	१२७	११४	द्रवन्ती	८२	८७			द्रोणदुग्धा	१७९	७२				
दैव	२९	२८	द्रविण	१६२	१०२	द्रोणी	५१	११						
						१३६			२४	८३	९५			
						१४१	५०	द्रोहचिन्तन	३०			४		
दैवज्ञ	१४५	१४	२३६	५२	द्रौणिक	१६७	१०							
दैवना	१०८	२०			२९०	२२	द्रन्द्र	१०३	३८					
दैवत	७	९	द्रष्य	१८३	९०	२६६				२१२				
							२७	२१	द्रयातिग		१४०	४४		
दोला	८३	९५	द्रा	२७५	२	द्रादशागुल	१२१	८४						
			१५३	५३	द्राक्षा	८५	१०७	द्रादशात्मन्	२२	२८				
दोषज्ञ	१३३	५	द्राविष्ठ	२१८	११२	द्रापर	३०	३						
दोषा	२७६	६	द्राविडक	९०	१३५				२५७	१६२				
दोषैकहश्	२०५	४६	द्रुकिलिम	७७	५३	द्वार	६४	१६						
दोस्	१२०	८०	द्रुषण	१६०	९१	द्वारु	६४	१६						
दोहद	४४	२७	द्रुण	९९	१४	द्वारपाल	१४४	६						
						द्वारःस्य	१४४	६						

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
आश्रित	१४४	६	इष्य	१८४	९७		२८	२४
आश्रितवर्धक	१४४	६	घ			बभ	३३	३
अङ्गुष्ठाङ्गु	१६७	०	चट	२८८	१७		२५२	१३९
अङ्ग	{ १ ३ ४२	४२	चपूर	८१	७७	धर्मचिन्ता	४४	२८
	{ २३३	३	चन	१८३	०	धर्मपञ्चिन्	१४२	५६
अङ्गराज	२०	१५	चनबब	१४	५३	धर्मपत्न	१७२	३६
अङ्गा	८८	१२	चनद	१६	६८	धर्मराज	{ ८	१३
अङ्गादि	१३२	४	चनइरी	८९	१२८		२४	५१
अङ्गिह	२५१	१३३	चनापिन	१६	६८		२३३	३१
अङ्गीना	१ ७	७	चनिन्	१९८	१	धर्मवीरिता	३४	६
अङ्गीमाङ्गु	१६७	०	चनिष्ठा	२१	२२	धर्मिणी	१ ६	३
अङ्ग	१४९	३४	चनु	७३	३५	धम	{ १११	२७
अङ्गाप	१४८	२७	चनुःपट	७३	३५		२६७	२ ६
अङ्गद	१४९	३४	चनुर्धर	१५६	६९	धमक	३२	१३
अङ्गिफ	१ २	२९	चनुमान्	१५६	६९	धमसा	१७८	६७
अङ्गिर्षा	१७८	६८	चनुन्	१५९	८३	धमिन	१३३	२३
अङ्गि	१४५	११	चन्य	१९९	३	धातकी	{ ८८	१२४
अङ्गिन्	१४	१	चन्य	१५९	८३		२८९	७
अङ्गिन्	१६७	९	चन्यन्	५८	५	धनु	{ ६७	१
अङ्गिन्	१६७	९	चन्यबाध	८३	१		२३८	६७
अङ्गीयनी	१७८	६८	चमिन्	१५६	६९	धनुपुष्पिका	८८	१२४
अङ्गीप	५	८	चमन	७	१३२	धातु	८	१७
अङ्गीपती	५५	३	चममि	११८	६५	धानी	१५	१७६
अङ्गीपिन्	९७	१	चमनी	८९	१३	धाना	१७४	४७
अङ्गप	१४५	१	चमिह	१२४	९७	धानुक्क	१७६	६९
अङ्ग	२ ५	४५	चर	६१	१	धाम्य	१६	२१
अङ्ग	१४६	१८	चरपि	५८	२	धाम्यवत्	१६९	२२
अङ्ग	१७३	५९	चर	५८	२	धाम्यक	१७३	२८
अङ्गातुर	११	३८	चरित्री	५८	२	धाम्यक	१७३	३९
						धाम्यन्	२४९	१२४

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
धामार्गव	{ ८२	८८	धूत	२१७	१०७	ध्रुव	{ २१	२०
	८७	११७	धूपायित	२१६	१०२		६८	८
वाय्या	१३६	२२	धूपित	२१६	१०२		२१०	७२
घारणा	१४७	२६	धमकेतु	२३७	५८	ध्रुवा	{ ८७	११५
घारा	१५२	४९	धूमयोनि	१८	७		१३६	२५
घाराघर	१८	७	धूमल	३३	१६	व्यज	१६२	९९
घारासम्पात	१९	११	धूम्या	२२७	४२	व्यजिनी	१५७	७८
घार्तरा	१०१	२४	धूम्याट	९९	१६	व्यनि	३८	२२
धावनी	८३	९३	धूम्र	३३	१६	व्यनित	२१४	९४
धिक	२७२	२४०	धूर्जटि	१०	३३	ध्वस्त	२१६	१०४
धिककृत	{ २०४	३९	धूर्त	{ ८१	७७	व्याक्ष	{ १००	२०
	२१४	९४		१९५	४३		२६७	२१९
धिपण	२१	२४	२०६	४७	ध्वान	३८	२२	
धिषणा	२९	१	धूर्दह	१७८	६५	ध्वान्त	४६	३
धिष्य	२५५	१५५	धूलि	१६१	९८			
धी	२९	१	धूसर	३२	१३	न		
धीन्द्रिय	३१	८	धृति	२४०	७४	न	२७७	११
धामत्	१३३	६	धृष्ट	२०१	२५	नकुलेष्टा	८७	११५
धामती	१०७	१२	धृष्णञ्ज	२०१	२५	नक्तक	१२७	११५
धीर	{ १२९	१२४	धेनु	१७९	७१	नक्तम्	२७६	६
	१३३	५	धेनुका	{ १४९	३६	नक्तमाल	७६	४७
धीवर	५२	१५	धेनुष्या	२३०	१५	नक्र	५३	२१
धीशक्ति	२२४	२५	धेनुफ	१७९	७२	नक्षत्र	२१	२१
धीसचिव	१४३	४	धैवत	१७७	६०	नक्षत्रमाला	१२५	१०६
धुत	२१२	८७	धोरण	३९	१	नक्षत्रेश	२०	१५
धुनी	५५	३०	धौरण	१५४	५८	नख	{ ८९	१३०
धुर	१५३	५५	धौतकौशेय	१२७	११३		१२१	८३
धुरन्धर	१७८	६५	धौरितक	१५२	४८	नखर	१२१	८३
धुरीण	१७८	६५	धौरैय	१७८	६५	नग	२३१	१९
धुर्य	१७८	६५	ध्याम	९६	१६६	नगरी	६१	१

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक		
नगीकृत्	१	२	नन्धावर्त	६३	१	नभी	८९	१२९		
नम	३	४	ननुकृत्	११२	३	नरप	६१	१८		
नमहू	१९४	४३	नाश्री	११	२९	नव	२११	७७		
नामिका	{	१	८	नामत्	{	१७	१	नामदस	८७	४३
		२	८			२७	१६	नामनीत	१७५	५२
मट	{	७७	७६	नामसंगम	१०२	२३२	२	नाममाशिका	८	७२
		१८९	१३			३४	नामवृत्तिका	१७९	७१	
नडम	४	१	नामस्व	२७	१७	नावाभर	१२७	१११		
नडी	८९	१२९	नामस्वत्	१७	६३	नावीन	२११	७७		
नड	{	९५	११२	नामस्य	२७	१८	नाबोद्ध	१७७	७२	
		९९	१६५	नामसित	२१६	१	नाम्य	२११	७७	
		२९७	३३	नामस्वकारि	९१	१४१	नाय	१३४	११२	
मडमाय	७९	९	नामस्वा	१३८	३४	नाय-वेदव्या	४५	३३		
मडबंहसि	९६	१६८	नामस्मित	२१६	१	नायप्रि	१४२	५३		
नडपा	९६	१६८	नामुक्त्विजन	१२	४३	नाय-नुकृत्वा	२५	९		
मडूत्	७९	९	नाय	२३	९	नायसित	१७७	६३		
मडूक	५९	९	नायम	१२३	९३	नायसीत	१७७	६३		
नड	२१	७१	नाय	१	४	नायि	२७७	११		
नडनाशिक	११३	४५	नायक	४८	१	नाय	२७७	११		
नड	२३७	७७	नायवाहन	१३	६९					
मडी	५५	२९	नायक	४१	११	नायक	{	३	६	
नडीमागृक	६०	१२	नायकौ	४	८			१७	२	
मडीसर्ब	७५	४५	नायक	४	१	नायक	{	३	१४	
मडी	१९२	३१	नायवा	५५	३२			८७	११४	
मडी	११	२९	नायन्	४५	३२	नायक	{	४७	४	
नड	{	२७३	२४८	नायकवर	१६			७	१४९	३४
		२७८	१४	नायक	९५	१६४	१८९	१५		
नडक	१	२८	नायमीम	५२	१८	नायक	{	२	५९	
मडम	१२	४५	नायिन	५७	३९			१३१	२१	
नडिबुध	८९	१२८	नायिनी	५६	३९	नायकैठर	७८	६५		

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
नागनिहिका	१८६	१०८	नाम	२७४	२५१	निःषमम्	२७८	१४
नागवला	८७	११७	नामधेय	३५	८	निःसरण	६५	१९
नागर	{ १७३ २६१	{ ३८ १८८	नामन्	३५	८	निःस्व	२०६	४९
नागरङ्ग	७४	३८	नाय	२२०	९	निकट	२०९	६६
नागलोक	४६	१	नायक	१९८	११	निकर	२०३	३९
नागवल्ली	८८	१२०	नारक	{ ४८ ४८	{ १ २	निकर्षण	६५	१९
नागसम्भव	१८५	१०५	नारद	१३	४८	निकष	१९३	३२
नागान्तक	१०	२९	नाराच	१५९	८७	निकषा	{ २७६ २७९	{ ७ १९
नाटय	४०	१६	नाराची	१९३	३२	निकषात्मज	१५	६०
नाहिका	१७२	३४	नारायण	८	१८	निकाम	१७६	५७
नाहिन्यम	१८८	८	नारायणी	८४	१०१	निकाय	१०४	४२
नाडी	{ ११८ १६९ २३५	{ ६५ २२ ४३	नारी	१०४	२	निकाय्य	६२	५
नाडीव्रण	११५	५४	नाल	{ ५७ ५७ १६९	{ ४२ ४२ २२	निकार	{ २२२ २२६	{ १५ ३६
नाथवत्	१९९	१६	नालिकेर	९६	१६८	निकारण	१६४	११२
नाद	३८	३३	नाविक	५१	१२	निकुञ्चक	१८२	८८
नादेयी	{ ७३ ७४ ७९ ८७	{ ३० ३८ ६५ ११८	नाव्य	५०	१०	निकुज	६७	८
नाना	{ २७३ २७५	{ २४७ ३	नाश	१६४	११६	निकुम्भ	९२	१४४
नानारूप	२१४	९३	नासत्य	१३	५१	निकुरम्ब	१०३	४०
नान्दीकर	२०३	३८	नासा	{ ६४ १२२	{ १३ ८९	निकृत	{ २०४ २०५	{ ४१ ४६
नान्दीवादिन्	२०३	३८	नासिका	१२२	८९	निकृति	४४	३०
नापित	१८८	१०	नास्तिकता	३०	८	निकृष्ट	२०७	५४
नाभि	{ १५३ २५१ २८४ २८९	{ ५६ १३७ ९ २०	निःशलाक	१४७	२२	निकेतन	६२	४
			निःशेष	२०९	६५	निकोचक	७२	२९
			निःशोध्य	२०७	५६	निकण	३८	२४
			निःश्रेणि	६५	१८	निकाण	३८	२४
			निःभयस	३१	६	निखिल	२०९	६५
						निगड	१५१	४१

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक
निगाह	२२१	१२	निघन	{ १६४	११६	नियामक	५१	१२
नियम	{ ६१	१	निधि	{ २४९	१२३	निमुच	२९१	२४
						निमुद्य	१६३	१६
						निमुष्य	१९	१७
निगाह	२२१	१३	निप्यान	२२५	६१	निर्	२७४	२५३
निगार	२२६	३७	निनह	३८	२२	निर्तर	२९	३६
निगाह	१५२	४८	निनाह	३८	२२	निरय	४८	१
निग्राह	२२१	१३	निन्द्या	३३	१३	निरर्गम	२१२	८३
निम	२२६	३३	निप	१७२	३२	निरणक	२११	८१
निमध	१७६	५६	निपठ	२२५	२९	निरषमह	१९	१५
निम	१९९	१३	निपाठ	३२५	२९	निरखन	२२५	३१
निमुक्त	७८	३१	निपाठन	२२४	३७	निरस्त	{ ३७	२
निषोक्त	१२७	११३	निपग	५४	२३			
निब	२३३	३२	निपुण	१९३	४			
निताम्ब	{ ६३	५	निषम्बन	४	७	निपकरिण्यु	२०२	३
			निबर्हण	१६४	११२	निपकृत	२४	४
निताम्बिनी	१५	१	निम	१९४	३७	निपकृति	{ १४२	५३
निताम्ब	१३	३७	निमृत्	२०	२५		{ २२५	३१
नित्य	{ १३	६३	निमय	१८१	८	निषाम्ब	११६	५७
			निमित्त	२४१	७६	निपीष	१६८	१३
निबाप	{ २७	१९	निमेष	२५	११	निष्प्रति	४८	२
			निम	५२	१५	निगुण्ड	{ ७९	३८
निदान	२९	२८	निमगा	५५	३		{ ७९	७
निदिग्ध	२१३	८९	निम्ब	७८	३२	निम्रग्यन	१६४	११३
निदिग्धिका	८३	९३	निम्बक	७२	२३	निर्घोष	३८	२३
निदेष	{ १४७	२५	निबति	२९	२८	निर्जर	७	७
			निस्तु	१५४	५९	निर्दिग्धियधाम	१४	४९
निद्रा	४३	३३	नियम	{ ३	५	निर्जर	६६	५
निद्राण	२२	३३				निर्णय	३	३
निद्राण	२२	३३				निर्विच्छ	२७	५६

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृ.	श्लोक.		
निर्णेजक	१८९	१०	निलय	६२	५	निष्कृष्टि	८८	१२५		
निर्देश	१४७	२५	निवह	१०३	३९	निष्कुह	६९	१३		
निर्भर	{	१६	६६	निवात	२४२	८४	निष्काम	२२४	२५	
		२७५	२	निवाप	१३७	३१	निष्ठा	{	४१	१५
निर्मद	१४९	३६	निवीत	{	१२७	११३	निष्ठान		{	२३४
निर्मुक्त	४७	६			१४१	५०		१७४		४४
निर्मोक	४८	९	निवृत	२१३	८८	निष्ठान	२४८	११६		
निर्याण	१५०	३८	निवेश	१४९	३३	निष्ठीवन	२२६	३८		
निर्यातन	२४८	१२०	निशा	२४	४	निष्ठुर	{	३७	१९	
निर्यास	२८६	१३	निशाख्या	१७३	४१			२१०	७६	
निर्वपण	१३७	३०	निशान्त	६२	५	निष्ठयूत	२१३	८७		
निर्वर्णन	२२५	३१	निशापति	१९	१४	निष्ठयूति	२२६	३८		
निर्वहण	४१	१५	निश्चित	२१४	९१	निष्ठेव	२२६	३७		
निर्वाण	{	३१	६	निशीय	२५	६	निष्ठेवन	२२६	३८	
		२१५	९६	निशीथिनी	२४	४	निष्णात	१९६	४	
निर्वात	२१५	९६	निश्चय	३०	३	निष्पक	२१४	९५		
निर्वाद	{	३६	१३	निश्रोणि	६५	१८	निष्पतिसुता	१०६	११	
		२४३	९०	निषंग	१६०	८८	निष्पन्न	२१६	१००	
निर्वापण	१६४	११४	निषागिन्	१५६	६९	निष्पाव	२२४	२४		
निर्वार्य	१९८	१३	निषद्या	६२	२	निष्प्रभ	२१६	१००		
निर्वासन	१६४	११३	निषद्वर	५०	९	निष्प्रवाणिन्	१२७	११२		
निर्वृत्त	२१६	१००	निषघ	६६	३	निसर्ग	४६	३८		
निर्वेश	{	१९४	३८	निषाद	{	३८	१	निसृष्ट	२१३	८८
		२२३	२०			१९०	२०	निस्तल	२०९	६९
		२६७	२१५			निषादिन्	१५४	५९	निस्तर्हण	१६४
निर्व्यथन	४६	२	निषूदन	१६४	११३	निर्लिंश	१६०	८९		
निर्व्यूह	२७१	२३६	निष्क	२३०	१४	निस्त्राव	१७५	४९		
निर्हार	२२२	१७	निष्कला	१०९	२१	निस्वन	३८	२३		
निर्हारिन्	३२	११	निष्कासित	२०४	३९	मिस्वान	३८	२३		
निर्हाद	३८	२३	निष्कृष्ट	६७	१	निहनन	१६४	११८		

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
निहत्का	५३	३२	नीहार	२२८	२२८	नेम	{ १८	७८
निहिसन	२६४	२२३	नीहार	२	१८		{ २५२	२४०
निहीन	२९	२३	नु	२०३	२४८	नीचिणी	१०८	६७
निह्व	{ ३३	२०	नुष्ठि	३५	११	नीपासी	१८६	१०८
	{ २६५	२	नुत	२२३	८७	नीमेम	१८१	८
नीकाघ	२९४	३०	नुत्त	२१३	८७	नीयप्रोष	७०	२८
नीष	{ १९	२६	नुत्तन	२११	७७	नीरत	{ १५	६
	{ १९	७	नुत्तन	२११	७८		{ १०	२
नीषेस्	२७८	१७		{ २७४	२५	नीचिक	१४४	७
नीड	१	३	नीमम्	{ २७८	१६	नीचिणिक	२५६	७
नीडोद्भव	१	२	नीपूर	२२६	१०९	नी	२७७	११
नीप	३४	२४	नी	१४	१	नी	५२	१
नीप	७७	४२	नीत्य	४	१	नीकाबंध	७१	१३
नीर	४	४	नीप	१४३	१	नीतार्य	७	१
नीक	३२	१४	नीपखरमन्	१४९	३२	नीष	२६९	२२५
नीककण्ठ	{ १	२	नीपसम	२९३	२७	नीयप्रोष	{ ७३	३२
	{ २३४	४	नीपसन	१४८	३१		{ २४४	९३
नीकंगु	९९	१३	नीषाण	२	४	नीयप्रोषी	८९	८०
नीकमेहित	१	३३	नीषेन	२९७	४०	नीयद्	२	७
नीष्य	१	१	नीवृ	१०८	११	नीकु	९८	१
नीकाम्बर	९	३४	नीन	{ १२३	९३	नीकस्त	२१३	८८
नीकाम्बुबन्ध	५६	३०		{ ३६	१८	नीकार	१७९	५६
नीकिका	७९	७	नीमम्	१२३	९३	नीपाम	१४७	२४
नीकिनी	८३	९५	नीरिड	२	९	नीयाम्	{ १४७	२५
नीकी	८३	९४	नीयम्	१२४	९९		{ १५६	१६१
नीकाक	२२४	२३	नीमि	{ ५४	२७	नीकाल	१८१	८१
नाथर	१७	१५	नीमि	{ १५३	५६	नीयम्	११७	६१
नीवी	{ १८१	८	नीमी	७९	२६	नीक	२८८	१७
	{ २३६	२१२	नीमी	२१२	८३	नीक	२५	१२८
नीवृ	५	८	नीकमेव					

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	श्लोक.
	प		पचता	१६४	११६		
पक्षण	६५	२०	पचदशी	२५	७	पण	{ १८२ ८८ १९४ ३८ १९५ ४५ २३५ ४६ १९५ ४४
क्वि	{ २१४ २१५	{ ९१ ९६	पचम	३९	१		
			पचलक्षण	३४	५		
			पचशर	९	२५		
पक्ष	{ २६ १०३ १२४ १५९ २६७	{ १२ ३६ ९८ ८७ २२०	पचशास्त्र	१२१	८१	पणव	४० ८
			पचागुल	७६	५१	पणायित	२१७ १०९
			पचास्य	९७	१	पणित	२१७ ४०९
			पजिका	२८३	७	पणितव्य	१८१ ८२
पक्षक	६४	१४	पट	{ ७३ १२७	{ ३५ ११६	पण्ड	११२ ३९
पक्षति	{ २४ १०३ २४०	{ १ ३६ ७२	पटच्चर	१२७	११५	पण्डित	१३३ ५
			पटल	{ ६४ २६४	{ १४ २०१	पण्य	१८१ ८२
पक्षद्वार	६४	१४	पटलप्रान्त	६४	१४	पण्यवीथिका	६२ २
पक्षभाग	१५०	४०	पटवासक	१३२	१३९	पण्या	९३ १५०
पक्षमूल	१०३	३६	पटह	{ ४० १६३	{ ६ १०८	पण्याजीव	१८० ७८
पक्षान्त	२५	७	पटु	{ ९४ १९० २०३ २३४	{ १५५ १९ ३५ ३९	पतग	१०२ ३३
पक्षिन्	१०२	३२	पटुपर्णी	९१	१३८	पतग	{ १०२ २८ २३१ २०
पक्षिणी	२४	५	पटोल	९४	१५५	पतगिका	१०१ २७
पक्ष्मन्	२४८	१२१	पटोलिका	८७	११८	पतन्	१०२ ३३
पक्ष	{ २८ ५०	{ २३ ९	पटुपर्णी	९१	१३८	पतत्र	१०३ ३६
पक्षिल	६०	१०	पटुपर्णी	९१	१३८	पतत्रि	१०२ ३३
पक्षेरुह	५७	४०	पटुपर्णी	९१	१३८	पतत्रिन्	१०२ ३३
पक्षि	{ १८२ २४०	{ ८४ ७२	पटुपर्णी	९१	१३८	पतद्ग्रह	{ १३२ १३९ २९० २१
पशु	११४	४८	पटुपर्णी	९१	१३८	पतयालु	२०१ २७
पचंपचा	८४	१०२	पटुपर्णी	९१	१३८	पताका	१६२ ९९
पचा	२२०	८	पटुपर्णी	९१	१३८	पताकिन्	१५६ ७१
पचजन	१०४	१	पटुपर्णी	९१	१३८	पति	{ १११ ३५ १९८ १०

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	
पतिवरा	१ ६	७	पदय	१५५	६६				
पतिवानी	१ ७	१२	पदवी	७१	१५	पदम्	४९	३	
पतिमता	१ ५	६	पदात्रि	१५५	६६		१७५	५१	
पत्न	६१	१	पदादि	१५५	६६	पदस्य	१७५	५१	
पति	{ १५५ १५८ २४	६६ ८ ७२	पदिक	१५५	६७	पयोधर	२५७	१६३	
			पद्म	१५५	६७	पर	१४५	११	
			पद्मति	६१	१५	पर	१६१	१९१	
पतिवहति	१५५	६७	पद्म	{ १७ ५७	७१	परबाध	१९	१८	
पत्नी	१ ७	५	पद्मक		१५	३९	परतन्त्र	१९९	३६
पत्र	{ ६९ १ ३ १५४ २६०	१४ ३६ ५८ १७९	पद्मचारिणी	९२	१४६	परपिम्बाह	२	२०	
			पद्मनाम	८	२	परम्भू	१	२	
			पद्मिनी	५६	३९	परभूत	१	१९	
			पद्मपत्र	९२	१४५	परमम्	२७७	१२	
पत्रपरशु	१९३	३२	पद्मरग	१८३	९२	परम्याद्य	१३६	२४	
पत्रपास्या	१२५	१ ३				परमैश्विन्	८	१६	
पत्ररथ	१ २	३३				परम्पराक	१३६	२६	
पत्रभेदा	१२८	१२२	पद्मा	{ ९ ८३ ९२	२७	परभू	१९९	१६	
पत्राक्ष	{ १३७ १८६	१३२ १११	पद्माकर		५४	२८	परशु	१६	९२
			पद्माट		९२	१४७	परश्वभ	१६	९२
पत्रायुधि	१२८	१२२	पद्माब्जा	९	२७	परश्वत्	२८	२२	
पतिवन्	{ ९ १ २ १५९ २४६	१५ ३१ ८७ १ ३	पतिवन्	१४९	३५	परश्वस	{ १६२ २५२	{ १ ३ १३८	
			पद्म	२४९	५१				
			पद्मा	६१	१५	पद्मा	{ ७ २३१	{ १७ २१	
			पद्म	७८	६१	परश्वसुख	२ २	३३	
पत्रोर्ध्व	१२७	११३	पद्मविष्ट	२१७	१	परश्विष्ट	१९	१८	
पद्मि	१४६	१७	पद्मिन्	२१७	१	परश्वीन	२ २	३३	
पद्मिन्	६१	१५	पद्मिन्	२१६	१	परश्वज	१६४	१११	
पद्मा	७७	५	पद्म	४७	८	पद्माक्षित	१६४	११०	
पद्मे	११९	७१	पद्मग	४७	८				
पद्म	२४४	९३	पद्मनाथान	१	१९३				

शब्द	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
परान्न	२००	२०	परित्राण	२१९	५	परिम्राज	१३९	४१
पराभूत	१६४	११२	परिदान	१८१	८०	परिषद्	१३४	१५
परायण	२१८	२	परिदेवन	३६	१६	परिष्कार	१२४	१०१
परारि	२७९	२०	परिधान	१२७	१९७	परिष्कृत	१२४	१००
परार्थ	२०७	५८	परिधि	{ २३ २४४	{ ३२ ९७	परिष्वङ्ग	२२५	३०
परासन	१६४	११३	परिधिस्थ	१५४	६२	परिसर	६०	१४
परासु	१६४	११७	परिपण	१८१	८०	परिसर्प	२२३	२०
परास्कंदिन्	१८१	२५	परिपंथिन्	१४५	११	परिसर्या	२२३	२१
परिकर	२५७	१६५	परिपाटी	१३८	३६	परिसार	२२३	२१
परिकर्मन्	१२८	१२१	परिपूर्णता	१३१	१३७	परिष्कन्द	१९०	१८
परिक्रम	२२२	१६	परिपेलव	९०	१३१	परिस्तोम	१५१	४२
परिक्रिया	२२३	२०	परिप्लव	२१०	७५	परिस्यन्द	१३१	१३७
परिक्षित	२१३	८८	परिवर्ह	२७२	२३९	परिस्तुत	१९४	३९
परिखा	५५	२९	परिभव	४३	२२	परिस्तुता	१९४	३९
परिग्रह	२७१	२३७	परिभाषण	३६	१४	परीक्षक	१९७	७
परिघ	{ १६० २३२	{ ९१ २७	परिभूत	२१७	१०६	परीभाव	४३	२२
परिघातिन्	१६०	९१	परिमल	{ ३१ २२१	{ १० १३	परीवर्त	१८१	८०
परिचय	२२३	२३	परिरम्भ	२२५	३०	परीवाद	३६	१३
परिचर	१५४	६२	परिवर्जन	१६४	११४	परीवाप	२५०	१२९
परिचर्या	१३८	३५	परिवाद	३६	१३	परीवार	२५८	१६९
परिचान्य	१३५	२०	परिवादिनी	३९	३	परीवाह	५०	१०
परिचारक	१९०	१७	परिवापित	२१२	८५	परीधि	१३७	३२
परिणत	२१५	९६	परिवित्ति	१४२	५६	परीसार	२२३	२१
परिणय	१४२	५६	परिवृढ	१९८	११	परीहास	४५	३२
परिणाम	२२२	१५	परिवेत्	१४२	५५	परुत्	२७९	२०
परिणाय	१९५	४५	परिवेष	२३	३२	परुप	३७	१९
परिणाद	१२७	११४	परिव्याघ	{ ७३ ७८	{ ३० ३०	परुस्	९५	१६२
परितम्	२७७	१३				पेरत	१६४	११७
						परेतराज	१४	५८

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक					
परेधावि	२७९	२१	पक	{ १८२	८९	पक्वात्पाप	४३	९५					
परेद्रुका	१७९	७				{ २६४	२०२	पक्विम	२११	८१			
परैषित	१९	१८	पक्षगाण्ड	१८८	६	पक्विमा	१७	१					
परोष्णी	१०१	२६	पञ्जकपा	८४	९८	पक्वमोक्षर	५९	७					
पर्कटीन्	७३	१२	पञ्जक	११७	३३	पस्त्य	३२	५					
पर्कनी	८४	१ २	पल्लप्लु	९२	१४७	पशुप्य	१०३	११					
पर्कन्य	२५३	१४३	पलाक	१७९	२२	पशु	१३१	९८					
पर्व	{	६९	१४	{	६९	१४	पाक	{	१३	३८			
		७२	२९		७२	२९			२२	८			
		२९	१२		९३	१५४			पाकक	८९	१२६		
पर्णशास्त्र	६२	६	पर्णशिव	६८	५	पाकशासन	३२	४१					
पर्णत	८१	७९	पर्णिकनी	१ ७	१२	पाकशासनि	१३	४६					
पर्णह	१३१	१३८	पर्णित	११२	४१	पाकस्थान	१७१	२७					
पर्णदम	१३८	३५	पस्वक	१३१	१३८	पक्व	{	१७३	४२				
पर्णतामू	३	१४	पस्व	७	१४					{ १८६	१०९		
पर्णद	{	१३९	३७	पस्वक	५४	२८	पाकण्ड	१४	४५				
		२२६	३३	पव	२२४	२४	पक्वकर्म्य	१	२८				
पर्णवस्था	२३३	२१	पवनाशान	४७	८	पक्वाकिका	१९२	२९					
पर्णात	१७६	५७	पवन	{	१५	६३	पाठ	२७६	७				
पर्णाति	२१९	५					{ २२४	२४	पाठवर	१ १	२५		
पर्णाद	{	१३८	३७	पवमाम	१५	६३	पाठक	{	३२	१५			
		२५४	१४६	पवि	१३	४७					{ १३८	१५	
पर्णास्रयन	२२५	३२	पवित्र	{	९६	१३६	पाठक्य	{	७१	२			
पर्णस्रयन	१३३	३					{ १४				४५	{ ७७	५४
पर्णवना	१३७	३२					{ २ ७				५५	पाठक	७७
पर्णत	६५	१	पवित्रक	५२	१३	पाठ	{	१३४	१४				
पर्णन्	{	९५	१६२	पशुपति	१	३	पाठा	{	८२	८४			
		२४९	१२१	पशुमेरुप	२२७	३९					८२	८४	
पर्णतीथि	२५	७	पशुरज्ज	१७९	७३	पाठिन्	८१	८					
पर्णुका	११८	६९	पमात्	२७२	२४३	पाठीन	५२	१८					

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	
पाणि	१२१	८१	पादाग्र	११९	७१	पारसीक	१५१	४५	
पाणिगृहीती	१०५	५	पादागद	१२६	१०९	पारस्त्रेण्य	१०९	२४	
पाणिघ	१८९	१३	पादात	१५५	६७	पारायण	२१८	२	
पाणिपीडन	१४२	५६	पादातिक	१५५	६६	पारावत	९९	१४	
पाणिवाद	१८९	१३	पादुका	१९२	३०	पारावताघ्नि	९३	१५०	
पांडर	३२	१२	पादू	१९२	३०	पारावार	{ ४९ १ २९६ ३५		
पांडु	३२	१३	पादुकृत्	१८८	७	पाराशरिन्		१३९	४१
पाडुकम्बलिन्	१५३	५४	पानगोष्ठिका	१९४	४२	पारिकाक्षिन्	१३९	४२	
पाडुर	३२	१३	पानपात्र	१९५	४३	पारिजातक	{ १३ ५० ७२ २६		
पातक	२९५	३३	पानभाजन	१७२	३२	पारितथ्या		१२५	१०३
पाताल	{ ४६ १ २६४ २०२	१	पानीय	४९	४४	पारिप्लव	२१०	७५	
			पानीयशालिका	६३	७	पारिभद्र	७२	२६	
पातुक	२०१	२७	पान्थ	१४६	१७	पारिभद्रक	७७	५३	
पात्र	{ ५० ८ १३३ २४ १७२ ३३ २६० १७९	१	पाप	{ २८ २३ २०६ ४७	८२	८५	पारिभाव्य	८९	१२६
			पापचेली		८२	२३	पारियात्रिक	६६	३
			पामन्	२८	२३	पारिषद	११	३५	
			पामन	११५	५३	पारिहार्य	१२६	१०७	
पात्री	२९८	४२	पामन्	११५	५३	पारी	२८८	१०	
पात्रीव	२९६	३५	पामन	११६	५८	पारुष्य	३६	१४	
पाथस्	४९	४	पामर	१९०	१६	पार्थिव	१४३	१	
पाद	{ ६६ ७ ११९ ७१ १८३ ८९ २४३ ८९	७	पामा	११५	५३	पार्वती	११	३७	
			पायस	{ १२९ १२८ १३६ २४	११५	७३	पार्वतीनदन	१२	३९
			पायस		१२८	८५	पार्श्व	{ १२० ७९ २२७ ४१	
पादकटक	१२६	११०	पाय्य	१८२	८५	पार्श्वभाग	१५०		४०
पादग्रहण	१३९	४१	पार	५०	८	पार्श्वस्त्रिय	११८	६९	
पादप	६८	५	पारद	१८४	९९	पार्थिण	११९	७२	
पादवन्धन	१७६	५८	पारपर्योपदेश	१३४	१२	पार्थिणग्राह	१४५	१०	
पाद्य	१३८	३३	पारशव	२६६	२१०				
पादस्त्रोट	११५	५२	पारश्वधिक	१५६	७०				

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	
पाकम	९६	२६७	पिच्छ	{ १०२	३१	पितृपित	१११	२३	
पाकंकी	८८	१२१	{ २९४	१	पठमसू	२४	३		
पाकघ	३१	१४	पिच्छा	{ ७५	४७	पितृकन	३६८	१२८	
पाकि	{ १६०	९३	पिच्छक	{ २८४	९	पितृभ्य	११	३१	
	२६३	१९७		१७४	४६	पितृसंक्षिप्त	३९८	१३	
पाकिन्दी	८९	१०८	पिच्छिभ्य	{ ७५	४६	पत्त	११७	६२	
पावक	१४	५४	पिच्छ	{ ७८	६२	पभ्य	१४१	५१	
				१६४	११५	पिच्छत्	१	२	३४
पाघ	{ १२४	९८	पिच्छर	{ १८५	१	३	पिधान	१९	१३
				२९४	३१	पिनद	१७८	६२	
पाघक	१९५	४५	पिच्छल	१६२	९९	पिनाक	{ ३१	२५	
पाघिन्	१५	६१	पिट	१७	२६		{ २३	१४	
पाघुपत	८१	८१	पिटक	{ ११५	५३	पिनाकिन्	१	३१	
पाघुपास्व	१६५	२		{ १९२	२९	पिपाछा	१७६	७७	
पाघ्यास्व	२११	८१	पिठर	{ १७१	३१	पिपीत्स्विका	२८४	८	
पाघ्या	२२७	४२		{ २६१	१८८	पिपस	७१	२	
पाघ्याय	६६	४	पिठ	{ १८४	९८	पिप्यधी	८४	७	
पाघ्यावदारम	१९३	३४		{ १८५	१	४	पिप्यधीमूत्र	१८६	११
पिक	१	१९	पिठक	{ २८	१८	पिण्ड	११४	४९	
पिक्व	३३	१९		१२	१२८	पिण्ड	११६	६	
पिक्वल	{ २३	३१	पिठिका	१५१	५६	पिण्डग	३३	१६	
			पिठीठक	७६	५२	पिण्डाच	७	११	
पिक्वल	१८	४	पिण्ड्याक	{ २९५	३२	पिण्ड्यात्	११७	६३	
पिथ	{ १२	७७	पिठौ	११२	३७	पिण्डुम	{ १९	११४	
				२८	१८		{ २७	१०	
पिथीहस	११३	४४	पिथमद	{ १११	३३	पिण्डुना	{ २५९	१२७	
पिणु	१८५	१	पिथल	११०	२८		१	१३३	
पिणुमद	७८	६२	पिथलशन	११०	२१	पिथक	१७८	४८	
पिणुठ	७४	८	पिथमी	{ १४	५८	पिथलशन	१७२	३०	
पिण्ट	१८५	१		{ १७	२	पिण्ठा	१३२	३१	

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.		
पीठ	१३१	१३८	पुज	१०४	४२	पुर्	६१	१		
पीडन	१६३	१०९	पुटभेद	५०	७	पुर	{	७३ ३४		
पीडा	४९	३	पुटभेदन	६१	१			२६१ १८३		
पीत	३२	१४	पुटी	२९८	४२	पुरस्	२७६	७		
पातदारु	७७	५३	पुडरीक	{	१८ ३	पुर.सर	१५६	७२		
पीतद्रु	{	७८ ६०				५७	४१	पुरतस्	२७६	७
						८४	१०१	२२९	११	पुरद्वार
पीतन	{	७२ २७	पुडरीकाक्ष	८	१९	पुरन्दर	१२	४१		
			पुड्र	९५	१६३	पुरन्ध्री	१०५	६		
			पुड्रक	८०	७२	पुरस्कृत	२४२	८४		
पीतसारक	७५	४३	पुण्य	{	२८ २४	पुरस्तात्	२७३	२४६		
पीता	१७३	४१	पुण्यक			१३९	३७	पुरा	२७४	२५३
पीताम्बर	८	१९	पुण्यजन	१५	६०	पुराण	{	३४ ५		
पीन	२०८	६१	पुण्यजनेश्वर	१६	६९			२११ ७७		
पीनस	११५	५१	पुण्यभूमि	५९	८	पुरातन	२११	७७		
पीनोन्नी	१७९	७१	पुण्यवत्	१९६	३	पुरावृत्त	३४	४		
पीयूष	{	१३ ४८	पुत्तिका	१०१	२७	पुरी	६१	१		
			पुत्र	११०	२७	पुरीतत्	११८	६६		
पीडु	{	७२ २८	पुत्रिका	११०	२७	पुरीष	११८	६८		
			२६३	१९३	१९२	२९	पुरु	२०८	६३	
पीडुपर्णी	{	८२ ८४	पुत्रौ	११२	३७	पुरु	{	२९ २९		
			९१	१३९	२४५			२०	७२ २५	
पीवन	२०८	६१	पुनःपुनर्	२७५	२	पुरुषोत्तम	{	१०४ १		
पीवर	२०८	६१	पुनर्	{	२७४ २५३			२६७	२१८	
पीवरस्तनी	१७९	७१	पुनर्नवा			९२	१४९		पुरुहू	२०८
पुंश्रुली	११०	१०	पुनर्भव	१२१	८३	पुरुहूत	१२	४१		
पुक्कस	१९०	२०	पुनर्भू	१०९	२३	पुरोग	१५६	७२		
पुख	२८८	१७	पुन्राग	७२	२५	पुरोगम	१५६	७२		
पुंगव	२०८	५९	पुमस्	१०४	१	पुरोगामिन्	१५६	७२		
पुच्छ	१५२	५०								

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
पुरोबाध	२०	२१	पुष्पकिन्	१२	२१	पूर्णकुम्भ	१४९	३२
पुरोभस्	१४४	५	पुष्पवती	१८	२	पूर्णिमा	२५	७
पुरोमायिन्	२५	४६	पुष्पवन्तौ	२५	१	पूर्व	१३७	२८
पुरोहित	१४४	५	पुष्पसमय	२७	१८	पूर्व	{ २११ ८	
पुराक	२२८	५	पुष्प	{ २१ २२		पूर्व	{ २५१ १३४	
पुरिञ्ज	५	०	पुस्त	{ २५४ १४६		बंज	११३	४३
पुरिन्द	१९	२	पुस्त	१०२	२८	पूर्ववैष	७	१२
पुरीगजा	१२	४५	पूग	{ ९६ १६९		पूर्ववर्षत	६६	२
पुरित	२१५	९७	पूजा	{ २३१ २		पूर्व	१७	१
पुरकर	{ १७ १		पूजा	१३८	३४	पूर्वेषुस्	२७९	२१
	{ ४९ ४		पूजित	२१५	९८	पूषन्	२२	२९
	{ ५७ ४१		पूज्य	{ १९६ ५		पूषिक	२२	९
	{ ९२ १४५		पूज्य	{ २५४ १५		पूष्य	३५	१
पुष्कराह	{ २३१ १८६		पूत	{ १४ ४५		पूष्यना	{ १५७ ७८	
	{ १० २२		पूत	{ १७ २३		पूष्यना	{ १५८ ८१	
पुष्करिणी	५४	२७	पूतना	{ २७ ५५		पूष्यक	२७५	३
पुष्कल	२७	५८	पूतना	७७	५९	पूष्यकपी	८३	९२
पुष्ट	२१५	९७	पूतिक	७७	४८	पूष्यगात्मा	{ २९ ३१	
पुष्य	{ ७ १७		पूतिकरज	{ ७६ ४८		पूष्यगात्मा	{ १३९ ३८	
	{ १८ २१		पूतिकरज	{ ७६ ४८		पूष्य न	{ १९ १६	
पुष्यक	{ २९१ २३		पूतिकरज	{ ७७ ५४		पूष्य न	{ १९ १६	
	{ १६ ७		पूतिकरज	{ ७८ ६		पूष्यनिष	{ १९४ १५	
पुष्यकेतु	{ १८५ १		पूतिकरज	{ ७८ ७		पूष्यनिष	२१४	९३
	{ १८५ १		पूतिकरज	{ ७८ ७		पूष्यिणी	५८	३
पुष्यकेश	१८५	१	पूष	१७४	४८	पूष्य	{ १७२ ३७	
पुष्यकेश	१८	४	पूर	२८९	२		{ १७३ ४	
पुष्यकेशन्		२६	पूरणी	७५	४६	{ २८ ३		
पुष्यकियक	७५	४४	पूरित	२१५	९८	पूषुक	{ १३ ३८	
पुष्यकल	७१	२१	पूरय	१४	१		{ १७४ ४७	
पुष्यकल	१५३	७१	पूर्ण	{ २९ ६५		पुषुरोमन्	{ २२८ ३	
पुष्यकल	७	१७	पूर्ण	{ २१५ ९८			{ ५२ १७	

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.		
पृथुल	६०	२०८	पैतृष्वस्त्रीय	१०९	२५	प्रकाश	{ २३ ३४			
पृथ्वी	{ ५८	६	पोटागल	{ ९५	१६२	प्रकीर्णक	{ २६७	२१८		
	{ १७२	३७		{ ९५	१६३		{ १४८	३१		
पृथ्वीका	८८	१२५	पोटा	१०७	१५	प्रकीर्ण	७६	४८		
									पृदाकु	४७
पृश्नि	११४	४८	पोतवणिज्	५१	१२	प्रकोष्ठ	१२०	८०		
पृश्निपर्णी	८३	९२	पोतवाह	५१	१२	प्रक्रम	२२४	२६		
पृषत्	५०	६	पोताघान	५२	१९	प्राक्रिया	१४८	३१		
पृषत	{ ५०	६	पोत्र	२६०	१८०	प्रक्षण	३८	२४		
	{ ९८	१०	पोत्रिन्	९७	२	प्रकाण	३८	२४		
पृष्क	१५९	८६	पौढर्य	८९	१२७	प्रक्षेडन	१५९	८७		
पृषदश्व	१५	६२	पौत्री	११०	२९	प्रगंड	१२०	८०		
पृषदाज्य	१३६	२४	पौर	९६	१६६	प्रगतजानुक	११४	४७		
पृष्ठ	१२०	७८	पौरस्त्य	२११	८०	प्रगल्भ	२०१	२५		
पृष्ठवशाघर	१२०	७६	पौरुष	{ १२२	८७	प्रगाढ	२३५	४४		
पृष्ठास्थि	११८	६९		{ २६८	२२३	प्रगुण	२१०	७२		
पृष्ठथ	{ १५१	४६	पौरोगव	१७१	२७	प्रगे	२७९	१९		
	{ २२७	४१	पौर्णमास	१४१	४८	प्रग्रह	{ १६५ ११९			
पेचक	{ ९९	१५	पौर्णमासी	२५	७		{ २७१ २३७			
	{ २२८	६	पौलस्त्य	१६	६९	प्रग्राह	२७१	२३७		
पेटक	१९२	२९	पौलि	१७४	४७	प्रग्रीव	२९६	३५		
पेटा	१९२	२९	पौष	२६	१५	प्रघण	६४	१२		
पेटी	२९८	४२	पौष्पक	१८५	१०३	प्रघाण	६४	१२		
पेलव	२०९	६६	प्याट्	२७६	७	प्रचक्र	१६१	९६		
पेशल	{ १९०	१९	प्रकांड	{ २८	२७	प्रचलायित	२०२	३२		
	{ १६५	२०५		{ ६९	१०	प्रचुर	२०८	६३		
पेशी	१०३	३७	प्रकाम	१७६	५७	प्रचेतस्	१५	६		
पैटर	१७४	४५	प्रकार	२५७	१६२					
पैतृष्वसेय	१०९	२५								

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक
प्रचीरनी	८३	१४	प्रथाप	१४६	२	प्रथिभू	१९५	४४
प्रच्छदपट	१२७	११६	प्रथापत्त	८१	८१	प्रथिमा	१९३	३५
प्रच्छन्न	६४	१४	प्रथि	२७३	२४५	प्रथिमान	{ १५ १९३	{ ३९ ३५
प्रच्छरिका	११६	५५	प्रथिकर्मन्	१२४	९९	प्रथिसुक्त	१५५	६५
प्रक्षन्	२२४	२५	प्रथिकृत्	२१२	८४	प्रथिपौफिन्	१९१	२५
प्रक्षिन्	१५६	७३	प्रथिकृति	१९३	३६	प्रथिस्यत्	२४६	१७
प्रक्षा	२३३	३२	प्रथिकृत्त	२७	४४	प्रथिवात्तन्ना	१९३	३६
प्रक्षात्	१८	१६	प्रथिद्विष	२४	४२	प्रथिवात्म्य	३५	१
प्रक्षापति	८	१७	प्रथिस्माति	२९५	२८	प्रथिविषया	८४	९९
प्रक्षावती	११	३	प्रथिग्रह	१५८	७९	प्रथिशासन	२२६	३४
प्रक्षा	{ २९ १७	{ १ १२	प्रथिग्रह	१३२	१३९	प्रथिष्वा	११५	५१
प्रक्षान	२४९	१२२	प्रथिपा	४३	२६	प्रथिभय	२५५	१५२
प्रक्ष	११४	४७	प्रथिपासन	१६४	११४	प्रथिभव	३	५
प्रक्षीन	१३	३७	प्रथिष्वाया	१९३	३५	प्रथिभुम्	३८	२६
प्रक्षय	{ १२४ २५४	{ २५ १५१	प्रथिशागर	२२५	२८	प्रथिहम्म	२२४	२७
प्रक्षय	३४	४	प्रथिशात	२१७	१८	प्रथिसर	२५९	१७४
प्रक्षय	३५	१३	प्रथिज्ञान	३	५	प्रथिरीष	१२८	१२
प्रक्षाडी	५६	३५	प्रथिज्ञान	१८१	८१	प्रथिहारक	१८९	११
प्रक्षिभि	{ १४५ २४५	{ १३ १	प्रथिनिधि	१९३	३६	प्रथि	८१	७६
प्रक्षिहित	२१२	८६	प्रथिपत्	{ २४ २९	{ १ १	प्रथीक	{ ११८ २२९	{ ७ ७
प्रक्षिति	{ १३५ १७४	{ २ ४५	प्रथिपत्त	२१७	१८	प्रथीकार	१६३	११
प्रक्षुत्	२१७	१९	प्रथिपासन	१३७	२	प्रथीकाम्य	१९४	३७
प्रक्षेप	२	२५	प्रथिपद्	२४	४१	प्रथीकान्	१९६	५
प्रक्षम	१११	७७	प्रथिपम्भ	२२४	२७	प्रथीपी	१७	१
प्रक्ष	{ १२१ १२१	{ ८४ ८५	प्रथिपम्भ	४२	९	प्रथीष	{ १९७ २४२	{ ९ ८२

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.		
प्रतीपदर्शिनी	१०४	२	प्रथम	२११	८०	प्रभव	२६६	२१०		
प्रतीर	५०	७				२५३	१४४	प्रभा	२३	३४
प्रतीहार	६४	१६	प्रथा	२२०	९	प्रभाकर	२२	२८		
			प्रथित	१९७	९	प्रभात	२४	३		
			प्रदर	२५७	१६४	प्रभाव	१४६	१९		
प्रदीप	१३१	१३८	१४६	२०						
प्रतौली	६२	३	प्रदीपन	४८	१०	प्रभिन्न	१४९	३६		
प्रल	२१	७७	प्रदेशन	१४८	२७	प्रभु	१९८	११		
प्रत्यक्	२८०	२३	प्रदेशिनी	१२१	८१	प्रभूत	२०८	६३		
प्रत्यक्पूर्णी	८२	८९	प्रदोष	२४	५६	प्रभ्रष्टक	१३१	१३५		
प्रत्यक्श्रेणि	८२	८८				प्रद्युम्न	९	२५	प्रमय	११
			प्रत्यक्ष	२११	७९	प्रद्राव	१६४	१११	प्रमथन	१६४
प्रत्यग्र	२११	७७	प्रघन	१६२	१०३	प्रमथाधिप	१०	३१		
प्रत्यन्त	५९	७	प्रधान	२९	२९	प्रमद	२८	२४		
प्रत्यन्तपर्वत	६६	७				१४४	५	प्रमदवन	६७	३
प्रत्यय	२५४	१४७				२०७	५७	प्रमदा	१०५	३
प्रत्यायित	१४५	१३				२४९	१२२	प्रमनस्	१९७	७
प्रत्यर्थिन्	१४५	११	प्रधि	१५३	५६	प्रमा	२२०	१०		
प्रत्यवसित	२१८	११०	प्रपच	२३२	२८	प्रमाण	२३७	५३		
प्रत्याख्यात	२०४	४०	प्रपद	११९	७१	प्रमाद	४४	३०		
प्रत्याख्यान	२२५	३१	प्रपा	६३	७	प्रमापण	१६४	११२		
प्रत्यादिष्ट	२०४	४०	प्रताप	६६	४	प्रमिति	२२०	१०		
प्रत्यादे	२२५	३१	प्रपितामह	१११	३३	प्रमीत	१३६	२६		
प्रत्यालीढ	१५९	८५	प्रपुत्राढ	९२	१४७				१६४	११७
प्रत्यासार	१५८	७९	प्रपौढरीक	९१	१२७	प्रमीला	४६	३७		
प्रत्याहार	२२२	१६	प्रफुल्ल	६८	७				२५९	१७६
प्रत्युत्क्रम	२२४	२६	प्रबन्धकल्पना	३५	६	प्रमुख	२०७	५७		
प्रत्युषस्	२४	२	प्रबोधन	१२८	१२२	प्रमुदित	२१६	१०३		
प्रत्यूप	२४	२	प्रभजन	१५	६३	प्रमोद	२८	२४		
प्रत्यूह	२२३	१९				प्रयत	१४०	४५		

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
प्रचीरणी	८३	९४	प्रताप	१४३	२	प्रतिभू	१९५	४४
प्रच्छदपट	१२७	११६	प्रतापघ	८१	८१	प्रतिमा	१९३	३५
प्रच्छन्न	३४	१४	प्रति	२७३	२४५	प्रतिमान	{ १५ ३९ १९३ ३५	
प्रच्छर्विका	११६	५५	प्रतिकर्मन्	१२४	९९			
प्रचन	२२४	२५	प्रतिकृष्ण	२१२	८४	प्रतिमुक्त	१५५	३५
प्रचरिण	१५६	७३	प्रतिक्रमि	१९३	३६	प्रक्रियेभिन्	१९१	२५
प्रच्य	२३३	१२	प्रतिकृष्ट	२ ७	४४	प्रतिमन्त्र	२४६	१ ७
प्रच्यता	१ ८	१६	प्रतिक्षित	२ ४	४२	प्रतिमातना	१९३	३६
प्रजापति	८	१७	प्रतिस्पाति	२२५	२८	प्रतिवात्म्य	३५	१
प्रजावती	११	३	प्रतिग्रह	१५८	७९	प्रतिशिया	८४	९९
प्रज्ञा	{ २९ १ ७	{ १ १२	प्रतिग्रह	१३२	१३९	प्रतिश्यासन	२२६	३४
			प्रतिषा	४३	२६	प्रतिषया	११५	५१
प्रज्ञान	२४९	१२२	प्रतिपातन	१६४	११४	प्रतिभय	२५५	१५२
प्रज्ञ	११४	४७	प्रतिष्ठाभा	१९३	३५	प्रतिमन्त्र	३	५
प्रज्ञीन	१ ३	३७	प्रतिशामर	२२५	२८	प्रतिभुम्	३८	२६
प्रजय	{ १२४ २५४	{ २५ १५१	प्रतिश्यात	२१७	१ ८	प्रतिहम्भ	२२४	२७
			प्रतिशान	३	५	प्रतिशर	२५९	१७४
प्रजय	३४	४	प्रतिशान	१८१	८१	प्रतिशिरा	१२८	१२
प्रज्याह	३५	१३	प्रतिश्यान	३८	२६	नञ्	२ ४	४१
प्रज्याही	५६	३५	प्रतिनिधि	१९३	३६	प्रतिहारक	१८९	११
प्रज्जिभि	{ १४५ २४५	{ १३ १	प्रतिपत्	{ २४ २९	{ १ १	प्रतीक	{ ११८ २२९	{ ७ ७
			प्रतिपत्			८१		
प्रज्जिहित	११२	८६	प्रतिपत्	२१०	१ ८	प्रतीकार	१६३	११
प्रज्जित	{ ११५ १७४	{ २ ४५	प्रतिपत्	१३७	२९	प्रतीकार	१९४	३७
			प्रतिपादन	२ ४	४१	प्रतीकार	१९४	३७
प्रजुत	२१७	१ ७	प्रतिपत्	२२४	२७	प्रतीक	१९६	५
प्रज्येय	२ ७	२५	प्रतिपत्	१ ३	३५	प्रतीची	१७	१
प्रजन	२११	७७	प्रतिपत्	४२	२	प्रतीक	{ १९७ २४२	{ ९ ८२
प्रज्य	{ १२१ १३१	{ ८४ ८५	प्रतिपत्	२ १	२५			

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.		
प्रतीपदर्शिनी	१०४	२	प्रथम	२११	८०	प्रभव	२६६	२१०		
प्रतीर	५०	७				२५३	१४४	प्रभा	२३	३४
प्रतीहार	६४	१६	प्रथा	२२०	९	प्रभाकर	२२	२८		
			प्रथित	१९७	९	प्रभात	२४	३		
			प्रदर	२५७	१६४	प्रभाव	१४६	१९		
प्रदोष	१२१	८१	१४६	२०						
प्रतौली	६२	३	प्रदीप	१३१	१३८	प्रभिव्र	१४९	३६		
प्रत्न	२१	७७	प्रदीपन	४८	१०	प्रभु	१९८	११		
प्रत्यक्	२८०	२३	प्रदेशन	१४८	२७	प्रभूत	२०८	६३		
प्रत्यकूपर्णी	८२	८९	प्रदेशिनी	१२१	८१	प्रभ्रष्टक	१३१	१३५		
प्रत्यकूश्रेणि	८२	८८	प्रदोष	२४	५६	प्रमथ	११	३५		
			प्रद्युम्न		९	२५	प्रमथन	१६४	११५	
प्रत्यक्ष	२११	७९	प्रद्राव	१६४	१११	प्रमथाधिप	१०	३१		
प्रत्यग्र	२११	७७	प्रघन	१६२	१०३	प्रमद	२८	२४		
प्रत्यन्त	५९	७	प्रघान	२९	२९	प्रमदवन	६७	३		
प्रत्यन्तपर्वत	६६	७				१४४	५	प्रमदा	१०५	३
प्रत्यय	२५४	१४७				२०७	५७	प्रमनस्	१९७	७
प्रत्ययित	१४५	१३				२४९	१२२	प्रमा	२२०	१०
प्रत्यर्थिन्	१४५	११	प्रधि	१५३	५६	प्रमाण	२३७	५३		
प्रत्यवसित	२१८	११०	प्रपच	२३२	२८	प्रमाद	४४	३०		
प्रत्याख्यात	२०४	४०	प्रपद	११९	७१	प्रमापण	१६४	११२		
प्रत्याख्यान	२२५	३१	प्रपा	६३	७	प्रमिति	२२०	१०		
प्रत्यादिष्ट	२०४	४०	प्रताप	६६	४	प्रमीत	१३६	२६		
प्रत्यादे	२२५	३१	प्रपितामह	१११	३३				१६४	११७
प्रत्यालीढ	१५९	८५	प्रपुत्राढ	९२	१४७	प्रमीला	४६	३७		
प्रत्यासार	१५८	७९	प्रपौडरीक	९१	१२७				२५९	१७६
प्रत्याहार	२२२	१६	प्रफुल्ल	६८	७	प्रमुख	२०७	५७		
प्रत्युत्क्रम	२२४	२६	प्रबन्धकल्पना	३५	६	प्रसुदित	२१६	१०३		
प्रत्युषस्	२४	२	प्रबोधन	१२८	१२२	प्रमोद	२८	२४		
प्रत्यूप	२४	२	प्रभजन	१५	६३	प्रयत	१४०	४५		
प्रत्युह	२२३	१९								

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	
अथर्व	१७४	४५	अथर्व	१२४	९८	मासक	२४६	१ ४	
अथर्व	२२४	२३	अथर्व	१५१	४२	प्रसू	११	२९	
अथर्व	२२४	२४	अथर्व	१२	८	प्रसू	२४९	२२९	
अथर्व	९	२३	अथर्व	२११	८१	प्रसूता	१ ८	१६	
अथर्व	२८	२२	अथर्व	३५	१	प्रसूत	२२१	१	
		४५	३३	अथर्व	२२४	२५	प्रसूतिका	१ ८	१६
		११४	११४	अथर्व	२	२५	प्रसूतिका	५९	२
अथर्व	३६	१५	अथर्व	१५६	७२	अथर्व	७१	१७	
अथर्व	२३७	५६	अथर्व	१७७	६३	अथर्व	२४९	१२३	
अथर्व	१११	४२	अथर्व	१	७	अथर्व	११२	१७	
अथर्व	२ ७	५७	अथर्व	५२	१४	अथर्व	२१६	८८	
अथर्व	२२२	१८	अथर्व	२	१६	अथर्व	११९	७२	
अथर्व	१५३	५२	अथर्व	१९४	३९	अथर्व	१२१	८५	
अथर्व	१४	३	अथर्व	१६३	१ ८	अथर्व	१७	२३	
अथर्व	२१९	३	अथर्व	२२४	२३	अथर्व	४	७	
अथर्व	४	७	अथर्व	१६१	९६	अथर्व	६६	८	
		१८३	९३	अथर्व	२९१	१	अथर्व	२७७	१६१
अथर्व	२४५	२ ४	अथर्व	२६५	२ ८	अथर्व	२२४	२८	
		२९२	१८	अथर्व	७	१५	अथर्व	६३	५
अथर्व	१६४	११३	अथर्व	२१२	८४	अथर्व	१८२	८९	
अथर्व	११६	५५	अथर्व	२७७	१	अथर्व	२४३	८८	
अथर्व	१६२	१ ३	अथर्व	२	१६	अथर्व	८१	७९	
अथर्व	२२३	२	अथर्व	२४३	९१	अथर्व	१८२	८५	
अथर्व	१९६	४	अथर्व	१२४	९९	अथर्व	१३१	९५	
अथर्व	३४	७	अथर्व	१३०	१७९	अथर्व	१७	२३	
		१८	अथर्व	१२४	१	अथर्व	६६	५	
अथर्व	१११	७६	अथर्व	९३	१५२	अथर्व	११८	६६	
		८८	अथर्व	२ २	३१	अथर्व	२५	६	
		८५	अथर्व	१९७	९	अथर्व	१५८	८२	
अथर्व	२७७	५७	अथर्व	२१२	१४	अथर्व	१२१	८४	

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
प्राहि	५४	२६	प्राजी	१०७	१२	प्रालम्बिका	१२५	१०४
प्रहेलिका	३४	६	प्राप्य	२०८	६३	प्रालय	२०	१८
प्रहस	२१६	१०३	प्राड्विवाक	१४४	५	पावरण	१२८	११८
प्रांशु	२०९	७०	प्राण	{ १५ ६३ १६२ १०२ १६५ ११९ १८५ १०४	प्रावार	१२८	११७	
प्राक्	{ २७८ १६ २८० २३	प्राणुत			१२७	११३		
		प्राणुप्			२७	१९		
प्राकाम्य	११	३६	प्राणुपायणी	८२	८६			
प्राकार	६२	३	प्राणिन्	२९	३०	प्रास	१६०	९३
प्राकृत	१८९	१६	प्राणिद्युत	१५५	४६	प्रासग	१५४	५७
प्राग्दक्षिण	५९	७	प्रातर	२७९	१९	प्रासग्य	१७७	६४
प्राग्वश	१३५	१६	प्राथमकल्पिक	१३४	११	प्रासाद	६३	९
प्राग्रहर	२०७	५८	प्रादुस्	{ २७४ २५६ २७७ १२	प्रासिक	१५६	७०	
प्राग्र्य	२०७	५८			प्राह	२४	४	
प्राघार	२२१	१०	प्रादेश	१२१	८३	प्रिय	{ १११ ३५ २०७ ५३	
प्राघुणक	१३८	३४	प्रादेशान	१३७	३०			
प्राघूर्णिक	१३८	३४	प्राध्यम्	२७५	४	प्रियक	{ ७५ ४२ ७५ ४४ ७७ ५६ ९८ ९	
प्राचक्षा	२८४	८	प्रान्तर	६१	१७			
प्राची	१७	१	प्राप्त	{ २१२ ८६ २१६ १०४				
प्राचीन	६२	३	प्राप्तपञ्चत्व	१६४	११७			
प्राचीना	८२	८५	प्राप्तरूप	२५१	१३१	प्रियगु	{ ७७ ५५ १६९ २०	
प्राचीनावीत	१४१	५०	प्राप्ति	{ ११ ३६ २३९ ६९		प्रियता	४४	२७
प्राच्य	५९	७	प्राप्य	२१४	९२	प्रियमद	२०३	३६
प्राजन	१६७	१२	प्राभृत	१४८	२७	प्रियाळ	७३	३५
प्राजितृ	१५४	५९	प्राय	{ १४३ ५२ २५५ १५३	प्रीत	२१६	१०३	
प्राश	१३३	५			प्रीति	२८	२४	
प्राशा	१०७	१२	प्रायस्	२७८	१७	प्रुष्ट'	२१५	९९
			प्रार्थित	२१५	९७	प्रेक्षा	{ २९ १ २६८ २२४	
			प्राळम्ब	१३१	१३६			

१-(प्राघूर्णिक प्राघुणक-प्राथित
 श्चाम्युत्यान व गौरवम्) । प्राळम्ब

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.			
श्रेया	१५३	५३	श्रीहयगु	७६	४९	शानित	१७३	४३			
श्रेयित	२१२	८७	श्रुत	१५२	४८	शोच	२१४	९४			
श्रेय	{	३९	२	श्रुत	२७५	९९	शोच	{	१२६	१२१	
		१६४	११७	श्रीप	१२२	९			१६८	१३	
		२३८	६०	श्रुत	२१८	११	शोचुन	२६	१५		
श्रेय	२७६	८	श्रु			शोचुमिक	२६	१५			
श्रेयन्	{	४४	२७	श्रु	४८	९	शोचुनी	२८३	६		
		४४	२७	श्रु			शुभ	६८	८		
श्रेय	२१८	१११	श्रु	८१	७९	शुभ	{	१८५	१०५		
श्रेय	२६७	२१९	श्रु	४७	७	शुभ		१८९	१९		
श्रेय	१९०	१७	श्रु	{	१६	९	शुभ	{	७३	२१	
श्रीधन	१३६	२६			१६८	१३			७४	३६	
श्रीधित	१३६	२६			१८१	८	१७	५			
श्रीध	१५१	४९			१६४	२	१७	५			
श्रीधपदा	२१	२२	१९१	२३	१७	५					
श्रीधी	५२	१८	श्रु	१६	९	शुभ	१७६	५६			
श्रीधपद	२७	१७	श्रु	१५६	७१	शुभ					
श्रीध	२११	७६	श्रु	१८७	१११	शुभ	१	२१			
श्रु	{	७३	३२	श्रु	६८	३	शुभ	७८	६४		
		७५	४६	श्रु	८१	७८	शुभ	५२	१६		
		५१	११	श्रु	६८	७	शुभ	२७३	१४		
श्रु	{	५४	२४	श्रु	७५	४५	शुभ	७४	३७		
		९	१३९	श्रु	६८	७	शुभ	{	८७	११६	
		१२	३४	श्रु	६८	७	शुभ		९३	१५१	
श्रु	{	१०	१९	श्रु	{	७७	५५	शुभ	{	७४	३६
		९६	३	९		१३६	२	४		४२	
श्रु	२३१	२४	श्रु	७७	५५	शुभ	२१४	५			
श्रु	९६	३	श्रु	६८	३	शुभ	११४	४८			
श्रुगम	२५२	१३८	श्रु	७७	५४	शुभ	१६१	९७			
श्रु	७	१८	श्रु	{	७८	६१	शुभ	१६५	११		
श्रीह	११८	६६			२	७	५६	शुभ	१	१०	

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
वन्धन	{ १४८	२६	बलवत्	{ ११३	४४	बहुकर	१९९	१७
	{ २२२	१४		{ २७५	२	बहुगर्हवाक्	२०३	३६
बन्धु	१११	३४	बलविन्यास	१५७	७९	बहुपाद	७३	३२
बन्धुजीवक	८०	७३	बला	८५	१०७	बहुप्रद	१९७	६
बन्धुता	१११	३५	बलाका	१०१	२५	बहुमूल्य	१२७	११३
बन्धुर	२०९	६९	बलात्कार	१६३	१०८	बहुरूप	१२९	१२८
बन्धुल	१०९	२६	बलाराति	१०२	४३		{ २०८	६३
बन्धुक	८०	७३	बलाहक	१८	१६	बहुल	{ २१८	११२
बन्धुक	८०	७३		{ १३४	१४		{ २६३	१९९
बधूक	७५	४४	बलि	{ १४८	२७	बहुला	८८	१२५
बभ्रु	२५८	१७०		{ २६३	१९५	बहुलीकृत	१७०	२३
बर्वर	८३	९०	बलिध्वसिन्	९	२१	बहुवारक	७३	३४
बर्वरा	९१	१३९	बलिन	११३	४५	बहुविधि	२१४	९३
बर्ह	{ १०२	३१	बलिपुष्ट	१००	२०	बहुवेतस	४९	९
	{ २७१	२३६	बलिभ	११३	४५	बहुसुता	८४	१००
बर्हपुष्प	९०	१३२	बलिभुज्	१००	२०	बहुसूति	१७९	७०
बर्हि	१४	५४	बलिर	११४	४९	बाकुची	८३	९६
बर्हिण	१०२	३०	बलिसन्नन्	४६	१	बाढ	{ १६	६७
बर्हिन्	१०२	३०	बलीवर्द	१७७	५९		{ २३५	४४
बर्हिपुष्प	९०	१३२		{ १७१	२७	बाण	{ १५९	८६
बर्हिर्मुख	७	९	बल्लव	{ १७६	५७	बाणा	{ २३५	४५
बर्हिष्ठ	८८	१२२	बल्वज	९५	१६३	वादर	१२६	१११
	{ ९	२४	बष्कयिणी	१७९	७१	बाधा	४९	३
बल	{ १५७	७८	बस्त	१८०	७६	बाघकिनेय	१०९	२६
	{ १६२	१०२	बस्ति	११९	७३	बाघव	१११	३४
	{ २६३	१९५	बहिर्द्वार	६४	१६	बाहृत	७०	१९
	{ २९०	२२	बहिष्ठ	२१८	१११		{ ८८	१२२
बलदेव	९	२३	बहिस्	२७८	१७	वाल	{ ११३	४२
बलभद्र	९	२३	बहु	२०८	६३		{ २६५	२०५
बलभद्रिका	९३	१५०						

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक									
मेला	१५१	५३	श्रीहस्त	७१	४९	काचित	१०१	४१									
मंसित	२१२	८७	मुत्	१५२	४८	काट	२१४	५४									
प्रेय	{ १९ ११४ ११७ ११८ १०	२ प्रोय ज्ञात	२१५ १०० २१८ ११	९९ ९ ११	कात् कास्तुन कास्तुमिक	{ १२१ १११ ११८ ११	२१ २१	१५ १५									
									प्रेय	२०९	८	फ	कास्तुनी	२८१	६		
									प्रेमत्	{ ४४ २७ ४४ २७	कला कलिकक	६८ ८१	९ ७९	कास्तुनी कस्तु	२८१ १८	६ ८	
प्रेम	२१८	१११	कवित्रक	८१	७९	केन	{ १८५ १५ १८९ १९										
प्रेष	२१७	११९	कविन्	४७	७९	केन	{ ७१ ११ ७४ १६	१९									
प्रेष्य	१९	१०	क	{ ११ ९ ११८ ११ १८९ ८०	९ ११ ८०	केनि केर केक	{ ७१ ११ ७४ १६	१९ ५									
प्रीक्षण	१११	२१							केक	१६	९	केका	१०१	५६			
प्रीक्षित	१११	२६							केकपापि	१५१	७१	के	१	२१			
प्रीष	१५२	६९	ककनिक	१८७	१११	केकुस	७८	६४									
प्रीषणा	२१	२२	ककनिका	१६	९	केका	१०१	५६									
प्रीषी	५२	१८	ककनिका	१५१	७१	के	१	२१									
प्रीषय	२७	१७	ककनिका	१८७	१११	केकुस	७८	६४									
प्रीषट	२११	७१	ककनिका	१६	९	केका	१०१	५६									
प्रक्ष	{ ७७ १२ ७१ ४१	ककनिका ककनिका	६८ ६८	७८ ७८	७८ ७८	केकुस केकुस	७८ ७८	६४ ६४									
									प्रक्ष	५१	११	ककनिका	७५	४५	केकुस	७४	६७
									प्रक्ष	५४	२४	ककनिका	७५	४५	केकुस	७४	६७
प्रक्ष	{ १ २ १ १९	ककनिका ककनिका	६८ ६८	७८ ७८	७८ ७८	केकुस केकुस	७८ ७८	६४ ६४									
									प्रक्ष	१	१९	ककनिका	७५	४५	केकुस	७४	६७
									प्रक्ष	१	१९	ककनिका	७५	४५	केकुस	७४	६७
प्रक्ष	{ १६ १ २११ २४	ककनिका ककनिका	६८ ७०	७८ ७०	७८ ७०	केकुस केकुस	७८ ७०	६४ ६४									
									प्रक्ष	१६	१	ककनिका	७५	४५	केकुस	७४	६७
प्रक्ष	२११	२४	ककनिका	७५	४५	केकुस	७४	६७									
प्रक्ष	६	१	ककनिका	६८	७०	केकुस	७४	६७									
प्रक्ष	२७२	११८	ककनिका	७७	७५	केकुस	७४	६७									
प्रक्ष	७	१८	ककनिका	७७	७५	केकुस	७४	६७									
प्रक्ष	११८	११	ककनिका	{ ७७ ७५ १११ १११	{ ७५ ७५ १११ १११	केकुस	{ ७४ ६७ १११ १११	{ ६७ ६७ १११ १११									

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
ब्रह्मसायुज्य	१४१	५१	भट	१५४	६१	भर्तृ	{ १११	३५
ब्रह्मसू	९	२७	भटित्र	१७४	४५		{ २३८	५९
ब्रह्मसूत्र	१४१	४९	भट्टारक	४१	१३	भर्तृदारक	४१	१२
ब्रह्मांजलि	१३९	३९	भट्टिनी	४१	१३	भर्तृदारिका	४१	१३
ब्रह्मासन	१३९	३९	भटाकी	८६	११४	भर्त्सन	३६	१४
ब्राह्म	{ २८	२१	भडिल	७९	६३	भर्मन्	{ १८३	९४
	{ १४१	५१	भंडी	८३	९१		{ १९४	३८
ब्राह्मण	१३२	४	भद्र	{ २८	२५	भल्ल	२९०	२१
ब्राह्मणयष्टिका	८३	८९		{ १७७	५९	भल्लातकी	७५	४२
ब्राह्मणी	८३	८९	भद्रकुम्भ	१४९	३२	भल्लुक	९७	३
ब्राह्मण्य	२२७	४१	भद्रदारु	७७	५३	भल्लुक	९७	४
ब्राह्मी	{ ११	३५	भद्रपर्णी	७४	३६	भव	{ १०	३४
	{ ३३	१	भद्रबला	९३	१५३		{ २६५	२०६
	{ ९१	१३७	भद्रमुस्तक	९५	१६०	भवन	६२	५
भ	२१	२१	भद्रयव	७९	६७	भवानी	११	३७
			भद्रश्री	१३०	१३६	भविक	२८	२६
भक्त	१७५	४८	भद्रासन	१४८	३१	भवितृ	२०१	२९
भक्षक	२००	२०	भय	४२	२१	भविष्णु	२०१	२९
भक्षित	२१८	११०	भयंकर	४२	२०	भव्य	२५५	१५४
भक्ष्यकार	१७१	२८	भयद्रुत	२०४	४२	भषक	१९१	२२
भग	{ १२०	७६	भयानक	{ ४२	१७	भस्त्रा	१९३	३३
	{ २३२	२६		{ ४२	२०	भस्मगाधिनी	८८	१२०
भगंदर	११६	५६	भर	१६	६६	भस्मगर्भा	७८	६३
भगवत्	८	१३	भरण	१९४	३८	भा	२३	३४
भगिनी	११०	२९	भरण्य	१९४	३८	भाग	१८३	८९
भङ्ग	५०	५	भरण्यभुज्	१९९	१९	भागधेय	{ २९	२८
भङ्गा	१६९	२०	भरत	१८९	१२	{ १४८	२७	
भङ्गि	२८४	८	भरद्वाज	९९	१५	भागिनेय	१११	३२
भग्य	१६६	७	भर्ग	१०	३३	भागिरथी	५५	३१
भजमान	१४७	२४				भाग्य	{ २९	२८
							{ २५५	१५५

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक		
वाक्यनय	७६	४९	वामिका	९१	११९	वामुचित	२०	२०		
वाक्यनय	९६	१६०	विक	४६	१	वसु	१६९	९२		
वाक्यनयिका	९८	१२	विकेय	४७	८	वस्त	२९५	३४		
वाक्य	४१	१४	विस्व	७३	३२	वहित	१६३	१७		
वाक्यि	{ २६ २६७	४८ २१८	वस	५७	४२	वपी	१४०	४६		
			वितकठिका	११	२५	वरा	२८	६०		
वाक्ये	१८	७७	वितप्रसन	५७	४१	वराविका	१२८	११७		
वाक्येवाक	८३	९	विषीनी	५६	३९	वरावी	{ ८३ २४०	९३ ७५		
वाक्य	११२	४	विस्त	१८३	४६	वराकुधि			११३	४४
वाक्य	२५	१३	वाच	{ २९ ११७	२८ ६०	वराभ्रातृ	१४	५४		
वाक्यि	१७३	४	वाचकौश			५७	४३	वरास्वति	२१	२४
वाक्य	१४३	१	वाचपूर	८१	७८	वापकर	१६१	९७		
वाक्यवा	५५	३३	वाचकौश	१६७	८	वापिद्रुम	७१	२		
वाक्यमू	१२	७९	वाच	१३३	२	वाक	१८५	१४		
वाक्यमु	१६३	१६	वाच	{ ४२ ४२ २७	१७ १९ २३४	वाच	२३	२८		
वाक्य	२७	१८				वाचस्व	११२	३		
वाक्ये	१२	४				वाचचारिन्	१४	४२		
वाक्यिक	{ १५१ २९५	४५ ३२	वाक	८१	८१	वाचम	७५	४१		
			वाक्या	११७	६४	वाचम	१४१	५१		
वाक्यिक	{ १२९ १७३ २२९	१२४ ४ ९	वाक्य	{ ८ २१७ १	१३ १८	वाचवर्भा	२	१४५		
			वाक्यि			१९	१	वाचवाक	७५	४१
			वाक्यद			२८९	१९	वाचन्	{ ८ २७	१६ ११४
वाक्य	१७८	२७	वाचपुत्र	४८	१					
वाक्य	१७३	४२	वाक्य	{ २२ १३३	२६ ५	वाचकम्पु	२४६	१४		
वाक्यक	९०	३				वाचविम्बु	१३९	३९		
वाक्योक्त	१२	४१	वाक्यित	२१७	२८	वाचमू	१४१	५१		
वाक्यु	५०	३	वाक्य	६९	१२	वाचम	११४	१४		
वाक्यवाक्य	१५	१९	वाक्यवा	१७६	५४	वाचमवम्बु	१३९			
वाक्य	२	१५								

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
भूनिम्ब	९२	१४३	भूतिभुज्	१८९	१५	भ्रमि	२०	९
भूप	१४३	१	भृत्या	१९४	३८	भ्रष्ट	२१६	१०४
भूपदी	७९	७०	भृत्य	१९०	१७	भ्रष्टयव	१७४	४७
भूभृत्	२३८	६१	भृशम्	१६	६६	भ्राजिष्णु	१२४	१०१
भूमन्	२७८	१७	भेक	५४	२४	भ्रातरौ	१११	३६
भूमि	५८	२	भेकी	५४	२४	भ्रातृज	१११	३६
भूमिजम्बुका	७४	३८	भेद	१४६	२०	भ्रातृजाया	११०	३०
	८७	११८		१४७	२१	भ्रातृभगिन्यौ	१११	३६
भूमिस्पृक्	१६५	१	भेदित	२१६	१००	भ्रातृव्य	२५३	१४६
भूयस्	२०८	६३	भेरी	४०	६	भ्रात्रोय	१११	३६
भूयिष्ठ	२०८	६३	भेषज	११५	५०	भ्रान्ति	३०	७
भूरि	२०८	६३	भेष	१४०	४६	भ्राष्ट्र	१७१	३०
	२६०	१८२	भिरव	४२	१९	भ्रुकुंस	४१	११
भूरिफेना	९२	१४३	भैषज्य	११५	५०	भ्रुकुटि	४६	३७
भूरिमाय	९७	५	भोग	२३	१२३	भ्रू	१२३	९२
भूरुडी	७९	६९	भोगवती	२३९	७०	भ्रुकुस	४१	११
भूर्ज	७५	४६	भोगिन्	४७	८	भ्रुकुटि	४६	३७
भूषण	१२४	१०१	भोगिनी	१०५	५	भ्रूण	२३६	४५
भूषित	१२४	१००	भोजन	१७६	५५		११२	३९
भूष्णु	२०१	२९	भोस्	२७६	७		२५१	१३५
भूस्तृण	९६	१६७	भौम	२२	२५	भ्रेष	१४७	२३
भृगु	६६	४	भौरिक	१४४	७	म		
भृङ्ग	९०	१३४	भ्रंश	१४७	२३	मकर	५३	२०
	९९	१६	भ्रकुंस	४०	११	मकरध्वज	९	२६
	१०२	२९	भ्रकुटि	४६	३७	मकरन्द	७०	१७
भृंगराज	९३	१५१		३०	४	मकुष्टक	१६८	१७
भृंगार	१४९	३२	भ्रम	५९	७	मकूलक	९२	१४४
भृंगारी	१०२	२८		२२०	९	मक्षिका	१०१	२६
भृतक	१८९	१५	भ्रमर	१०२	२९	मख	१३४	१३
भृति	१९४	३८	भ्रमरक	१२३	९६	मगध	१६१	९७
						मघवन्	१२	४१

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.
मंशु	२७५	२	मण्डहारक	१८९	१	मदस्नान	१९४	१
मंगल	२८	२५	मण्डित	१२४	१	मण्डिर	१९४	४
मंगलवक्र	१६८	१७	मण्डोरी	८३	९१	मण्डिराग्र	३१	८
मंगलना	१२०	१२७	मण्डूक	५४	२४	मण्डोत्कृष्ट	१४९	११
मण्डनिका	२८	२७	मण्डूकपर्ण	७७	८६	मण्डू	१२	१४
मञ्जु	६९	१२	मण्डूकपर्णी	८१	९१	मण्डुर	५१	१९
मंथ	१३१	१३८	मण्डूर	१८४	९८	मण	१९४	४०
मंथरि	६९	६३	मण्डूगज	१४९	३४			
मंथिष्ठा	८३	९०	मण्डुलिका	२८	२७			
मंथीर	१२६	१९	मण्डि	७९	१	मण्डु	२६	१५
मंथु	२३	५२				१८३	१७	
मंथुज	२३	५२	मण्ड	१६९	३६	१९४	४१	
मंथुना	१०९	२९		२	२३	२४७	१३	
मठ	६३	८	मण्डकाशिनी	१५	४	मण्डुक	८१	१९
मण्डू	४०	८	मण्डर	२५९	१७२	मण्डुकर	१२	२९
मण्डि	१	२८	मण्डम	५२	१७	मण्डुकम	१९४	४
	१८३	९३	मण्डवडी	१७३	४३	मण्डुकम	७२	२७
मण्डिक	१७१	२१	मण्डवपिष्ठा	८२	८६	मण्डुन	१२	२९
मण्डिरथ	१२१	८९	मण्डवबैचन	५२	१६	मण्डुपर्णिका	७४	३५
मण्ड	७६	५१	मण्डवाघी	९१	१३७	मण्डुर्णी	८२	९४
	१७५	४९	मण्डवास्तग	२६७	२१९	मण्डुमण्डिका	८२	८१
	१९४	१०२	मण्डवापानी	५२	१६	मण्डुमण्डिका	११	२६
	१०१	९९	मण्डि	१७५	५३	मण्डुमण्डिका	८६	९
	११	९	मण्डिन्	१८	७४	मण्डुर	३१	९
	११	९				२३२	१	
	१०	१९	मण्ड	१५	३७	मण्डुरक	९१	१४२
	२२	३१		२२१	१९	मण्डुरा	८२	८१
				२४३	९१		८५	१७
				११	२५	मण्डुर	१	१५२

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.		
मधुवार	१९४	४०	मनुष्य	१०४	१	मन्दोष्ण	२३	३५		
मधुव्रत	१०२	२९	मनुष्यधर्मन्	१६	६८	मन्द्र	३९	२		
मधुशिश्रु	७३	३१	मनोगुप्ता	१८६	१०८	मन्मथ	९	२५		
मधुश्रेणी	८२	८४	मनोजवस्	१९८	१३		७१	२१		
मधुष्ठील	७२	२८	मनोज्ञ	२०६	५२	मन्त्या	११८	६५		
मधुस्रवा	९१	१४२	मनोरथ	४४	२७	मन्यु	४३	२५		
मवूक	७२	२७	मनोरम	२०६	५२		२५५	१५३		
मधुच्छिष्ट	१८६	१०७	मनोहत	२०४	४१	मन्वन्तर	२८	२२		
मधूलक	७२	२८	मनोह्रा	१८६	१०८	मय	१८०	७५		
मधूलिका	८२	८४	मन्तु	१४८	२६	मयु	१७	७१		
मध्य	{	१२०	७९	मत्र	२५८	१६७	मयुष्टक	१६८	१७	
		२५६	१६१	मत्रिन्	{	१४३	४	मयूख	{	२३
५९	७	२६५	२०६			२३०	१८			
मध्यम	{	३८	१	मन्य	१८०	७४	मयूर	{	८६	१११
		५९	७	मन्यदडक	१८०	७४			१०२	३०
		१२०	७९	मन्यन्	१८०	७४	मयूरक	{	८२	८८
१०६	८	मन्यनी	१८०	७४	११८५	१०१				
मध्यमा	{	१२१	८२	मन्यर	१५६	७२	मरकत	१८३	९२	
		२४	३	मन्यान	१८०	७४	मरण	१६४	११६	
मध्याह्न	२४	३	मन्द	{	१९०	१८	मरीच	१७२	३६	
मध्वासव	१९४	४१			२४४	९५	मरीचि	{	२२	२७
मनःशिला	१८६	१०८	मन्दगामिन्	१५६	७२	२३			३३	
मनस्	२९	३१	मन्दाकिनी	१३	४९	मरीचिका	२३	३५		
मनसिज	९	२६	मन्दाक्ष	४३	२३	मरु	{	५८	५	
मनस्कार	३०	२	मन्दार	{	१३			५०	२५७	१६३
मनाक्	२७६	८			७२	२६	मरुत्	{	१५	६२
मनित	२१७	१०८	८१	८१	१७	२				
मनीषा	२९	१	मन्दिर	{	६२	५	मरुत	२३७	५९	
मनीषिन्	१३३	५			२६१	१८४	मरुत्वत्	१२	४१	
मनु	२५१	३८	मन्दुरा	६२	७	मरुन्माला	९०	१३३		
मनुण	१०४	१								

शब्द	पृ. सं.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
मंजु	२७५	२	मण्डहारक	१८९	१	मदस्नान	१९४	४
मंगल	२८	२५	मण्डित	१२४	१	मण्डित	१९४	४
मंगलम्बक	१६८	१७	मण्डोती	८३	९१	मण्डिरागह	६३	८
मंगलम्बा	१२९	१२७	मण्डूक	५४	२४	मण्डोत्कट	१४९	३९
मन्वर्षिका	२८	२७	मण्डूकपर्ण	७७	७६	मण्डु	१२	३४
मन्त्र	६९	१२	मण्डूकपर्णी	८३	९१	मन्त्र	५३	१९
मन्थ	१३१	१३८	मन्त्र	१८४	९८	मन्थ	१९४	४
मन्थरि	६९	१३	मन्तगज	१४९	३४			
मन्थिष्ठा	८३	९	मन्तलिका	२८	२७			
मन्थीर	१२६	१९	मन्थि	२९	१	मन्थु	२६	१५
मन्थु	२६	५२					१८६	१७
मन्थुक	२६	५२					१९८	४१
मन्थुता	१०२	२९					२४५	१३
मन्थ	६३	८	मन्थकायिनी	१७	४	मन्थु	८६	१९
मन्थु	४	८	मन्थर	२५९	१७२	मन्थुकर	१२	२९
मन्थि	१	३८	मन्थ	५२	१७	मन्थुक्रम	१९४	४
मन्थिक	१८३	९३	मन्थ	२	२३	मन्थुद्रम	७२	२७
मन्थिक	१७१	३१	मन्थ	२९६	१३	मन्थुर	१२	२९
मन्थिष्ण	१२१	८१	मन्थकायिनी	१७	४	मन्थुयविका	७४	३५
मन्थ	७६	७१	मन्थरविष्ठा	८२	८६	मन्थुयविका	८३	९४
मन्थ	१७५	४९	मन्थमक्षेपन	५२	१६	मन्थुरपी	८२	८३
मन्थम	१२४	२	मन्थस्याधी	९१	१३७	मन्थुमथिका	१९	२६
मन्थ	१	२९	मन्थस्याधी	९१	१३७	मन्थुवथिका	८६	१
मन्थ	६३	९	मन्थस्याधनी	५२	१६	मन्थुर	३१	
मन्थ	१९	६	मन्थिन	१७७	५३	मन्थुर	२६२	१९
मन्थ	२	१५	मन्थिन	१८	७४	मन्थुरक	९९	१४२
मन्थ	२३	३२	मन्थ	१५	३७	मन्थुरता	८२	८
मन्थ	२	१५	मन्थ	२४३	९९	मन्थुर	८७	१
मन्थ	२३	३२	मन्थ	१४	३९	मन्थुर	९३	१५
मन्थ	११५	५४	मन्थ	२५	२५	मन्थुर	८५	११
मन्थ	१६	८९	मन्थ	७३	५३	मन्थुरिषु	८	३
मन्थ	१४३	९	मन्थ	६१	७८	मन्थुरिषु	१२	३

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक.
मागधी	{ ८०	७१	मातृष्वसेय	१०९	२५	माग	{ २६	१४
	{ ८४	९६	मातृष्वस्त्रीय	१०९	२५		{ ६१	१५
माघ	२६	१५	मात्र	२६०	१७८		{ १५९	८७
माघ्य	८०	७३		{ २०८	६२	मार्गण	{ २०६	४९
माठर	२३	३१	मात्रा	{ २६०	१७७		{ २२५	३०
माढि	२८४	८	माद	२२१	१२	मार्गशीर्ष	२६	१४
माणवक	{ ११३	४२				मार्गित	२१७	१०५
	{ १२५	१०६	माघव	{ ७८	१८	मार्जन	७३	३३
माणव्य	२२७	४०		{ २६	१६	मार्जना	१२८	१२१
माणिक्य	२९४	३१	माघवक	१९४	४१	मार्जार	९७	६
माणिमन्थ	१७३	४२	माघवी	८०	७२	मार्जिता	१७४	४४
	{ १९०	१९	माञ्चीक	१९४	४१	मार्त्तण्ड	२२	२९
मातग	{ २३१	२१	मान	४३	२२	मार्दङ्गिक	१८९	१३
मातरपितरौ	११२	३७	मानव	१०४	१	मार्ष्टि	१२८	१२१
मातरिश्रन्	१५	६१	मानस	२९	३१	मालक	७८	६२
मातालि	१२	४५	मानसोकस्	९७	२३	मालती	८०	७२
मातापितरौ	११२	३७	मानिनी	१०५	३	माला	१३१	१३५
मातामह	१११	३३	मानुष	१०४	१	मालाकार	१८८	५
मातुल	{ ८१	७८	मानुष्यक	२२७	४२	मालातृणक	९६	१६७
	{ ११०	३१	माया	१८९	११	मालिक	१८	५
मातुलपुत्रक	८१	७८	मायाकार	१८९	११	मालुधान	४७	६
			मायादेवीसुत	८	१५	मालूर	७३	३२
मातुलानी	{ ११०	३०	मायु	११७	६२	माल्य	१३१	१३५
	{ १४२	२०	मायूर	१०४	४३	माल्यवत्	६६	३
मातुलाहि	४७	६	मार	९	२५	माषपर्णी	९१	१३८
मातुली	११०	३०	मारजित	८	१३	माषीण	१६६	७
मातुलीङ्गिक	८१	७८	मारण	१६४	११४	माष्य	१६६	७
	{ ११	३५	मारिष	४१	१४	मास	२६	१२
मातृ	{ ४१	१४	मारुत	१५	६२	मासर	१७५	४९
	{ ११०	२९	मार्कव	९३	१५१	मासिक	१३७	३१
	{ १७८	६६						

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
मात्स्य	२७७	११	मुक्ता	१८१	१३	मुष्टिबन्ध	२२१	१४
माहिष्य	१८७	३	मुक्ताबन्धी	१२५	१५	मुसल	१७०	२५
माहिषी	१७८	६६	मुक्तास्त्रोट	५३	२३	मुसल्लिन्	९	२४
माहधरी	११	३५	मुक्ति	३१	६	मुसली	{ ८७ ११९	
मिर्तपत्र	२ ३	४८	मुख	{ ३५ १९		मुसली	{ ९८ १२	
	२२	३	मुख	{ १२२ ८९		मुसल्ल	२ ५	४५
मित्र	{ १४४	०	मुखर	२ ९	१६	मुसलक	९५	१५९
	१४५	१२	मुखबासन	३२	११	मुसला	९७	१५९
	२७८	१६७						
मिथस्	१७४	२५६	मुन्य	{ ११९ ४		मुमुक्षु	२७५	१
मिथुन	१०३	३८		{ २ ७	५७	मुमुक्षुर्भावा	३६	१
मिथ्या	२७८	१५		{ २	२२	मुमुक्षुर्ष	२३	११
मिथ्याद्वि	३	४	मुष्ण	{ ११४ ४८		मूक	१९८	१३
मिथ्याभिषीग	३५	१	मूढ	{ २ ५	३४	मूढ	२ ६	४८
मिथ्याभिषासन	३५	१	मूढित	{ ११४ ४८		मूढ	२१४	९५
मिथ्यामति	३	४	मुष्णिन्	{ २१२ ८५		मूढ	११८	६७
मित्री	९०	११४	मुष्ण	१८८	१	मूढकण्ठ	११६	५६
मिथ्रिया	८५	१ ५	मुष्ण	२८	२४	मूर्ध्नि	२१५	६
मिथि	{ ८५ १ ५		मुश्न	२१४	५	मूर्ध्नि	२ ६	४८
	{ ३ १५७		मुश्न	१८	७	मूर्ध्नि	१६३	१ ९
मिथिका	२	१८	मुश्न	८६	११३	मूर्ध्नि	११७	११
मिथिर	२२	२९	मुश्न	१६	९१	मूर्ध्नि	{ ११७ ६१	
मीढ	२१५	३	मुश्न	२७५	४	मूर्ध्नि	{ २४२ ८२	
मीन	५९	१७	मुश्न	{ ८ १४		मूर्ध्नि	{ ११७ ६१	
मीनकेटन		७५	मुश्न	{ १४ ४२		मूर्ध्नि	{ २१ ७६	
मुषट	१२५	१ ७	मुश्न	८ १४		मूर्ध्नि	{ ११९ ७१	
मुषट	१२५	१ ७	मुश्न	३		मूर्ध्नि	{ २३ ६६	
मुषट	१०१	११	मुश्न	८१	१०३	मूर्ध्नि	२१	७६
मुषट	१०	१८	मुश्न	१३	११	मूर्ध्नि	१२३	७

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	श्लोक	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक.
मूर्वा	८२	८३	मृगाक	१९ १४	मेकलकन्यका	५५	३२
मूल	{ ६९ २६४	१२ ३००	मृगादन	९७ १	मैखला	{ १२६ १६०	१०८ ९०
			मृगित	२१७ १०५			
मूलक	९४	१५७	मृगेन्द्र	९७ १	मेघ	१८	६
मूलकर्मन्	२१९	४	मृजा	१२८ १२१	मेघज्योतिस्	१९	१०
मूलधन	१८१	८०	मृड	१० ३१	मेघनादानुलासिन्	१०२	३०
मूल्य	{ १८१ १९४	७९ ३८	मृडानी	११ ३७	मेघनामन्	९५	१५९
			मृणाल	५७ ४२	मेघनिर्घोष	१९	८
मूपक	९८	१२	मृणाली	२८३	मेघपुष्प	४९	५
मूषा	{ १९३ २९७	३३ ३८	मृत्	५८ ४	मेघमाला	१८	८
			मृत्	{ १६४ ११७ १६६ ३	मेघवाहन	१२	४४
मूषिकपर्णी	८२	८८	मृत्	{ १९९ १९	मेचक	{ ३२ १४ १०२ ३१	
मूषित	२१३	८८	मृत्स्नात	९० १३१			
मृग	{ ९८ २२५ २३१	८ ३० २०	मृत्तालक	५८ ४	मेढ	{ १२० ७६ १८० ७६	
			मृत्तिका	१६४ ११६	मेदक	१९४ ४१	
			मृत्त्यु	१० ३१	मेदस्	११७ ६४	
मृगणा	२२५	३०	मृत्त्युजय	५८ ४	मेदिनी	५८ ३	
मृगतृष्णा	२३	३५	मृत्वा	{ ५८ ४ ९० १३१	मेदुर	२०२ ३०	
मृगदशक	१९१	२१	मृत्त्रा	३९ ५	मेघा	३० २	
मृगवूर्तक	९७	५	मृदङ्ग	{ २११ ७८ २४४ ९४	मेघि	१६८ १५	
मृगनाभि	१३०	१२९	मृदु	७५ ४६	मेध्य	२०७ ५५	
मृगवधाजीव	१९०	२१	मृदुत्वच्	२११ ७८	मेनकात्मजा	११ ३७	
मृगवन्धनी	१९१	२६	मृदुल	२११ ७८	मेरु	१३ ४९	
मृगमद	१३०	१२९	मृदुली	८५ १०७	मेलक	२२५ २९	
मृगया	१९१	२३	मृद्वीका	१६२ १०४	मेष	{ २२ २७ १८० ७६	
मृगयु	१९०	२१	मृध	२७८ १५			
मृगरौमज	१२७	१११	मृषा	३७ २१	मेषकम्बल	१८६ १०७	
मृगव्य	१९१	२३	मृषार्थक	२०७ ५६	मेह	११६ ५६	
मृगाशिरस्	२१	२३	मृष्ट		मेहन	१२० ७६	
मृगशीर्ष	२१	२३					

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक
मास्य	२७७	११	मुक्ता	१८३	१३	मुद्गिवाभ्य	२२३	१४
माद्विष्य	१८७	३	मुक्ताबली	१२५	१५	मुसळ	१७	२५
माहैपी	१७८	१६	मुक्तास्त्रोट	५३	२३	मुसळिन्	९	२४
माहश्चरी	११	३५	मुक्ति	३१	६	मुसळी	८७	११९
मितपच	२३	४८	मुक्त	६५	१९	मुसळी		
मित्र	२२	३	मुक्तर			१२२	८९	मुसळ्य
	१४४		मुक्तर	२३	३३	मुस्तक	९५	१५
	१४५	१२	मुक्ताबाधन	३२	११	मुस्ता	९७	१५९
	२५८	२१७						
मियस्	२७४	२७	मुत्तय	११९	४	मुहुस्	२७५	१
मिधुन	१०२	३८				२७	५७	मुहुर्माषा
मिष्या	२७८	१७	मुण्ड	२९	२२	मुहुर्व	२३	११
मिष्यादधि	३	४				११४	४८	मुक्क
मिष्याभिर्बोग	३७	१	मुण्डित	२९५	१४	मुक्क	२६	४८
मिष्याभिर्बाधन	३५	१				११४	४८	मुक्क
मिष्यामाषी	३०	४	मुण्डिन्	२१२	८५	मून	११८	३७
मिठी	९	१३४	मुहु			१८८	१	मुक्कच्छ
मिभेय	८५	१५	मुहु	२८	२४	मुण्ट	२१५	९३
मिथि	८७	१५	मुहुत	२१४	९५	मुण्ट	२०९	४८
		३	१५२	मुहुदिर	१८	७	मुष्ण	१३३
मिदिक्का	२	१८	मुहुपर्णी	८६	१३३	मुष्ण	११७	६१
मिदिर	२२	२९	मुहु	१६	९१	मुष्ण	११७	६१
मीठ	२१७	९३	मुहु	२७५	४	मुष्ण		
मीन	७३	१७	मुनि	१४	४२	मूत	११७	६१
मीनकेतन		२५	मुनीन्द्र			८		
मुक्कट	१२७	१७	मुनी	३	७	मूति	११९	७१
मुक्कट	८८	१०१	मुनी	८८	१२३	मूतिभू	२१	७३
मुक्कट	१३२	१६	मुनी	७१३	८८	मूदन	१२३	७
मुक्कट	७	१६	मुनी	१७	७	मुद	११३	१
मुक्कट	४७	१	मुनी	७६	३	मुदभक्ति	११८	६१

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द	श्लोक	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक.
मूर्वा	८२	८३	मृगाक	१९ १४	मेकलकन्यका	५५	३२
मूल	{ ६९ २६४	१२ ३००	मृगादन	९७ १	सखला	{ १२६ १६०	१०८ ९०
			मृगित	२१७ १०५			
मूलक	९४	१५७	मृगोन्द्र	९७ १	मेघ	१८	६
मूलकर्मन्	२१९	४	मृजा	१२८ १२१	मेघज्योतिस्	१९	१०
मूलघन	१८१	८०	मृड	१० ३१	मेघनादानुलासिन्	१०२	३०
मूल्य	{ १८१ १९४	७९ ३८	मृडानी	११ ३७	मेघनामन्	९५	१५९
			मृणाल	५७ ४२	मेघनिर्घोष	१९	८
मूपक	९८	१२	मृणाली	२८३	मेघपुष्प	४९	५
मूषा	{ १९३ २९७	३३ ३८	मृत्	५८ ४	मेघमाला	१८	८
			मृत	{ १६४ ११७ १६६ ३	मेघवाहन	१२	४४
मूषिकपर्णी	८२	८८	मृत्स्नात	१९९ १९	मेचक	{ ३२ १४ १०२ ३१	
मूषित	२१३	८८	मृत्तालक	९० १३१	मेढ्र	{ १२० ७६ १८० ७६	
मृग	{ ९८ २२५ २३१	८ ३० २०	मृत्तिका	५८ ४	मेदक	१९४	४१
			मृत्यु	१६४ ११६	मेदस्	११७	६४
मृगणा	२२५	३०	मृत्युजय	१० ३१	मेदिनी	५८	३
मृगतृष्णा	२३	३५	मृत्वा	५८ ४	मेदुर	२०२	३०
मृगदशक	१९१	२१	मृत्वा	{ ५८ ४ ९० १३१	मेघा	३०	२
मृगधूर्तक	९७	५			मेघि	१६८	१५
मृगनाभि	१३०	१२९	मृदङ्ग	३९ ५	मेध्य	२०७	५५
मृगवधाजीव	१९०	२१	मृदु	{ २११ ७८ २४४ ९४	मेनकात्मजा	११	३७
मृगवन्धनी	१९१	२६	मृदुत्वच्	७५ ४६	मेरु	१३	४९
मृगमद	१३०	१२९	मृदुल	२११ ७८	मेलक	२२५	२९
मृगया	१९१	२३	मृद्रीका	८५ १०७	मेष	{ २२ २७ १८० ७६	
मृगसु	१९०	२१	मृष	१६२ १०४			
मृगरोमज	१२७	१११	मृषा	२७८ १५	मेषकम्बल	१८६	१०७
मृगव्य	१९१	२३	मृषार्यक	३७ २१	मेह	११६	५६
मृगाक्षिरस्	२१	२३	मृष्ट	२०७ ५६	मेहन	१२०	७६
मृगाशीर्ष	२१	२३					

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक
मासम	२७७	११	मुक्ता	१८३	१३	मुष्टिबन्ध	२२३	१४
माहिष्य	१८७	३	मुक्तावली	१२५	१५	मुसळ	१७०	२५
माहीयौ	१७८	६३	मुक्तास्त्रोट	५३	२३	मुसळिण्	९	२४
माह्वरी	११	३५	मुक्ति	३१	९	मुसळी	{ ८७ ११९	
मितपत्र	२ ६	४८	मुस	{ ६५ १		{ ९८ १२		
मिष	२२	३	मुसर	{ १२२ ८९		मुसस्य	२ ५	४५
	१४४	१	मुसल	२ ३	३६	मुससक	९५	१५०
	१४५	१२	मुसलासन	३२	११	मुसला	९७	१५०
	२५८	१६७	मुस्य	{ ११९ ४		मुसु	२७५	१
मिषस्	२७४	२५६	मुस्य	{ २ ७ ५७		मुसुर्भाषा	३६	३
मिषुन	१०३	९८		{ २ २२		मुसूर्त	२६	११
मिष्या	२७८	१७		{ ११४ ४८		मुसू	१९८	१३
मिष्यावृष्टि	३	४	मुसू	{ २ ५ ३४		मुसू	२ ६	४८
मिष्यामिषीमा	३५	१	मुसू	{ ११४ ४८		मुसू	२१४	९५
मिष्यामिषजन	३५	३	मुसू	{ २१२ ८५		मुसू	११८	६७
मिष्यामसि	३	४	मुसू	१८८	१	मुसू	११६	५६
मिषी	९०	१३४	मुसू	२८	२४	मुसू	२१५	९६
मिषेय	८५	१ ५	मुसू	२१४	९५	मुसू	२०६	४८
मिषे	{ ८५	१ ५	मुसू	१८	७	मुसू	१६३	१ ९
	३	१५२	मुसू	८६	११३	मुसू	११७	६१
मिषिका	९	१८	मुसू	१६	९१	मुसू	{ ११७ ६१	
मिषिर	२७	२९	मुसू	२७५	४	मुसू	{ २४२ ८२	
मीढ	२१५	९६	मुसू	{ ८ १४		मुसू	{ ११७ ६१	
मीन	७२	१७	मुसू	{ १४ ४२		मुसू	{ २१ ७६	
मनिक्वम		२५	मुसू	८	१४	मुसू	{ ११ ७१	
मुकुट	१२७	१ ७	मुसू	३	७	मुसू	{ २३९ ६६	
मुकुट	१८	१७१	मुसू	८८	१७३	मुसू	२१	७६
मुकुट	११२	१४	मुसू	२१३	८८	मुसू	१२३	५
मुकुट	७	१६	मुसू	१२	७६	मुसू	{ १४३ १	
मुकुट	४७	६	मुसू	७४	२	मुसू	{ ११८ ६१	

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.	शब्द.	श्लोक	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक.
मूर्वा	८२	८३	मृगाक	१९ १४	मेकलकन्यका	५५	३२
मूल	{ ६९ १२ २६४ ३००		मृगादन	९७ १	मंखला	{ १२६ १०८ १६० ९०	
			मृगित	२१७ १०५			
मूलक	९४	१५७	मृगेन्द्र	९७ १	मेघ	१८	६
मूलकर्मन्	२१९	४	मृजा	१२८ १२१	मेघज्योतिस्	१९	१०
मूलघन	१८१	८०	मृह	१० ३१	मेघनादानुलासिन्	१०२	३०
मूल्य	{ १८१ १९४		मृडानी	११ ३७	मेघनामन्	९५	१५९
			मृणाल	५७ ४२	मेघनिर्घोष	१९	८
मूपक	{ ९८ १९३		मृणाली	२८३	मेघपुष्प	४९	५
			मृत्	५८	मेघमाला	१८	८
मूषा	२९७	३८	मृत	{ १६४ ११७ १६६ ३	मेघवाहन	१२	४४
मूपिकपर्णी	८२	८८			मेचक	{ ३२ १४ १०२ ३१	
मूषित	२१३	८८	मृत्स्नात	१९९ १९	मंद्	{ १२० ७६ १८० ७६	
मृग	{ ९८ २२५ २३१		मृत्तालक	९० १३१			
			मृत्तिका	५८ ४	मेदस्	११७	६४
मृगणा	{ २२५ २३१		मृत्यु	१६४ ११६	मेदिनी	५८	३
			मृत्युजय	१० ३१	मेदुर	२०२	३०
मृगतृष्णा	२३	३५	मृत्वा	५८ ४	मेघा	३०	२
मृगदशक	१९१	२१	मृत्स्ना	{ ५८ ४ ९० १३१	मेघि	१६८	१५
मृगधूर्तक	९७	५			मेध्य	२०७	५५
मृगनाभि	१३०	१२९	मृदङ्ग	३९ ५	मेनकात्मजा	११	३७
मृगवधाजीव	१९०	२१	मृदु	{ २११ ७८ २४४ ९४	मेरु	१३	४९
मृगबन्धनी	१९१	२६			मेलक	२२५	२९
मृगमद	१३०	१२९	मृदुत्वच्	७५ ४६	मेष	{ २२ २७ १८० ७६	
मृगया	१९१	२३	मृदुल	२११ ७८			
मृगसु	१९०	२१	मृद्रीका	८५ १०७	मेषकम्बल	१८६	१०७
मृगरोमज	१२७	१११	मृघ	१६२ १०४	मेह	११६	५६
मृगव्य	१९१	२३	मृषा	२७८ १५	मेहन	१२०	७६
मृगाशिरस्	२१	२३	मृपार्थक	३७ २१			
मृगशीर्ष	२१	२३	मृष्ट	२०७ ५६			

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
भैत्रावरुणि	२१	२		४			१४	५८
भिक्षी	२९७	१९	यकृत्	११८	६६	यम	१४१	४८
भैष्म	२९७	१९		७	११		२२२	१८
भैषुन	{ १४२	५७	यस्य	{ १९	६९	यमराज	१४	५८
	{ २४९	१२२	यस्यकदम	११	१११	यमुना	५५	१२
भैरव	१९४	४१	यस्यधूप	१२९	१२७	यमुनाभात	१४	५८
भौल	{ ३१	७	यस्यराज	१६	६८	यमु	१५१	४५
	{ ७४	३९	यस्यमन्	११५	५१	यम	१६८	१५
भौष	२११	८१	यस्यमान	१३३	८	यस्यस्य	१६६	७
भौषा	७७	५४	यस्यसु	१४	३	यस्यधार	१८९	१८
भौषक	७३	३१	यस्य	१३४	१३	यस्यसु	९५	१६१
भौजा	{ ७७	४६	यस्यग	७१	२२	यस्य	९६	१६७
	{ ८६	११३	यस्यक्रिय	१३७	२७	यस्यगु	१७५	५
भौडक	- २९५	३३	यस्यगु	१३३	८	यस्यमज	१८६	१८
भौरठ	१८६	११	यस्य	२७५	३	यस्यनिका	९२	१८५
भौरव	८२	८३	यस्यत्	२७५	३	यस्यस	८१	९१
भोपक	१९१	२४	यस्यते	१४	४३	यस्यीयत्	११३	४३
भोह	१६३	१	यस्यित्	१४	४३	यस्य	१६६	७
भौडिक	१८१	९२	यस्य	२७६	९	यस्योपदह	१९	६
भौडूनि	१६७	८	यस्यकाय	२	४८	यस्यसु	३५	११
भौन	१३८	३२	यस्यतयम्	२७८	१५	यस्यि	२९७	३८
भौरिक	१८	११	यस्यययम्	२७८	१४	यस्यिसुक्त	८६	१९
भौर्षी	१५९	८५	यस्यधगु	२७८	१५	यस्य	१३३	८
भौर्षि	२६२	१९३	यस्यार्हवर्षी	१४५	१३	यस्य	११४	१३
भौश	२८३	७	यस्यालम्	२७८	१४	यस्यनक	२	४९
भाहृत	१४५	१४	यस्ये लव	१७६	५७	यस्यना	१३८	१२
भौहृतिक	१४५	१४	यस्यदि	२७७	१२	यस्यित	१६६	३
भौष्ट	३७	२१	यस्यष्टा	२१८	२	यस्यितक	१६६	४
भौष्टदेव	५	७		{ १५४	५९	यस्यना	{ १३८	३२
भौष्टगुण	१८४	९७	यस्य	{ २६७	७९		{ २१९	६

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
याजक	१३५	१७	युगकालिक	१६८	१४	योग्य	८६	११२
यातना	४९	३	युगन्धर	{ १५४	५७	योजन	२९४	३०
यातयाम	२५३	१४५		{ २९६	३५	योजनवल्ली	८३	९१
यातु	१५	६०	युगपत्	२८०	२२	योत्र	१६८	१३
यातुधान	१५	६०	युगपत्रक	७१	२२	योद्धृ	१५४	६१
यातृ	११०	३०	युगपार्श्वग	१७७	६३	याघ	१५४	६१
यात्रा	{ १६१	९५	युगुल	१०३	३८	योघसराव	१६३	१०७
	{ २५९	१७५	युगाद्युग	१५४	५७	योनि	१२०	७६
यादःपति	४९	२	युग्म	१०३	३८	योषा	१०४	२
यादस्	५३	२०	युग्य	{ १५४	५८	योषित्	१०४	२
यादसाम्पति	१५	६१		{ १७७	६४	यौतक	१४८	२८
यान	{ १४६	१८	युद्ध	१६२	१०३	यौतव	१८२	८५
	{ १५४	५८	युध्	१६२	१०६	यौवत	२०९	२२
यानमुख	१५३	५५	युवति	१०६	८	यौवन	११२	४०
याप्य	२०७	५४	युवन्	११३	४२			
याप्ययान	१५३	५३	यवराज	४१	१२	रहस्	१५	६४
याम	{ २५	६	युथ	१०४	४१			
	{ २२२	१८	युथनाथ	१४९	३५	रक्त	{ ३२	१५
यामिनी	२४	४	युथप	१४९	३५		{ ११७	६४
यामुन	१८४	१००	युथिका	८०	७१		{ १२९	१२४
यायजूक	१३३	८	यूप	{ ७५	४१	रक्तक	८०	७३
याव	१२९	१२५		{ २९६	३५	रक्तचन्दन	{ १३०	१३२
यावक	१६९	१८	यूपक	२८९	१९		{ १८६	१११
यावत्	२७३	२४६	यूपकटक	१३५	१८	रक्तपा	५३	२२
यावन	१२९	१२८	यूपखड	२५८	१६७	रक्तफला	९१	१३९
याधीक	१५६	७०	यूसाम	१३५	१९	रक्तसध्यक	५६	३६
यास	८३	९१	युष	२९६	३५	रक्तसरोसह	५७	४१
युक्त	१४७	२४	योत्क	१६८	१३	रक्ताङ्ग	९२	१४६
युक्तरसा	९१	१४०	योग	२३१	२२	रक्तोत्पल	५७	४२
युग	{ १०३	३८	योगेष्ट	१८५	१०५	रक्षसभ	२९३	२७
	{ २३१	२४						

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक
रसम्	{ ७	११	रत्नछानु	११	४९	रव	१८	२२
	{ १५	६	रत्नाकर		४९	रवम	२३	१८
रसित	२१७	२	रति	१२२	८६	रवि	२२	११
रसिवर्ग	१४४	६	रथ	{ ७२	३	रथाना	१२३	१८
रस्य	२२	८		{ १५२	५१			
रंजु	९८	१	रथकल्प्या	१५३	५५	रथिम	{ २३	३३
रंग	१८५	१			५५		{ २५२	११८
रंगाजीव	१८८	७	रथकार	{ १८७	४		{ १३१	७
रचना	१३१	१३७	रथगति	१५३	५७	रथ	{ ३१	९
रजक	१८९	२	रथदु	७२	२३		{ ४२	१७
	{ १८४	९३					{ १८४	९९
रजत	{ २४१	७९	रथांग	{ १५३	५५	रथार्थ	१८५	१२
				{ १५३	५६			
रजनी	{ २४	४	रथांगद्वयमामकर	२२	२२	रथबा	१२३	९१
	{ ९३	१५३						
रजनीमुख	२४	६	रथिक	१५७	७६	र	१२३	९१
						रसकती	१७१	२७
	{ २९	२९	रथिन्	{ १५४	६			
	{ १८	२१		{ १५७	७६		{ ५८	२
रजसु	{ १६१	९८	रथिन	१५७	७६		{ ८९	८४
	{ २७	२३१	रथ्य	१५२	४६		{ ८८	१२३
रजस्वला	१८	९	रथ्या	{ ३२	३	रथांजन	१८५	११
				{ १५३	५८	रथातक	४६	१
रज्जु	१९१	३७						
रजन	१३१	१३२	रद	१२२	९१	रथाक	{ ७३	३३
रजनी	८३	९५	रदम	१२२	९१		{ ९५	१३३
							{ १७४	४४
	{ १३२	१	रदनच्छद	१२२	९			
	{ २२	८	रन्त्र	४६	२	रसित	१९	८
	{ २३३	४९	रमस	२९	२१	रसोनक	९२	१४८
रम्भा	८३	८८	रमशी	१५	४	रस	१४७	२३
रम	१४२	५७	रम्म	८३	११३	रसत	१४७	२२
रमिपति	९	२३	रम	१५	६४	रस्य	१४७	२३
						रस्यका	२५	८
रम	{ १८३	३	रसक	{ १२७	११६	रस्यस	१५	८
	{ २४९	१२३		{ २८८	१७		१५	८

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
राक्षसी	८९	१२८	राजीव	{ ५३	१९	रिष्टि	१६०	८९
राक्षा	१२९	१२५		{ ५७	४१	रीढा	४३	२३
रांकव	१२७	१११	राज्याङ्ग	१४६	१८	रीण	२१४	९२
राजू	१४३	१	रात्रि	२४	४	रीति	{ १८४	९७
राजक	१४३	३	रात्रिचर	१५	६०		{ २३९	६८
राजकशेखर	२६१	१८८	रात्रिचर	१५	६०	रीतिपुष्प	१८५	१०३
राजन्	{ ४१	१३	राद्रान्त	३०	४	रूपप्रतिक्रिया	११४	५०
			राघ	२६	१६	रूपम	१८३	९५
			राधा	२१	२२	रूपमकारक	१८८	८
राजन्य	१४३	१	राम	{ ९	२३	रुक्ष	२३९	२२५
राजन्यक	१४३	४		{ ९८	११	रुग्ण	२१४	९१
राजन्वत्	६०	१३	रामठ	१७३	४०	रुच्	२३	३४
राजवला	९३	१५३	रामा	१०५	४	रुचक	{ ७६	५१
राजवीजिन्	१३२	२	राम्भ	१४१	४५		{ ८१	७८
राजरा	१६	६८	राल	१२९	१२७		{ १७३	४३
राजालङ्ग	२४३	९२	राशि	{ १०४	४२	रुचि	{ २३	३४
राजवंश्य	१३२	२		{ २६६	२१४		{ २३२	२९
राजवत्	६०	१३	राष्ट्र	२६१	१८४	रुचिर	२०६	५२
राजवृक्ष	७१	२३	राष्ट्रिका	८३	९४	रुच्य	२०६	५२
राजसदन	६३	१०	राष्ट्रीय	४१	१४	रुजू	११५	५१
राजसभा	२८४	९	रासभ	१८०	७७	रुजा	११५	५१
राजस्य	२९४	३१	राखा	{ ८७	११४	रुत	३८	२५
राजहंस	१०१	२४		{ ९१	१४०	रुदित	४५	३५
राजादन	{ ७३	३५	राहु	२२	२६	रुद्ध	२१३	९०
			रिक्तक	२०७	५६	रुद्र	{ ७	१०
राजाई	१२९	१२६	रिक्थ	१८३	९०		{ १०	३४
राजि	६७	४	रिगण	४५	३६	रुद्राणी	११	३७
राजिका	१६९	१९	रिपु	१४५	१०	रुधिर	{ ११७	६४
राजिल	४७	५	रिष्ट	२३३	३६		{ २९०	२२

शब्द	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक
बन्ध	९८	१	वीदनी	८३	९२	अरमणा	१	१ २५
बुधती	३७	१८	गोदसी	२६९	२२९	अस्मन्	{ २	१७
बुध्	४३	२६	गदस्वी	२६९	१२९		{ २४९	१२४
बुहा	९४	१५८	गघस्	५	७		{ ०	२७
बुन	३१	७	रोप	१५९	८७	अस्मी	{ ८६	११२
बुनामिवा	१	८	रोमन	१२४	९९		{ १५८	८२
			रोमन्ध	२८९	१९	अस्मीपत्	१९८	१४
बुप्य	{ १८३	९१	रोमश्पण	४५	३५	अस्व	{ ४५	३३
	{ १८४	९६	रोमांघ	४१	३५		{ १५०	८६
	{ २५६	१६	रोप	४३	२६	सगुड	२८९	१८
बुनाप्यध	१४४	७	रोहिणी	१७८	६७	अम	२२	२७
बुपित	२१३	८९		{ ३२	१७	अमक	१९५	४४
बुपित	१५२	४८		{ ५३	१९	अधिमम्	११	३६
बुणु	१६१	९८	रोहित	{ ९८	१		{ १५	१४
बुणुका	८८	१२		{ ७६	४९	अमु	{ ९	११३
बुणुग	११७	६२	रोहितक	७४	८७		{ २३२	२८
बुणुग	{ २	७	रोहिताथ	७५	४९	अगुस्य	९५	१६७
	{ २५१	१३२	रोहिन	७६	४९	अंका	२८३	७
बुणुग			रोह	{ ४२	१७	अधोपिका	०	११३
बुणुग	५५	२२		{ ४३	२	अध्या	४३	२३
			रोमक	१७२	४२	अध्यासि	२	९८
बु (रा)	{ १८३		रोरय	४८	१	अध्यास	२१४	९१
	{ २५७	१६५		{ २४	२४	अध्या	१८४	१
बुक	१६	२	राहनय	{ २२	२६		{ ६८	९
बुग	११७	८९		{ ७६	१६६		{ ६०	११
बुगहरिन्	११६	७७	राहन	{ ७७	१		{ ७७	५५
बुगन	७६	४७		{ ७८	६		{ ९	११३
बुगनी	{ ८७	१८	अनुप	७८	६		{ ९३	१७०
	{ ९२	१४६		{ १५	८६		{ २	१४८
बुगिन्	१२४	१	अध्या	१	११	अध्या	११२	८९
बुगिन्	६३	३४	अध्या	१९८	१४			
बुगिन्	१२३	३	अध्या					

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
लपित	{ ३३ २१७	१ १०७	लागलदण्ड	१६८	१४	लीला	{ ४५ २६४	३२ ११९
लब्ध	२१६	१०४	लागलपद्धति	१६८	१४	लुठित	१५२	५०
लब्धवर्ण	१३३	६	लागलिकी	८७	११८	लुब्ध	२००	२२
लब्धानुज्ञ	१३४	१०	लागली	{ ९६ ८६	{ १६८ १११	लुब्धक	१९०	२१
लभ्य	१४७	२४	लागूल	१५२	५०	लुलाय	९७	४
लम्बन	१२५	१०४	लाज	१७४	४७	लूता	९९	१३
लम्बोदर	११	३८	लाञ्छन	२०	१७	लून	२१६	१०३
लय	४०	९	लाभ	१८१	८०	लूम	१५२	५०
ललना	१०५	३	लाभजक	९५	१६५	लेख	७	८
ललतिका	१२५	१०४	लालसा	{ ४४ २६९	{ २८ २२९	लेखक	१४५	१५
ललाट	१२३	९२	लाला	११८	६७	लेखार्थ	१२	४२
ललाटिका	१२५	१०३	लालाटिक	२३०	१७	लेखा	६७	४
ललाम	२५३	१४३	लाव	१०३	३५	लेपक	१८८	६
ललामक	१३१	१३५	लासिका	४०	८	लेश	२०८	६२
ललित	४५	३१	लास्य	४०	१०	लेष्टु	१६७	१२
लव	{ २०८ २२४	{ ६२ २४	लकुच	७८	६०	लेह	१७६	५६
लवङ्ग	१२९	१२५	लिक्षा	२८४	१०	लोक	{ ५९ २२८	{ ६ २
लवण	{ ३१६ २९१	{ ९ २३	लिक्षित	१४६	१६	लोकजित्	८	१३
लवणोद	४९	२	लिंग	२३२	२५	लोकायत	२९५	३२
लवन	२२४	२४	लिंगवृत्ति	१४२	५४	लोकालोक	६५	२
लवित्र	१६८	१३	लिपि	१४६	१६	लोकेश	८	१६
लशुन	९२	१४८	लिपिकर	१४५	१५	लोचन	१२३	९३
लस्तक	१५९	८५	लित	२१३	९०	लोचमस्तक	८६	१११
लाक्षा	{ १२९ २८४	{ १२५ १०	लितक	१६०	८८	लोघ्र	७३	३३
लाक्षाप्रसादन	७४	४१	लिप्सा	४४	२७	लोर्षामुद्रा	२१	२०
लागल	१६८	१३	लिवि	१४६	१६	लोष्ण	१९१	२५
			लीढ	२१८	११०	लोमन्	१२४	९९
						लोमशा	९०	१३४

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	
छोल	{ २१०	७४	बंधप	२१९	७३	वत्तक	१	६६	
	{ २६५	२	बंध	२८५	१	वत्सतर	१००	६२	
छोद्यप	२	२२	बधन	३३	१		४८	११	
छत्रम	२	२२	बचनोत्थित	२०	२४				
छेद्य	१६७	१२	बचस	३३	१	वत्सर	{ २६	१३	
छेद्यमेदन	१६७	१२	ब	८४	१	२	वत्सक	१९८	१४
	{ १२९	१२६					वत्सकमी	८२	८२
छोह	{ १८४	९८	वज्र	{ १३	४७				
	{ १८४	९९		{ ८५	१	५		२	३
	{ २९१	२३	वज्रनिर्घोष	{ २६१	१८४			१२२	८९
छोहकारक	१८८	७	वज्रपुष्प	१९	१				
छोहपुत्र	९९	१३	वज्रमिन्	८	७६	वहस्य	{ १३०	६	
छोहस	२	३७	व	१२	४२	वदावह	{ २५६	१६	
छोहामिठार	१६१	९४	व	{ ९७	५		२	३	
	{ ३२	१५	व	{ २	६	४७	वह	१६४	११५
	{ ११७	६४	व	२	४	४१	वह्य	२	५
छोहितक	१८३	९२	वह्य	{ ७२	२७			६८	७
छोहितकन्दन	१२९	१२४	वह्य	{ ७२	३	कम्प्या	१७८	६९	
छोहितस्य	२२	२५	वह्य	{ ७८	६४	वशी	१	२	
	६		वह्य	७३	३२				
व	२७३	९	वह्य	२८८	१७	वधू	{ ९	११२	
	{ ९५	१६	वही	१९१	२७		{ १	४	
बंध	{ १३२		व ।	१५२	४६		{ १	६	
	{ २६६	२१४	वानक	१४	५६	वन	{ २४५	१	
वधारीचना	१८६	१	वह्य	२	८	६१	{ ४९	३	
बंधक	१२९	१२६	वणिक्	१८	७८		{ ६७	१	
वह्य	२५६	१५९	वणिकपथ	१८	७८	वनविक्रिका	{ २५	१२६	
वह्य	२	३	वणिज्या	२३३	५२	वनप्रिया	८५	८५	
वह्य	१२२	८९	वह्य	१८१	७९	वनप्रिया	१	१९	
वह्य	२१	७१	वह्य	१८३	८९	वनमधिका	१	१	
वह्य	१२	७८	वह्य	{ १२	७८	वनमाकिन्	८	२१	
			वह्य	{ १७७	६२	वनमुद्र	१६८	१७	
			वह्य	{ २६९	२२६	वनशुद्धाट	८४	९	

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
वनसमूह	६७	४	वरण	{ ६२	३	वर्ण	१०४	४१
वनस्पति	६८	६		{ ७२	२५	वर्चस्	२७०	२३१
वनायुज	१५१	४५	वरण्ट	२८९	१८	वर्चस्क	११८	६८
वनिता	{ १०४	२	वरजा	{ १५१	४२		{ १३२	१
	{ २४०	७४		{ १९२	३१	वर्ण	{ १५१	४२
वनीयक	२०६	४९	वरद	१९७	७		{ २३६	४८
वनौकस्	९७	३	वरवर्णिनी	{ १०५	४	वर्णक	{ १३०	१३३
वन्दा	८२	८२		{ १७३	४१		{ २९७	३८
वन्दारु	२०१	२८	वराग	२३२	२६	वर्णित	२१७	११०
वन्त्या	६७	४	वरागक	९०	१३४	वर्णिन्	१४०	४२
वपा	{ ४६	२		{ ५७	४३	वर्तक	{ १०३	३५
	{ ११७	६४	वराटक	{ १९१	२७		{ २२९	११
वपुस्	११९	७०		{ २९७	३८	वर्त्तन	{ १६५	१
	{ ६२	३	वरारोहा	१०५	४		{ १०२	२९
वप्र	{ १६७	११	वराशि	१२७	११६	वर्त्तनी	{ ६१	१५
	{ १८९	१०५	वराह	९७	२		{ १९३	३३
	{ ११६	५५	वरिवसित	२१६	१०२	वर्त्ति	१३०	१३३
वमथु	{ १५०	३७	वरिवस्या	१३८	३५	वर्त्तिका	१०३	३५
वमि	११६	५५	वरिवस्थित	२१६	१०२	वर्त्तिण्यु	२०२	२९
वयस्	२७०	२३०	वरिष्ट	१८४	९७	वर्तुल	२०९	६९
	{ ७७	५८	वरिष्ट	२१८	१११	वर्त्मन्	{ ६१	१५
वयस्था	{ ९१	१३७	वरी	८४	१००		{ २४९	१२१
	{ ९२	१४४	वरीयस्	२७१	२३५	वर्धक	८३	९०
	{ ११३	४२		{ १५	६१	वर्धकि	१८८	९
वयस्य	{ १४५	१२	वरुण	{ १७	२	वर्धन	{ २०१	२८
वयस्या	१०७	१२		{ ७२	२५		{ २१९	७
	{ १२९	१२४	वरणात्मजा	१९४	३९	वर्धमान	७६	५१
वर	{ २२०	८	वरुथ	१५३	५७	वर्धमानक	१७२	३२
	{ २५९	१७३	वरुथिनी	१५७	७८	वर्धिण्यु	२०१	२८
	{ १०१	२५	वरुण्य	२०७	५७	वर्मन्	१५५	६४
वरटा	{ १०१	२७	वर्कर	१९१	२३	वर्मित	१५५	६५

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	
बय	२७	५७	बलप्रि	१९	१३	वास्त	१२७	११४	
बया	१६	७	बलप्री	१८	९	वन्त्र	१२७	११५	
बर्चना	११	२६	बन्धु	११७	६३	बन्धुयोनि	१२६	११	
बर्ष	२९	११	बया	२२	८	बन्धुवदमन्	१२८	१२	
	५९	६	बयाक्रिया	२१९	४	बन्ध	१८१	७०	
	२६८	२२४							
बयवर	१४४	९	बया	१४९	३६	बन्धुता	११८	६६	
बर्षा	२७	१९		१७८	६९	बह	१७७	६३	
बयामू	५४	२४	बधिक	२७	५६	बद्धि	१४	५३	
बयाम्नी	५४	२४	बधित्व	११	३६	बाहुतंत्रक	८१	८	
बर्षियस्	११३	४३	बधिर	८४	९७	बद्धित्व	१८६	१६	
बर्षेपस	१९	१२		१७३	४१	बा	२७३	२४९	
बध्मन्	११९	७	बध्म	२	२५			२७६	७
	२४९	१२३	बध्म्	२७६	८			२७८	१५
बलद्य	६२	१३	बद्धकृत्	१३७	२७	बाक्यति	२६	३५	
बलज	२३३	३१	बलानि	२३	६७	बाल्य	३२	९	
बलजा	२३३	३१	बलन	१२७	११५	बालिधि	२३	३५	
बलभी	६४	१५	बलन्त	२७	१८	बगुण	११	२६	
बलप	१२६	१७	बला	११७	६४	बगुनेक	१८९	१४	
बलपिा	२१३			७	१	बागमन्	२३	३५	
बलीक	६४	१४	बमु	८१	८१	बाहमुण	३५		
बर्मुण	७	३			१८३		बाध	३३	१
बलह	६	१२	बमुह	२६९	२२८	बन्धवम	१४०	४२	
बलह	६	१२			८१	८	बापक	३३	२
बलिगत्र	१२	४८		१७३	४३	बाभयति	२३	३४	
बन्धु	१५३	१४४	बगुनेक		२२	बापाट	२३	३६	
बर्षिक	६	१४	बगुण	५८	३	बापक	२३	३६	
बगडी	३	३	बगुणपा	८	३	बाधिह	३६	१७	
बन्ध	७	५	बगुन्नी	५८	३	बाध मुद्रा	३३	३५	
	१५२	१३७	बन्ध	२८६	१३	बाध	३५	८७	

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक.
वाजपेय	२९४	३१	वात्सक	१७७	६०	वारण	१४९	३४
वाजिदन्तक	८५	१०३	वादित्र	३९	५	वारणवृसा	८६	११३
वाजिन्	{ १०२ ३३ १५१ ४४ २४६ १०७	३३	वाद्य	३९	५	वारत्राण	१५५	६३
		४४	वान	७०	१५	वारमुख्या	१०८	१९
		१०७	वानप्रस्थ	{ ७२ २८ १३२ ३	वारस्त्री	१०८	१९	
वाजिशाला	६२	७	वानर	९७	३	वाराही	{ ११ ३५ ९३ १५१	
वाछा	४४	२७	वानस्पत्य	६८	६	वा	४९	३
वाटी	२९८	४२	वानीर	७२	३०	वारद	१८	७
वाट्यालका	८५	१०७	वानेय	९०	१३१	वारिपणी	५६	३८
वाडव	{ १४ ५६ १३२ ४ १५२ ४६	५६	वापी	५५	२८	वारिप्रवाह	६६	५
		४	वाम	२५३	१४४	वारिवाह	१८	६
		४६	वामदेव	१०	३२	वारी	१५१	४३
वाडवानल	१४	५६	वामन	{ १८ ३ ११३ ४६ २०९ ७०	३	गारुणी	२३६	५२
वाडव्य	२२७	४१	वामन	{ १८ ३ ११३ ४६ २०९ ७०	३	वार्ता	{ ३४ ७ १६५ १ २४० ७५	
वाणि	१९२	२८	वामल्लर	६०	१४	वार्ताकी	८६	११४
वाणिज	१८०	७८	वामलोचना	१०५	३	वार्ताविह	१९०	१५
वाणिज्य	{ १६५ २ १८१ ७९	२	वामा	१०४	२	वार्धक	११२	४०
		७९	वामो	१५२	४६	वार्धुषि	१६६	५
वाणिनी	२४७	११२	वायदण्ड	१९२	२८	वार्धुषिक	१६६	५
वाणी	३३	१	वायस	१००	२०	वार्मण	२२७	४३
वात	१५	६३	वायसाराति	९९	१५	वार्षिक	९३	१५०
वातक	९३	१४९	वायसी	९३	१५१	वाल	१२३	९५
वातकिन्	११६	५९	वायसोली	९२	१४४	वालधि	१५२	५०
वातपोथ	७२	२९	वायु	१५	६१	वालपाश्या	१२५	१०३
वातप्रमी	९८	७	वायुसस	१४	५५	वालहस्त	१५२	५०
वातमृग	९८	७	वार्	४९	३			
वातरोगिन्	११६	५९	वार	{ १०३ ३९ २५६ १६१	३९			
वातायन	६३	९						
वातायु	९८	८						
वातूल	२६३	१९६						
वात्या	२६३	१९६						

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
वाञ्छक	८८	१२१		१५७	७८	विह्वल	२५	४४
वाञ्छका	१४	७३	वाहिनी	१५८	२८	विधवा	२२४	३७
वास्तक	१२४	१११		२४७	१११	विगत	२१४	१०
वाक्पूक	२३	३५	वाहिनीपति	१५५	६२	विगतार्थवा	१०९	२१
वाशिका	८५	१३	वि	१२	३३	विम	११४	४६
वाशित	३८	२५	विद्यति	१८१	८३		११९	७०
वाप्त	१२	६	विद्यकत	७४	३७	विग्रह	१४६	१८
वाप्तक	८५	१३	विद्यन्	६८	७		१६२	१४
वाप्तगृह	१३	८	विद्यर्तन	२२	२९		२२३	२२
वाप्तन्ती	८	७२	विद्यर्थांग	११३	४६	विपठ	१३७	२८
वाप्तयोग	१३	१३४	विद्यथर	२२	३	विम	२२३	१९
वाप्त्र	२४	२	विद्यार	८	९	विमराज	११	३८
वाप्त्रन	१२	४२	विद्यसिद्ध	६८	८	विचक्षण	१३३	६
वाप्त्रस्	१२७	११५	विद्यस्वर	२२	३	विद्यपन	२२५	९
वापित	{ १३	१३४	विद्यार	२२२	१५	विचर्चिका	११५	५३
	{ १७४	४३	विद्यापिन्	२२	३	विचारणा	३	२
वापिता	२४	७५	विदि	१२	२३	विचारित	२१४	९९
वापुष्क	४७	४	विदीरप	८१	८	विचिकित्सा	३	३
वापुश्देह	८	२	विकुर्षपि	१९७	७	विष्णुश्लोक	६३	११
वापु	४१	१४				विष्णुप	२९२	२६
वापु	६५	१९	विह्वल	{ ४२	१९	विज्जन	{ १४७	७२
				{ ११६	५८		{ २४२	८२
वास्तूक	९४	१५८	विह्वलि	२२२	१५	विजय	१६३	११
वास्तूप्यति	१२	३	विक्रम	{ १६२	१०२	विजिह्व	१७४	४६
वाक्त्र	१५३	५४		{ २५२	१४१	विज्ञ	१९३	४
वाह	{ १५१	४४	विक्रम	१८१	८३	विहात	१९७	९
	{ १८२	८८	विक्रमिक	१८	७९	विज्ञान	३	६
वाहद्विपत्	९७	४	विक्रान्त	१५७	७७	विद्	{ ११८	६८
वाहन	१५४	६८	विक्रिया	२२	१५		{ १६५	१
वाहर्	४७	५	विकीर्ण	१८	७९	विट	२८८	१७
वाहिय	१५	३९	विकीर्ण	१८१	८१	विटक	६४	१५

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
विटप	{ ७० १४		विदु	१५०	३७	विधुर	२२३	२०
	{ २५० १३१		विदुर	{ ७३ ३०		विधुवन	२१९	४
विटपिन्	६८	५		{ २०२ ३०		विधूनन	२१९	४
विट्खदिर	७६	५०	विदुल	७३	३०	विधेय	२००	२४
विट्चर	१९१	२३	विद्व	२१६	९९	विनयग्राहिन्	२००	२४
विड	१७३	४२	विद्वकर्णी	८२	८४	विना	२७५	३
विडङ्ग	८५	१०६	विद्याधर	७	१८			
वितहा	२८४	९	विद्युत	१९	९	वनायक	{ ८ १४	
वितथ	३७	२१	विद्रधि	११६	५६		{ ११ ३८	
वितरण	१३७	२९	विद्रव	१६४	१११	निश	२	२२
वितर्दि	६४	१६	विद्रुत	२१६	१००	निनाशोन्मुख	२१४	९१
वितस्ति	१२१	८४	विद्रुम	१८३	९३			
वितान	{ १२८ १२०		विद्रुमलता	८९	१२९	वि	{ १५१ ४४	
	{ २४७ ११३						{ २०० २५	
वितुन्न	९३	१४९	विद्वस्	{ १३३ ५		वन्दु	२०२	३०
				{ २७० २३४		विन्ध्य	६६	३
वितुन्नक	{ ८९ १२६		विद्वप	४३	२५	वन्न	{ २१६ ९९	
	{ १७३ ३७		विघवा	१०६	११		{ २१६ १०४	
	{ १८५ १०१		विषा	{ १९४ ३८		विपक्ष	१४५	११
वित्त	{ १८३ ९०			{ २४५ १०१		विपची	३९	३
	{ १९७ ९		वितृ	८	१७	विपण	१८१	८३
	{ २१६ ९९					विपणि	{ ६२ २	
विदर	२१९	५		{ ८ १७			{ २३६ ५२	
विदल	२९५	३२	विधि	{ २९ २८		विपत्ति	१५८	८२
विदारक	५०	१०		{ १३९ ३९		विपथ	६१	१६
				{ २४५ १००		वपद	१५८	८२
विदारी	{ ७१ १२०		विधिदर्शिन	१३५	१६	विपर्यय	२२६	३३
	{ ८६ ११०					विपर्यास	२२६	३३
विदारिगन्धा	८७	११५	विधु	{ ८ २२		विपश्चित्	१३३	५
				{ १९ १४		विपाद्	५५	३३
विदित	{ २१७ १०८		विधुत्	{ २४५ ९९		विपादिका	११५	५२
	{ २१७ १०९							
विदिश	१८	५	विधुत्त	२१७	१०७			
			विधुत्त	३२	२६			

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
विषाशा	५५	३३	विमनस्	१९०	८	विधीन	२१६	१
विपिन	६०	१	विमर्दन	२२१	१३	विछपन	{ १३ १२३	
विपुत्र	२ ८	६१	विमला	९२	१४३		{ २२५ २०	
विप्र	{ १३२	२	विमकार्यक	२ ७	५५	विशेषी	१७५	५
			विमातृस	१ ९	२५	विशध	२४४	९६
विप्रकार	२२२	१५	विमान	१३	४८	विशर	४६	१
विप्रकृत	२ ४	४१	विपत	१७	२	विशर्ष	१०	१६
विप्रकृष्टक	२०९	६८	विमर्द्ग	१३	४९	विशघ्न	२ ५	४४
विप्रतीकार	४३	२५	विपम	२२२	१८	विशस्वत्	{ २२ २९	
विप्रयोग	२२५	२८	विवात	२०१	२५		{ २३७ ५०	
विप्रकम्प	२ ४	४१	विषाम	२२२	१८	विवाह	३५	९
विप्रकम्भ	{ ४५	३६	विरक्तसामस्	१४	४४	विवाह	१४२	५६
			विगति	२२६	३७	विवाह	{ १४० २२	
विप्रकाप	३६	१६	विरक्त	२ ९	६६	विवाह	२४२	८२
विप्रभिक्षा	१ ८	२०	विराज	१४१	१	विवाह	{ १४० २२	
विमुष्	५	६	विराज	१८	२३	विवाह	२१४	९३
विम्लय	२३२	१४	विराज	१८	२३	विवाह	१३९	३८
विश्व	११५	५५	विराज	८	१७	विवाह	४५	३१
विशुध	७	७	विराज	१	३२	विवाह	१६५	११७
विभय	१८३	९	विरोचन	{ २२ २४	{ १ ८	विवाह	{ ८२ ८९	
विभाकर	२२	२८	विरोच	४३	२५	विवाह	{ ९ १३६	
विम वरी	२४	४	विरोचन	२२३	२१	विवाह	{ २५५ १५५	
विमावसु	{ १४	५६	विरोचि	३६	१६	विवाह	{ १६४ ११४	
			विरोचि	२२	२६	विवाह	{ १२ १२	
	२३९	२२६	विरोचि	२ १	२६	विवाह	{ १६४ ११४	
विभीतक	७७	५८	विरोचि	२१८	२	विवाह	१२ ४	
विमृति	११	३६	विरोचि	४०	९	विवाह	२१ २२	
विमृचन	१३४	१ १	विरोचि	२२५	२८	विवाह	२२५ ३२	
विभ्रम	४५	३१	विरोचि	३६	१६	विवाह	१६४ ११२	
विभ्रान्	१२४	१ १	विरोचि	४५	३१	विवाह	१४४ ९५	

शब्द	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक.
विशाल	२०८	६०		३१	७	वसवाढ	४५	३६
विशालता	१२७	११४	विषय	५९	८	विमर	१०३	३९
विशालत्वच्	७१	२३		२२१	११	विमर्जन	१३७	२९
विशाला	९४	१५६	विषयिन्	२५४	१५२	विसर्पण	२२४	२३
विशिख	१५९	८६	विषयंघ	३१	८	वसार	५२	१७
विशिखा	६२	३	विषा	४८	११	विसारिन्	२०२	३१
विशषक	१२९	१२३	विषाक्त	८४	९९	विसृत	२१२	८६
विश्राणन	१३७	२९	विषाण	१६०	८८	विसृत्वर	२०२	३१
विश्राव	२२५	२८	विषाणी	२३७	५६	विसृमर	२०२	३१
विश्रुत	१९७	९	विषाणी	८८	१३९	विस्तर	२२३	२२
			विषुत्र	२६	१४			
विश्व	७	१०	विषुवत्	२६	१४	विस्तार	७०	१४
	१७३	३८	विषिकर	१०२	३३		२२३	२२
	२०९	६५	विष्कम्भ	६५	१७	विस्तृत	११२	८६
श्वकट्टु	१९१	२२	विष्टप	५९	६	विस्फार	१६३	१०८
श्वकर्मन्	२४६	१०९	विष्टर	२५८	१६९	विस्फोट	११५	५३
श्वद्यच्	२०३	३४	विष्टश्रवस्	८	१८	विस्मय	४२	१९
श्वमंषज	१७३	३८	विष्ट	४८	३	विस्मयान्वित	२०१	२६
श्वभर	८	२२	विष्टा	११८	६८	विस्मृत	२१२	८६
श्वम्भरा	५८	२	विष्टा	८	१८	विस्व	३२	१२
श्वसृज्	८	१७	विष्णु	८	१८			
विश्वस्ता	१०६	११	विष्णुकान्ता	८५	१०४	विस्वम्भ	१४७	२३
विश्वा	८४	९९	विष्णुगद	१७	२		२५१	१३५
विश्वास	१४७	२३	विष्णुपदी	५५	३१	वलमा	११२	४१
विष्णु	११८	६८	विष्णुरथ	१०	२९	वहग	१०३	३२
			विष्य	२०५	४५	विहग	१०३	३२
विष	४८	९	विषक्	२७७	१३	विहगम	१०३	३२
	२६६	२१४	विष्वद्यच्	२०३	३४	विहगिका	१९२	२९
	२६८	२२३	विष्वक्सन	८	१९	विहसित	४५	३५
विषधर	४७	७	विष्वक्सेना	७७	५६	विहस्त	२०५	४३
विषमच्छद	७१	२३	विष्वक्सेनाप्रिया	९३	१५१	विहापित	१३७	२९

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
विपाद्या	५५	३३	विमनस्	१९७	८	विखीन	२१६	१
विपिन	६७	१	विमर्शन	२२१	१३	विच्छपन	{ १३ १३३	
विपुळ	२८	६१	विमळा	९२	१४३		{ २२५ २७	
विप्र	{ १३२	२	विमलायक	२७	५५	विसेपी	१७५	५
	{ १३२	४	विमातुळ	१९	२५	विबध	२४४	९६
विप्रकार	२२२	१५	विम्यान	१३	४८	विबर	४६	१
विप्रहृत	२०४	४१	विमय	१७	२	विबण	१०	१६
विप्रहृष्टक	२९	६८	विमयत्रंगा	१३	४९	विबद्या	२५	४४
विप्रतीसार	४३	२५	विबभ	२२२	१८	विबस्वत्	{ २२ २९	
विप्रयोग	२२५	२८	विबात	२०१	२५		{ २३७ ५७	
विप्रबन्ध	२०४	४१	विबास	२२२	१८	विबाध	३५	९
विप्रबन्ध	{ ४५	३६	निरबस्तमस्	१४०	४४	विबाह	१४२	५६
	{ २२५	२८	विगति	२२६	३७	विबिच्छ	{ १४७ २७	
विप्रबाप	३६	१६	विगल	२९	६३		{ २४२ ८२	
विप्रामका	१८	२०	विगल	२९	६३	विबिष	२१४	९३
विमुग्	५	६	विगल	१४३	१	विबेक	१३९	३८
विम्व	२२२	१४	विगत	३८	२३	विष्मौक	४५	३१
विबेध	११८	५५	विगुण	८	१७	विष्	१६८	१
विबुध	७	७	विकृपाद्य	१	२३	विष्मौक	२८	६
विमय	१८३	९	विरोधन	{ २२ २४	३ ७	विद्यह	३२	१२
विमाकर	२२	२८	विरोध	४३	२५	विद्यर	१६४	११८
विम बरी	२४	४	विरोधन	२२३	२१	विद्यन्या	{ ८२ १६	
विमायतु	{ १४	५३	विरोधोक्ति	३३	१६		{ ९ १३६	
	{ २२	२	बलद्य	२१	२६	विद्यसन	१६४	११४
	{ २६९	२२६	विद्यन	२१८	२	विद्यान	१२	४
विभीतक	७७	५८	विद्यत	४०		विद्यागा	२१	२२
विमूा	११	३६	विद्यम	२२५	२८	विद्यान	२२५	२२
विमूरव	१७४	११	विद्याप	३६	१६	विद्यारण	१६४	११२
विधम	४५	३१	विद्याप	४५	२१	विद्याप	२४४	९५
विधान	१२४	१०१	विद्याप	४५	२१			

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द	पृष्ठ	श्लोक.
विशाल	२०८	६०		३१	७	विसवाद	४५	३६
विशालता	१२७	११४	विषय	५९	८	विमर	१०३	३९
विशालत्वच्	७१	२३		२२१	११	विमर्जन	१३७	२९
विशाला	९४	१५६	विप्रयिन्	२५४	१५२	विसर्पण	२२४	२३
विशिख	१५९	८६	विप्रवैद्य	३१	८	वसार	५२	१७
विशिखा	६२	३	विषा	४८	११	विसारिन्	२०२	३१
विशषक	१२९	१२३	विषाक्त	८४	९९	विसृत	२१२	८६
विश्राणन	१३७	२९	विषाण	१६०	८८	विसृत्वर	२०२	३१
विश्राव	२२५	२८	विषाणी	२३७	५६	विसृमर	२०२	३१
विश्रुत	१९७	९	विषाणी	८८	११९	विस्तर	२२३	२२
			विषुव	२६	१४			
विश्व	{ ७	१०	विपुवत्	२६	१४	विस्तार	{ ७०	१४
	{ १७३	३८	विष्किर	१०२	३३		{ २२३	२२
	{ २०९	६५	विष्कम्भ	६५	१७	विस्तृत	२१२	८६
विश्वकद्रु	१९१	२२	विष्टप	५९	६	विस्फार	१६३	१०८
विश्वकर्मन्	२४६	१०९	विष्टर	२५८	१६९	विस्फोट	११५	५३
विश्वद्यच्	२०३	३४	विष्टरश्रवस्	८	१८	विस्मय	४२	१९
विश्वमेपज	१७३	३८	विष्ट	४८	३	विस्मयान्वित	२०१	२६
विश्वभर	८	२२	विष्टा	११८	६८	विस्मृत	२१२	८६
विश्वभरा	५८	२	विष्णु	८	१८	विस्त्र	३२	१२
विश्वसृज्	८	१७	विष्णुकान्ता	८५	१०४	विस्त्रम्भ	{ १४७	२३
विश्वस्ता	१०६	११	विष्णुग्द	१७	२		{ २५१	१३५
विश्वा	८४	९९	विष्णुपदी	५५	३१	वल्गमा	११२	४१
विश्वास	१४७	२३	विष्णुरथ	१०	२९	वहग	१०३	३२
विष्	११८	६८	विष्य	२०५	४५	वहग	१०३	३२
			विष्कृ	२७७	१३	वहगम	१०३	३२
विप	{ ४८	९	विष्कृद्यच्	२०३	३४	वहगिका	१९२	२९
	{ २६६	२१४	विष्वक्सेन	८	१९	विदसित	४५	३५
	{ २६८	२२३	विष्वक्सेना	७७	५६	विहस्त	२०५	४३
विपपर	४७	७	विष्वक्सेनामिया	९३	१५१	विहापित	१३७	२९
विपमच्छद	७१	२३						

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
वृष	२२	२७	वैत्रवती	५६	३४	वैकुण्ठ	८	१८
	२८	२४	वेद	३३	३	वैजानन	११२	३९
	८५	१०३	वेदना	२१९	६	वैजयन्त	१३	४६
	८७	११६	वेदि	१३५	१८	वैजयन्तिक	१५६	७१
	१७७	५९	वेदिका	६४	१६	वैजयन्तिका	७९	६५
	२६८	२२०	वेध	२२०	८	वैजयन्ती	१६२	९९
वृषण	१२०	७६	वेधनिका	१९३	३३	वैज्ञानिक	१९६	४
वृषदशक	९७	६	वेधमुख्यक	९०	१४५	वैणव	७०	१८
वृषध्वज	१०	३४	वेधस्	८	१७	वैणविक	१८९	१३
वृषभ	१७७	५९	वेधित	२६९	२२८	वैणिक	१८९	१३
वृषल	१८७	१	वेपथु	२१६	९९	वैणुक	१५०	४१
वृषस्यन्ती	१०६	९	वेमन्	४६	३८	वैतसिक	१८९	१४
वृषा	१२	४२	वेला	१९२	२८	वैतनिक	१८९	१५
	८२	८७	वेल्ह	२६३	१९८	वैतरणी	४८	२
वृषाकपायी	२५५	१५६	वेल्हज	८५	१०६	वैतालिक	१६१	९७
वृषाकपि	२५०	१३०	वेल्हित	१७२	३५	वैदेहक	१८७	३
वृष्टि	१९	११	वेल्हित	२१०	७१	वैदेही	१८०	७८
वृष्णि	१८०	७६	वेश	२१२	८७	वैद्य	८४	९६
वेग	२३१	२०	वेशन्त	६१	२	वैद्यमातृ	११६	५७
वेगिन्	१५६	७३	वेश्मन्	५४	२८	वैध्या	८५	१०३
वेणि	१२४	९८	वेश्या	६२	४	वैधात्र	१३	५१
वेणी	७९	६९	वेश्याजनसमाश्रय	१०८	१९	वैधेय	२०६	४८
वेणु	९५	१६१	वेप	१२४	२	वैनतेय	१०	२९
वेणुक	१५०	४१	वेपवार	१७२	९९	वैनतिक	१५४	५८
वेणुधम	१८९	१३	वेष्टित	१७२	३५	वैमात्रेय	१०९	२५
वेतन	१९४	३८	वेहत्	२१३	९०	वैयात्र	१५३	५३
वेतस	७२	२९	वै	१७९	६९	वैर	४३	२५
वेतस्वत्	५९	९	वै	२७६	५	वैरनिर्यातन	१६३	११०
वेताल	२९०	२१	वैकक्षिक	२७८	१५	वैरशुद्धि	१६३	११०
				१३१	१३६	वैरिन्	१४५	१०

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
बैशधिक	१९	१५	व्यसन	२४८	१२	व्याहार	३३	१
वैशद्यत	१४	५९	व्यसनात्	२	५	व्युरूपान	२४८	११८
वैशाल	28	१६	व्यस्त	२१	७२	व्युष्टि	२३४	३८
		१८	७४	व्याकुल	२	५	व्युद्ध	२३५
वैस्व	१६५	१	व्याकोश	६८	७	व्युद्धकटक	१५५	६७
वैभरण	१६	६९	व्याम	90	१	व्युति	१९२	२८
वैशानर	१४	५३	व्याम		२८	५९	व्युह	१
वैष्णवी	११	३५	व्यामनस	८९	१२९	व्युहपाणि		१५७
वैशारिण	५२	१७	व्यामपाद्	७४	३७		व्युहपाणि	२७१
वैषट्	२७६	८	व्यामपुच्छ	७६	५	व्योकार		१८८
व्यस	२३८	३२	व्यामाट	९९	१५	व्योमकथ	१	३४
व्यक्ति	२	३१	व्यामी	८३	९३	व्योमन्	१७	१
व्यग्र	२६२	१९	व्याज	44	३	व्योमयान	१३	४८
व्यग्रा	२५९	१७७	व्याज		४५	३३	व्योप	१८६
व्यजन	१३२	१४	व्याज	२३५	४२	वज्र	1	३९
व्यञ्जक	४२	१६	व्याबाहुष	८९	१२९			
व्यञ्जन	248	११६	व्याष	१९	२१	वजा	1	३९
		२९१	२३	व्याधि	८९			
व्यङ्ग्यक	७६	५१	व्याधि	११५	५१	वज्र	११५	५४
व्यास्यय	२२६	३३	व्याधिषात्	७१	२४	वज्रकाय	२६२	१८
व्यात्य य	२२६	३३	व्याभित	११६	७८	वज्र	१३९	३७
व्याया	४९	३	व्यान	१७	६३	वज्रादि	50	६७
व्याघ	२२	८	व्यापाद्	३	४			
व्याज्ज	६४	१६	व्याप्य	८९	१२९	वज्रिन्	१३३	७
व्याय	२२	१७	व्याम	१२२	८७	वज्रन	१९३	३२
यसीक	२२	१२	याक	40	७	वात	१	३९
यस्यपा	१	१२	याक		२६३	१	वा व	१४२
व्यावहाय	२६६	२१३	व्यावहादिन्	४८	११	व्रीडा	४३	९३
व्यावहार	३४		व्यावृत्त	२१४	२	व्रीदि	150	२१
यवाय	१४२	५७	व्यावृ	२२३	२२			

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
शाखिक	१८८	८	शाल	५३	१९	शिखर	६६	४
शाटक	२९५	३३				६८	५	६९
शाटी	२९७	३८	६९	११	शिखरिन्	६५	१	
शाट्य	४४	३०	शालपर्णी	८७		११५	२४६	१०६
शाण	१९३	३२	शाला	६२	६	शिखा	१४	५७
शाणी	२८४	९					६९	११
शांडिल्य	७३	३२	शालावृक	२३९	१२	१२४	९७	
शात	२८	२५	शालि	१७०	२४	२३१	१९	
		९१	शालीन	२०१	२६	शिखावत्	२४	५५
शातकुम्भ	१८३	९४	शालूक	५६	३८	शिखावल	१०२	३०
शात्रव	१४५	११	शालूर	५४	२४	शिखिग्रीव	१८५	१०१
शाद	५०	९	शालेय	८५	१०५	शिखिन्	१०२	३०
		९०				१६६	६	२४६
शादहरित	६०	१०	शात्मलि	७५	४६	शिखिवाहन	१२	४०
शाद्वल	६०	१०	शात्मलीवेष्ट	७५	४७	शिशु	७३	३१
शान्त	२१५	९७	शावक	१०३	३८		१७२	३४
शान्ति	२१९	३	शावर	७३	३३	शिशुज	१८६	११०
		७३	३३	शाश्वत	२१०	७२	शिशित	३८
	१८९	११	शाष्कुलिक	२४७	४०	शिंजिनी	१५९	८५
	२५८	१६६	शासन	१४७	२५	शितशूक	१६८	१९
ल	७१	२३	शास्तृ	८	१४	शिति	२४२	८३
		२४४	९५	शाल	२६०	१७९	शितिकण्ठ	१०
	८६	१११	शास्त्रविद्	१९७	६	शितिसारक	७४	३८
	१९५	४६	शिक्य	१९२	३०	शिपिविष्ट	२३३	३४
	८६	११२	शिक्यित	२१३	८९	शिफा	६९	११
	६०	११	शिक्षा	३४	४	शिफाकन्द	५७	४३
इ	९७	१	शिक्षित	१९६	४	शिविका	१५३	५३
	२०८	५९	शिखण्ड	१०२	३१	शिविर	१४९	३३
	२६२	१८८	शिखण्डक	१२३	९६	शिम्व्वा	१७०	२३
						शिरस्	१२३	९५

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक
शमी	{ ७६	५२	शरद्	{ २७	१९	शश	१६५	११८
	{ १७	२३		{ २७	२०	शश	९८	११
शमीनाम्प	१७०	२४	{ २४४	९३	शशधनु	२०	१५	
शमीर	७६	५२	शरम	९८	११	शशभूमन्	१८६	१०७
शम्पा	१९	९	शरथ	१५९	८६	शशादन	९९	१४
शम्पाक	७१	२३	शशम्पास	१५९	८६	शशोर्षी	१८६	१७
शम्प	१३	४७	शशरि	११	२५	शम्भु	{ २७२	२४३
शम्बर	{ ४९	४	शशक	२१	२८		{ २७५	१
	{ ९८	१	शशक	१७२	३२		{ २७७	११
शम्बरारि	९	२६	शशकवी	५६	३४	शश	१०३	१६७
शम्बरी	८२	८७	शशकम	१५९	८६	{ २८	२६	
शम्बक	२९५	३४	शशरि	११९	७		{ २१७	१९
शम्बाकृत	१६७		शशरिन्	२९	३	{ १५८	८२	
शम्बूक	५२	२३	शर्करा	{ ३	११		{ २६	१७९,
शम्भनी	१८	१९		{ १७४	४२	शम्भक	१८४	९८
				{ २५९	१७५	शम्भमार्ज	१८८	७
शम्भु	{ १	३	शर्करावत्	३	११	शम्भान्नीय	१५५	३७
	{ २५१	१३५	शर्करिक	३	११	शम्भी	१६	९२
शम्पा	१६८	१४	शर्मन्	२८	२५	{ ९	१३६	
शव	१२१	८१	शर्ष	१	३		{ १७२	३४
शवन	{ ४३	३३	शर्षरी	२४	३	शकट	१७७	६४
	{ १३१	१३८	शर्षाबी	११	३७	शकुनिक	१८	१४
शयमीम	१३१	१३७	शक	९८	७	शकीक	१५३	६९
श्याह	२२	३३	शकम	१२	२८	शक्यगुनि	८	१४
शयित	२२	३३	शकस	९८	७	शक्यप्रतिह	८	१५
शमु	४७	५	शकबी	९८	७	शका	५९	११
शम्पा	१३१	१३७	शकट	७	१५	शकान्नगर	६१	२
शर	{ ९५	१३२	शक	२३०	१२	शकाम्प	९७	३
	{ १५९	८७	शस	{ ७६	५३	शक्याधिका	६९	११
		{ ९७		७	शक्यतिम्	६८	५	
शरकमन्	१२	३९		{ १३	९३			
शरक	२३३	५३						

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
शांखिक	१८८	८	शाल	५३	१९	शिखर	६६	४
शाटक	२९५	३३						
शाटी	२९७	३८	शालपर्णी	८७	११५	शिखरिन्	६५	१
शाट्य	४४	३०						
शाण	१९३	३२	शाला	६९	११	शिखा	१४	५७
शाणी	२८४	९						
शाडिल्य	७३	३२	गालावृक	२३९	१२	शिखावत्	२४	५५
शात	२८	२५	शालि	१७०	२४	शिखावल	१०२	३०
		९१	शालीन	२०१	२६	शिखिग्रीव	१८५	१०१
शातकुम्भ	१८३	९४	गालूक	५६	३८	शिखिन्	१०२	३०
शात्रव	१४५	११	शालूर	५४	२४	शिखिवाहन	१२	४०
शाद	५०	९	शालेय	८५	१०५			
		९०				१६६	६	२४६
शादहरित	६०	१०	शात्मलि	७५	४६	शिशु	७३	३१
शाद्वल	६०	१०	शात्मलीवेष्ट	७५	४७			
शान्त	२१५	९७	शावक	१०३	३८	शिशुज	१८६	११०
शान्ति	२१९	३	शावर	७३	३३	शिशित	३८	२४
शावर	७३	३३	शाश्वत	२१०	७२	शिशिनी	१५९	८५
शावरी	१८९	११	शाष्कुलिक	२४७	४०	शितशूक	१६८	१९
शार	२५८	१६६	शासन	१४७	२५	शिति	२४२	८३
शारद	७१	२३	शास्तृ	८	१४	शितिकण्ठ	१०	३२
		९५	शास्त्र	२६०	१७९	शितिसारक	७४	३८
शारदी	८६	१११	शास्त्रविद्	१९७	६	शिपिविष्ट	२३३	३४
शारिफल	१९५	४६	शिक्य	१९२	३०	शिफा	६९	११
शारिवा	८६	११२	शिक्यित	२१३	८९	शिफाकन्द	५७	४३
शार्कर	६०	११	शिक्षा	३४	४	शिविका	१५३	५३
शार्ङ्गिन्	८	१९	शिक्षित	१९६	४	शिविर	१४९	३३
शार्दूल	९७	१	शिरण्ड	१०२	३१	शिम्व्वा	१७०	२३
		५९	शिरण्डक	१२३	९६	शिरस्	१२३	९५
शार्वर	२६२	१८८						

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.				
शुभयु	२०६	५०	शृङ्खल	{	१२६ १०९	शैवल	५६	३८				
शुभान्वित	२०६	५०				१५१ ४१	शैवलिनी	५५	३०			
शुभ्र	{	३२ १२	शृखलक	{	१८० ७५	शैशव	११२	४०				
						२६२ १९२	६६ ४	शोक	४३	२५		
शुभदन्ती	१८	५	शङ्ग	{	९१ १४२	शोचिष्केश	१४	५४				
शुभ्राशु	१९	१४	शृङ्गवेर	{	२३२ २६	शाचिसू	२३	३४				
शुल्क	१४८	२७				१७३ ३७	शोण	{	३२ १५			
शुल्ब	{	१८४ ९७	शृङ्गाटक	{	६१ १७	शोणक	७७	५७				
						१९१ २७	शृङ्गार	४२	१७	शोणरत्न	१८३	९२
						२९१ २३	शृङ्गिणी	१७८	६६	शोणित	११७	६४
शुश्रूषा	१३८	३५	शृङ्गी	{	५४ २५	शोथ	११५	५२				
शुषि	४६	२				८४ १००	शोथिनी	९२	१४९			
शुष्कमांस	११७	६३	शृङ्गीकनक	{	८७ १३६	शोधनी	६५	१८				
शुष्म	१६२	१०२				१८४ ९६	शोधित	{	१७४ ४६			
शुष्मन्	१४	५४	शृत	२१४	९५	२०७	५६					
शृक	१७०	२३	शेखर	१३१	१३६	शोफ	११५	५२				
शृककीट	९९	१४	शेफसू	१२०	७६	शोभन	२०६	५२				
शृकधान्य	१७०	२४	शेफालिका	{	७९ ७०	शोभा	२०	१७				
शृकर	९७	२				२८३	७	शोभांजन	७३	३१		
शृकाशीम्ब	८२	८७	शेमुषी	२९	१	शाष	११५	५१				
शृद्र	१८७	१	शेलु	७२	३४	शौक	१०४	४३				
शृद्रा	१०७	१३	शेवधि	१७	७१	शौकिकेय	४८	१०				
शृद्री	१०७	१३	शेवाल	५६	३८	शौक्य	११२	४१				
शून्य	२०७	५६	शेष	४७	४	शौड	२००	२३				
शूर	१५७	७७	शैश्व	१३४	११	शौडिक	१८९	१०				
शूर्प	१७०	२६	शैखारिक	८२	८८	शौडी	८४	९७				
शूल	२६३	१९७	शैल	६५	१	शौद्धोदनि	८	१५				
शूलाकृत	१७४	४५	शैलालिन्	१८९	१२	शौरि	८	२१				
शूलिन्	१०	३०	शैलूष	{	७३ १८९	शौर्य	१६२	१०२				
शूल्य	१७४	४५				१८९	१२	शौस्विक	१८८	८		
शूगाल	९७	५	शैलेय	८९	१२३							

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक
शौचुस	१९९	१९	भीकण्ड	१	३२	भेड	२७	५८
श्योत	२२१	१	भीषन	८	१४	भोष्य	११४	४८१
शमदान	१६५	११८	भीद	१६	६९	भोगि	११९	७४
शमभु	१२४	९९	भीषति	८	२१	भोजिकक	११९	७४
श्याम	{ ३२	१४	भीषर्ण	{ ७९	६६	भोज	१२९	९४
	{ २५३	१४३				{ २३३	५३	भोजिय
श्यामक	३२	१४	भीषर्णिका	७४	४	भोषट्	२७६	८
श्यामा	{ ७७	८६	भीषर्णी	७४	३३	भ्रम	२०८	६१
			भीकस	७३	३२	भ्रम	२२१	११
			भीकसी	८३	९५	भ्रमण	११७	६०
			२५३	१४३	भोषन्	११७	६९	
श्याल	११२	३२	भीमत्	११९	१४	भ्रमणक	११७	६
श्याष	३३	१६	भीमत्	७४	४	भ्रमणातक	७३	१४
श्वेत	३२	१२	भीष	११८	१४	भ्रमणक	२२८	२
श्वेन	९	१५	भीषससांठन	८	२२	भ्रमणत	२८	२०
श्वेनगाता	२८३	६	भीषात	१२९	१२९	भ्रमण	८४	०८
भ्या	२४५	१२	भीषेड	१२९	१२९	भन्	१९१	१२
भद्रालु	{ १९	२१	भीषेठ	१२९	१२५	भ्यनिश	२९७	४
			भीहसिनी	७०	६९	भ्यरष	१००	२
भयत्र	२२१	१२	भुष	२४१	७७	भ्यत्र	{ ४६	२
भया	१२३	९४	भति	{ ३३	३			
भयत्	१२३	९४	भवि	{ १२३	९४	भ्यवमु	११५	५२
भविश	२१	२२						
भया	१७	७	भेगि	{ ६७	४	भगुर	११०	११
भय	१३७	३१				{ १८८	५	भ्यगुरी
भयदेव	१४	५	भेषन	{ २८	२४	भ्यर्ष	२५३	१४६
भय	२११	१२				{ ३१	६	भ्यम्
भयन	१७	१६	भरणी	{ २७	७८	भभ्यगुरी	११२	३७
भयनिष्ट	७७	१६				{ ७७	५	भग
भी	{ १५८	८३		{ ८१	८४	भरण	{ १५	६१

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
श्वाविध्	९७	७ सराव	३८	२३	सस्ताव	२२६	३४	
श्विन	११५	५४ संलाप	३६	१६	सस्त्याय	२५४	१५१	
श्वेत	{ ३२ १८४ २४१	१२ सवत्	२७८	१६	सस्था	१४७	२६	
		९६ संव	२७	२०	सस्थान	२४९	१२४	
		७९ संवनन	२१९	४	सस्थित	१६४	११७	
श्वेतगस्त	१०१	२३ सवर्त	२८	२२	संस्पर्शा	९३	१५४	
श्वेतमरिच	१८६	११० सवर्तिका	५७	४३	सस्फोट	१६२	१०५	
श्वेतरक्त	३२	१५ संवसथ	६५	१९	सहृत्	२१०	७५	
श्वेतसुरसा	७९	७१ संवाहन	२२३	२२	सहृत्तजानुक	११४	४७	
ष			{ २९ ३० २४३	१	सहृत्तल	१२१	८५	
				५	सहृत्ति	१०३	४०	
षट्कर्मन्	१३२	४ सविद्	२४३	९२	सहनन	११९	७०	
षट्पद	१०२	२९	२२५	३०	सहार	४८	२	
षडभिज्ञ	८	१४ सवीक्षण	२१३	९०	सहृत्ति	३५	८	
पढानन	१२	३९ संवीत	४५	३४	सकल	२०९	६५	
पडग्रन्थ	७६	४८ सवेग	२१९	६	सकृत्	२७२	२४२	
पडग्रन्था	८४	१०२ सवेद	४६	३६	सकृत्प्रज	१००	२०	
पडग्रन्थिका	९३	१५४ सवेश	१२८	११८	सकुफला	७६	५२	
षड्ज	३८	१ सव्यान	१६१	९८	सकिय	११९	७३	
षण्ड	१७७	६२ संशप्तक	३०	३	सखि	१४५	१२	
षण्ड	{ ११२ १४४	३९ सशयापन्नमानस	१९७	५	सखी	१०७	१२	
		९ सश्रव	३०	५	सख्य	१४५	१२	
षष्टिक	१७०	२४ सश्रुत	२१७	१०९	सगार्भ्य	१११	३४	
षष्टिक्य	१६६	७ सश्लेष	२२५	३०	सगोत्र	१११	३४	
षाण्मातुर	१२	४० संसक्त	२०९	६८	सग्धि	१७६	५५	
स			{ १३४ ६१ २३७	१३४	सकट	२१२	८५	
				१३४	ससरण	६५	१८	
सयत्	१६२	१०६ ससिद्धि	४६	३७	सकर्षण	९	२४	
सयत	२०४	४२ सस्कृत	२४१	८१	सकलित	२२४	९३	
सयम	२२२	१८ सस्तर	२५७	१६१	सकल्प	३०	२	
सयाम	२२२	१८ सस्तव	२२३	२३	सकलुक	२०५	४३	
संयुग	१६२	१०५						
सयोजित	२१४	९२						

शब्द	पृष्ठ.	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ.	श्लोक
संकाश	१९४	३७	सञ्जना	१५१	४२	सहन	६२	५
संकीर्ण	{ १९६ २१२ २३७	{ १ ८५ ५७	सञ्चय	१	३	सहस्र	१३४	१५
			सञ्चारिका	१	८	सहस्र	१३५	१६
			सञ्चयन	६२	३	सहा	२८	२२
संकुञ्च	{ ३७ २१२	{ १९ ८५	सञ्चार	१४	५७	सहागत	१५	६१
			सञ्चयन	१६४	११३	सहायन	२१	७२
संकोच	१२९	१२४	सञ्चा	२३३	३२	सहानीय	५५	३३
संक्रन्दन	१२	४४	सञ्च	११४	४७	सहकृ	१९३	३६
संक्रम	२२४	२५	सञ्च	१२४	५७	सहस्र	१९९	३६
संक्षेपण	२२३	२१	सञ्चीन	१	३	सहस्र	१९३	३६
संक्षय	१६२	१	सञ्च	{ १३२ २४२	५	सहस्र	२	६७
संक्षया	३	२	सञ्च		८३	५	सहस्र	६२
संक्षयात्	२	८	सञ्चत्	१६	६५	सहस्र	२७७	९
संक्षयत्	१३३	५	सञ्ची	१	५	सहस्रिणी	२१	२
संक्षय	२२५	२९	सञ्चीनक	१६८	१६	सहस्रव	२	३४
संक्षय	३७	१८	सञ्चीर्ष्य	१३४	१२	सहस्रकुमार	१३	५१
संक्षय	{ २२५ २९५	{ ३४ ३४	सञ्चप	२	७	सना	२७८	१७
			सञ्च	२	७	सनातन	२१	७२
संक्षय	२५८	१६६	सञ्च	{ २९ २६६	२९	सनामि	१११	३३
संक्षय	२१७	१	सञ्चय		६१	१६	सनि	१३८
संक्षय	२१४	९३	सञ्चय	{ ३७ २५	२२	सानीय	३७	२
संक्षय	३४	३	सञ्चय		१५४	२२	सनीय	२
संक्षय	१६२	१	सञ्चकार	१८१	८२	सन्तत	१६	६५
संक्षय	{ १६ २२२	{ ९ १४	सञ्चयस्यसु	१४	४३	सन्तमल	४७	४
			सञ्चयकृति	१८१	८२	सन्तति	१३२	१
सञ्च	१	४	सञ्चयानुत्	१६६	३	सन्तत	२१६	१
सञ्चत्	१	३	सञ्चापन	१८१	८२	सन्त	{ १३ १३२	५
सञ्चिन	२६५	२	सञ्च	२६	१८१	सन्त		१
सञ्च	१५५	६५	सञ्चा	२७५	४	सन्त	१४	५७
सञ्चन	{ १३२ १४९	{ ३ ३३	सञ्चिन्	१४५	१५	सन्तपित	२१६	१
			सञ्चर	१५	६५	सन्तान	१७९	७३
						सन्तानित	२१४	९५

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
सन्दाव	१६४	१११	सप्तला	{	८० ७२	ममया	{	२७४ २५२
सन्दित	{	२१२ ८६				१२ १४३		
			२१४ ९५	सप्तार्चिसू	१४ ५६		समर्थ	२४२ ८७
सन्देशवाच्	३६	१७	सप्ताश्व	२२	२९	समर्थन	१४७ २५	
सन्दशहर	१४६	१६	सप्ति	१५१	४४	समर्थक	१९७ ७	
सन्देह	३०	३	सन्नस्यचारिन्	१३४	११	समर्याद	२०९ ६७	
सन्दोह	१०३	३९	सभर्तृका	१०७	१२	समवर्तिन्	१४ ५८	
सन्द्राव	१६४	१११	सभा	{	६२ १३४	समवाय	१०३ ४०	
सन्धा	२४५	१०२				२५२ १३७		समष्टिला
सन्धान	१९४	४२	सभाजन	२१९	७		समसन	२२३ २१
सन्धि	{	१४६ १८	सभासद्	१३५	१६	समस्त	२०९ ६५	
			२०१ ११	सभास्तार	१३५	१६	समस्या	३४ ७
सन्धिनी	१७९	६९	सभिक	१९५	४४	समाः	२७ २०	
सन्ध्या	२४	३	सभ्य	{	१३२ १३५	समानभूना	१७९ ७२	
सन्नकद्रु	७३	३५	सम			{	१९३ २०९	समाकर्षिन्
सन्नद्ध	१५५	३५	समग्र	२०९	६५			समाघात
सन्नय	२५४	१५१	समङ्गा			{	८३ ९१	समाज
सन्निधि	२२४	२३	समज	१०४ ४२	११			समाधि
सन्निकर्षण	२२४	२३	समज्ञा			३५ ११	११	समान
सन्नकृष्ट	२०९	६६	समज्या	१३४ १५	२४			समानोदर्य
सन्नवश	६५	१९	समक्षस			१४७	२४	समालम्भ
सपत्न	१४५	१०	समाधिक	२१०	७५	समावृत्त	१३४ १०	
सपदि	{	२७५ २	समतनस	२७७	१३	समासाद्य	२१४ ९२	
			२७७ ९	समतदुग्धा	८५	१०६	समासार्था	३४ ७
सपर्या	१३८	३४	समन्तभद्र	८	१३	समाहार	२२२ १६	
सपिण्ड	१११	३२	समम्	२७५	४	समाहित	२१७ १०९	
सर्पाति	१७६	५५	समय	{	२४ २५४	समाह्वति	३४ ६	
सप्तकी	१२६	१०८	समय			१४८	समाह्वय	१९५ ४६
सप्ततन्तु	१३४	१३						
सप्तपर्ण	७१	२३						
सप्तार्धि	२२	२७						

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक		
समिति	{	१३४	१५	समूह	१३५	२	सरक	{	७८	६०
		१३२	१	समूह	१९८	११			१९७	८
		२३९	७	समूह	२२	१			१२९	१२९
समित्	१६२	१	समद	१७४	४६	सरक	८५	१०८		
समिष	६९	१३	सम्पत्ति	१५८	८२	सरसु	५४	२८		
समीक	१३२	१	सम्पत्	१५८	८१	सरसी	५४	२८		
समीप	२	९	सम्पराज	२५४	१५०	सरसीबह	५७	४		
समीर	१५	३२	सम्पिधान	२४९	१२५	सरस्वत्	{	४९	१	
समीरण	{	१५	३२	सम्पुटक	१३१			१३९	२३७	५७
		८१	७९	सम्पति	२८८	२३	३३	१		
समुच्चय	२२२	१६	सम्प्रदाय	२२	७	सरस्वती	५६	३४		
समुच्छ्रय	२५४	१५२	सम्प्रधारण	२५५	१५३	सरित्	५५	२९		
समुक्षित	२१७	१	सम्प्रधारणा	१४७	२५	सरित्पति	४९	१		
समुक्षिञ्च	१३२	९९	सम्प्रहार	१३२	१	सरिसुप	४७	७		
समुच्छ्र	२१३	९	सम्फुल्ल	६८	७	सर्ग	२३१	३२		
समुदय	१	४	सम्बाध	२१२	८५	सर्ग	७५	४४		
समुदाय	{	१	४	सम्बाधन	२७३	३	सर्गक	७५	४४	
		१३२	१	सम्मेह	५३	३५	सर्गरस	१२९	१२७	
समुद्र	२८८	१७	सम्भ्रम	{	४५	३४	सर्गिकादार	१८३	१	
समुद्रक	१३१	१३९			२२४	२३	सर्प	४७	३	
समुद्रिरण	२३७	५५	सम्भ्र	२८	२४	सर्पराज	४७	४		
समुद्रव	२	२३	सम्भ्राङ्गी	३५	१८	सर्वित्	१७५	५२		
समुद्र	४९	१	सम्भ्रुञ्ज	२१९	३	सर्ष	२	६४		
समुद्रमन्दा	{	८१	९२	सम्भृ	३७	२२	सर्षतहा	५८	३	
		८७	११३	सम्भ्राज्	१४३	३	सर्षक	८	१३	
		९	१३३	सरक	१९५	४३	सर्षतत्	२७७	१३	
समुद्रन	२२५	२९	सरषा	१	२३	सर्षतौमद्र	{	३३	१	
समुद्र	२१७	१	सरट	९८	१९			७८	३२	
समुद्र	२४६	१०३	सरषा	९३	१५२	सर्षतौमद्रा	७४	३५		
समुद्रबीजम्	२७	१	सरपि	६१	१५	सर्षतौमुर	४९	४		
समुद्र	८	९	सरपि	१२२	८६	सर्षदा	२८	२२		
समुद्र	१	३९	सरमा	१९१	२२	समुद्रबह	१०८	६६		

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.				
सर्वधुरीण	१७८	६६	सहभोजन	१७६	५५	सात्त्विक	४२	१६				
सर्वमंगला	११	३७	सहस्र	२६	१४	सादिन्	१५४	६०				
सर्वरस	१२९	१२७							१६२	१०२	२४६	१०७
सर्वला	१६०	९३							२७०	२३२	२४८	११९
सर्वलिङ्गिन्	१४०	४५	सहसा	२७६	७	साधारण	१९३	३७				
सर्ववेदस्	१३३	९	सहस्य	२६	१५				२११	८२		
सर्वसन्नहन	१६१	९४	सहस्र	१८२	८४	साधित	२०४	४०				
सर्वानुभूति	८५	१०८	सहस्रदंष्ट्र	५२	१८	साधिष्ठ	२१८	११२				
सर्वान्नभोजिन्	२००	२२	सहस्रपत्र	५७	४०	साधीयस्	२७१	२३५				
सर्वान्नीन	२००	२२	सहस्रवीर्या	९४	१५८	स	१३२	३				
सर्वाभिसार	१६१	९४	सहस्रवेधिन्	९१	१४१				२०६	५२		
सर्वार्थसिद्ध	८	१५				१७३	४०	२४५	१०१			
सर्वौष	१६१	९४	सहस्रांशु	२२	३१	साधुवाहिन्	१५१	४४				
सर्वप	१६९	१७	सहस्राक्ष	१२	४४	साध्य	७	१०				
सलिल	४९	३	सहास्रन्	१५४	६२	साध्वस	४२	२१				
सल्लकी	८८	१२४	सहा	८०	७३	साध्वी	१०५	६				
सव	१३४	१३				८६	११३	सानु	६६	५		
सवन	१४१	४७	सहाय	१५६	७१	सान्तपन	१४२	५२				
सवयस्	१४५	१२	सहायता	२२७	४०	सान्त्व	३७	१८				
सवितृ	२२	३१	साहिष्णु	२०२	३१				१४६	२१		
सधिष	२०९	६७	सायात्रिक	५१	१२	सान्द्राष्टक	१४८	२९				
सवेश	२०९	६७	सायुर्गीन	१५७	७७	सान्द्र	२०९	६६				
सव्य	२१२	८४	सावत्सर	१४५	१४	सान्द्रक्षिग्ध	२०२	३०				
सञ्च्येष्ठ	१५४	६०	सांशयिक	१९७	५	सान्नाय्य	१३६	२७				
सस्य	७०	१५	साकम्	२७५	४	सात्तपदीन	१४५	१२				
सस्यमजरी	१६९	२१	साकल्य	२१८	२	सामन्	१४६	२०				
सस्यशुक्र	१६९	२१	साक्षात्	२७३	२४३	सामन्	३४	३				
सस्यसम्बर	७५	४४	सागर	४९	१				१४६	२१		
सह	२७५	४	सान्चि	२७६	६	सामाजिक	१३५	१६				
सहकार	७३	३३	सातला	९२	१४३	सामान्य	२९	३१				
सहचरी	८०	७५	साति	२२६	३८				२११	८२		
सहज	१११	३४							२३९	६७	सामि	२७३
सहधर्मिणी	१०५	५				२८४	३	सामिधेनी	१३६	२२		
सहन	२०२	३१	सातिसार	११६	५९	सामुद्र	१७३	४१				

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
ताम्रपायक	१६२	१०४	निहपुष्पी	८३	९३	विम्बुर	१८५	१५
ताम्रतम्	{ २७०	११	निहसंजनन	१९८	१२		२९४	११
	२८०	२३	निहाय	१८४	९८		४८	१
तायक	२२८	२	निहावन	१४९	३३	विष्णु	४९	२
तायम्	{ २४	३	निहास्य	८५	११३		२४५	११
	२७९	१९						
तार	{ ६९	१२	निही	{ ८५	१०३	विष्णुञ्ज	१०३	४२
	२५८	२७१		८६	११४	विष्णुवर्षम	५६	३५
तारंग	{ ९९	१०	निकृता	२४०	७३	नह	१२९	१२८
	२११	२३	निकृतामय	५०	९	नीवा	१६८	१४
तारपि	१५४	५९	निकृतावत्	६	१३	नित्य	१६०	८
तारमैव	१९१	२१	निकृपक	१८६	१७	नीपु	१९४	४१
तारव	५६	३६				नीमन्	६५	२
तारव	{ ५०	४०	नित	{ ३२	१३	नीमन्त	२८९	१९
	१	२२		२१४	९५	नीमन्तिनी	१०४	२
तारवन	{ १२६	१९	नित	३१५	९८	नीमा	६५	२
	१५५	६३	नितम्भरा	२४१	८	नीर	१६८	१४
तारिका	२८४	८		९३	१५२	नीरपाणि	९	२४
तारि	१४	४१	नित्या	{ ७९	७१	नीशन	२१९	५
तारिवाह	१८	७८	नित्याभ	१०४	४३	नीसक	१८५	१०५
तारु	२१०	१५	नित्यामीज	१३	१३	नीहृष्ट	८५	१५
तार्यम्	२०५	४		५०	४१		{ २०१	२
तार्यभाम	{ १८	४	नित्य	{ ७	११		२०६	५
	१४३	२	नित्यान्त	२१६	१०	नुरंदक	२	१४०
तारु	{ ६३	३	नित्यार्थ	३	४	नुरा	१०९	७
	७५	४४	नित्या	१६९	१८	नुरन	१९७	८
तारुर्गी	८७	११५	नित्या	८६	११३	नुरुमार	२११	७८
तारु	१७७	६३	नित्या	११५	५३	नुरव	९८	२१
तारुव	१४६	२१	नित्या	११७	६१	नुरावम्	१९६	३
तारुव	{ १५४	६	नित्या	२८४	१	नुराव	{ २८	२५
	२२७	४३	नित्या	२१	१२		२९१	२३
तारु	{ ७	१	नित्या	२८४	८	नुरवपक	१८६	१९
तारु	{ १८	५९	नित्या	२५	९	नुरवदादा	१०९	७१
तारुव	१६१	१०	नित्या	७९	६८	नुराव	८	१३
			नित्या	७९	६८	नुराव	८०	११४

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
सुगन्धि	{ ३२	११	सुमनस्	७	७	सुत्रासिनी	१०६	९
	{ ८८	१२१	सुमनसू	७०	१७	सुत्रता	१७९	७१
सुचरित्रा	१०५	६	सुमना	८०	७२	सुषम	२०६	५२
सुचेलक	१२७	११६	सुमनोरजस्	७०	१७	सुषमा	२०	१७
सुत	{ ११०	२७	सुमेरु	१३	४९	सुषवी	{ ९३	१५५
	{ २३८	६०	सुर	७	७		{ १७२	३७
सुतश्रेणि	८२	८८	सुरगा	२८४	८	सुषि	४६	२
सुतात्मजा	११०	२९	सुरज्येष्ठ	८	१६			
सुत्या	१४१	४७	सुरदार्धिकी	१३	४९	सुषिर	{ ३९	४
सुधामन्	१२	४२	सुरद्विप्	७	१२		{ ४६	१
सुत्वन्	१३४	१०	सुरनिम्नगा	५५	३१		{ ४६	२
सुदर्शन	१०	२८	सुरपति	१२	४३	सुषिरा	८९	१२९
सुदाय	१४८	२८	सुरभि	{ २७	१८	सुषीम	२०	१९
सुदूर	२०९	६९		{ ३२	११	सुषेण	७९	६७
सुधर्मा	१३	४८	सुरभी	८८	१२३	सुषणिका	८६	१०८
सुधा	{ १३	४८	सुरर्षि	१३	४८	सुष्टु	{ २७५	२
	{ २४५	१०२	सुरलोक	६	६		{ २७९	१९
सुधांशु	१९	१४	सुरवर्त्मन्	१७	१	सुसंस्कृत	१७४	४५
सुधी	१३३	५	सुरसा	८७	११४	सुहृद	१४५	१२
सुनासीर	१२	४१	सुरा	१९४	३९	सुहृदय	१९६	३
सुनिषण्णक	९३	१४९	सुराचार्य	२१	२४	सुकर	९७	२
सुन्दर	२०६	५२	सुरामण्ड	१९४	४२	सूक्ष्म	{ २०८	६१
सुन्दरी	१०५	४	सुरालय	१३	४९		{ २५३	१४४
सुपथिन्	६१	१६	सुराष्ट्रज	९०	१३१	सूचक	२०५	४७
सुपर्ण	१०	२९	सुवचन	३६	१७	चि	२८४	८
सुपर्वन्	७	७	सुवर्ण	{ १८२	८६			
सुगार्श्वक	७५	४३	सुवर्णक	{ १८३	९४	सूत	{ १५४	५९
सुप्रतीक	१८	४	सुवर्णक	७१	२४		{ १८४	९९
सुप्रयागविशिख	१५५	६८	सुवर्ह	८३	९५		{ १८७	३
सुप्रलाप	३६	१७					{ २३८	६२
सुभगासुत	१०९	२४		{ ७९	७०	सूतिकागृह	६३	८
सुभिक्षा	८८	१२४	सु	८७	११५	सूतिमास	११२	३९
सुम	७०	१७		{ ८७	११९	सूत्यान	१९०	१९
सुमन	१६९	१८		८८	१२३	सूत्र	१९२	२८
				९१	१४०	सूत्रवेष्टन	२२४	२४

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	
सूद	{ १७१	२८	सिक्क	१४४	९	सौगन्धिक	{ ५१	१६	
	२४३	९१	सिक्कन	२१९	५		९१	१६६	
सुना	२४७	११३	सिक्का	१६५	२		१८५	१२	
सुनु	११	२७	सिक्क्य	९५	१६४	सौषिक	१८८	६	
सुसुत	३७	१९	सिक्किकेय	२२	२६	सौदाभिनी	१९	९	
सुपकार	१७१	२७	सिक्कत	५	९	सौष	६३	१	
सुर	२२	२८	सिक्कबाहिनी	५५	३३	सौमागिनैय	१९	२४	
सुरण	९४	१५७	सैनिक	१५४	६१	सौम्य	{ २२	२६	
सुसुव	१९८	१५	सौम्य	{ १५१	४४		{ २५६	१६१	
सुरि	१३३	६		{ १७३	४२	सौरमेय	१७७	६	
सुमी	१९३	३५	{ १५४	६१	सौरमेयी	१७८	६६		
सुर्ष	२२	२८	{ १५७	७८	सौरपिक	४८	१		
सुर्षतनया	५९	३२			सौरि	२२	२६		
सुपमिषा	२५६	१५७	सन्मपुत्र	१५८	७९	सौषधक	{ १७३	४३	
सुर्षेनुसगम	२५	८	सौरन्त्री	१८	१८		{ १८१	१९	
सुक्किणी	१२३	९१	सौरिक	१७८	६४	सौषिद	१४४	८	
सुग	१६	९१	सौरिम	९७	४	सौषिदल	१४४	८	
सुधि	१५१	४१	सौरिक	८	७५	सौषीर	{ ७४	१७	
सुधिका	११८	६७	सौठ	२१५	९७		{ १७३	४९	
सुधि	६१	१५	सादय	१११	३४	{ १८४	१		
सुपाटी	२९७	३८	साम्माद	२	२३	सौहृद्य	१७६	५६	
सुमर	९८	११	सोपच्छय	२५	१	सुहृद	१२	२९	
सुप्र	२३४	३८	सोपान	६५	२८	सुकन्ध	{ ६९	१	
सुकपान	५१	१३	सामाञ्जन	७३	३१		{ १२	७८	
सुचन	५१	१३	साम	१९	१४	{ २४५	१		
सुचनक	२७	५३	सोमपा	१३३	९	सुकन्धशापा	६९	११	
सुनु	{	१	१४	सोमपीपित्	१३३	९	सुकम्	२१६	१४
		७२	२५	सोमरात्री	८३	१५	सुराञ्जन	४५	३६
सुना	१५७	७८	सोमवस्क	{ ७६	५	सुराकिण	१६३	१८	
सुनाग	१४९	३३		{ २२९		सुतन	१२	७७	
सुमानी	{	१२	३९	सामवस्त्री	९१	१३७	सुतनधयी	११२	४१
		१५५	६२	सोमवस्त्रिका	८३	९५	सुतनरा	११२	४१
सुनामुष	१५८	८१	सोमवस्त्री	८२	८३	सुतनविलु	१८	६	
मारुघ	१५४	६१	सोमोक्त्या	५५	३२	सुतनिय	१९	८	

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.
स्तवक	७०	१६	स्थविष्ठ	२१८	१११	स्थौरिन्	१५१	४६
स्तव्वरोमन्	९७	२	स्थाणु	१०	३४	स्थौल्य	२६३	१९५
स्तम्भ	६८	९				६८	८	स्तव
	१६९	२१	२३६	४९	स्तातक	१४०	४३	
स्तम्भकारि	१६९	२१	स्थांडिल	१४०	४४	स्तान	१२८	१२२
स्तम्भघ्न	२२६	३५	स्थान	१४६	१९	स्तानु	११८	६६
स्तम्भघ्न	२२६	३५				२४८	११७	स्तानु
स्तम्भेरम	१४९	३५	स्थानीय	६१	१	स्निग्ध	१७४	४६
स्तम्भ	२५१	१३५	स्थाने	२७७	११	स्तु	१९८	१४
स्तव	३५	११	स्थापत्य	१४४	८		स्तु	६६
स्तिमित	२१७	१०५	स्थापनी	८२	८४	स्तुक	८५	१०५
स्तुत	२१७	११०	स्थामन्	१६२	१०२	स्तुत	२१४	९२
स्तुति	३५	११	स्थायुक	१४४	७	स्तुषा	१०६	९
स्तुतिपाठक	१६१	९७	स्थाल	२९५	३२	स्तुही	८५	१०५
स्तूप	२८९	१९	स्थाली	१७१	३१	स्तोह	४४	२७
स्तेन	१९१	२४	स्थावर	२१०	७३	स्पर्श	३१	७
स्तेम	२२५	२९	स्थाविर	११२	४०		२२२	१४
स्तेय	१९१	२५	स्थासक	१२८	१२२	स्पर्शन	१५	६१
स्तैन्य	१९१	२५	स्थास्र	२१०	७३		१३७	२९
स्तोक	२०८	६१	स्थित	१४७	२६	स्पश	१४५	१३
स्तोत्र	३५	११					२२३	२१
स्तोम	१०३	३९	स्थिरतर	२१०	७३	स्पष्ट	२११	८१
	२५२	१४१	स्थिरा	५९	२	स्पृका	९०	१३३
स्त्री	१०४	२	स्थिरायु	८७	११५	स्पृशी	८३	९३
स्त्रीधर्मिणी	१०८	२०				७५	४६	स्पृष्ट
स्त्रीपुंस	१०३	३८	स्थूणा	१९३	३५	स्पृष्टा	४४	२७
छयगार	६३	११				२३६	५१	स्पृष्ट
स्थाडिल	१३५	१८	स्थूल	२०८	६१	स्फटा	४८	९
स्थाडिलशायिन्	१४०	४४				२६५	२०४	स्फाति
स्थपति	१३३	९	स्थूलक्ष्य	१९७	६	स्फार	२०८	६३
	२३८	६१	स्थूलघाटक	१२७	११६	स्फिच्	११९	७५
स्थल	५८	५	स्थूलोच्चय	२५४	१४८	स्फुट	६८	७
स्थलो	५८	५	स्थेयम्	२१०	७३		२११	८१
स्थविर	११३	४२	स्थौणेय	९०	१३२	स्फुटन	२१९	५

शब्द.	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द.	पृष्ठ	श्लोक
स्फुरण	२२	१	सुवापृथ	७४	१७	स्वर्मात्रु	२२	२६
स्फुरण	२२	१	सीतव	{	५१ ११	स्वर्मेया	११	५१
स्फुरेण	१४	५७				स्वर्मेय	११	५१
स्फुरक	७४	१८	सीतस्वती	१५५	१	स्वसु	११	२१
स्फुरंषु	१९	१	सातीजन	१८४	१	स्वस्ति	२७२	२४१
स्नेह	२१८	११२	स्व	{	१११ २४	स्वस्तिक	३३	१
स्म	{	२७६ ५				स्वच्छन्द	१९९	१५
		{	२७८ १७	स्वयन्	१११	२४	स्वाति	२९७
स्मर	९	२५	स्वयन्	१११	२४	स्वाद्	२४४	९४
स्मरहर	१	३३	स्वयं	१९९	१५	स्वापुर्णक	{	७४ ३७
स्मित	४७	३४	स्वयं	२७६	८			{
स्मृति	{	३४ ४	स्वयं	१३	९२	स्वापुरसा	९२	१४४
		{	४४ २९	स्वयं	३८	२२	स्वादी	८५
स्वद	१५	३४	स्वानिठ	२१४	९४	स्वाध्याप	१४१	४७
स्वान्द	{	७२ २६	स्वान	४६	५६	स्वान	३८	२३
		{	१५२ ५१	स्वान्	७	२	स्वाप्त	२९
स्वान्दनारीह	१५४	६	स्वमाव	४६	३८	स्वाप	४६	३६
स्वन्दिनी	११८	३७	स्वम्	८	१८	स्वापठेय	१८३	९
स्वघ	२१४	९२	स्वयंकर	१	६	स्वामिन्	१९८	१
स्फुल	{	१७ २६	स्वयं	२७८	२६	स्वाराज (स्)	१२	४३
		{	२१६ १	स्वयं	८	१६	स्वाहा	{
स्फुलि	२१९	५	स्वयं	{	३ ९	स्विकृ	२७२	२४२
	स्फोनाक	७७				५७	स्वैर	४५
स्फोचिन्	७२	२८	स्वर	{	३४ ४	स्वैरज	१	५१
स्फु	१३१	१३५				स्वैरिणी	१७१	३
स्फु	२२	९	स्वक	{	१३ ४७	स्वैर	२३२	१९२
स्फुत्रमा	१७८	३९				स्वैरिणी	१	६
स्फुम्बी	५५	३	स्वरूप	{	४६ ३८	स्वैरिवा	२१८	२
स्फु	८२	८३				स्वैरिन्	१९९	१५
स्फु	८	१७	स्वर्ग	३	३			
स्फु	२१३	१	स्वर्ग	१८३	९४		२७३	५
स्फु	२७५	२	स्वर्गकार	१८८	८		{	२२ ३१
स्फु	२१४	९२	स्वर्गसीरी	९१	१३८	स्व	{	१ १ २३
स्फु	१३६	२५	स्वर्गसीरी	१३	४९		{	२६९ २६६

शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.	शब्द.	पृष्ठ.	श्लोक.		
हसक	१२६	११०	हरिताल	२९५	३२	हव्य	१३६	२४		
हंजिका	८६	८९	हरिदश्व	२२	२९	हव्यपाक	१३६	२२		
हजे	४१	१५	हरिद्राभ	३२	१४	हव्यवाहन	१४	५५		
हट्ट	२८९	१८	हग्निद्रा	१७३	४१	हस	४२	१८		
हट्टविलासिनी	८९	१३०	हरिद्र	८४	१०१	हनी	१७१	३०		
हठ	१६३	१०८	हरिन्माण	१८३	९२	हती	१७१	२९		
हड	४१	१५	हरिप्रय	७५	४२	त्त	१२२	८६		
हत	२०५	४१	हरिप्रिया	९	२७		१२४	९८		
हनु	८९	१३०	हरिमन्थक	१६९	१८		२३७	५९		
			हरिवालुक	८८	१२१	हस्तधारण	२१९	५		
हन्त	२७३	२४४	हरिहय	१२	४३	हस्तिन्	१४९	३४		
हन्न	२१५	९६	हरीतकी	७७	५९	हस्तिनख	६४	१७		
हय	१५१	४४	हरेणु	८८	१२०	हस्तिपक	१५४	५९		
हयपुच्छी	९१	१३८				१६८	१६	हस्त्यारोह	१५४	५९
हयमारक	८१	७६	हर्म्य	६३	९	हा	२७५	२५६		
हर	१०	३३	हर्षक्ष	९७	१	हाटक	१८३	९४		
हरण	१४८	२८	हर्ष	२८	२४	हायन	२७	२०		
हारी	९७	१	हर्षमाण	१९७	७		२४६	१०८		
			२५९	१७५	हल	१६८	१३	हार	१२५	१०५
हरिचन्दन	१३	५०	हला	४१	१५	हारित	१०२	३४		
			१३०	१३१	हलायुध	९	२३	हार्द	४४	२७
			३२	१३	हलाहल	४८	१०	हाला	१९४	३९
९८	८	हलिन			९	२४	हालिक	१७८	६४	
हारिण	२३६	५१	हलिप्रिया	१९४	३९	हाव	४५	३२		
			२३६	५०	हल्य	१६७	८	हास	४२	१९
हारिणी	२३६	५०	हल्या	२२७	४१	हास्तिक	१४९	३६		
हारित्	१७	१	हल्लक	५६	३६	हास्य	४२	१७		
			३२	१४	हव		२२०	८	४२	१९
हारित	२८९	१९	हव	२६५	२०७	हाहा	१४	५२		
						१३६	२७	हि	२७५	२५७
हारितक	१७२	३४	हविस	१७५	५२	२७६	५			
हरितालक	१८५	१०३								

शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक	शब्द	पृष्ठ	श्लोक
हिंसा	२६९	२२९	हुतमुक्	१४	५५	हिर	११	३८
हिंसाकर्मन्	२२९	१९	हुम्	{ २७४	२५२	होष	४५	३१
हिंस	२ १	२८		{ २७९	१८	होषा	१५२	४७
हिंसा	२८४	८	हुति	{ ३५	८	हो	२७६	७
हिगु	१७९	४०		{ २२	८	होम	१४९	२२
हिगुभी	८९	११४	हुह	१४	५२		{ ११	३६
हिगुनिर्वाच	७८	६२	हुनीया	२२५	३२	होम्यती	{ ७७	७९
हिक्क	७८	६१		{ २९	३१		{ ८५	१३
हिक्का	९३	१६९	हुइ	{ ११७	६४		{ ९१	१३८
हिम	{ २	{ १८	हुदय	{ २९	३१	हुबंगनीन	१७५	५२
			हुदय	{ ११७	६४	होतु	१३५	१७
			हुदयबंगम	३७	१८	होम	१३४	१४
हिमकट	६९	३	हुदयप्लु	१९६	३	होरा	२८४	१०
हिमवाञ्जिका	१३	१९	हुष	२ ७	५३	होष	२७९	२१
हिमर्षहवि	२	१८	हुपीक	३१	८	हुद	५४	२५
हिमांघ्र	१९	१६	हुपीकेश	८	१८	हुसिद्ध	२१८	११२
हिमानी	२	१८	हुष	२१९	१०३		{ ११३	४६
हिमावती	९१	१३८	हुप्रमानस	१९७	७	हुस्व	{ २ ९	७
हिरण्य	{ १८३	{ ९०	हु	२७६	७	हुत्वागदेमुका	८७	११७
			हु			हुत्वांग	९१	१४२
			हुति	{ १४	५७			
हिरण्यगर्भ	८	१६	हुड	२९	२८		{ १३	४७
हिरण्यबाह	५५	३४	हुम्कूट	६६	३	हुदिमी	{ १९	९
हिरण्यरोतस	१४	५५	हुमकुम्भ	७१	२९		{ ५५	३
हिरक	{ २७५	{ ७	हुमकुम्भ				{ २४७	११२
			हुमन्	{ १८३	९४	हुी	४३	२३
हिरुमीपिक	९४	१५७	हुमन्	{ २९१	२३	हुीण	२१४	९१
ही	२७७	९	हुमन्त	२७	१८	हुीत	२१४	९१
हीन	{ २१७	{ १	हुमपुष्पक	७८	६३	हुीवेर	८८	१९१
			हुमपुष्पिका	८	७१	हुीषा	१५२	४७
हुवसुकृमिया	१३६	२१	हुमात्रि	१३	४९	हुीरिना	८८	१९४

श्रीः ।

अथाऽमरकोशः

भाषाटीका समेतः ।

प्रथम काण्ड १.

अथ स्वर्गवर्गः १.

यस्य ज्ञानदयासिन्धोरगाधस्या-
नवा गुणाः ॥ सेव्यतामक्षयो
धीराः स श्रिये चामृताय च ॥ १ ॥

यस्य भासा जगद्धाति सदैव सच
राचरम् । त नौमि परमात्मान मक्ता-
नाममयङ्करम् ॥ १ ॥ जटाटवीगलद्गङ्गा
चन्द्रचूडामणि शिवम् । स्मृत्वामरकृतेः
कुर्वे भाषा व्याख्यासुधानुगाम् ॥ २ ॥

अन्वयः—हे अनवाः ! भवद्भिः, स,
अक्षयः, धीराः, श्रिये, च, अमृताय, च,
सेव्यताम् । ज्ञानदयासिन्धोः, आगाधस्य,
अस्य, ई, अस्ति, गुणाः, च, सन्ति ॥ १ ॥

अर्थ—हे सज्जनो ! तुम उस अविनाशी
ज्ञानदाता गुरुकी भोग और मोक्षकी

१ धिय राति ददाति । 'रा दाने'
अस्मात्किप् । धीरा ज्ञानप्रदो गुरुरित्यर्थः ।

भाषा—ज्ञानके देनेवाले गुरुको धीरा
कहते हैं ।

प्राप्ति होनेके अर्थ सेवा करो कि, शास्त्र
कारिके सपन्न और दयाकारिके पूर्ण तथा
विषयोसे विरक्त ऐसे इन गुरुके पास
अखण्डलक्ष्मी और सत्य, शौच, दया,
क्षमा आदिक गुण हैं ॥ १ ॥

ग्रन्थमें वक्तव्य विषय दिखलातेहैं.—

समाहृत्यान्यतन्त्राणि संक्षिप्तैः
प्रतिसंस्कृतैः ॥ सम्पूर्णमुच्यते
वर्गेनामलिङ्गानुशासनम् ॥ २ ॥

अन्वयः—मया, अन्यतन्त्राणि, समा-
हृत्य, संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः, वर्गेः युक्त,
नामलिङ्गानुशासन, सम्पूर्णम् उच्यते ॥ २ ॥

अर्थ—मैं व्याडि आदिकोंके नामलि-
ङ्गानुशासन अथवा सिद्धार्थोंका सग्रह
करके शब्दोंके क्रमानुसार कथन कर-
नेसे सुशोभित ऐसे थोड़े २ शब्दोंके
वर्गोंसे अर्थात् पृथक् २ प्रकरणोंसे युक्त
ऐसा शब्द और उनके लिङ्गोंका स्पष्ट
रितिसे बोध करनेवाला कोश परिपूर्ण
रितिसे कहलाहू ॥ २ ॥

इस ग्रंथमें छिन्नादिभ्यवस्या क्ति प्रकारसे की है यह कहतहै—

प्रायशो रूपभेदेन साहचर्याच्च
कृत्रचित् । स्त्रीपुनपुंसक ज्ञेय तद्वि-
शेषविधे क्वचित् ॥ ३ ॥

अन्वय—अत्र, प्रायश, रूपभेदेन,
स्त्रीपुनपुंसकं, ज्ञेयम्, च, कृत्रचित्, साहच-
र्याच्च, स्त्रीपुनपुंसकं, ज्ञेयम्, क्वचित्,
तद्विशेषविधे, स्त्रीपुनपुंसकं, ज्ञेयम् ॥ ३ ॥

अर्थ—इस ग्रंथमें बहुत करके इष्ट,
आप्त, विसर्ग और अनुस्वार इनसे स्त्रीलिंग
पुंलिंग, और नपुंसकलिंग जानना
जैसे 'पद्मालया' और 'पद्मा' यहाँ
आप्त हानसे 'पद्मालया' और 'पद्मा'
यह स्त्रीलिंग है 'पिनाकाऽजगत्सु घनुः'
यहाँ 'पिनाक' यहाँपर विसर्ग है इससे
'पिनाक' शब्द पुंलिंग है 'अजगत्सु'
यहाँपर अनुस्वार हानसे 'अजगत्सु' शब्द
नपुंसकलिंग कहींपर विशेषणमें नियत अर्थवा
सर्वनामवाचक शब्दमें स्थित रूपक भदसे
लिंगोंमें भेद होता है जैसा—'तत्परोऽनु'
यहाँपर 'तत्पर' इस विशेषणका पुंलिंग
रूप हानसे उसका विशय्य जो 'हनु' शब्द
है उमरा भी पुंलिंगहीमें रूप
चरता है तथा 'दुन्दु' कृत् भद्वान
सेगान्या दुन्दु पुमान्' यहाँ सा' यह

जो सर्वनामसंज्ञकशब्द है वह 'दुन्दु'
शब्दका विशेषण है इससे 'सा' इसका
स्त्रीलिंग होनेसे उसका विशेष्य जो
'दुन्दु' शब्द है उसकामी स्त्रीलिंग है
और निश्चित है लिंग जिसका ऐसा शब्द
समीप उच्चारण करनेसे उसका जो लिंग
है वही लिंग उस समीप पड़े हुए अनि-
श्चितलिंगवाले शब्दका जानना जैसे
'अश्वयुगभिनी' 'मानु कर' विपदिष्णु
पदम्' यहाँपर 'अश्वयुग्' मानु' और
विपद' इन अनिश्चित लिंगवाले शब्दोंके
समीप निश्चित लिंगवाले 'अश्विनी'
'कर' और 'विष्णुपद' ये शब्द होनेसे
उनके जो लिंग हैं वही लिंग उन अनि-
श्चित लिंगवाले शब्दोंके जानन अर्थात्
'अश्वयुग्' शब्दका स्त्रीलिंग, 'मानु'
शब्दका पुंलिंग, और 'विपद' शब्दका
नपुंसकलिंग है इस प्रकारसे जानन
और कहीं कहींपर उन स्त्री, पुं,
नपुंसक इनके विशय्यतीतसे कथन कर
नेसे स्त्रीलिंग, पुंलिंग, और नपुंसक लिंग
जानना जैसे 'मरी स्त्री दुन्दुभि पुमान्'
'रोधि शोचिस्मे ङीमे' यहाँपर
'मरी' शब्दके समीप 'स्त्री' ऐसा
विशय्यतीतसे कथन किया है इसगत्सु
'मेरी' यह शब्द स्त्रीलिंग है और
'दुन्दुभि' शब्दके समीप 'पुमान्' यह

११ ॥ २८ ॥ भास्वत् १२ विवस्वत्
 १३ सप्ताश्व १४ हरिदश्व १५ उष्ण-
 रश्मि १६ विकर्त्तन १७ अर्क १८
 मार्तण्ड १९ मिहिर २० अरुण २१
 पृषन् २२ ॥ २९ ॥ घुमणि २३
 तरणि २४ मित्र २५ चित्रभानु २६
 विरोचन २७ विभावसु २८ ग्रहपति
 २९ त्विषाम्पति ३० अहर्षति ३१ ॥
 ॥ ३० ॥ भानु ३२ हस ३३ सहस्राशु
 ३४ तपन ३५ सवितृ ३६ रवि ३७

माठरः पिगलो दण्डश्चण्डांशोः
 पारिपार्श्विकाः ॥ ३१ ॥

सूर्यपार्श्ववर्तीतीनोंके एक एक नाम ॥

माठर १ पिगल २ दण्ड ३ ॥ ३१ ॥

सूरसूतोऽरुणोऽनूरुः काश्यपि-
 गरुडाग्रजः ॥

सूर्यके सारथिके नाम ५ ॥ सूरसूत
 १ अरुण २ अनूरु ३ काश्यपि ४
 गरुडाग्रज ५ ॥

परिवेषस्तु परिधिरुपसूर्यकम
 ण्डले ॥ ३२ ॥

सूर्यके मण्डलके अर्थात् जो कभीर
 उनके चारोंओर घेरासा वन जाता
 है उसके नाम ४ ॥ परिवेष १ परिधि
 २ उपसूर्यक ३ मण्डल ४ ॥ ३२ ॥

किरणोत्समयूखांशुगभस्तिघृणि-

रश्मयः ॥ भानुः करो मरीचिः

स्त्रीपुंसयोर्दीधितिः स्त्रियाम् ॥ ३३ ॥

सूर्यकिरणके नाम ११ ॥ किरण १

उत्त २ मयूख ३ अशु ४ गभस्ति ५

घृणि ६ रश्मि ७ भानु ८ कर ९ मरीचि

१० दीधिति ११ ॥ ३३ ॥

स्युः प्रभारुग्रुचिस्त्विडूभाभाश्छ-

विद्युत्तिदीप्तयः ॥ रोचिः शोचि-

रुभे क्लीबे-

दीप्तिके नाम ११ ॥ प्रभा १ रुच्

२ रुचि ३ त्विप् ४ भा ५ भास् ६

छवि ७ द्युति ८ दीप्ति ९ रोचिस् १०

शोचिस् ११ ॥

-प्रकाशो द्योत आतपः ॥ ३४ ॥

धूपके नाम ३ ॥ प्रकाश १ द्योत

२ आतप ३ ॥ ३४ ॥

कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं

कदुष्णं त्रिषु तद्वति ॥

थोडे गरमके नाम ४ ॥ कोष्ण १

कवोष्ण २ मन्दोष्ण ३ कदुष्ण ४ ॥

तिग्मं तीक्ष्णं खरं तद्-

बहुत गरमके नाम ३ ॥ तिग्म १

तीक्ष्ण २ खर ३ ॥

-मृगतृष्णा मरीचिका ३५ ॥

मृगतृष्णाके नाम १ ॥ मृगतृष्णा

१ मरीचिका २ ॥ ३५ ॥

इति दिग्दर्शाः ॥ ३ ॥

अथ कालवर्गं ४

कालोदिष्टोप्यनेहापि समयो-
समयके नाम १ ॥ काळ १ दिष्ट २

अन्वस् ३ समय ४ ॥

-प्यथ पक्षति ॥

प्रतिपद् द्वे इमे स्त्रीत्वे-

प्रतिपदाके नाम २ ॥ पक्षति १

प्रतिपत् २ ॥

-तदाद्यास्तिथयो द्वयो ॥ १ ॥

प्रतिपदादिका नाम १ ॥ तिथि १ ॥ १ ॥

घस्रो दिनाहनी वा तु स्त्रीषु
दिवसवासराौ ॥

दिनके नाम १ ॥ घस्र १ दिन २

अहन् ३ दिवस ४ वासर १ ॥

प्रत्युपोऽहर्मुख कल्पमुषा प्रत्यु-
पसी अपि ॥ २ ॥

प्रभात च-

प्रातः कालके नाम १ ॥ प्रत्युप १
अहर्मुख २ कल्प ३ उपस् ४ प्रत्युप्स
१ ॥ २ ॥ प्रभात ॥ ६ ॥

-दिनान्ते तु सार्यसम्भा-
पितृमसू ॥

सार्यकालके नाम ४ ॥ दिनान्त १
सायम् २ सन्ध्या ३ पितृमसू ॥ ४ ॥

भाह्वापराह्ममध्याह्नसितध्व-

प्रातःकालका नाम १ ॥ प्राह १ ॥

मध्याह्नकालका नाम १ ॥ मध्याह्न १ ॥

मध्याह्नोच्चर कालोका नाम १ ॥ मप-
राह १ ॥ इन तीनों कालोका इका
नाम ॥ त्रिसध्व १ ॥

नाम ॥ त्रिसध्व १ ॥

-मय शर्वरी ॥ ३ ॥

निशा निशीथिनी रात्रिस्त्रि-
यामा क्षणदाक्षपा ॥ विभावरतिम

स्विन्धौ रजनी यामिनी तमी ॥ ४ ॥

रात्रिके नाम १ २ ॥ शर्वरी १ ॥

३ ॥ निशा २ निशीथिनी ३ रात्रि ४

त्रियामा ५ क्षणदा ६ क्षपा ७ विभा

वरी ८ तमस्विनी ९ रजनी १०

यामिनी ११ तमी १२ ॥ ४ ॥

समिन्ना सामसी रात्रि-

अम्बियारी रात्रिका नाम १ समिन्ना १ ॥

-ज्यौत्स्त्री चन्द्रिकयान्विता ॥

उज्याष्ठी रात्रिका नाम १ ॥ ज्यौत्स्त्री १ ॥

आगामिबर्तमानाहर्मुक्तामां

निशि पक्षिणी ॥ ५ ॥

बर्तमान शीत भागशुक्रदिनेके

मध्यकी रात्रिका नाम १ पक्षिणी १ ॥ ५ ॥

गणरात्र निशा बह्वध-

बहुतरात्रियोका नाम १ गणरात्र ॥

-प्रदोषो रजनीमुखम् ॥

रात्रिके प्रथमभागके नाम २ ॥

प्रदोष १ रजनीमुख २ ॥

अर्धगत्रनिशीथौ द्वौ-

आधीरात्रिके नाम २ ॥ अर्धरात्र १
निशीथ २ ॥

-द्वौ यामप्रहरौ समौ ॥ ६ ॥

प्रहरके नाम २ ॥ याम १ प्रहर २ ॥ ६ ॥

स पर्वसन्धिः प्रतिपत्पञ्चदशयो-
र्यदन्तरम् ॥

प्रतिपदा १ और पञ्चदशी १५ । ३०
के मध्यके कालका नाम १ ॥ पर्वसन्धि १ ॥

पक्षान्तौ पञ्चदशौ द्वे-

अमावास्या और पूर्णिमाका नाम
१ ॥ पक्षान्त १ ॥

-पौर्णमासी तु पूर्णिमा ॥ ७ ॥

पूर्णिमाके नाम २ ॥ पौर्णमासी १
पूर्णिमा २ ॥ ७ ॥

कलाहीने सानुमतिः-

जिस पूर्णमासीमे प्रतिपदाके योगसे
चन्द्रमाकी कला हीन हो उसका नाम
१ ॥ अनुमति १ ॥

-पूर्णे राका निशाकरे ॥

जिसमें पूर्ण चन्द्रमा हो उस पूर्णिमाका
नाम १ ॥ राका १ ॥

अमावास्या त्वमावस्या दर्शः

सूर्येन्दुसङ्गमः ॥ ८ ॥

अमावास्याके नाम ४ ॥ अमावास्या
१ अमावस्या २ दर्श ३ सूर्येन्दुस-
गम ४ ॥ ८ ॥

२

सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली-

जिसमे चतुर्दशीके योगसे चन्द्रमाका
दर्शन होय उस अमावास्याका नाम १ ॥

सिनीवाली १ ॥

-सा नष्टेन्दुकला कुहूः ॥

जिसमें बिलकुल चन्द्रदर्शन न होय
उस अमावास्याका नाम १ ॥ कुहूः १ ॥

उपरागो ग्रहो राहुग्रस्ते त्विन्दौ
च पूष्णि च ॥ ९ ॥

सोपप्लवोपरक्तौ द्वा-

चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणके नाम
४ ॥ उपराग १ ग्रह २ ॥ ९ ॥

सोपप्लव ३ उपरक्त ४ ॥

-वग्न्युत्पात उपाहितः ॥

धूम्रकेतुके नाम २ ॥ अग्न्युत्पात
१ उपाहित २ ॥

एकयोक्त्या पुष्पवन्तौ दिवा-
करनिशाकरौ ॥ १० ॥

सूर्य और चन्द्र दोनोंका इकट्ठा
नाम १ ॥ पुष्पवन्त १ ॥ १० ॥

अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा-

पलकमारनेका नाम निमेष ॥

अठारह निमेषोंका नाम १ ॥ काष्ठा १ ॥

-त्रिंशत्तु ताः कला ॥

तीस काष्ठाओंका नाम १ ॥
कला १ ॥

वासु त्रिंशत्क्षण—

तीस ऋणोका नाम १ ॥ क्षण १ ॥

—स्तेतु मुहूर्तो द्वादशास्त्रियाम् १ ॥

बारह क्षणोका नाम १ ॥ मुहूर्त्त १ ॥ १ ॥

ते तु त्रिंशद्द्वारात्रः—

तीस मुहूर्त्तोका नाम १ ॥ अहारात्र १ ॥

पक्षस्ते दक्षपञ्च च ॥

पंद्रह दिनरातका नाम १ ॥ पक्ष १ ॥

पक्षौ पूर्वापरौ शुक्लकृष्णौ—

पक्ष दो हैं १ ॥ शुक्ल १ कृष्ण २ ॥

—मासस्तु चाबुधौ ॥ १२ ॥

दो पक्षोका नाम १ ॥ मास १ ॥ १ ॥ २ ॥

द्वौ द्वौ मार्गादिमासौ स्याद्वसु—

मार्गशीर्षादि दो दो मासोका नाम

१ ॥ ऋतु १ ॥

—स्वैरयनं त्रिभिः ॥

तीन ऋणोका नाम १ ॥ अयन १ ॥

अयने द्वे गतिकृद्दक्षिणार्कस्य

दो अयनोंके २ मेद ॥ उत्तराषण्य १ ॥

दक्षिणायन २ ॥

—वत्सरः ॥ १३ ॥

दो अयनोंका नाम १ ॥ वत्सर १ ॥ १ ॥ १ ॥

समरात्रिन्दिषे फाले विप्रुमदि

पूर्वं च सप्त ॥

निसमें दिनरात समान होते हैं

उत्त सक्रान्ति (तुषा और मय) के

नाम २ ॥ विप्रुमत् १ विप्रुम २ ॥

मार्गशीर्षे सदा मार्ग आमहा

यणिकम् स* ॥ १४ ॥

अगहन महानेके नाम ४ ॥ मार्ग-

शीर्षे १ सप्त २ मार्ग ३ आमहा

यणिक ४ ॥ १४ ॥

पौषे वैपसहस्यौ द्वौ—

वैपसासके नाम २ ॥ पौष १ वैपसहस्य २ ॥

—तथा माघेऽ

माघमासके नाम २ ॥ तपस्य १ माघ २ ॥

—थ फाल्गुने ॥

स्यात्तपस्यः फाल्गुनिक*—

फाल्गुनमासके नाम ३ ॥ फाल्गुन

१ तपस्य २ फाल्गुनिक ३ ॥

—स्याच्चैत्रे चैत्रिको मघुः ॥ १५ ॥

चैत्रमासके नाम ३ ॥ चैत्र १

चैत्रिक २ मघु ३ ॥ १५ ॥

वैशाखे माघवो राघो—

वैशाखमासके नाम ३ ॥ वैशाख

१ माघ २ राघ ३ ॥

—ज्येष्ठे शुक्ल—

ज्येष्ठके नाम २ ॥ ज्येष्ठ १ शुक्ल २ ॥

—शुद्धिस्त्वयम् ॥

भाषादे—

आषाढमासके नाम २ ॥ शुचि १
आषाढ २ ॥

—श्रावणे तु स्यान्नभाः

श्रावणिकश्च सः ॥ १६ ॥

श्रावणमासके नाम ३ ॥ श्रावण १
नभस् २ श्रावणिक ३ ॥ १६ ॥

स्युर्नभस्यः प्रौष्ठपदभाद्रभाद्र-
पदाः समाः ॥

भाद्रो मासके नाम ४ ॥ नभस्य १
प्रौष्ठपद २ भाद्र ३ भाद्रपद ४ ॥

स्यादाश्विन इषोप्याश्वयुजोऽपि—
कारमासके नाम ३ ॥ आश्विन १
इष २ आश्वयुज ३ ॥

—स्यात्तु कार्तिके ॥ १७ ॥

वाहुलोर्जौ कार्तिकिको—
कार्तिकमासके नाम ४ ॥ कार्तिक
१ ॥ १७ ॥ वाहुळ २ ऊर्ज ३
कार्तिकिक ४ ॥

हेमन्तः—

अगहन पूस माससे सिद्ध हुई ऋतुका
नाम १ ॥ हेमन्त १ ॥

—शिशिरोऽस्त्रियाम् ॥

माघ फाल्गुनसे सिद्ध हुई ऋतुका
नाम १ ॥ शिशिर १ ॥

वसन्ते पुष्पसमयः सुरभि—

चैत्र वैशाखसे सिद्ध ऋतुके नाम ३ ॥
वसन्त १ पुष्पसमय २ सुरभि ३ ॥

—ग्रीष्म ऊष्मकः ॥ १८ ॥

निदाघ उष्णोपगम उष्ण

ऊष्मागमस्तपः ॥

ज्येष्ठ आषाढके समयके नाम ७ ॥
ग्रीष्म १ ऊष्मक २ ॥ १८ ॥ निदाघ ३
उष्णोपगम ४ उष्ण ५ ऊष्मागम ६ तप ७ ॥

स्त्रियां प्रावृट् स्त्रियां भूम्नि वर्षा—
सावन भाद्रोके ऋतुके नाम २ ॥

प्रावृट् १ वर्षा २ ॥

—अथ शरत् स्त्रियाम् ॥ १९ ॥

कार कार्तिकके समयका नाम १
शरद् १ ॥ १९ ॥

षडमी ऋतवः पुंसि मार्गादीनां
युगैः क्रमात् ॥

मार्गशीर्ष आदि दो २ महीनोंके
ये छः ऋतु होते हैं ॥

संवत्सरो वत्सरोऽब्दो हायनो-
ऽस्त्री शरत्समाः ॥ २० ॥

वर्षके नाम ६ ॥ संवत्सर १ वत्सर
२ अब्द ३ हायन ४ शरद् ५ समा
६ ॥ २० ॥

मासेन स्यादहोरात्रः पैत्रो—

मनुष्योंके एकमहीनेका पितरोंका
दिनरात्रि होता है ॥

—वर्षेण दैवतः ॥

और एकवर्षका देवताओंका दिन-
रात्रि होता है ॥

दैवे युगसहस्रे द्वे ब्राह्मः—
दशोके दो हजार युगका ब्रह्माका
दिनरात्रि होता है ॥

—कल्पौ तु सौ नृणाम् ॥२१॥

उन दो युगसहस्रोंका मनुष्योंका
कल्प कहतेहैं ब्रह्माका दिन मनुष्योंका
स्थितिकाल और ब्रह्माकी रात्रि मनुष्यों
का प्रलयकाल होता है ॥ २१ ॥

मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगाना
मेकसप्ततिः ॥

इकद्वार दिव्यकर्मका नाम १ ॥
मन्वन्तर १ ॥

संवर्त प्रलयः कल्पः क्षयः
कल्पान्त इत्यपि ॥ २२ ॥

प्रलयके नाम १ ॥ संवर्त १ प्रलय
२ कल्प ३ क्षय ४ कल्पान्त ५ ॥२२॥

अस्त्री पंक पुमान्पाप्मा पार्यं
किलिषपकस्रमपम् ॥ कट्यर्पं वृत्ति
नेनोऽधर्महो दुरितदुष्कृतम् ॥२३॥

पापके नाम १२ ॥ पक १ पाप्मन्
२ पाप ३ किलिष ४ कल्प ५ कल्य
६ वृत्ति ७ एनम् ८ क्षय ९ अहस
१० दुरित ११ दुष्कृत १२ ॥२३॥

स्याद्धर्ममतिषां पुण्यश्रेयसी
मुहूर्तं वृष ॥

धर्मके नाम १ ॥ धर्म १ पुण्य २

श्रेयस् ३ मुहूर्त ४ वृष ५ ॥

मुत्प्रीतिः प्रमदो हर्षप्रमोदामो
दर्समदाः ॥ २४ ॥ स्यादानन्दयु
रानन्दः क्षमशातसुखानि च ॥

हर्षके नाम १२ ॥ मुत् १ प्रीति २
प्रमद ३ हर्ष ४ प्रमोद ५ आमोद ६
सम्पद ७ ॥ २४ ॥ आनन्दयु ८ आ
नन्द ९ शर्मन् १० शात १ १ सुख १२ ॥

श्वश्रेयसं शिव भद्रं कल्याणं
मगलं शुभम् ॥ २५ ॥

माधुकं मविक भव्यं कुशल
क्षेममस्त्रियाम् ॥ शस्तं चा-

कल्याणके नाम १२ ॥ श्वश्रेयस्
१ शिव २ मद्र ३ कल्याण ४ मंगल
५ शुभ ६ ॥ २५ ॥ माधुक ७ मविक ८
भव्य ९ कुशल १० क्षेम १ १ शस्त १२ ॥

—अथ शिषु द्रव्ये पार्यं पुण्यं
सुखादि च ॥ २६ ॥

पाप और पुण्यशब्द तथा
मुष्कान्दस लकर शास्तशब्द पयत जो
शब्दहैं वो यदि द्रव्यवाचक हों तो
तीनों ङिगोमें हातहैं ॥ २६ ॥

मत्तल्लिका मर्चदिका मका
ण्डमुटतल्लजी ॥ प्रशस्तवाचका
न्यम्—

अच्छेके नाम ९ ॥ मतल्लिका १
मर्चाचिका २ प्रकाण्ड ३ उद्ध ४
तल्लज ९ ॥

—न्ययः शुभावहो विधिः ॥ २७ ॥

शुभकारक विधिका नाम १ ॥

अय १ ॥ २७ ॥

दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्री
नियतिर्विधिः ॥

भाग्यके नाम ६ ॥ दैव १ दिष्ट २ भाग-
धेय ३ भाग्य ४ नियति ५ विधि ६ ॥

हेतुर्ना कारणं बीज-

कारणके नाम ३ ॥ हेतु १ कारण
२ बीज ३ ॥

—निदानं त्वादिकारणम् ॥ २८ ॥

आदिकारणका नाम १ ॥ निदान १ ॥ २ ॥

क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः-

चैतन्यके नाम ३ ॥ क्षेत्रज्ञ १
आत्मन् २ पुरुष ३ ॥

—प्रधानं प्रकृतिः स्त्रियाम् ॥

प्रकृतिके नाम २ ॥ प्रधान १
प्रकृति २ ॥

विशेषः कालिकोऽवस्था-

उमरका नाम १ ॥ अवस्था १ ॥

—गुणाः सत्त्वं रजस्तमः ॥ २९ ॥

गुणोंके नाम ३ ॥ सत्त्व १ रजस्
२ तमस् ३ ॥ २९ ॥

जनुर्जननजन्मानि जनिरुत्पत्ति-
रुद्भवः ॥

जन्मके नाम ६ ॥ जनुम् १ जनन
२ जन्मन् ३ जनि ४ उत्पत्ति ५ उद्भव ६ ॥

प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तु-
जन्युश्शरीरिणः ॥ ३० ॥

प्राणीके नाम ६ ॥ प्राणिन् १
चेतन २ जन्मिन् ३ जन्तु ४ जन्यु
५ शरीरिन् ॥ ६ ॥ ३० ॥

जातिर्जातं च सामान्यं-

जातिमात्रके नाम ३ ॥ जाति १
जात २ सामान्य ३ ॥

—व्यक्तिस्तु पृथगात्मता ॥

व्यक्तिवाचकके नाम २ ॥ व्यक्ति
१ पृथगात्मता २ ॥

चित्तं तु चेतो हृदयं स्वांतं
हृन्मानसं मनः ॥ ३१ ॥

मनके नाम ७ ॥ चित्त १ चेतस्
२ हृदय ३ स्वान्त ४ हृद् ५ मानस
६ मनस् ७ ॥ ३१ ॥

इति कालवर्गः ॥ ४ ॥

अथ धीवर्गः ५.

बुद्धिर्मनीषा विषणा धीः प्रज्ञा
शेमुषी मतिः ॥ प्रेक्षोपलब्धिश्चि-
त्संवित्प्रातिपञ्जासिचेतनाः ॥ १ ॥

दैवे युगसहस्रे द्वे ब्राह्म-
दशके दो हजार युगका ब्राह्मका
दिनरात्रि होता है ॥

-कल्पौ तु तौ नृणाम् ॥२१॥

उन दो युगसहस्रोंका मनुष्योंका
कल्प कहतेहैं ब्राह्मका दिन मनुष्योंका
स्मितिकाळ और ब्राह्मकी रात्रि मनुष्यों
का प्रलयकाल होता है ॥ २१ ॥

मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगाना
मेकसप्ततिः ॥

इकहत्तर दिव्यवर्षका नाम १ ॥
मन्वन्तर १ ॥

संवर्तं प्रलयं कल्प क्षयं
कल्पान्त इत्यपि ॥ २२ ॥

प्रलयके नाम १ ॥ संवर्त १ प्रलय
२ कल्प ३ क्षय ४ कल्पान्त १ ॥२२॥

अस्त्री पंक पुमान्पाप्मा पापं
किल्बिषकर्ममपम् ॥ कच्छपं वृमि
नेनीश्रमहो दुरितदुष्कृतम् ॥२३॥

पापके नाम १२ ॥ पंक १ पाप्मन्
२ पाप ३ किल्बिष ४ कर्मम ५ कच्छप
६ वृमि ७ एनम् ८ भव ९ अहम्
१ दुरित ११ दुष्कृत १२ ॥२३॥

स्याद्धर्ममतिर्यां पुण्यश्रेयसी
सुकृतं वृषः ॥

धर्मके नाम १ ॥ धर्म १ पुण्य २
श्रेयस् ३ सुकृत ४ वृष १ ॥

सुश्रीतिः प्रमदो हर्षप्रमोदामो
वसमदाः ॥ २४ ॥ स्यादानन्दसु
रानन्दः शर्मशाठसुरावनि च ॥

हर्षके नाम १२ ॥ मुद् १ प्रीति २
प्रमद ३ हर्ष ४ प्रमोद ५ आमोद ६
सम्मद ७ ॥ २४ ॥ आनन्दसु ८ आ
नन्द ९ शर्मन् १० शाठ ११ सुकृत १२ ॥

श्वश्रेयसं शिष मद्रं कल्याण
मगलं शुभम् ॥ २५ ॥

मायुकं भविकं मध्यं कुशल
क्षेममस्त्रियाम् ॥ अस्तं धा-

कल्याणके नाम १२ ॥ श्वश्रेयस्
१ शिष २ मद्र ३ कल्याण ४ मंगल
५ शुभ १ ॥ २५ ॥ मायुक ७ भविक ८
मध्य ९ कुशल १० क्षेम ११ अस्त १२ ॥

-प्य श्रियु वृष्ये पापं पुण्यं
सुखादि च ॥ २६ ॥

पाप और पुण्यशब्द तथा
सुखशब्दसे उच्चर वास्तवम् पर्यंत जो
शब्दहैं वो यदि प्रत्ययाधर हों तो
तीनों लिंगोंमें होतेहैं ॥ २६ ॥

मत्तल्लिका मधार्धिका मका
ण्डमुदतल्लजी ॥ मशस्तवाचका,
न्यम्-

मुक्तिः कैवल्यनिर्वाणश्रेयोनिः-
श्रेयसामृतम् ॥ ६ ॥

मोक्षोऽपवर्गो-

मोक्षके नाम ८ ॥ मुक्ति १ कैवल्य
२ निर्वाण ३ श्रेयस् ४ निःश्रेयस ५
अमृत ६ ॥ ६ ॥ मोक्ष ७ अपवर्ग ८ ॥

-स्थाज्ञानमविद्याहंमतिः स्त्रियाम् ॥

अज्ञानके नाम ३ ॥ अज्ञान १
अविद्या २ अहम्मति ३ ॥

रूपं शब्दो गन्धरसस्पर्शाश्च-
विषया अमी ॥ ७ ॥

गोचरा इन्द्रियार्थाश्च-

पञ्चविषयोंके नाम ९ ॥ रूप १
शब्द २ गन्ध ३ रस ४ स्पर्श ५ ॥ ७ ॥

इकठे रूपरसादिके नाम ३ ॥

विषय १ गोचर २ इन्द्रियार्थ ३ ॥

-हृषीकं विषयीन्द्रियम् ॥

इन्द्रियके नाम ३ ॥ हृषीक १

विषयि २ इन्द्रिय ३ ॥

कर्मेन्द्रियं तु पायवादि-

कर्मेन्द्रियोंके नाम ॥ गुदा १ आदि ॥

-मनोनेत्रादि धीन्द्रियम् ॥ ८ ॥

१ पायूपस्थे पाणिपादौ वाक्चेतीन्द्रिय-
सग्रह । भापा-पायु १ उपस्थ २
पाणि ३ पाद ४ और वाक् ५ यह पाच
कर्मेन्द्रिय हैं ॥

ज्ञानेन्द्रियोके नाम २ ॥ मनस १ नेत्र
२ आदि ॥ ८ ॥

तुवरस्तु कषायोऽस्त्री मधुरो
लवणः कटुः ॥ तिक्तोऽम्लश्च रसाः
पुंसि-

छः रसोंके नाम ६ ॥ तुवर-
कषाय १ मधुर २ लवण ३ कटु ४
तिक्त ५ अम्ल ६ ॥

-तद्रत्सु षडमी त्रिषु ॥ ९ ॥

कषाय आदि रसवाचक शब्द यदि
द्रव्यवाचक होयें तो तीनों लिंगोंमें
होते हैं ॥ ९ ॥

विमर्दोत्ये परिमलो गन्धे जन-
मनोहरे ॥

मनुष्योंके मनको हरनेवाले विसनेसे
उत्पन्न हुए सुगन्धका नाम १ ॥ परिमल १ ॥

आमोदः सोऽतिनिर्हारी-

अत्यन्त मनको हरनेवाले सुगंधिका
नाम १ ॥ आमोद १ ॥

-वाच्यलिङ्गत्वमागुणात् १०

यहासे लेकर "गुणे शुक्लादयः पुंसि",
इससे पहले जो शब्द हैं वह वाच्यलिंग
अर्थात् विशेष्यलिंग होते हैं ॥ १० ॥

१ मनः कर्णस्तथा नेत्र रसना च

त्वचा सह । नासिका चति षट् तानि धीन्द्रि-
याणि प्रचक्षते ॥ भापा-मन १ कर्ण २
नेत्र ३ जिह्वा ४ त्वचा ५ और नासिका
यह ६ ज्ञानेन्द्रिय (धीन्द्रिय) हैं ॥

बुद्धिके नाम १४ ॥ बुद्धि १
मन्तीया २ बिष्णा ३ घी ४ प्रज्ञा ५
शमुपी ६ मति ७ प्रेक्षा ८ उपलब्धि
९ चित् १० सविद् ११ प्रतिपद्
१२ इति १३ चतना १४ ॥ १ ॥

धीर्घारणावती मेघा-

कहीइई वार्धाको धारण रखने
वाली बुद्धिका नाम १ ॥ मेघा १ ॥

-संकल्प' कर्म मानसम् ॥

मन्त्री कामनाका नाम १ ॥ संकल्प १ ॥

चिन्तामोगो मनस्कार-

किन्ती वस्तुमें चिन्तके तत्पर हो जाने
के नाम २ ॥ चिन्तामोग १ मनस्कार २ ॥

ध्वर्चा संख्या विचारणा ॥ २ ॥

विचारके नाम ३ ॥ ध्वर्चा १

संख्या २ विचारणा ३ ॥ २ ॥

अध्याहारस्तक ऊहों-

अध्याहारके नाम ३ ॥ अध्या
हार १ तर्क २ ऊह ३ ॥

-विचिकित्सा तु सशय' ॥

संवेददापरी धा-

संवेदके नाम ४ ॥ विचिकित्सा
१ सशय २ संवेद ३ दापर ४ ॥

-ऽय ममी निर्णयनिश्चयो ॥ ३ ॥

निधय' नाम २ ॥ निर्णय १
निधय २ ॥ ३ ॥

मिथ्यादृष्टिर्नास्तिकता-

परलोक्षको मिथ्या ज्ञाननेके नाम २ ॥

मिथ्यादृष्टि १ नास्तिकता २ ॥

-ध्यापादो द्रोहचिन्तनम् ॥

परद्रोहके नाम २ ॥ ध्यापाद १

द्रोहचिन्तन २ ॥

समो सिद्धान्तराद्धान्तौ-

निधयकरी इई वातके नाम २ ॥

सिद्धान्त १ राद्धान्त २ ॥

-भ्रान्तिर्मैट्यामतिर्भ्रमः ॥ ४ ॥

भ्रमके नाम ३ ॥ भ्रान्ति १

मिथ्यामति २ भ्रम ३ ॥ ४ ॥

संविदागू प्रतिज्ञानं नियमा

श्रवसश्रवाः ॥ अङ्गीकाराभ्युपगम

प्रतिश्रवसमाधय' ॥ ५ ॥

प्रतिज्ञाके नाम १० ॥ संविद् १

मागू २ प्रतिज्ञान ३ नियम ४ आश्रय

५ सश्रव ६ अङ्गीकार ७ अभ्युपगम

८ प्रतिश्रव-९ समाधि १० ॥ ५ ॥

मोक्षे धीज्ञान-

मोक्षमें बुद्धिज्ञानेका नाम १ ॥

ज्ञान ॥ १ ॥

मन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः ॥

मोक्षमें अन्यत्र विज्ञान शिल्पशास्त्रयोः

शास्त्रमें बुद्धिज्ञानेका नाम १ ॥

विज्ञान १ ॥

मुक्तिः कैवल्यनिर्वाणश्रेयोनिः-
श्रेयसामृतम् ॥ ६ ॥

मोक्षोऽपवर्गो-

मोक्षके नाम ८ ॥ मुक्ति १ कैवल्य
२ निर्वाण ३ श्रेयस् ४ निःश्रेयस ५
अमृत ६ ॥ ६ ॥ मोक्ष ७ अपवर्ग ८ ॥

-ऽथाज्ञानमविद्याहंमतिः स्त्रियाम् ॥

अज्ञानके नाम ३ ॥ अज्ञान १
अविद्या २ अहम्मति ३ ॥

रूपं शब्दो गन्धरसस्पर्शाश्च-
विषया अमी ॥ ७ ॥

गोचरा इन्द्रियार्थाश्च-

पञ्चविषयोंके नाम ५ ॥ रूप १
शब्द २ गन्ध ३ रस ४ स्पर्श ५ ॥ ७ ॥

इकट्टे रूपरसादिके नाम ३ ॥
विषय १ गोचर २ इन्द्रियार्थ ३ ॥

-हृषीकं विषयीन्द्रियम् ॥

इन्द्रियके नाम ३ ॥ हृषीक १

विषयि २ इन्द्रिय ३ ॥

कर्मेन्द्रियं तु पाखादि-

कर्मेन्द्रियोंके नाम ॥ गुदा १ आदि ॥

-मनोनेत्रादि धीन्द्रियम् ॥ ८ ॥

१ पायूपस्थे पाणिपादौ वाक्चेतीन्द्रिय-
सग्रहः । भाषा-पायु १ उपस्थ २
पाणि ३ पाद ४ और वाक् ५ यह पाच
कर्मेन्द्रिय हैं ॥

ज्ञानेन्द्रियोंके नाम २ ॥ मनस १ नेत्र
२ आदि ॥ ८ ॥

तुवरस्तु कषायोऽस्त्री मधुरो
लवणः कटुः ॥ तिक्तोऽम्लश्च रसाः
पुंसि-

छः रसोंके नाम ६ ॥ तुवर-
कषाय १ मधुर २ लवण ३ कटु ४
तिक्त ५ अम्ल ६ ॥

-तद्रत्सु षडमी त्रिषु ॥ ९ ॥

कषाय आदि रसवाचक शब्द यदि
द्रव्यवाचक होयें तो तीनों लिंगोंमें
होते हैं ॥ ९ ॥

विमर्दोत्थे परिमलो गन्धे जन-
मनोहरे ॥

मनुष्योंके मनको हरनेवाले घिसनेसे
उत्पन्न हुए सुगन्धका नाम १ ॥ परिमल १ ॥

आमोदः सोऽतिनिर्हारी-

अत्यन्त मनको हरनेवाले सुगंधिका
नाम १ ॥ आमोद १ ॥

-वाच्यलिङ्गत्वमागुणात् १०

यहासे लेकर "गुणे शुक्लादयः पुंसि",
इससे पहले जो शब्द हैं वह वाच्यलिङ्ग
अर्थात् विशेष्यलिङ्ग होते हैं ॥ १० ॥

१ मन. कर्णस्तथा नेत्र रसना च
त्वचा सह । नासिका चेति षट् तानि धीन्द्रि-
याणि प्रचक्षते ॥ भाषा-मन १ कर्ण २
नेत्र ३ जिह्वा ४ त्वचा ५ और नासिका
यह ६ ज्ञानेन्द्रिय (धीन्द्रिय) हैं ॥

समाकर्षी तु निर्हारी-
दूरहीति त्रिसक्ती गन्ध आधे उसके
नाम २ ॥ समाकर्षिन् १ निर्हारिन् २ ॥

-सुरमिघ्राणतर्पण* ॥

इष्टगन्ध* सुगन्धि* स्या-

असुप्तमगन्धके नाम ४ ॥ सुरमि १
घ्राणतर्पण २ इष्टगन्ध ३ सुगन्धि ४ ॥

-दामोद्री मुखवासन ॥ ११ ॥

मुखको सुगन्धितकरनेवाले ताम्र छ
आदिकी गन्धके नाम २ ॥ दामो-
दिन् १ मुखवासन २ ॥ ११ ॥

पूतिगन्धिस्तु दुर्गन्धो-

दुर्गन्धके नाम २ ॥ पूतिगन्धि १
दुर्गन्ध २ ॥

-विन्न स्यादामगन्धि यत् ॥

कन्ध मूलादिके गन्धके नाम १ ॥
विन् १ ॥

शुद्धशुभ्रशुचिश्चेतविशदश्चेत्
पाण्डुराः ॥ १२ ॥ अवदातः
सितो गौरो बलक्षो धवलोऽर्जुनः ॥

एन्मलके नाम १३ ॥ शुद्ध १ शु
भ्र २ शुचि ३ श्वेत ४ विशद ५ श्वेत
६ पाण्डुर ७ ॥ १२ ॥ अवदात ८ सित ९
१० गौर १ (५) छश ११ धवल
१२ अर्जुन १३ ॥

हरिण* पाण्डुर* पाण्डु-

कुष्ठ पीलापनमिष्ठेभ्यः सफेदवर्णके
नाम ३ ॥ हरिण १ पाण्डुर २ पाण्डु ३

-रीपत्पाण्डुस्तु घूसर* ॥ १३ ॥

किञ्चित् उज्ज्वलक नाम १ ॥
घूसर १ ॥ १३ ॥

कृष्णे नीलासितश्यामकाल
श्यामलमेचका* ॥

काळे वर्णके नाम ७ ॥ कृष्ण १
नील ३ अस्ति ३ श्याम ४ काल ५
श्यामल ६ मेचक ७ ॥

पीतो गौरो हरिद्राम*-

पीले वर्णके नाम ३ पीत १ गौर
२ हरिद्राम ३ ॥

-पालाशो हरितो हरित् १४ ॥

हरेवर्णके नाम ३ पालाश १ हरित
२ हरित् ३ ॥ १४ ॥

रोहितो लोहितो रक्तः-

लाञ्छणके नाम ३ ॥ रोहित १
लोहित २ रक्त ३ ॥

-शोण* कोकनदच्छवि* ॥

छाछ कमलके समानवर्णके नाम
२ ॥ शोण १ कोकनदच्छवि २ ॥

अध्यक्तरागस्त्वरुणः-

योडे छाञ्जका नाम १ ॥ भस्म १ ॥
-श्वेतरक्तस्तु पाटलः ॥ १५ ॥

मिले हुए सफेद और लालवर्णका

नाम १ ॥ पाटल १ ॥ १५ ॥

श्यावः स्यात्कपिशो-

मिले हुए काले और पीले रगके
नाम २ ॥ श्याव १ कपिश २ ॥

-धूम्रधूमलौ कृष्णलोहिते ॥

मिले हुए काले और लालवर्णके नाम
३ ॥ धूम्र १ धूमल २ कृष्णलोहित ३ ॥

कडारः कपिलः पिङ्गपिशंगौ
कद्रुपिङ्गलौ ॥ १६ ॥

वानरकेसे रगके नाम ६ ॥ कडार १
कपिल २ पिङ्ग ३ पिशङ्ग ४ कद्रु ५
पिङ्गल ६ ॥ १६ ॥

चित्रं किर्मीरकल्माषशबलैताश्च
कर्षुरे ॥

चित्रवर्णके नाम ६ ॥ चित्र १ किर्मीर
२ कल्माष ३ शबल ४ एत ५ कर्षुरे ६ ॥

गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणि-
लिङ्गास्तु तद्वति ॥ १७ ॥

गुणवाचक शुक्ल आदि शब्द पुँल्लिङ्ग
होते हैं, और द्रव्यवाचकशब्द द्रव्यके
अनुसार लिङ्गमें होते हैं ॥ १७ ॥

इति धीवर्गः ॥ ५ ॥

अथ शब्दादिवर्गः ६.

ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वा-
ग्वानी सरस्वती ॥

सरस्वतीके नाम ७ ॥ ब्राह्मी १
भारती २ भाषा ३ गिर, गिरा ४ वाच्
५ वाणी ६ सरस्वती ७ ॥

व्याहार उक्तिर्लपितं भाषितं
वचनं वचः ॥ १ ॥

बोलनेके नाम ६ ॥ व्याहार १
उक्ति २ लपित ३ भाषित ४ वचन ५
वचस् ॥ ६ ॥ १ ॥

अपभ्रंशोऽपशब्दः स्या—

अपभ्रष्ट अर्थात् व्याकरणकी रीतिसे
अशुद्ध शब्दका नाम १ ॥ अपभ्रश १ ॥

—च्छास्त्रे शब्दस्तु वाचकः ॥

व्याकरणशास्त्रानुसार शुद्धशब्दका
नाम १ ॥ शब्द १ ॥

तिङ्सुबन्तचयो वाक्यं क्रिया वा
कारकान्विता ॥ २ ॥

तिङ्बन्तसुबन्तके समूह और कारक
युक्त क्रियाका नाम १ ॥ वाक्य १ ॥ २ ॥

श्रुतिः स्त्री वेद आम्नायस्त्रयी-
वेदके नाम ४ ॥ श्रुति १ वेद २
आम्नाय ३ त्रयी ४ ॥

—धर्मस्तु तद्विधिः ॥

वेदमें कही हुई सच्चा तर्पण आदि
विधिका नाम १ ॥ धर्म १ ॥

स्त्रियामृक्सामयजुषी—

कदोके नाम १॥ ऋष् १ यजुस् २
सामन् ३ ॥

—इति वेदास्त्रयस्त्रयी ॥ ३ ॥

इन्ही तीनों कदोका इच्छा नाम १॥
प्रयी १ ॥ ३ ॥

शिक्षेत्यादि भुतेरङ्ग—

केके छः अंगोंके नाम १ ॥ शिक्षा
१ कस्य २ व्याकरण ३ निस्क ४
ज्योतिष ५ छन्दस् ६ ॥

मौकारप्रणवौ समौ ॥

मौकारके नाम ३ ॥ मौकार १
प्रणव २ ॥

इतिहास* पुरावृत्त—

इतिहासके नाम २ ॥ इतिहास १
पुरावृत्त २ ॥

मुदात्ताद्यास्त्रयः स्वराः ॥ ४

उदात्त अनुदात्त स्वरितका नाम
१ ॥ स्वर १ ॥ ४ ॥

आन्वीक्षिकी दण्डनीतिस्वर्क-
विद्यार्थशास्त्रयो ॥

तर्कविद्याका नाम १ ॥ आन्वीक्षिकी १ ॥
अर्थशास्त्रका नाम १ ॥ दण्डीति १ ॥

आख्यायिकोपलब्ध्यायां—

मिसका अर्थ जान उिया हो उस
क्याके नाम २ ॥ आख्यायिका १
उपलब्ध्यायां २ ॥

—पुराण पञ्चलक्षणम् ॥ ५ ॥

पुराणोंके नाम २ ॥ पुराण १
पञ्चलक्षण २ ॥ ५ ॥

प्रबन्धकल्पना कथा—

कल्पना करी हुई कादम्बरी आदि
कथाके नाम २ ॥ प्रबन्धकल्पना १
कथा २ ॥

—प्रवहिका प्रहेलिका ॥

जिसके सुननेसे मतलब जाना
जाय और विचार करनेसे दूसरा मत
जब मिसके उस (कहानी) के नाम
२ ॥ प्रवहिका १ प्रहेलिका २ ॥

स्मृतिस्तु धर्मसंहिता—

धर्म जनानेको रचना किये हुए स्मो
कोंके समूहके नाम १ ॥ स्मृति १
धर्मसंहिता २ ॥

—समाह्वतिस्तु समहः ॥ ६ ॥

समहके नाम २ ॥ समाह्वति १ स-
मह २ ॥ ६ ॥

समस्या तु समासार्था—

जिसमें कुछ अर्थ पूरा किया जाय
उसके नाम २ ॥ समस्या १ समासार्था २ ॥

—किंवदन्ती जनश्रुतिः ॥

लोकप्रवाद अर्थात् दुर्ग्रहके नाम २ ॥
किंवदन्ती १ जनश्रुति २ ॥

वार्ता प्रवृत्तिवृत्तान्त उदन्त*
स्या—

मधैवताः ॥ पञ्चमश्रेत्यमी सप्त-
न्त्रीकण्ठोत्थिताः स्वराः ॥ १ ॥

वीणासे वा कठसे उत्पन्न होनेवाले
स्वरोके नाम ७ ॥ निषाद १ ऋषभ २
गान्धार ३ षड्ज ४ मध्यम ५ धैवत ६
पञ्चम ७ ॥ १ ॥

काकली तु कले सूक्ष्मे-

सूक्ष्मशब्दका नाम १ ॥ काकली १ ॥

-ध्वनौ तु मधुरास्फुटे ॥

कली-

मीठी और अस्फुट आवाजका नाम
१ ॥ कल १ ॥

-मन्द्रस्तु गम्भीरे-

गभीर शब्दका नाम १ ॥ मन्द्र १ ॥

-तारोऽत्युच्चै-

अत्युच्च शब्दका नाम १ ॥ तार १ ॥

-स्त्रयस्त्रिषु ॥ २ ॥

कल आदि तीन शब्द तीनों लिंगों-
में होतेहैं ॥ २ ॥

समन्वितलयस्त्वेकतालो-

वाद्यगानादिके एकसग तालस्वरका

नाम १ ॥ एकताल १ ॥ -

-वीणा तु बलकी ॥

विपश्ची

वीणाके २ म ३ ॥ वीणा १ बलकी

२ विपश्ची ३ ॥

-सा तु तन्त्रीभिः सप्तभिः परि-
वादिनी ॥ ३ ॥

सात तारोंसे बोलनेवाली वीणाका
नाम १ ॥ परिवादिनी १ ॥ ३ ॥

ततं वीणादिकं वाद्य-

वीणादिक वाजेका नाम १ ॥ तत १ ॥

-मानद्धं मुरजादिकम् ॥

मृदगआदि वाजेका नाम १ ॥ आनद्ध १ ॥

वंशादिकं तु सुषिरं-

वशीआदिवाजेका नाम १ ॥ सुषिर १ ॥

-कांस्यतालादिकं घनम् ॥ ४ ॥

झांझ मजीरा आदि वाजेका नाम

१ ॥ घन १ ॥ ४ ॥

चतुर्विधमिदं वाद्यं वादित्रातोद्य-
नामकम् ॥

तत आदि चारों वाजोंका इकट्ठा
नाम ३ ॥ वाद्य १ वादित्र २ आतोद्य ३ ॥

मृदङ्गा मुरजा-

मृदगके नाम २ ॥ मृदग १ मुरज २ ॥

-भेदास्त्वङ्ग्यालिङ्ग्योर्ध्वका-

स्त्रयः ॥ ५ ॥

मृदगके भेद ३ ॥ अङ्ग्य १ आ-
लिङ्ग्य २ ऊर्ध्वक ३ ॥ ५ ॥

स्याद्यशःपटहो ढक्का-

नगाडेके नाम २ ॥ यशःपटह १
ढक्का २ ॥

-भेर्यामानकदुन्दुमी ॥ १ ॥
 घोसानपीरि आदिके नाम १ ॥
 मेरी १ आनक २ दुन्दुमि ३ ॥
 आनक पटहोप्ली स्या-
 घोछके नाम २ ॥ आनक १ पटह २ ॥
 -स्कोणो वीणादिवादनम् ॥ ६ ॥
 जिस्से वीणादि बजासहै उस मक्की
 आदिका नाम १ ॥ कोण २ ॥ १ ॥
 वीणावण्डः प्रवालः स्या-
 वीणाकी डंडीका नाम १ ॥ प्रवाल १ ॥
 -त्ककुमस्तु प्रसेवक ॥
 वीणाके नीचे जो गोल गोल घर्ष
 से मटाहूमा होताहै उसक नाम २ ॥
 ककुम १ प्रसेवक १ ॥
 कोलम्बकस्तु कायोऽस्या-
 वीणाके सर्वांगका नाम १ ॥ कोलम्बक १ ॥
 उपनाहो निधन्वनम् ॥ ७ ॥
 वीणामें ब्रह्म तार बांधे जातेहैं उसके
 नाम २ ॥ उपनाह १ निधन्वन २ ॥ ७ ॥
 वाद्यप्रमेदा इमरुमङ्गुडिष्ण्डिम
 मूर्धरा ॥ मर्दल पणवोऽप्ये च
 इमरुका नाम १ ॥ इमरु १ ॥ बडे
 इमरुका नाम १ ॥ मङ्गु १ ॥ डिष्ण्डि
 मका नाम १ ॥ डिष्ण्डि २ ॥ मूर्धराका
 नाम १ ॥ मूर्धरा १ ॥ तथा मर्दल
 पणव आदि और भी बाज हैं १ ॥

-नर्तकीठासिके समे ॥ ८ ॥
 नाचनेवालीके नाम २ ॥ नर्तकी १
 ठासिका २ ॥ ८ ॥
 धिलम्बितं वृत्तं मध्यं तत्त्वमोघो
 धन क्रमात् ॥
 धीरे धीरे नाचका नाम १ ॥ तत्त्व
 १ ॥ शीघ्र नाचका नाम १ ॥ ओघ
 १ ॥ मध्यम नाचकर नाम १ ॥ धन १ ॥
 तालः कालक्रियामानं-
 समय और क्रियाके प्रमाणका
 नाम १ ॥ ताल १ ॥
 -छयं साम्यं-
 बाना और नाचका एक संग ताल
 छूटनेका नाम १ ॥ छय १ ॥
 -मघास्त्रियाम् ॥ ९ ॥
 भाषा-इस्से आगे कहे ये शब्द
 स्त्रीलिंग वाची नहीं अर्थात् पुँल्लिङ्गा
 मपुस्तक लिंग वाची होत हैं ॥ ९ ॥
 ताण्डवं नटनं नाट्यं छास्यं नृत्यं
 च नर्तने ॥
 नाचके नाम ९ ॥ ताण्डव १ नटन
 २ नाट्य ३ छास्य ४ नृत्य ५ नर्तन १ ॥
 वीर्यत्रिकं नृत्यगीतवाद्यं नाट्यं
 सिद्धं त्रयम् ॥ १० ॥

नाच गीत बाजा इन तीनोंके इकट्ठे
नाम२॥ तौर्यत्रिक १ नाट्य २ ॥ १० ॥

भ्रुकुंसश्च भ्रुकुंसश्च भ्रुकुंसश्चोति
नर्त्तके ॥ स्त्रीविषधारी पुरुषो-

स्त्रीविषधारी नाचनेवाले पुरुषकेनाम३॥

भ्रुकुस १ भ्रुकुस २ भ्रुकुस ३ ॥

नाट्योक्तौ गणिकाज्जुका ११

केवल नाटकमें नाचने गानेवाली
धरयाका नाम १॥ अज्जुका १॥ ११ ॥

भगिनीपतिरावुत्तो-

बहनोईका नाम १ ॥ आवुत्त १ ॥

-भावो विद्वा-

विद्वान्का नाम १ ॥ भाव १ ॥

नथावुकः ॥

जनको-

पिताका नाम १ ॥ आवुक १ ॥

युवराजस्तु कुमारे

भर्तृदारकः ॥ १२ ॥

युवराजके नाम २ ॥ कुमार १ भर्तृ-
दारक २ ॥ १२ ॥

राजा भट्टारको देव-

राजाके नाम २ ॥ भट्टारक १ देव २ ॥

-स्तत्सुता भर्तृदारिका ॥

राजकन्याका नाम १ ॥ भर्तृदारिका १ ॥

देवी कृताभिषेकाया-

अभिषेक की हुई रानीका नाम १ ॥

देवी १ ॥

-मितरासु तु भाट्टनी ॥ १३ ॥

अन्य राजस्त्रियोंका नाम १ ॥

मट्टिनी १ ॥ १३ ॥

अब्रह्मण्यमवध्योक्तौ-

अवध्य वचनका नाम १ ॥ अब्र

हण्य १ ॥

-राजश्यालस्तु राष्ट्रियः ॥

राजाके शालेका नाम १ ॥ राष्ट्रिय १ ॥

अम्बा माता-

माताके नाम २ ॥ अम्बा १ मातृ २ ॥

-ऽथ बाला स्याद्वासू-

कुमारीके नाम २ ॥ बाला १ वासू २ ॥

रार्यस्तु मारिषः ॥ १४ ॥

श्रेष्ठके नाम २ ॥ आर्य १ मारिष २ ॥ १४ ॥

अत्तिका भगिनी ज्येष्ठा-

जेठी बहनका नाम १ ॥ अत्तिका १ ॥

--निष्ठानिर्वहणे समे ॥

नाटककी सधियोंके नाम २ ॥ निष्ठा १
निर्वहण २ ॥

हण्डे हञ्जे हलाहाने नीचां चे-
टीं सर्खां प्रति ॥ १५ ॥

नीचस्त्रीके पुकारनेमें हण्डे १ ॥

चेटीके पुकारनेमें हजे १ ॥ सर्खीके

पुकारनेमें हला १ ॥ १५ ॥

अंगहारोंगविक्षेपो-

लचकनेके नाम २ ॥ अंगहार १

अंगविक्षेप २ ॥

—व्यञ्जकाभिनयौ समौ ॥
भाष्य भूतानके नाम २ ॥ व्यञ्जक १
अभिनय २ ॥

निवृत्ति त्वङ्गस्तत्त्वाभ्या द्वे त्रि-
प्याङ्गिकस्तात्त्विके ॥ १६ ॥
मोह मटकानेका नाम १ ॥ आंगिक
१ ॥ अन्त करणके मासका नाम १ ॥
सात्त्विक १ ॥ १६ ॥

शृङ्गारवीरकरुणाद्भुतहास्यभया
नकाः ॥ भीमत्सरौद्रौ च रसाः—
दश रसोक्ते नाम १० ॥ शृङ्गार १
वीर २ करुण ३ अद्भुत ४ हास्य ५
भयानक ६ भीमत्स ७ रौद्र ८
(शांति ९ वास्तव्य १०)

—शृङ्गारं शुचिरुज्ज्वलम् ॥ १७ ॥
शृङ्गारके नाम १ ॥ शृङ्गार १
शुचि २ उज्ज्वल ३ ॥ १७ ॥

उत्साहवर्धनो वीर—
वीररसश्च नाम २ ॥ उत्साहवर्धन १
वीर २ ॥

—कारुण्य करुणा घृणा ॥
कृपादयानुकम्पा स्यादनुक्रोशो
करुणा रसक नाम ७ ॥ कारुण्य १
करुणा २ घृणा ३ कृपा ४ दया ५ अनु-
कम्पा ६ अनुक्रोश ७ ॥

—ऽप्ययो हासः ॥ १८ ॥
हासो हास्य च—
हास्य २ रसके नामशास्त्र १ ॥ १८ ॥
हास हास्य ३ ॥

—यीमत्स विकृत त्रिष्विदं दयम् ॥
भीमत्स रसके नाम २ ॥ भीमत्स १
विकृत २ ॥

विस्मयोऽद्भुतमाश्चर्यं चित्र-
अद्भुतरसके नाम ४ ॥ अद्भुत १
आश्चर्य २ विस्मय ३ चित्र ४ ॥

—मप्यथ भैरवम् ॥ १९ ॥
दारुण मीपण भीष्म घोरं भीम
भयानकम् ॥ भयंकरं प्रतिमय—
भयानकरसके नाम ९ ॥ भैरव १ ॥
॥ १९ ॥ दारुण २ मीपण ३ भीष्म ४
घोर ५ भीम ६ भयानक ७ भयंकर ८
प्रतिमय ९ ॥

रौद्र तूय—
रौद्ररसके नाम २ ॥ रौद्र १ उग्र २ ॥
—ममी त्रिषु ॥ २० ॥

चतुर्दश—
अत्रादि चोदह शब्द द्रव्यवाचक
हो तो निरोप्यनिर्गच्छिण आनमा ॥ २० ॥
—दरस्थासो भोतिर्मा साध्वसं
भयम् ॥

भयके नाम ६ ॥ दर १ त्रास २
भीति ३ भी ४ साध्वस ५ भय ६ ॥

विकारो मानसो भावो-

मनके विकारका नाम १ ॥ भाव १ ॥

-ऽनुभावो भावबोधकः ॥ २१ ॥

भावप्रकाशकका नाम १ ॥ अनु-
भाव १ ॥ २१ ॥

गर्वोऽभिमानोऽहंकारो-

अहंकारके नाम १ ॥ गर्व १ अभि-
मान २ अहंकार ३ ॥

-मानश्चित्तसमुन्नतिः ॥

वडप्पनका नाम १ ॥ मान १ ॥

अनादरः परिभवः परीभावस्तिर-
स्क्रिया ॥ २२ ॥ रीढावमानना-
वज्ञावहेलनमसूर्क्षणम् ॥

निरादरके नाम ९ ॥ अनादर १ परि-
भव २ परीभाव ३ तिरस्क्रिया ४ ॥

॥ २२ ॥ रीढा ५ अवमानना ६ अव-
ज्ञा ७ अवहेलन ८ असूर्क्षण ९ ॥

मन्दाक्षं हीस्त्रपा व्रीडा लज्जा-

लज्जाके नाम ५ ॥ मन्दाक्ष १ हीर

त्रपा ३ व्रीडा ४ लज्जा ५ ॥

-सापत्रपान्यतः ॥ २३ ॥

दूसरेसे लजानेके नाम १ ॥ अप-
त्रपा १ ॥ २३ ॥

क्षान्तिस्तितिक्षा-

क्षमाके नाम २ ॥ क्षान्ति १ तितिक्षा २ ॥

-ऽभिध्यातुपरस्यविषयेस्पृहा ॥

परधनलेनेका इच्छाका नाम १ ॥

अभिव्या १ ॥

अक्षान्तिरीर्ष्या-

ईर्ष्याका नाम २ ॥ अक्षान्ति १ ईर्ष्या २ ॥

-ऽसूया तु दोषारोपो गुणे-
ष्वपि ॥ २४ ॥

पराये गुणोका दोष प्रसिद्ध करनेका
का नाम १ ॥ असूया १ ॥ २४ ॥

वैरं विरोधो विद्वेषो-

वैरके नाम ३ ॥ वैर १ विरोध २
विद्वेष ३ ॥

मन्युशोकौ तु शुक् स्त्रियाम् ॥

शोकके नाम ३ ॥ मन्यु १ शोक
२ शुक् ३ ॥

पश्चात्तापोऽनुतापश्च विप्रतीसार
इत्यपि ॥ २५ ॥

पछितानेके नाम ३ ॥ पश्चात्ताप १
अनुताप २ विप्रतीसार ३ ॥ २५ ॥

कोपक्रोधामर्षरोषप्रतिधा रुद्रकुधौ
स्त्रियौ ॥

क्रोधके नाम ७ ॥ कोप १ क्रोध २
अमर्ष ३ रोष ४ प्रतिधा ५ रूप ६ कुध ७ ॥

घर्मसे चलायमान होनेके अथवा
बाळकोंके घुटुओंसे चञ्चलके नाम २ ॥
विज्ञान १ स्वञ्जन २ ॥

स्याभिद्रा शयन स्वापः स्वप्न
सवेश्म हृत्पापि ॥ ३६ ॥

शयन करनेके नाम १ ॥ निद्रा १
शयन २ स्वाप ३ स्वप्न ४ सवेश्म ५ ॥ ३६ ॥

तन्द्री प्रमीला-
ओंघनेके नाम २ ॥ तन्द्री १ प्रमीला २ ॥

भ्रुकुटिर्भ्रुकुटिर्भ्रुकुटिः स्त्रियाम् ॥
कोवसहित मौह चञ्चानेके नाम ३ ॥

भ्रुकुटि १ भ्रुकुटि २ भ्रुकुटि ३ ॥
अदृष्टिः स्यादसौम्योक्षण-

कृतदृष्टिका नाम १ ॥ अदृष्टि १ ॥
-संविद्धिमकृती त्विमे ॥ ३७ ॥

स्वरूप घ स्वभावश्च निसर्गश्चा
स्वभावेके नाम १ ॥ संविद्धि १ प्रकृति २

॥ ३७ ॥ स्वरूप ३ स्वभाव ४ निसर्ग ५ ॥
-ऽय वेपथुः ॥

-कम्पो-
कापन्क नाम २ ॥ वेपथु १ कम्प २ ॥

-ऽय क्षण उद्वर्पा मह उद्वव
उत्तव ॥ ३८ ॥

उत्तरक नाम १ ॥ क्षण १ उद्वर्प २
मह ३ उद्वव ४ उत्तर ५ ॥ ३८ ॥
इति भाष्यभागः ॥ ७ ॥

अथ पातालभोगिवर्गः ८

अधोमुवनपातालं बलिसस रसा
सलम् ॥ नागलोको-

पातालके नाम १ ॥ अधोमुवन १ पाता
ल २ बलिसस ३ रसातल ४ नागलोक ५ ॥

-ऽय कुहर सुपिर विवर विल
म् ॥ १ ॥ छिद्रं निर्व्ययनं रोक
रन्ध्रं चभ्रं वपा शुपिः ॥

छिद्रक नाम १ ॥ कुहर २ सुपिर २
विवर ३ विल ४ ॥ १ ॥ छिद्र १ निर्व्ययन २

रोक ३ रन्ध्र ४ स्वप्न ५ वपा १ ० शुपि १ १ ॥

गर्तावटौ सुवि चभ्रे-
पृथ्वीक गड्ढेके नाम २ ॥ गर्त १ ॥

अषट २ ॥
-सरन्ध्रे सुपिरं त्रिषु ॥ २ ॥

छेदयुक्त वस्तुका नाम १ ॥ सुपिर
१ ॥ २ ॥

अन्धकारोऽस्त्रिया ध्वान्त तमिस्र
तिमिरं तमः ॥

अन्धकारके नाम १ ॥ अन्धकार १
ध्वान्त २ तमिस्र ३ तिमिर ४ तमस ५ ॥

ध्वान्ते गाढेऽन्धतमस-
आपस्त अन्धकारका नाम १ ॥ अन्ध
तमस १ ॥

-शीणवतमस-

थोडी अन्धियारीका नाम १ ॥

सन्तमस १

—तमः ॥ ३ ॥

विष्वक्सन्तमस—

सत्र और फैले हुए अधिकारका नाम

॥ सन्तमस १ ॥ ३ ॥

—नागाः काद्रवेया—

फन और पूछवाले मनुष्याकार

पोंके नाम २ ॥ नाग १ काद्रवेय २ ॥

स्तदीश्वरः ॥ शेषोऽनन्तो—

शेषनागके नाम २ ॥ शेष १ अनन्त २ ॥

—वासुकिस्तु सर्पराजो—

सर्पराजके नाम २ ॥ वासुकि १

सर्पराज २ ॥

५थ गोनसे ॥ ४ ॥ ॥ ४ ॥

तिलित्सः स्या—

गौकी समान नासिकावाले सर्पके

नाम २ ॥ गोनस १ ॥ ४ ॥

तिलित्स २ ॥

—दजगरे शयुर्वाहस इत्युभौ ॥

अजगरके नाम ३ ॥ अजगर १

शयु २ वाहस ३ ॥

अलगदौ जलव्यालः—

पानीके सर्पके नाम २ ॥ अल-

द १ जलव्याल २ ॥

समौ राजिलडुण्डुभौ ॥ ५ ॥

द्विमुही सर्पके नाम २ ॥ राजिल

१ डुण्डुम २ ॥ ५ ॥

मालुधानो मातुलाहि—

चीतेसर्पके नाम २ ॥ मालुधान

१ मातुलाहि २ ॥

निर्मुक्तो मुक्तकंचुकः ॥

कैचुलीके छोडेघुए सब सर्पोंके

नाम २ ॥ निर्मुक्त १ मुक्तकचुक २

सर्पः पृदाकुर्भुजगो भुजङ्गोऽहिर्भु-

जंगमः ॥ ६ ॥ आशीविषो विष-

धरश्चक्री व्यालः सरीसृपः ॥

कुण्डली गूढपाञ्चक्षुःश्रवाः काको-

दरः फणी ॥ ७ ॥ दर्वीकरो

दीर्घपृष्ठो दन्दशूको विलेशयः ॥

उरगः पन्नगो भोगी जिह्वगः

पवनाशनः ॥ ८ ॥

सर्पके नाम २५ ॥ सर्प १ पृदाकु २

भुजग ३ भुजग ४ अहि ५ भुजगम

६ ॥ आशीविष ७ विषधर ८ चक्रिन्

९ व्याल १० सरीसृप ११ कुड्डलिन् १२

गूढपाद् १३ चक्षुःश्रवस् १४ काकोदर

१५ फणिन् १६ ॥ ७ ॥ दर्वीकर १७

दीर्घपृष्ठ १८ दन्दशूक १९ विलेशय

२० उरग २१ पन्नग २२ भोगिन्

२३ जिह्वग २४ पवनाशन २५ ॥ ८ ॥

धर्मसंघोषणमान होनेके अथवा
धातुकोके घुटुओंस चल्नके नाम २ ॥
विज्ञान १ स्वप्न २ ॥

स्याभिद्रा शयनं स्वाप स्वप्न
संबेश इत्यापि ॥ ३६ ॥

शयन करनेके नाम १ ॥ निद्रा १
शयन २ स्वाप ३ स्वप्न ४ संबेश ५ ॥ ३६ ॥

चन्द्री प्रमीला-
ओषनक नाम २ ॥ चन्द्री १ प्रमीला २ ॥
भ्रुकुटिर्भ्रुकुटिर्भ्रुकुटिःस्त्रियाम् ॥

क्रोधसहित मौह अठानके नाम ३ ॥
भ्रुकुटि १ भ्रुकुटि २ भ्रुकुटि ३ ॥

अद्यष्टिः स्यादसौम्येक्षिण-
क्रूरदृष्टिका नाम १ ॥ अद्यष्टि १ ॥

-सधिक्षिप्रमृत्ती त्विमे ॥ ३७ ॥
स्वरूप घ स्वभावश्च नितर्गश्चा

स्वभावके नाम १ ॥ संसिद्धि १ प्रकृति २
॥ ३७ ॥ स्वरूप ३ स्वभाव ४ नितर्ग ५ ॥

-ऽय वेपथुः ॥
-कम्पो-

कापनेके नाम २ ॥ वेपथु १ कम्प २ ॥
-ऽय क्षण उद्वर्षो मह उद्वव

उत्सवः ॥ ३८ ॥
उत्सवः नाम १ ॥ क्षण १ उद्वर्ष २
मह ३ उद्वव ४ उत्सव ५ ॥ ३८ ॥

इति नाट्यवर्गः ॥ ७ ॥

अथ पातालमोगि
अधोमुवनपातालं घः

सलम् ॥ नागलोका-
पातालके नाम १ ॥ मध

खरवडिसम्पन् ३ रसातल
-ऽय कुहर मुपि

म् ॥ १ ॥ छिद्र वि
रन्ध्र श्वभ्र वपा शु

छदके नाम १ ॥ १ ॥
खिर ३ बिछ ४ ॥ १ ॥ १ ॥

रोष ७ रन्ध्र ८ श्वभ्र ९ वपा
गतायतौ मुवि

पृथ्वीके गडहके ना
भवट २ ॥

-सरन्ध्रे मुपिरः
छेदयुक्त वस्तुका

१ ॥ २ ॥

अन्धकारोऽस्त्रिया
विभिरं समः ॥

अन्धकारके नाम
आन्त २ तमिस्र ३ वि

ध्वान्से गाढेऽन्ध-
आत्यन्त अथकारम्

तमस १ ॥
-शीणोवतमस-

नरकमे जवरदस्ती ढकेलनेके नाम
२ ॥ विष्टि १ आजू २ ॥

-कारणा तु यातना तीव्रवेदना ॥

नरककी पीडाके नाम ३ ॥ कारणा

१ यातना २ तीव्रवेदना ३ ॥

पीडावाधाव्यथादुःखमामनस्यं
प्रसूतिजम् ॥ ३ ॥ स्यात्कष्टं

कृच्छ्रमाभीलं-

पीडाके नाम ९ ॥ पीडा १ वाधा
२ व्यथा ३ दुःख ४ आमनस्य ५
प्रसूतिज ६ ॥ ३ ॥ कष्ट ७ कृच्छ्र <
आमील ९ ॥

-त्रिष्वेषां भेद्यगाभि यत् ॥ ४ ॥

इन शब्दोंमें जो द्रव्यवाचक हो
वह तीनों लिंगोंमें होते हैं ॥ ४ ॥

इति नरकवर्गः ॥ ९ ॥

अथ वारिवर्गः १०.

समुद्रोब्धिरकूपारः पारावारः
सारिप्तपतिः ॥ उदन्वानुदधिः
सिन्धुः सरस्वान्सागरोर्णवः ॥ १ ॥
रत्नाकरो जलनिधिर्यादःपतिरपां-
पतिः ॥

समुद्रके नाम १९ ॥ समुद्र १
अब्धि २ अकूपार ३ पारावार ४ सारि-
प्तपति ५ उदन्वत् ६ उदधि ७ सिन्धु
< सरस्वत् ९ सागर १० अर्णव

३

११ ॥ १ ॥ रत्नाकर १२ जलनिधि १३

यादःपति १४ अपाम्पति १५ ॥

तस्य प्रभेदाः क्षीरोदो लवणो-
दस्तथापरे ॥ २ ॥

समुद्रके भेद ७ ॥ क्षीरोद १
लवणोद २ (इक्षुरसोद ३ सुरोद ४ दधि-
मण्डोद ५ स्वादूद ६ घृतोद ७) ॥ २ ॥

आपः स्त्री भूमिनि वार्वारि सलिलं
कमलं जलम् ॥ पयः कीलालम-
मृतं जीवनं भुवनं वनम् ॥ ३ ॥
कवन्धमुदकं पाथः पुष्करं सर्व-
तोमुखम् ॥ अम्भोर्णस्तोयपानी-
यनीरक्षीराम्बु शम्बरम् ॥ ४ ॥

मेघपुष्पं घनरस-

जलके नाम २७ ॥ अप् १ वार
२ वारि ३ सलिल ४ कमल ५ जल
६ पयस ७ कीलाल ८ अमृत ९
जीवन १० भुवन ११ वन १२ ॥
१३ ॥ कवन्ध १४ उदक १५ पाथस्
१६ पुष्कर १७ सर्वतोमुख १८ अम्भस्
१९ अर्णस् २० तोय २० पानीय
२१ नीर २२ क्षीर २३ अम्बु २४
शम्बर २५ ॥ ४ ॥ मेघपुष्प २६
घनरस २७ ॥

-स्त्रिषु द्वे आप्यमम्मयम् ॥

जलविकारके नाम २ ॥ आप्य १
अम्मय २ ॥

भङ्गस्तरङ्ग ऊर्मिर्वा स्त्रिया
वीचि-

जङ्गकी तरंगके नाम ४ ॥ भग १
तरंग २ ऊर्मि ३ वीचि ४ ॥

-रयोर्मिषु ॥ ५ ॥

महत्सुलोलकल्लोलौ-

बड़ीतरंगके नाम २ ॥ ५ ॥
लल्लोल १ कल्लोल २ ॥

-स्पादावर्षोऽम्मसा भ्रम ॥

जलक ममका नाम १ ॥ आर्ष १ ॥

पृपन्ति बिन्दुपृपता प्रमासो

विप्रुप स्त्रियाम् ॥ ६ ॥

बिन्दुओंके नाम ४ ॥ पृपत् १

विन्दु २ प्रपत् ३ विप्रुष ४ ॥ ६ ॥

चक्राणि पुटमेदा स्यु-

ममरपङ्कक अङ्के नीचको जानेके
नाम २ ॥ चक्र १ पुटमेद २ ॥

-र्धमाश्च जलनिर्गमा ॥

जलक निकलनेके जलके नाम
२ ॥ अम १ जलनिर्गम २ ॥

कूल रोधश्च तीरं च प्रतीर च
तटं त्रिषु ॥ ७ ॥

नदीके किनारेके नाम ५ ॥ कूल
१ रोधत् २ तीर ३ प्रतीर ४
तट ५ ॥ ७ ॥

पाराधारे परार्वाची तीरे-

उस पारका नाम १ ॥ पार १ ॥
इस पारका नाम १ ॥ अवार १ ॥

-पात्रं तदन्तरम् ॥

नदीके पाटका नाम १ ॥ पात्र १ ॥

द्वीपोऽस्त्रियामन्तरिर्षं यदन्त
वार्णिगस्तटम् ॥ ८ ॥

बेन्के नाम २ ॥ द्वीप १ ॥ अन्त-
रीप २ ॥ ८ ॥

-तोपोस्थित तत्पुलिन-

छावेका नाम १ ॥ पुलिन १ ॥

-सिकतं सिकतामयम् ॥

वालुकाधिकस्थानके नाम २ ॥

सैकत १ सिकतामय २ ॥

निपदरस्तु जम्बालः पङ्कोऽस्त्री
शादकर्दमौ ॥ ९ ॥

भोदा (कीच) के नाम ५ ॥

निपदर १ जम्बाल २ पङ्क ३ शाद
४ कर्दम ५ ॥ ९ ॥

जलोच्छ्वासाः परीवाहा-

उपजानेके नाम २ ॥ जलोच्छ्वास
१ परीवाह २ ॥

-कूपकास्तु विदारका ॥

चूरा (सूची नदीके गड्ढे) के नाम
२ ॥ कूपक १ विदारक २ ॥

नाव्य त्रिलिङ्गं नौवायै-

नौकासे टकरनेके योग्य जलका
नाम १ ॥ नाव्य १ ॥

स्त्रियां नौस्तरणिस्तरिः ॥ १० ॥

नावके नाम ३ ॥ नौ १ तरणि २
तरि ३ ॥ १० ॥

उडुपं तु प्लवः कोलः—

घनईके नाम ३ उडु १ प्लव ३
कोल ३ ॥

—स्रोतोऽम्बुसरणं स्वतः ॥

स्रोतका नाम १ ॥ स्रोतस् १ ॥

आतरस्तरपण्यं स्या—

उतराईके नाम २ ॥ आतर १
तरपण्य २ ॥

—द्रोणीकाष्ठाम्बुवाहिनी ॥ ११ ॥

पत्थर वा काष्ठनिर्मित नौकाके
खेडीके नाम २ ॥ द्रोणी १ काष्ठाम्बु-
वाहिनी २ ॥ ११ ॥

सांयात्रिकः पोतवणिकू—

नाव लादनेवाले उद्यमीके नाम २ ॥
सांयात्रिक १ पोतवणिकू २ ॥

—कर्णधारस्तुनाविकः ॥

खेवा लगानेवालेके नाम २ ॥ कर्ण-
धार १ नाविक २ ॥

नियामकाः पोतवाहाः—

जो नौकाके पीछे खडाहुआ लकडी
धुमाया करताहै उसके नाम २ नियाम-
क १ पोतवाह २ ॥

—कूपको गुणवृक्षकः ॥ १२ ॥

जिस खूटमें नौका बाधी जातीहै उसके
नाम २ ॥ कूपक १ गुणवृक्षक २ ॥ १२ ॥

नौकादण्डः क्षेपणी स्या—

पाता (नौकाके दोनो पसवाडोंमें
बधेहुए चलानेके काष्ठ) के नाम २ ॥
नौकादण्ड १ क्षेपणी २ ॥

—अरित्रं केनिपातकः ॥

करिया (नौकाकी पीठमें लगे हुए
चलानेके काठ) के नाम २ ॥ अरित्र
१ केनिपातक २ ॥

अग्निः स्त्री काष्ठकुदालः—

नौका साफ करनेके कुदालके नाम
२ ॥ अग्नि १ काष्ठकुदाल २ ॥

—सेकपात्रं तु सेचनम् ॥ १३ ॥

जिससे नावका जल उलीचा जाता
है उसके नाम २ ॥ सेकपात्र १ सेचन
२ ॥ १३ ॥

ह्रीवैर्धनावं नावोर्ध्वं—

आधीनावका नाम १ ॥ अर्धनाव १ ॥

—ऽतीतनौकेऽतितु त्रिपु ॥

जो नावलायक जल न हो उसका
नाम १ ॥ अतितु १ ॥

त्रिष्वागाधात्—

अगाध शब्दपर्यंत जितने शब्द हैं

वे तीनों लिंगोंमें चलतेहैं ॥

-प्रसन्नोऽच्छ-
निर्मलजलके नाम २ ॥ प्रसन्न १

अच्छ २ ॥

-कल्पपोनच्छ आविल ॥ १४ ॥

मैले जलके नाम ३ ॥ कल्प १

अनच्छ २ आविल ३ ॥ १४ ॥

निम्न गमीर गम्भीर-

गहरे जलके नाम ३ ॥ निम्न १

गमीर २ गम्भीर ३ ॥

-मुत्तानं तद्विपर्यय ॥

याहजलका नाम १ ॥ उत्तान १ ॥

अगाधमतलस्पर्श-

अयाह जलक नाम २ ॥ अगाध १

मतलस्पर्श २ ॥

-केवले दाशधीवरौ ॥ १५ ॥

मच्छाहके नाम ३ ॥ केवले १ दाश

२ धीवर ३ ॥ १५ ॥

आनाय पुंवि जाळं स्या-

जाळके नाम २ ॥ आनाय १ जाळ २ ॥

-च्छणसूत्र पवित्रकम् ॥

शणसूत्र जाळक नाम २ ॥ शण

सूत्र १ पवित्रक २ ॥

मत्स्याधानी कुम्भीणी स्या-

जिममें मछली धरीगार्थ ठसके नाम

२ ॥ मत्स्याधानी १ कुम्भीणी २ ॥

-द्विदिश मत्स्यवेचनम् ॥ १६ ॥

मछली पकडनेके कामके नाम २ ॥

द्विदिश १ मत्स्यवेचन २ ॥ १६ ॥

पृथुरोमाशुपोमत्स्योमीनेविसारि

गोऽण्डम ॥ विसार शकुलीवा-

मछलीके नाम ८ ॥ पृथुरोम् १

शप २ मत्स्य ३ मीन ४ विसारिण ५

अण्डम ६ विसार ७ शकुलिन् ८ ॥

-ऽथ गडकः शकुलार्भक ॥ १७ ॥

मछलीके बर्तोंके नाम २ ॥ गडक १

शकुलार्भक २ ॥ १७ ॥

सहस्रदंष्ट्र पाठीन-

पन्हा मछलीके नाम २ ॥ सहस्रदंष्ट्र

१ पाठीन २ ॥

-उल्पी शिशुकः समौ ॥

सूत मछलीके नाम २ ॥ उल्पिन् १

शिशुक २ ॥

नलमीनश्चिचिमः-

चेन्हा मछलीके नाम २ ॥ नल

मीन १ चिचिम २ ॥

-प्रोष्ठी मु क्षफरी द्वयो ॥ १८ ॥

सहरी मछलीके नाम २ ॥ प्रोष्ठी १

क्षफरी २ ॥ १८ ॥

धुद्राण्डमत्स्यसघात पोता

घान-

बर्तोंके निकली हुई छोटी मछलीस

मरका नाम १ ॥ पोताघान १ ॥

-मथो ज्ञषाः ॥
रोहितो मद्गुर. शालो राजीवः
शकुलस्तिमिः ॥ १९ ॥ तिमि-
गिलादयंश्चा-

रोहूमछलीका नाम १ ॥ रोहित १ ॥
मगरी मछलीका नाम १ ॥ मद्गुर
१ ॥ सौरीमछलीका नाम १ ॥ शाल
१ ॥ राया मछलीका नाम १ ॥ राजीव
१ ॥ सौरा मछलीका नाम १ ॥
शकुल १ ॥ बडीभारी मछलीका नाम
१ ॥ तिमि १ ॥ १९ ॥ तिमिके
निगलनेवाली मछलीका नाम १ ॥
तिर्मिगिल १ ॥ आदि ॥

-ऽथ यादांसि जलजन्तवः ॥

सर्वजलजन्तुओके नाम २ ॥ यादस्
१ जलजन्तु २ ॥

तद्भेदाः शिशुमारोद्रशंकवो म-
करादयः ॥ २०

शिरसका नाम १ ॥ शिशुमार १ ॥
ओदका नाम १ ॥ उद्र १ ॥ शङ्कका
नाम १ ॥ शङ्कु १ ॥ मगरका नाम
१ ॥ मकर १ आदि ॥ २० ॥

स्यात्कुलीरः कर्कटकः-

कैकडाके नाम २ ॥ कुलीर १
कर्कटक २ ॥

-कूर्मे कमठकच्छपो ॥

कछुहेके नाम ३ ॥ कूर्म १ कमठ

२ कच्छप ३ ॥

ग्राहोऽवहारो-

वडियालके नाम २ ॥ ग्राह १
अवहार २ ॥

-नक्रस्तु कुम्भीरो-

नाकेके नाम २ ॥ नक्र १ कुम्भीर २ ॥

-ऽथ महीलता ॥ २१ ॥

गण्डूपदः किचुलको-

केचुवाके नाम ३ ॥ महीलता १

॥ २१ ॥ गण्डूपद २ किचुलक ३ ॥

-निहाका गोधिका समे ॥

गोहेके नाम २ ॥ निहाका १
गोधिका २ ॥

रक्तपा तु जलौकायां स्त्रियां
भूमि जलौकसः ॥ २२ ॥

जोकके नाम ३ ॥ रक्तपा १ जलौका
२ जलौकस ३ ॥ २२ ॥

मुक्तास्फोटः स्त्रियां शुक्तिः-

समुद्रकी सीर्षिके नाम २ ॥ मुक्ता-
स्फोट १ शुक्ति २ ॥

-शंखः स्यात्कम्बुरस्त्रियौ ॥

शखके नाम २ ॥ शख १ कम्बुर २ ॥

क्षुद्रशंखाः शंखनखाः-

छोटे शखके नाम २ ॥ क्षुद्रशख १
शंखनख २ ॥

-शम्बूका जलशुक्तयः ॥ २३ ॥

सब सीपीके नाम २ ॥ शम्बूक १
जलशुक्ति २ ॥ २७ ॥

मेके मङ्कवर्षामूशाखरधुवद
दुरा ॥

मेदूकके नाम १ ॥ मङ्क १ मण्डूक
२ वर्षामू ३ वाखर ४ शख ५ दर्दुर ६ ॥

शिली गण्डूपदी-
काधुकि नाम २ ॥ शिष्ठी १
गण्डूपदी २ ॥

-मेकी वर्षाभ्वी-
मङ्कके नाम २ ॥ मेकी १
वर्षाभ्वी २ ॥

-कमठी डुलि ॥ २४ ॥
कडुर्हाक नाम २ ॥ कमठी १
डुली २ ॥ २४ ॥

मद्गुरस्य मिया शङ्गी
शीगीका नाम १ ॥ शङ्गी १ ॥
-दुनामा दीर्घकोशिका ॥
शिकवाके नाम २ ॥ दुर्नामा १
दीर्घकोशिका २ ॥

जलागया जलाधारा-
तदागसीनादि सत्र जलाशयोके
नाम २ ॥ जलाशय १ ॥ जलाधार २ ॥

-तत्रागायजली हृद् ॥ २५ ॥
कुन्दका नाम १ ॥ हृद् १ ॥ २५ ॥

आहावस्तु निपान स्पादुपकृ
मजलागये ॥

कूपके निकटकी चरही (जलके
छिये बनाई हुई) के नाम २ ॥ आहाव
१ निपान २ ॥

पुंस्येवान्धुः प्राहिः कूप उदपान
तु पुंसि वा ॥ २६ ॥

कुम्के नाम ४ ॥ अण्डु १ प्राहि २
कूप ३ उदपान ४ ॥ २६ ॥

नेमिस्रिकाऽस्य- ॥
कुरक्री पाठिकाका नाम १ ॥
त्रिका १ ॥

-वीनाहो मुखबन्धनमस्य यत् ॥
पका जगतका नाम १ ॥ वीनाह १ ॥
पुष्कारिण्यां तु खात स्या-
घोषान ताळाबके नाम २ ॥
पुष्कारिणी १ खात २ ॥

-दखातं देवखातकम् ॥ २७ ॥
नहीं खोदेदुर ताळाबके नाम २ ॥
खखात १ देवखातक २ ॥ २७ ॥

पद्माकरस्वडागोऽस्त्री-
त्रिम ताळाबके कम्ठ हों उसके
नाम २ ॥ पद्माकर १ तदाग २ ॥

-कामारः सरसी सर ॥
सामान्य सागरके नाम ॥
कामार १ सरसी २ सर ३ ॥

वेगन्त पन्वत्त चान्पगरी-
छोगीके नाम २ ॥ वेगन्त
१ पन्वत्त २ चान्पगरी ३ ॥

-वापी तु दीर्घिका ॥ २८ ॥
वावडीके नाम २ ॥ वापी १ दी-
र्घिका ॥ २ ॥ २८ ॥

खेयं तु परिखा-
खौंचा (ग्वाही)के नाम २ ॥ खेय
१ परिखा २ ॥

-ऽऽधारस्वम्भमां यत्र धारणम् ॥
वाधका नाम १ ॥ आधार १ ॥

स्यादालवालमावालमावापो-
थाल्हाके नाम ३ ॥ आलवाल १
आवाल २ आवाप ३ ॥

-ऽथ नदी सरित् ॥ २९ ॥

तरङ्गिणी शैवालिनी तटिनी
हादिनी धुनी ॥ स्रोतस्वती द्वीप-
पवती स्रवन्ती निम्नगापगा ॥ ३० ॥

नदीके नाम १२ ॥ नदी १ सरित् २
॥ २९ ॥ तरङ्गिणी ३ शैवालिनी ४ तटिनी
५ हादिनी ६ धुनी ७ स्रोतस्वती ८
द्वीपवती ९ स्रवन्ती १० निम्नगा ११
आपगा १२ ॥ ३० ॥

गङ्गा विष्णुपदी जह्नतनया सुरनि-
म्नगा ॥ भागीरथी त्रिपथगा त्रि-
स्रोता भीष्मसुरापि ॥ ३१ ॥

गगाजीके नाम ८ ॥ गगा १ वि-
ष्णुपदी २ जह्न तनया ३ सुरनिम्नगा ४
भागीरथी ५ त्रिपथगा ६ त्रिस्रोतस् ७
भीष्मम् ८ ॥ ३१ ॥

कालिन्दी सूर्यतनया यमुना
शमनस्वसा ॥

यमुनाके नाम ४ ॥ कालिन्दी १
सूर्यतनया २ यमुना ३ शमनस्वसृ ४ ॥

रेवा तु नर्मदा सोमोद्भवा मे-
कलकन्यका ॥ ३२ ॥

नर्मदाके नाम ४ ॥ रेवा १ नर्मदा
२ सोमोद्भवा ३ मेकलकन्यका ४ ॥ ३२ ॥

करतोया सदानीरा-

गौरीविवाहमें जो कन्यादानजलसे
उत्पन्नहुई उस नदीके नाम २ ॥ करतो-
या १ सदानीरा २ ॥

-बाहुर्दा सैतवाहिनी ॥

सहस्रबाहुकी नदीके नाम २ ॥
बाहुदा १ सैतवाहिनी २ ॥

शतद्रुस्तु शुतुद्रिः स्या-

शतलजके नाम २ ॥ शतद्रु १ शुतुद्रि २ ॥

-द्विपाशा तु विपादस्त्रियाम् ॥ ३३ ॥

व्यासनदीके नाम २ ॥ विपाशा १
विपाश २ ॥ ३३ ॥

शोणो हिरण्यवाहः स्या-

शोणभद्रके नाम २ ॥ शोण १

हिरण्यवाह २ ॥

-कुल्याल्पा कृत्रिमा सरित् ॥

नहरका नाम १ ॥ कुल्या १ ॥

शरावती वेप्रवती चन्द्रभागा
सरस्वती ॥ ३४ ॥ कावेरी-

शरावतीका नाम १ ॥ शरावती १ ॥
क्वक्तीका नाम १ ॥ क्वक्ती १ ॥ चि
भाषका नाम १ ॥ चन्द्रभागा १ ॥
सरस्वतीका नाम १ ॥ सरस्वती १ ॥ ३४ ॥
कावेरीका नाम १ ॥ कावेरी १ ॥

-सरितोऽन्याश्च-

शेर मी कौशिकी आदि नदियाहि ॥
-संभेद' सिन्धुसंगम' ॥
जहां एक नदी दूसरीसे मिलती है
उस संगमके नाम २ ॥ संभेद १
सिन्धुसंगम २ ॥

द्वयो' प्रणाली पयसः पद्व्यां-
पनारका नाम १ ॥ प्रणाली १ ॥
-त्रिपु लूचरी ॥ ३५ ॥
भागो होनवाले दोनों शब्द तीनों
किंगोंमें बरते हैं ॥ ३५ ॥

देविकायां सरख्यां च मवेदा
बिकसारवौ ॥

देविका मदीमें जो २ उत्पन्न हों
उनका नाम १ ॥ दाविक १ ॥ सरयूमें
जो २ उत्पन्नहों उनकानाम १ ॥ सारव १ ॥

सौगन्धिकं तु कङ्कारं-
कुर्व(सप्याम लिङ्गनेवाळ इतेतकमक) २ ॥
के नाम २ ॥ सौगधिक १ कङ्कार २ ॥
-इत्थक रक्तसंघकम् ॥ ३६ ॥

छाळ कुर्वके नाम २ ॥ हल्लक
रक्तसंघक २ ॥ ३६ ॥

स्यादुत्पल कुवलय-
कुमुदकमलसाधारणके नाम २ ॥
उत्पल १ कुवलय २ ॥

-मथ नीलाम्बुजन्म घ ॥
इन्दीवर घ नीलेस्मिन्-
काळे कमलके नाम २ ॥ नील
म्बुजन्म १ ॥ इन्दीवर २ ॥
-सिते कुमुदकैरवे ॥ ३७ ॥
उत्पल कमलके नाम २ ॥ कुमुद
कैरव २ ॥ ३७ ॥

'गालुकमेयां कन्द' स्या-
कमलोंके कन्दका नाम १ ॥ गालुक १ ॥
-दारिपर्णो तु कुम्भिका ॥
जळकुमीके नाम २ ॥ दारिपर्णी १
कुम्भिका २ ॥

जलनीलो तु शेयाळं शैवलो
शशाङ्के नाम २ ॥ जळनीली १
शेयाळ २ शैवळ ३ ॥

-श्र्यकुमुदती ॥ ३८ ॥
कुमुदिन्यां-
कुमुदिनी वा कुमुदयुक्त देशके नाम
२ ॥ कुमुदती १ ॥ ३८ ॥ कुमुदिनी २ ॥
-नखिन्यां तु पिसिनीपक्षिनी
मुख

कमलिनीके नाम ३ ॥ नलिनी १
विसिनी २ पद्मिनी ३ आदि ॥
वा पुंसि पद्मं नलिनमरविन्दं
महोत्पलम् ॥ ३९ ॥ सहस्रपत्रं
कमलं शतपत्रं कुशेशयम् ॥
पङ्केरुहं तामरसं सारसं सरसी-
रुहम् ॥ ४० ॥ विसप्रसूनराजी-
वपुष्कराम्भोरुहाणि च ॥

कमलमात्रके नाम १६ ॥ पद्म १
नलिन २ अरविन्द ३ महोत्पल ४ ॥ ३९ ॥
सहस्रपत्र ५ कमल ६ शतपत्र ७ कुशेशय
८ पङ्केरुह ९ तामरस १० सारस ११
सरसीरुह १२ ॥ ४० ॥ विसप्रसून १३
राजीव १४ पुष्कर १५ अम्भोरुह १६ ॥

पुण्डरीकं सिताम्भोज-

उज्ज्वलकमलके नाम २ ॥ पुण्ड-
रीक १ सिताम्भोज २ ॥

-मथ रक्तसरोरुहे ॥ ४१ ॥

रक्तोत्पलं कोकनदं-

लालकमलके नाम ३ ॥ रक्तसरो-
रुह १ ॥ ४१ ॥ रक्तोत्पल २ कोकनद ३ ॥

--नालो नाल--

कमलकी डांडीके नाम २ ॥ नाल
(पुँल्लिग) १ नाल (नपुंसकलिग) २ ॥

-मथास्त्रियाम् ॥

मृणालं विस-

मसीङ्के नाम २ ॥ मृणाल १ विस २ ॥
-मञ्जादिकदम्बे खण्डमस्त्रि-
याम् ॥ ४२ ॥

कमलादिके समूहका नाम १ ॥ खण्ड १ ॥
केवलभी नाम १ ॥ खण्ड १ ॥ ४२ ॥

करहाटः शिफाकन्दः-

कमलकी जडके नाम २ ॥ करहाट
१ शिफाकन्द २ ॥

-किंजल्कः केसरोऽस्त्रियाम् ॥

कमलपुष्पके मध्यमें जो झालर होती
है उसके नाम २ ॥ किंजल्क १ केसर २ ॥

संवर्तिका नवदलं-

कमलके नवे पत्तोंके नाम २ ॥
संवर्तिका १ नवदल २ ॥

-बीजकोशो वराटक. ॥ ४३ ॥

कमलाक्षके नाम २ ॥ बीजकोश
१ वराटक २ ॥ ४३ ॥

उक्तं स्वव्योमदिकालधशिब्दा-
दिसनाट्यकम् ॥ पातालभोगि-
नरकं वारि चैषां च सङ्गतम् ॥ ४४ ॥

इत्यमरसिंहकृतौ नामलिङ्ग-
नुशासने ॥ स्वरादिकाण्डः प्रथमः
साङ्ग एव समर्थितः ॥ १ ॥

इति श्रीमदमरसिंहविरचितामरकोशस्य
भाषाटीकायां वारिवर्गः ॥ १० ॥

॥ श्री ॥

अथ द्वितीयः काण्डः ।

अथ भूमिवर्गः १

वगा पृथ्वीपुरश्मामृदनीपधि
मृगादिभिः ॥ चमसप्तशानदृष्ट

त्रै सांगोपांगैरिहोदिताः ॥ १ ॥

इस द्वितीय काण्डमें भूमिवर्ग १

पुरवर्ग २ शैलवर्ग ३ कनौपबिबग ४

सिंहादिवर्ग ५ मनुष्यवर्ग ६ प्रकवर्ग ७

क्षत्रिवर्ग ८ बेस्यवग ९ और शूद्रवर्ग

१० सांगोपांग कहेंगे ॥ १ ॥

भूभ्रुमेरघलानन्ता रसा विश्व

भय स्थिरा ॥ घरा धीरित्री घर

णि शोणिज्या काश्यपी सि

ति ॥ २ ॥ सर्वसहा वसुमती

वसुधोर्वा वसुधरा ॥ गोत्रा कुः

पृथिवी पृथ्वी क्षमावनिर्मेदिनी

मही ॥ ३ ॥

पृथ्वीके नाम २७ ॥ मू १ भूमि २

भवण ३ अनन्ता ४ रसा ५ विश्वम्भरा

६ स्थिरा ७ घरा ८ धीरित्री ९ घरणि

१ शोणि ११ आ १२ काश्यपी १३

श्रुति १४ ॥ २ ॥ १ ॥ सप्तसहा १५ वसुमती

१६ वसुधा १७ उर्वा १८ वसुधरा १९

गात्रा २० कु २१ पृथिवी २२ पृथ्वी २३

क्षमा २४ अवनि २५ मदिनी २६

मही २७ ॥ ३ ॥

मृन्मृत्तिका-

मिट्टीके नाम २ ॥ मृत् १ मृत्तिका २ ॥

-प्रकृष्टा तु मृत्ता मृत्त्रा च

मृत्तिका ॥

भण्ठी मिट्टीके नाम २ ॥ मृत्ता १

मृत्त्रा २ ॥

उर्बरा सर्वसस्याहवा-

त्रिस मिट्टीसे सब कस उपजै

उपजा नाम १ ॥ उर्बरा १ ॥

-स्पावृष कारमृत्तिका ॥ ४ ॥

खारीमिट्टी अर्थात् नौनीक नाम

२ ॥ ऊष १ क्षारमृत्तिका २ ॥ ४ ॥

ऊषधानूपरो द्वावप्यन्वलिङ्गौ-

क्षरभूमिक नाम २ ॥ ऊषक १

ऊष २ ॥

-स्थल स्थली ॥

स्थलके नाम २ ॥ स्थल १ स्थली २ ॥

समानौ मरुधन्वानौ-

निर्जल अर्थात् मरुदेशके नाम २॥	दक्षिण कुरुक्षेत्रसे पूर्व प्रयागसे पश्चिम
मरु १ धन्वन् २ ॥	देशके नाम २ ॥ मध्यदेश १ मध्यम
-द्वे खिलाप्रहते समे ॥ ५ ॥	२ ॥ ७ ॥
त्रि-	आर्यावर्तः पुण्यभूमिर्मध्यं वि-
विनजोते खेतके नाम २ ॥ खिल	न्ध्यहिमालयोः ॥
१ अप्रहत २ ॥ ५ ॥	बगालके समुद्रसे पश्चिम अरबसमु-
-ष्वथो जगती लोको विष्टपं	द्रसे पूर्व हिमाचलसे दक्षिण विन्ध्याच-
भुवनं जगत् ॥	लसे उत्तर देशके नाम २ ॥ आर्यावर्त
जगत्के नाम ५ ॥ जगती १ लोक	१ पुण्यभूमि २ ॥
२ विष्टप ३ भुवन ४ जगत् ५ ॥	नीवृज्जनपदो-
लोकोयं भारतं वर्षे-	राजाओंके वसाये हुए मगध आदि
हिमालयसे दक्षिण, समुद्रसे उत्तरके	देशोंके नाम २ ॥ नीवृत् १ जनपद २ ॥
देशतक अर्थात् हिन्दुस्थानका नाम	-देशविषयौ तूपवर्त्तनम् ॥ ८ ॥
१ ॥ भारतवर्ष- १ ॥	देशमात्रके नाम ३ ॥ देश १
-शरावत्यास्तु योऽवधेः ॥ ६ ॥	विषय २ उपवर्त्तन ३ ॥ ८ ॥
देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य-	त्रिष्वागोष्ठा-
शरावती नदीके ॥ ६ ॥ पूर्व दक्षिण	गोष्ठपर्यंत जे शब्द हैं वे तीनों
देशका नाम १ ॥ प्राच्य १ ॥	लिगोमें होते हैं ॥
-उदीच्यः पश्चिमोत्तरः ॥	-न्नडप्राये नद्धान्नड्डल इत्यपि ॥
शरावती नदीके पश्चिमोत्तरदेशका	नडाधिकदेशके नाम २ ॥ नड्डत् १
नाम १ ॥ उदीच्य १ ॥	नड्डल २ ॥
प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशः स्या-	कुमुदान्कुमुदप्राये-
फारस रूस रूम आदि देशोंके	जहा बहुत कुमुद हों उस देशका
नाम २ ॥ प्रत्यन्त १ म्लेच्छदेश २ ॥	नाम १ ॥ कुमुदत् १ ॥
-न्मध्यदेशस्तु मध्यमः ॥ ७ ॥	-वेतस्वान्वहुवेतसे ॥ ९ ॥
विन्ध्याचलसे उत्तर हिमालयसे नाम १ ॥	जहा बहुत वेत हो उस देशका
	१ ॥ ९ ॥

शादरु आदहरिते—

जहाँ हरी घास हो उसका नाम १ ॥
शादरु १ ॥

—सजम्बाळे तु पकिळ ॥

जहाँ बहुत कृषि हो उस देशका
नाम १ ॥ पकिळ १ ॥

जलप्रापमनूप स्यात्सुसि कच्छ
स्तथाविधः ॥ १० ॥

जहाँ बहुत पानी हो उस देशके
नाम १ ॥ जलप्राप १ अनूप २
कच्छ ३ ॥ १० ॥

श्री शर्करा शर्करिल शर्करा
शर्करावति ॥

जहाँ रेत हा उस देशका नाम ४ ॥
शर्करा १ शर्करिल २ शर्करा ३ शर्करा-
रावत् ४ ॥

देश पचादिमा—

ऊपर कहलए शर्करा आदि शब्दोंमें
पहले शर्करा १ और शर्करिल यह
दोनों देशकेही नाम हैं ॥

वेवमुक्षेया सिकतावति ११ ॥

इसीप्रकार सिकता १ और सिक-
तिल यह शब्द भी रेतपुल्ल देशकेही
नाम हैं ॥ ११ ॥

देशो नद्यभ्युवृष्टघन्युसपन्नग्री
द्विपालित ॥ स्यान्नदीमातृको
नद्यमातृकश्च यथाक्रमम् ॥ १२ ॥

जहाँ केवल नदीजलसे खेत सींच
जाय बर्षा न होतीहो उस देशका
नाम १ ॥ नदीमातृक १ ॥ जहाँ
बर्षाकेही जलसे सींचे जाय उसका
नाम १ ॥ देवमातृक १ ॥ १२ ॥

सुरासि देशे राजन्वान्त्या—
धर्मिमा राजाके देशका नाम १ ॥
राजन्वत् १ ॥

—सप्तोऽन्यत्र राजधान् ॥
सामान्य राजाके देशका नाम १ ॥
राजन्वत् १ ॥

गोष्ठं गोस्थानक—
गोष्ठके नाम २ ॥ गोष्ठ १ गोस्थान २ ॥
—सद्यु गौष्टीन भूतपूषकम् ॥ १३ ॥
जहाँ पूर्वकालमें गाधे रखी हों उसका
नाम १ ॥ गौष्टीन १ ॥ १३ ॥

पर्यन्तमू परिसरा—
नदी पर्वतादिके समीपकी भूमिके
नाम २ ॥ पर्यन्तमू १ परिसर २ ॥

—सेतुराष्टौ खियां—
पुल्लके नाम २ ॥ सेतु १ आठि २ ॥
—युमान् ॥
नामद्वय नाहुश्च वर्त्मनिक
पुनपुल्लकम् ॥ १४ ॥
बर्मनिके नाम ३ ॥ नामद्वय १ नाहु-
बर्मनिक ३ ॥ १४ ॥

अयनं वर्त्ममार्गाध्वपन्थानः पदवी
सृतिः ॥ सरणिः पद्धतिः पद्या
वर्त्तन्येकपदीति च ॥ १५ ॥

मार्गके नाम १२ ॥ अयन १ वर्त्मन्
२ मार्ग ३ अध्वन् ४ पथिन् ५ पदवी
६ सृति ७ सरणि ८ पद्धति ९ पद्या
१० वर्त्तनी ११ एकपदी १२ ॥ १५ ॥

अतिपन्थाः सुपन्थाश्च सत्पथश्चा-
चित्तेऽध्वनि ॥

अच्छे मार्गके नाम ३ ॥ अतिपथिन् १
सुपथिन् २ सत्पथ ३ ॥
व्यध्वो दुरध्वो विपथः कदध्वा
कापथः समाः ॥ १६ ॥

खराव मार्गके नाम ५ ॥ व्यध्व १
दुरध्व २ विपथ ३ कदध्वन् ४ कापथ
५ ॥ १६ ॥

अपन्थास्त्वपथं तुल्ये-
जहां मार्ग न हो उसके नाम २ ॥
अपथिन् १ अपथ २ ॥

-शृंगाटकचतुष्पथे ॥
चौहद्दा वा चौकके नाम २ ॥

शृगाटक १ चतुष्पथ २ ॥
प्रान्तरं दूरशून्योऽध्वा-
जहां बड़ी दूरतक छाया वा मनु-
ष्यादि न हों उस मार्गका नाम १ ॥
प्रान्तर १ ॥

-कान्तारं वर्त्म दुर्गमम् ॥ १७ ॥
चोरकण्टकादियुक्त मार्गका नाम १ ॥
कान्तार १ ॥ १७ ॥

गव्यूतिः स्त्री क्रोशयुगं-
दो कोशका नाम १ ॥ गव्यूति १ ॥

-नल्वः किष्कुचतुःशतम् ॥
४०० हाथका नाम १ ॥ नल्व १ ॥

घण्टापथः संसरणं-
राजमार्ग अर्थात् सडकके नाम २ ॥
घण्टापथ १ संसरण २ ॥

-तत्पुरस्योपनिष्करम् ॥ १८ ॥
ग्रामके निकासका नाम १ ॥ उप-
निष्कर १ ॥ १८ ॥

इति भूमिवर्गः ॥ १ ॥

अथ पुरवर्गः २.

पूः स्त्री पुरीनगर्यौ वा पत्तनं पुटभे-
दनम् ॥ स्थानीयं निगमे-
शहरके नाम ७ ॥ पुर १ पुरी २ नगरी
३ पत्तन ४ पुटभेदन ५ स्थानीय ६
निगम ७ ॥

-ऽन्यत्रु यन्मूलनगरात्पुरम् ॥ १ ॥
तच्छाखानगरं-
शहरसम्बन्धी छोटे नगरोका नाम १ ॥
॥ १ ॥ शाखानगर १ ॥
-वेशो वेश्याजनसमाश्रयः ॥

वेश्याके स्थानके नाम २ ॥ वश १
वेश्याजनसमाश्रय २ ॥

आपणस्तु निपद्याया-

बजारके नाम २ ॥ आपण १ निपद्या २ ॥

-विपणिं पण्यवीथिका ॥ २ ॥

जहाँ बाजार न हो परन्तु कस्तु वि
फती हों उसके नाम २ ॥ विपणि १
पण्यवीथिका २ ॥ २ ॥

रथ्या प्रसोली विशिखा-

बीचगाँवकी गलीके नाम ३ ॥ रथ्या
१ प्रसोली २ विशिखा ३ ॥

-स्याश्रयो ब्रह्मस्रियाम् ॥

किलेके इधर उधरकी मिट्टीका नाम
२ ॥ शय १ ब्रह्म २ ॥

प्राकारो वरणः सालः-

किलेके नाम ३ ॥ प्राकार १ वरण
२ साल ३ ॥

-प्राचीन प्रान्ततो वृत्तिः ॥ ३ ॥

घारों भोर काँटोंकी बाबके नाम १ ॥
प्राचीन १ ॥ ३ ॥

भित्तिं स्त्री कुड्य-

दीवारके नाम २ ॥ भित्ति १ कुड्य २ ॥
-मेहकं यदन्तर्न्यस्तकीकसम् ॥

जिस दीवारमें मन्त्रमूर्तिका नास्तो हट्टी
भादि लगाइ गई हो उसका नाम २ ॥

एत ॥

गृहं गेहोदवासित वेश्म सभ निके
तनम् ॥ ४ ॥ निशान्तपस्त्य
सदन भवनागारमन्दिरम् ॥ गृहाः
पुंसि च भूम्न्येव निकार्यानि लया
लया ॥ ५ ॥ वासं कुटी
द्रयो शाला सभा-

गृहके नाम २० ॥ गृह १ गेह २
उदवासित ३ वेश्म ४ सभ ५ निकेतन
६ ॥ ४ ॥ निशान्त ७ पस्त्य ८ सदन ९
मवम १० अगार ११ मन्दिर १२ गृह
(पुं० बहुवचन) १३ निकार्या १४
निष्ठ्य १५ आलय १६ ॥ ५ ॥ वास
१७ कुटी १८ शाला १९ समा २० ॥
-संजवन त्विदम् ॥

चतुःशाल-

जिस गृहमें चारों ओर चार
मकान हों उसके नाम २ ॥ सजवन १
चतुःशाल २ ॥

-मुनीनां तु पर्णशालाटजो-
ऽस्त्रियाम् ॥ ६ ॥

मुनियोंकी कुटीके नाम २ ॥ पर्ण
शाला १ उटज २ ॥ ६ ॥

चेत्यमापतन तुल्ये-

पत्रशालाके नाम २ ॥ चय
भापतन ॥

-वाग्निपाला तु मन्दग ॥

घुडसालके नाम २ ॥ वाजिशाला
१ मन्दुरा २ ॥

आवेशनं शिल्पिशाला—
कारीगरोंके स्थानके नाम २ ॥ आवे-
शन १ शिल्पिशाला २ ॥

—प्रपा पानीयशालिका ॥ ७ ॥
पौशाला अर्थात् पानी पिलानेके
स्थानके नाम २ ॥ प्रपा १ पानीयशा-
लिका २ ॥ ७ ॥

मठश्छात्रादिनिलयः—

विद्यार्थी और सन्यासी आदिके
रहनेके स्थानका नाम १ ॥ मठ १ ॥

—गञ्जा तु मदिरागृहम् ॥

जहा मद्य बनाया जाय अथवा
तहाँ मद्य रक्खा जाय उस स्थानके
नाम २ ॥ गञ्जा १ मदिरागृह २ ॥

—सूतिकागृह—

सूतिकागृहके नाम २ ॥
सूतिकागृह २ ॥

—सूतिकागृहम् ॥ ८ ॥

(प्रसूतीके) गृहके नाम
२ ॥ अरिष्ट १ सूतिकागृह २ ॥ ८ ॥

वातायनं गवाक्षो—

झरोखोंके नाम २ ॥ वातायन १
गवाक्ष २ ॥

अथ मण्डपोऽस्त्री जनाश्रयः ॥

मण्डपके नाम २ ॥ मण्डप १
जनाश्रय २ ॥

हर्म्यादि धनिनां वासः—

धनवानोंके गृहका नाम १ ॥ हर्म्य
१ आदि ॥

—प्रासादो देवभूभुजाम् ॥ ९ ॥

देवता और राजाओंके गृहका
नाम १ प्रासाद १ ॥ ९ ॥

सौधोऽस्त्री राजसदन—

राजाओंके गृहके नाम २ ॥ सौध १
राजसदन २ ॥

—मुपकार्योपकारिका ।

राजाओंके साधारण गृहोंके नाम
२ ॥ उपकार्या १ उपकारिका २ ॥

स्वस्तिकः सर्वतोभद्रो नन्द्या-
वर्त्तादयोऽपि च ॥ १० ॥ विच्छ-
न्दकः प्रभेदा हि भवन्तीश्वरस-
न्ननाम् ॥

राजगृहोंके भेद जिनमे ४ दरवाजे
आदि भेद हैं स्वस्तिक १ सर्वतोभद्र २
नन्द्यावर्त्त ३ ॥ १० ॥ विच्छन्दक ४ इत्यादि ॥

रूपगारं भूभुजामन्तःपुरं स्या-
दवरोधनम् ॥ ११ ॥

शुद्धान्तश्चावरोधश्च—
राजद्विष्टियोंके रहनेके स्थानके नाम
४ ॥ अन्तःपुर १ अवरोधन २ ॥ ११ ॥

शुद्धान्त ३ अवरोध ४ ॥

—स्यादृष्ट* क्षौममस्त्रियाम् ॥	धरौमीक नाम ३ ॥ मल्लीक ।
गृहके ऊपरके घरके नाम २ ॥	नीघ्र २ पटलप्रान्त ३ ॥
अष्ट १ क्षौम २ ॥	—अप्य पटल छदि* ॥ १४ ॥
प्रधानप्रघणाखिन्दा बहिर्दार	छानिक नाम २ ॥ पटल १ छी
प्रकोष्ठके ॥ १२ ॥	२ ॥ १४ ॥
दहलीजके नाम ३ ॥ प्रधान १	गोपानसी तु वलभी छादे
प्रघण २ अखिन्द ३ ॥ १२ ॥	वक्रदारुणि ॥
गृहावग्रहणी देह—	छजेके नाम २ ॥ गोपानसी १ वलभी २ ।
देहलीके नाम २ ॥ गृहावग्रहणी १	कपोतपालिकामां तु विटर्ष
देहली २ ॥	पुंनपुंसकम् ॥ १५ ॥
—स्यऽङ्गण चत्वरानिरे ॥	कभूतरखानेक नाम २ ॥ कपोत
भागनके नाम ३ ॥ अंगण १	पालिका १ विटर्क २ ॥ १५ ॥
घत्तर २ अनिर ३ ॥	स्त्री द्वादरं प्रतीहारः—
अघस्ताहारुणि शिला—	शरक नाम ३ ॥ शार् १ शार २
दरबानेके नीचेके काठका नाम १ ॥	प्रतीहार ३ ॥
शिला १ ॥	—स्याद्विर्विस्तु वेदिका ॥
—नासा दारुपरि स्थितम् ॥ १३ ॥	बदीके नाम २ ॥ विर्दि १ वेदिका २ ॥
दरबानेके ऊपरके काठका नाम	तोरणोऽस्त्री बहिर्दार—
१ ॥ नासा १ ॥ १३ ॥	घरके बाहरके फाटकके नाम २ ॥
प्रच्छन्नमन्तर्दार स्या—	तोरण १ बहिर्दार २ ॥
खिबकीके नाम २ ॥ प्रच्छन्न १	—पुरदार तु गोपुरम् ॥ १६ ॥
अन्तर्दार २ ॥	नगरके बाहरके फाटकके नाम ३ ॥
—स्यसदारं तु पक्षकम् ॥	पुरशर १ गोपुर २ ॥ १६ ॥
बगलके द्वारक नाम २ ॥ पक्ष	कूटे पृर्दारि यद्यस्तिनखस्व
शर १ पक्षक २ ॥	स्मि—
बैलीकनीघ्रे पटलप्रान्ते—	नगरके द्वारके अरमके लिये उतार
	बडानकी भूमिका नाम १ ॥ अग्निनाम १ ॥

-त्रय त्रिषु ॥

कपाटमररं तुल्ये-

रोंके नाम २ ॥ कपाट १ अरर २ ॥

तद्विष्कम्भोऽर्गलं न ना ॥ १७ ॥

किवाडोंके ढण्डेलेका नाम १ ॥

॥ १ ॥ १७ ॥

आरोहणं स्यात्सोपानं-

मिट्टी पत्थर आदिकी सीढीके नाम

॥ आरोहण १ सोपान २ ॥

-निश्रेणिस्त्वधिरोहणी ॥

काठकी सीढीके नाम २ ॥ निश्रेणि

अविरोहणी २ ॥

संमार्जनी शोधनी स्या-

बुहारी अर्थात् झाड़के नाम २ ॥

मार्जनी १ शोधनी २ ॥

-त्संकरोऽवकरस्तया ॥ १८ ॥

क्षिप्ते-

करकट वा कूडेके नाम २ ॥ सकर

अवकर २ ॥ १८ ॥

-मुखं निःसरणं-

निकासके नाम २ ॥ मुख १

निःसरण २ ॥

-संनिवेशो निकर्षणम् ॥

नगर इत्यादिमें स्थानके निमित्त

पीड्डई भूमिके नाम २ ॥ संनिवेश

१ निकर्षण २ ॥

समौ संवसथग्रामौ-

ग्रामके नाम २ ॥ संवसथ १ ग्राम २ ॥

वेश्मभूर्वास्तुरस्त्रियाम् ॥ १९ ॥

घरकी भूमिका नाम १ ॥ वास्तु

१ ॥ १९ ॥

ग्रामान्त उपशल्यं स्वा-

ग्रामके समीपका नाम १ ॥ उपशल्य १ ॥

-त्सीमसीमे स्त्रियामुभे ॥

सीमाके नाम २ ॥ सीमन् १ सीमा २ ॥

घोष आभीरपल्ली स्या-

अहीरोंके ग्रामके नाम २ ॥ घोष

१ आभीरपल्ली २ ॥

-त्पक्कणः श्वरालयः ॥ २० ॥

जगलियोंके ग्रामके नाम २ ॥ पक्कण

१ श्वरालय २ ॥ २० ॥

इति पुरवर्गः ॥ २ ॥

अथ शैलवर्गः ३

महीध्रे शिखरिक्ष्माभृदहार्यध-

रपर्वताः ॥ अद्रिगोत्रगिरिग्रा-

वाचलशैलशिलोच्चयाः ॥ १ ॥

पर्वतके नाम १३ ॥ महीध्र १

शिखरिन् २ क्ष्माभृत् ३ अहार्य ४

धर २ पर्वत ६ अद्रि ७ गोत्र ८

गिरि ९ प्रावन् १० अचल ११ शैल

१२ शिलोच्चय १३ ॥ १ ॥

लोकालोकश्चक्रवाल-

जो पर्वत पृथ्वीको घरे है उसके नाम

२ ॥ लोकालोक १ चक्रवाल २ ॥

-त्रिकूटत्रिककुत्समी ॥
 त्रिकूट कि जिसपर छंफा बसी है
 उसका नाम १ ॥ त्रिकूट १ त्रिकुत्समी ॥
 अस्वस्तु चरमदमाभृ-
 अस्ताचलके नाम २ ॥ अस्त १
 चरमदमाभृत् २ ॥
 -बुद्ध्याः पूर्वपर्वत ॥ २ ॥
 उदयाचलके नाम २ ॥ उदय १
 पूर्वपर्वत २ ॥ २ ॥
 हिमवाक्षिपथो विन्ध्यो माल्य
 वा पारियात्रक ॥ गन्धमादनमन्ये
 च हेमकूटादयो नगा ॥ ३ ॥
 पर्वतोंके मेद ३ ॥ हिमवत् १ निम्ब
 २ विन्ध्य ३ माल्यवत् ४ पारियात्रक
 ५ गन्धमादन ६ तथा हेमकूट आदि
 अन्यमी पर्वत हैं ॥ ३ ॥
 पापाणप्रस्तरमाबोपलाश्मान
 शिला ह्यपत् ॥
 पत्थारके नाम ७ ॥ पापाण १
 प्रस्तर २ माबन् ३ उपल ४ अश्मान
 ५ शिला ६ ह्यपत् ७ ॥
 कूटोऽखी शिखर घूर्ण-
 पहाडकी चोटी वा कंगूराके नाम
 ३ ॥ कूट १ शिखर २ घूर्ण ३ ॥
 -प्रपातस्त्वतनो भृगु ॥ ४ ॥
 बीहडक नाम ३ ॥ प्रपात १ अतट
 २ मग ३ ॥ ४ ॥

फटकोऽखी निम्बोऽद्रे-
 बीच पर्वतका नाम १ ॥ फटक १ ॥
 -स्तु प्रस्य सानुरस्त्रियाम् ॥ १
 पर्वतके किनारेक नाम ३ ॥ स्तु १
 प्रस्य २ सानु ३ ॥
 उत्तः प्रस्रवण-
 जहां पर्वतसे सूकर पानी बहुरता
 है अर्थात् कुम्डक नाम २ ॥ उत्त १
 प्रस्रवण २ ॥
 -वारिप्रवाहो निम्नरो शर ॥ ७ ॥
 शरनोंके नाम ३ ॥ वारिप्रवाह १
 निम्नर २ शर ३ ॥ ७ ॥
 दूरी तु कन्दरो वा स्त्री-
 बर्नाई हुई गुफाक नाम २ ॥ दूरी
 १ कन्दर-कन्दरा २ ॥
 -देषस्वावधिले गुहा ॥
 गहर-
 अपने आप बनी हुई गुफाके नाम ४ ॥
 देशघात १ किल २ गुहा ३ गहर ४ ॥
 -गण्डशैलास्तु स्युताः स्थूलो
 पला गिरेः ॥ ६ ॥
 जो कि पर्वतसे मारी मारी पत्थर गिरे
 हैं उनका नाम १ ॥ गण्डशैल १ ॥ ६ ॥
 सानि स्त्रियामाकरं स्पा-
 सानिके नाम १ ॥ सानि १ आकर २ ॥
 -स्पादाः प्रस्यन्तपर्वता ॥

पर्वतके धोरेके छोटे पर्वतके नाम

। पाद १ प्रत्यन्तपर्वत २ ॥

यकाद्रेरासन्ना भूमिरूर्ध्वम-
यका ॥ ७ ॥

पहाडके नीचेकी भूमिका नाम १ ॥

। त्यका १ ॥ पहाडकी ऊपरकी भूमिका

म १ ॥ अधित्यका १ ॥ ७ ॥

। तुर्मनःशिलाद्यद्रेगैरिकं तु वि-
षतः ॥

पर्वतसे उत्पन्न हुए जो मन शिल-

आदि तिनका नाम १ ॥ धातु १ ॥ गैरिक

(गेरू) तो धातु शब्दसेही विख्यात है ॥

निकुञ्जकुञ्जौ वा क्लीवे लतादिपि-

हितोदरे ॥ ८ ॥

जहा कि बहुत लता तृणादिसे घिरा

हो उसके नाम २ ॥ निकुञ्ज १ कुञ्ज २ ॥ ८ ॥

इति शैलवर्गः ॥ ३ ॥

अथ वनौषधिवर्गः ४.

अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं

वनम् ॥

वनके नाम ६ ॥ अटवी १ अरण्य २

विपिन ३ गहन ४ कानन ५ वन ६ ॥

महारण्यमरण्यानी-

बडे वनके नाम २ ॥ महारण्य

१ अरण्यानी २ ॥

—गृहारामास्तु निष्कुटाः ॥ १ ॥

गृहके समीप बनायेहुए बगीचेके

नाम २ ॥ गृहाराम १ निष्कुट २ ॥ १ ॥

आरामः स्यादुपवनं कृत्रिमं वन-

मेव यत् ॥

गृहसमीपके वनके नाम २ ॥

आराम १ उपवन २ ॥

अमात्यगणिकागेहोपवने वृक्ष-

वाटिका ॥ २ ॥

जहा राजाके नौकर चाकर और

उनकी वेश्या रहें उस बगीचेका नाम

१ ॥ वृक्षवाटिका १ ॥ २ ॥

पुमानाक्रीड उद्यानं राज्ञः साधा-

रणं वनम् ॥

राजाके उस बगीचेका नाम जिसका

सब पुरुष भोग करसकै १ ॥ आक्रीड १ ॥

स्यादेतदेव प्रमदवनमन्तःपुरो-

चितम् ॥ ३ ॥

जहा राजा स्त्रियोंसहित क्रीडा करै

उस बगीचेका नाम १ ॥ प्रमदवन १ ॥ ३ ॥

वीथ्यालिरावलिः पंक्तिः श्रेणी-

पक्तिके नाम ५ ॥ वीथी १ आलि २

आवलि ३ पक्ति ४ श्रेणी ५ ॥

—लेखास्तु राजयः ॥

लकीरके नाम २ ॥ लेखा १ राजि २ ॥

वन्या वनसमूहे स्या-

वनके शृङ्खके नाम २ ॥ कन्या
१ वनसमूह २ ॥

—दक्षुरोगभिनषोद्भिदि ॥ ४ ॥

अक्षुरके नाम २ ॥ अक्षुर १
अभिनषोद्भिद् २ ॥ ४ ॥

वृक्षो महीरुह शारवी विटपी
पादपस्तरु ॥ अनोकह कुटः
शाळ पलाशी वृद्धमागमाः ॥५ ॥

वृक्षक नाम ११ ॥ वृक्ष १ महीरुह २
शास्त्रिन् ३ विटपिन् ४ पादप ५ तरु ६
अनोकह ७ कुटः ८ शाळ ९ पलाशिन् १०
वृ ११ वृम १२ भगम १३ ॥ ५ ॥

वानस्पत्य फलेः पुष्पात्—

जो वृक्ष फलकर फले उसका
नाम १ ॥ वानस्पत्य १ ॥

—वेरपुष्पात्वनस्पति ॥

जो कि फलमे बिना फले जैसे गूजर
कन्हार आदि उनका नाम १ ॥ वानस्पति
१ ॥ (वृक्षमात्रमे मी वानस्पति कहतहै)

श्लोषध्य फलपाकाम्वा स्यु—
फलकर पकनेपर मट होनेवाले
अथात् वम आदिकानाम १ ॥ श्लोषधी १ ॥

—खन्ध्य फलेमहिः ॥ ६ ॥

फलनेवाले वृक्षके नाम २ ॥ खन्ध्य
१ फलेमहि २ ॥ ६ ॥
खन्ध्योऽफलोऽप्यकेशी च—

जो नहीं फले उस वृक्षके नाम
खन्ध्य १ अफल २ अन्धसिन् १ ॥

—फलवान् फलिन् कर्मी ॥
फलयुक्त वृक्षक नाम ३ ॥ फलान्
१ फलिन् २ फलिन् ३ ॥

प्रफुल्लोत्फुल्लसफुल्लव्याकोशविक
चस्फुटा ॥ ७ ॥

फुल्लवैते विकसित—
फुल्लयुक्त (विकसित) वृक्षके
नाम ८ ॥ प्रफुल्ल १ उत्फुल्ल २ सफुल्ल
३ व्याकोश ४ विकच ५ स्फुट ६
॥ ७ ॥ फुल्ल ७ विकसित ८ ॥

—स्युरवन्ध्याद्यस्त्रिषु ॥

अर्धव्यादि शब्द तीनों छिगोमें होखें
स्याशुर्वा ना ध्रुव शंकु—
दूध वृक्षके नाम ३ ॥ स्याशु १
ध्रुव २ शंकु ३ ॥

—ईश्वशाखाशिफः क्षुप ॥ ८ ॥
जिस वृक्षमें छोटी २ बालें और ऊँचे
हो उसका नाम १ ॥ क्षुप १ ॥ ८ ॥

अप्रकाण्डे स्तम्भगुहमी—
जिसमें बालियें न हो उस वृक्षके
नाम २ ॥ स्तम्भ १ गुहमी २ ॥

—बद्धी तु घतविर्यता ॥
बद्धके नाम ३ ॥ बद्धी १ घतविर्य
२ यता ३ ॥

लता प्रतानिनी वीरुद्गुलिमन्युलप
इत्यपि ॥ ९ ॥

बडी लवी बेलके नाम ३ ॥ वीरुत्
१ गुलिमनी २ उलप ३ ॥ ९ ॥

नगाद्यारोह उच्छ्राय उत्सेधश्चो-
च्छ्रायश्च सः ॥

वृक्षादिककी उचाईके नाम ३ ॥
उच्छ्राय १ उत्सेध २ उच्छ्राय ३ ॥

अस्त्री प्रकाण्डः स्कन्धः स्यान्मू-
लाच्छाखावधिस्तरोः ॥ १० ॥

जडसे शाखातक पेडके नाम २ ॥
प्रकाण्ड १ स्कन्ध २ ॥ १० ॥

समे शाखालते-
डालके नाम २ ॥ शाखा १
लता २ ॥

-स्कन्धशाखाशाले-
प्रधानशाखा (मोटे डगो) के नाम
२ ॥ स्कन्धशाखा १ शाल २ ॥

-शिफाजटे ॥
जडके नाम २ ॥ शिफा १ जटा २ ॥

शाखाशिफावरोहः स्या-
वरोहका नाम १ ॥ अवरोह १ ॥

-न्मूलाञ्जाग्रं गता लता ॥ ११ ॥
मूलसे लेकर अग्रभागपर्यंत गई हुई

गिलोय आदिके बेलका नामभी अवरोह
है ॥ ११ ॥

शिरोऽग्रं शिखरं वा ना-

टैनीके नाम २ ॥ शिरोऽग्रं १ शिखर २ ॥

-मूलं बुध्नोऽङ्घ्रिनामकः ॥
मिट्टीके भीतरकी जडके नाम ३ ॥

मूल १ बुध्न २ अङ्घ्रिनामक सब शब्द ३ ॥
सारो मजा नरि-

गूदेके नाम २ ॥ सार १ मज्जन् २ ॥
-त्वक् स्त्री वल्कं वल्कलमस्त्रि-

याम् ॥ १२ ॥
वृक्षकी छालके नाम ३ ॥ त्वक् १

वल्क २ वल्कल ३ ॥ १२ ॥

काष्ठं दा-
काठके नाम २ ॥ काष्ठ १ दारु ॥

-विन्धनं त्वेध इधममेधः समि-
त्स्त्रियाम् ॥

ईधनके नाम ३ ॥ इन्धन १ एध २
इधम ३ यज्ञादिके इधनके नाम २ ॥

एधस् १ समिध २ ॥
निष्कुहः कोटरं वा ना-

खोकलके नाम २ ॥ निष्कुह १ कोटर २ ॥
-वल्हरिर्मञ्जरिः स्त्रियौ ॥ १३ ॥

मजरीके नाम २ ॥ वल्हरि १ मजरी
२ ॥ १३ ॥

पत्रं पलाशं छदनं दलं पर्णं छदः
पुमान् ॥

पत्रोंके नाम ६ ॥ पत्र १ पलाश
२ छदन ३ दल ४ पर्ण ५ छद ६ ॥

पल्लवोऽस्त्री क्विसलय-
 फोंपलके नाम २॥ गडु १ क्विसलय २॥
 विस्तारी विटपोऽस्त्रियाम् ॥ १४॥
 बालोंके केडनेके नाम २ ॥ विस्तार
 १ विटप २॥ १४ ॥
 वृक्षादीनां फल सस्यं-
 वृक्षादिकोंके फलका नाम १ ॥
 सस्य १ ॥
 -घृन्त प्रसवय-घनम् ॥
 नाजूक नाम २ ॥ घृन्त १ प्रसव
 कथन २ ॥
 आम्रे फले शलाटु स्या-
 कवेफला नाम १ ॥ शलाटु १ ॥
 -च्छुष्के वान-
 सूखे फलका नाम १ ॥ वान १ ॥
 -मुधे त्रिपु ॥ १५ ॥
 शलाटु और वान शब्द तीनोखिगों
 में होतेह ॥ १५ ॥
 क्षारको जालक क्षीये-
 नड कळी व कळीकी बंडीके नाम
 २ ॥ क्षारक १ जालक २ ॥
 कलिका कोरकः पुमान् ॥
 बिना फूली कळीके नाम २ ॥
 कलिका १ कोरक २ ॥
 स्याद्बुच्छकस्तु स्तबक -
 गुथेका नाम १ ॥ स्तबक १ ॥

-कुडमलो मुकुलो स्त्रियाम् ११
 अथफूली फलीके नाम २ ॥ कु
 मल १ मुकु २ ॥ ११ ॥
 स्त्रिय सुमनस पुष्प प्रसून कुसु
 सुमम् ॥
 फूलके नाम ॥ १ सुमनस १ पु
 २ प्रसून ३ कुसुम ४ सुम ५ ॥
 मकरन्द पुष्परसः-
 फूलके रसके नाम २ ॥ मकर
 १ पुष्परस २ ॥
 परागः सुमनोरज ॥ १७ ॥
 १ फूलकी धूलिके नाम २ ॥ पराग १
 सुमनोरजस २ ॥ १७ ॥
 दिहीनं प्रसवे सर्व-
 भागे अश्रत्य आदिकोंके जो प
 पुष्यादिकोंके नाम कहेंग बहु शब्द केन
 नपुसकछिगाहीमें होंगे ॥
 -हरीतकपाटय स्त्रियाम् ॥
 मापा-हरीतकी आदिकोंके फलोंके श
 क(हरीतकी)आदि शब्द छीछिगमें होंगे
 आश्रत्यवैणनशासनैयमोर्ध्वमुद् फले
 ॥ १८ ॥ चार्हतं च-
 (पीपलके फलका नाम) चार्हतं
 १ ॥ (चांसका फल) वैण १ ॥
 (पाकक फलका नाम) शास १ ॥
 (कके फलका नाम) नैयमोष १ ॥

(इगुदीके फलका नाम) ऐंगुद १॥१८॥

(भटकटैयाके फलका नाम) बार्हत १ ॥

-फले जम्बूवा जम्बूः स्त्री जम्बु
जाम्बवम् ॥

जामुनके फलके नाम ३ ॥ जम्बू १
जम्बु २ जाम्बव ३ ॥

पुष्पे जातीप्रभृतयः स्वलिङ्गा-

जुहीके फलका नाम १ ॥ जाती १ ॥

-त्रीहयः फले ॥ १९ ॥

यव आदि वान्योके फलभी यव
आदि नामसे ही कहे जाते हैं जैसे

यवका फल यव, माषका फल माष,

मुद्गका फल मुद्ग ॥ १९ ॥

विदार्याद्यास्तु मूलेपि-

विदारी आदिकोके जड पुष्प और

फलभी विदारी आदि नामवाले ही

होतेहैं अर्थात् जाती आदि शब्दोंके

पुष्पादिकभी स्वलिङ्ग ही होतेहैं ॥

-पुष्पे क्लीवेऽपि पाटला ॥

पाटलाके पुष्पका नाम १ ॥ पाटला १ ॥

यह शब्द पुष्पका नाम होकरभी स्वलिङ्ग

अर्थात् पाटलाका लिङ्ग जो स्त्रीलिङ्ग

रूपमें होताहै ॥

बोधिद्रुमश्चलदलः पिप्पलः कुञ्ज

राशनः ॥ २० ॥

अश्वत्थे-

पीपलके नाम ९ ॥ बोधिद्रुम १ चल-

दल २ पिप्पल ३ कुजरोशन ४ ॥ २० ॥

अश्वत्थ ९ ॥

-ऽथ कपित्थे स्युर्दधित्थग्राहिम-

न्मथाः ॥ तस्मिन्दाधेफलः पुष्प-

फलदन्तशठावपि ॥ २१ ॥

कैथके नाम ७ ॥ कपित्थ १ दधित्थ

२ ग्राहिन् ३ मन्मथ ४ दधिफल ९

पुष्पफल ६ दन्तशठ ७ ॥ २१ ॥

उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञाङ्गो

हेमदुग्धकः ॥

गूलरके नाम ४ ॥ उदुम्बर १ जन्तु-

फल २ यज्ञाग ३ हेमदुग्धक ४ ॥

कोविदारे चमरिकः कुदालो

युगपत्रकः ॥ २२ ॥

कचनारके नाम ४ ॥ कोविदार १

चमरिक २ कुदाल ३ युगपत्रक ४ ॥ २२ ॥

सप्तपर्णो विशालत्वक्छारदो विष-

मच्छदः ॥

छतिवतीके नाम ४ ॥ सप्तपर्ण १

विशालत्वक् २ शारद ३ विषमच्छद ४ ॥

आरग्वधे राजवृक्षशम्याकच-

चतुर्गुलाः ॥ २३ ॥ आरेवतव्या-

धिवातकृतमालसुवर्णकाः ॥

अमलतासके नाम ८ ॥ आरग्वध १

राजवृक्ष २ शम्याक ३ चतुर्गुल ४ ॥ २३ ॥

व्याघ्रक ५ व्याघ्रिवात ६ वृत्तमास ७
सुर्गक ८ ॥

स्युर्मन्वीरे दन्तशठजम्भजम्बीर
जम्भला ॥ २४ ॥

जम्बीरी मीमूक नाम १ ॥ जम्बीर १
दन्तशठ २ जंभ ३ जंभीर ४ जंभल
५ ॥ २४ ॥

वरणो वरुण संतुस्वित्तशाख
कुमारक ॥

वरुण (वरणा) के नाम १ ॥ वरण
१ वरुण २ सेतु ३ तित्तशाख ४ कुमारक ५ ॥
पुनागे पुरुपस्तुङ्ग केसरो देव
वल्लभ ॥ २५ ॥

नागकसके नाम १ ॥ पुनाग १
पुरुप २ पुङ्ग ३ केसर ४ देव ५ ॥ २५ ॥
पारिभद्रे निम्बतरुर्मन्दार पारि
जातक ॥

वकायनके नाम १ ॥ पारिभद्र १
निम्बतरु २ मन्दार ३ पारिजातक ४ ॥
विनिशे स्पन्दनो नेमी रघदुर
विमुक्तकः ॥ २६ ॥

वन्मुलखिप्रकृशा-
वन्मुल वृद्धने नाम ७ ॥ विनिश १
स्पन्दन २ नेमि ३ रघु ४ अतिमुक्तक ५ ॥
॥ २६ ॥ वन्मुल ६ विरठत् ७ ॥
-ऽय द्वा पातनकपीठनी ॥

व्याघ्रातके-

व्याघ्रातके नाम ३ ॥ पीतम १ क्वी
तन २ व्याघ्रातक ३ ॥

मधूके तु गुडपुष्पमधुदुमा ॥ २७ ॥
वानप्रस्थमधुष्ठीली-

मधुके नाम १ ॥ मधूक १ गुडपुष्प
मधुदुम २ ॥ २७ ॥ वानप्रस्थ ३ मधु-
ष्ठीली ४ ॥

-जलजेऽत्र मधूलक ॥

जलके मधुयका नाम १ ॥ मधूलक १ ॥

पीली गुडफल ससी-

देशी अक्षरोटके नाम ३ ॥ पीठ १
गुडफल २ ससिन् ३ ॥

-तस्मिस्तु गिरिसमवे ॥ २८ ॥

अक्षोटकन्दराली द्वा-

पहाडी अक्षरोटके नाम २ ॥ २८ ॥
अक्षो १ कन्दराळ २ ॥

-वकोटे तु निकोचक ॥

वकोठके नाम २ ॥ अकोट १
निकाचक २ ॥

पलाशे किशुक पर्णो वातपोषो-
पलाशके नाम ४ ॥ पलाश १ किशुक
२ पर्ण ३ वातपोष ४ ॥

-ऽय वेवसे ॥ २९ ॥

रधाध्रपुष्पविदुरशीतवानीरव
ध्रमुलाः ॥

ध्रमुल नाम ७ ॥ रधाध्र १ ॥ २९ ॥ रघ २

अभ्रपुष्प ३ विदुर ४ शीत ५ वानीरक्ष
वज्रुल ७ ॥

द्वौ परिव्याधविदुलौ नादेयी
चाम्बुवेतसे ॥ ३० ॥

पानीके वेतके नाम ४ ॥ परिव्याध १
विदुल २ नादेयी ३ अम्बुवेतस ४ ॥ ३० ॥

सोभाञ्जने शिश्रुतीक्ष्णगन्धका-
क्षीवमोचकाः ॥

सँहिजनेके नाम ५ ॥ सोभाञ्जन १
शिश्रु २ तीक्ष्णगन्धक ३ अक्षीव ४
मोचक ५ ॥

रक्तोऽसौ मधुशिश्रुः स्या-

लालफूलवाले सँहिजनका नाम १ ॥
मधुशिश्रु १ ॥

-दरिष्टः फेनिलस्समौ ॥ ३१ ॥

रिठेके नाम २ ॥ अरिष्ट १ फेनिल
२ ॥ ३१ ॥

बिल्वे शाण्डिल्यशैलूषौ मालूर-
श्रीफलावापि ॥

बेलके नाम ५ ॥ बिल्व १ शाण्डिल्य २
शैलूष ३ मालूर ४ श्रीफल ५ ॥

प्लक्षो जटी पर्कटी स्या-

पाकरके नाम ३ ॥ प्लक्ष १ जटिन्
२ पर्कटिन् ३ ॥

-न्यग्रोधो बहुपाद्दटः ॥ ३२ ॥

४

वटके नाम ३ ॥ न्यग्रोध १ बहुपाद्
२ वट ३ ॥ ३२ ॥

गालवः शावरो लोध्रस्तिरीट-
स्तिल्वमार्जनौ ॥

लोधके नाम ६ ॥ गालव १ शावर २
लोध्र ३ तिरीट ४ तिल्व ५ मार्जन ६ ॥

आम्रश्रूतो रसालो-

आमके नाम ३ ॥ आम्र १ चूत २
रसाल ३ ॥

-ऽसौ सहकारोऽतिसौरभः ३३

सुगन्धित आमका नाम १ ॥ सह-
कार १ ॥ ३३ ॥

कुम्भोलूरखलकं क्लीबे कौशिको
गुग्गुलुः पुरः ॥

गूगलके नाम ५ ॥ कुम्भ १ उल्ल-
खलक २ कौशिक ३ गुग्गुलु ४
पुर ५ ॥

शैलुः श्लेष्मात्कः शीत उद्दालो
बहुवारकः ॥ ३४ ॥

लसोढेके नाम ५ ॥ शैलु १ श्लेष्मा-
त्क २ शीत ३ उद्दाल ४ ॥ बहुवा-
रक ५ ॥ ३४ ॥

राजादनं प्रियालः स्यात्सन्नक-
दुर्धनुष्पटः ॥

चिरोजीके नाम ४ ॥ राजादन १
प्रियाल २ सन्नक ३- धनुष्पट ४ ॥

गम्भारी सर्वतोभद्रा काश्मरी
मधुपर्णिका ॥ ३८ ॥ श्रीपर्णी
भद्रपर्णी च काश्मर्यम्भा-

खंमारीके नाम ७ ॥ गम्भारी १
सर्वतोभद्रा २ काश्मरी ३ मधुपर्णिका ४
॥ ३९ ॥ श्रीपर्णी ५ भद्रपर्णी ६
काश्मर्य ७ ॥

-प्यथ द्वयोः ॥

कर्कन्धूर्ध्वदरी कोली-

केरु नाम ३ ॥ कर्कषू १ बदरी २
कोली ३ ॥

-कोल कुवलफेनिले ॥ ३६ ॥

सौवीर घदर घोष्ठा-

यके फलक नाम ६ ॥ काळ १
कुल्ल २ फन्दि ३ ॥ ३६ ॥ सौवीर ४
घदर ५ घोष्ठा ६ ॥

-प्यथ स्यात्स्वादुकण्टक ॥

विकटत सुवाहसो मन्थिलो
ध्याघ्रपादपि ॥ ३७ ॥

टैकीके नाम ९ ॥ स्वादुकण्टक १
विकटत २ सुवाहस ३ मन्थिल ४
ध्याघ्रपाद ५ ॥ ३७ ॥

ऐरावतो नागरजो नादेयी भू
मिजम्बुका ॥

नारलीके नाम ४ ॥ ऐरावत १ नाग
रज २ नादेया ३ भूमिजम्बुका ४ ॥

तिन्दुक स्फूर्जक कालस्क
न्धश्च शितिसाग्के ॥ ३८ ॥

तैदूके नाम ४ ॥ तिन्दुक १ स्फूर्जकर
कालस्कन्ध ३ शितिसारक ४ ॥ ३८ ॥
काकेन्दु फुलकः काकतिन्दु
कः काकपीडुके ॥

कुभडेके नाम ४ ॥ काकेन्दु १
कुल्ल २ काकतिन्दुक ३ काकपीडुक ४ ॥

गोलीडो शाटलो घण्टापाद
लिर्मोक्षमुष्कौ ॥ ३९ ॥

लोषके मेद मोखाके नाम ५ ॥
गोलीड १ शाटल २ घण्टापादलि ३ मोक्ष
४ मुष्क ५ ॥ ३९ ॥

तिलक धुरक श्रीमान्-
तिळकके नाम ३ ॥ तिलक १ धुर
करधीमत ३ ॥

-समो पिबुलशाबुकी ॥
शाडके नाम २ ॥ पिबुल १
शाबुक २ ॥

श्रीपाणका कुमुदिका कुम्भी
पैड्यैर्यैरुदफली ॥ ४० ॥

कावपल्लक नाम ५ ॥ श्रीपाणका १
कुमुदिका २ कुम्भी ३ केरव ४ पद
पत्र ५ ॥ ४० ॥

मसुक पट्टिकारय स्यात्पटी
लाभामसादन ॥

पठानी लोधके नाम ४ ॥ क्रमुक १
पट्टिकाख्य २ पट्टी ३ लाक्षाप्रसादन ४ ॥

तूदस्तु यूपः क्रमुको ब्रह्मण्यो
ब्रह्मदारु च ॥ ४१ ॥ तूलं च-

पार्श्वपिप्पल वा तूतके नाम ६ ॥ तूद
१ यूप २ क्रमुक ३ ब्रह्मण्य ४ ब्रह्मदारु ५
॥ ४१ ॥ तूल ६ ॥

—नीपप्रियककदम्बास्तु हरीप्रियः ॥

कदम्बके नाम ४ ॥ नीप १ प्रियक
२ कदम्ब ३ हरिप्रिय ४ ॥
वीरवृक्षोऽरुष्करोऽग्निमुखी भल्ला-
तकी त्रिषु ॥ ४२ ॥

भिल्लवेके नाम ४ ॥ वीरवृक्ष १ अरु-
ष्कर २ अग्निमुखी ३ भल्लातकी ४ ॥ ४२
गर्दभाण्डे कन्दरालकपीतनसु-
पार्श्वकाः ॥ पृक्षश्च-

गेठी (पिलखन) के नाम ५ ॥
गर्दभाण्ड १ कन्दराल २ कपीतन ३
सुपार्श्वक ४ पृक्ष ५ ॥

—तिन्तिडी चिञ्चाम्लिका—

इमलीके नाम ३ ॥ तिन्तिडी १
चिञ्चा २ अम्लिका ३ ॥

—ऽथ पीतसारके ॥ ४३ ॥

सर्जकासनबन्धूकपुष्पप्रियक-
जीवकाः ॥

विजयसारके नाम ६ ॥ पीतसारक १

॥ ४३ ॥ सर्जक २ असन ३ बन्धूक ४
पुष्पप्रियक ५ जीवक ६ ॥

साले तु सर्जकाष्याश्वकर्णकाः
सस्यसम्बरः ॥ ४४ ॥

शालके नाम ५ ॥ साल १ सर्ज २
कार्ष्य ३ अश्वकर्णक ४ सस्यसवर ५ ॥ ४४ ॥

नदीसर्जो वीरतरुर्इन्द्रद्रुः ककु-
भोऽर्जुनः ॥

अर्जुनवृक्षके नाम ५ ॥ नदीसर्ज १
वीरतरु २ इन्द्रद्रु ३ ककुम ४ अर्जुन ५ ॥

राजादनः फलाध्यक्षः क्षीरि-
काया—

खिल्लीके नाम ३ ॥ राजादन १ फ-
लाध्यक्ष २ क्षीरिका ३ ॥

—मथ द्वयोः ॥ ४५ ॥
इंगुदी तापसतरु—

पाखीके नाम २ ॥ इंगुदी १ तापस-
तरु २ ॥ ४५ ॥

—भूर्जे चर्मिमृदुत्वचौ ॥
भोजयत्रके वृक्षके नाम ३ ॥ भूर्ज १

चर्मिन् २ मृदुत्वच् ३ ॥

पिच्छिला पूरणी मोचा स्थिरायुः
शाल्मलिर्द्वयोः ॥ ४६ ॥

सेमलके नाम ५ ॥ पिच्छिला १ पूरणी
२ मोचा ३ स्थिरायु ४ शाल्मलि ५ ॥ ४६ ॥

पिच्छा तु शाल्मलीवेष्टे—

समलक गौंदके नाम २॥ पिच्छा १
शास्मलीषेट २ ॥

-रोचन कूटशास्मलि ॥

काष्ठ सेमलके नाम २ ॥ रोचन १
कूटशास्मलि २ ॥

धिरविल्वो नक्तमाला करजश्च
करजके ॥ ४७ ॥

करजके नाम ४॥ धिरविल्व १ नक्त
माल २ करज ३ करजक ४ ॥ ४७ ॥
मन्तर्षिं पृत्तिकरजं पृत्तिकं कलि
मारकः ॥

फलीके करजके नाम ४॥ प्रकीर्ये १
पृत्तिकरज २ पृत्तिक ३ कलिमारक ४ ॥
करजमेदा पद्मग्रन्थो मकटघ
झारवहरी ॥ ४८ ॥

करजक मेद ३ ॥ पद्मग्र १ मकटनी
अज्ञारपठरो ३ ॥ ४८ ॥

रोही रोहितकं ड्रीहस्युर्दाडिम
पुष्पम् ॥

रोहीषा २ नाम ३॥ रोहिन् २ रोहि
तक २ श्रेष्ठसु ३ दाडिमपुष्पक ४ ॥
गायत्री मालतनय खदिरो
दन्तचावन ॥ ४९ ॥

लेक अघार कथक नाम ४ ॥ गा
यत्री १ मालतनय २ गन्धि ३ दन्त
चावन ४ ॥ ४९ ॥

अरिमेदो विद्वखदिरे-

दुगन्धयुक्त खैरके नाम २॥ अरिमेदः
विद्वखदिर २ ॥

-कदर खदिरे सिते ॥
सोमवल्कोट-

सफेद खैरके नाम २ ॥ कदर १ सो
मवल्क २ ॥

-प्यय व्याघ्रपुच्छगन्धर्वास्तकी
॥ ५० ॥ परण्ड उरुयूकश्च रुच
कश्चिप्रकश्च स ॥ चञ्जु पञ्चां
गुलो मण्डवर्धमानव्यडम्बका ५१

रेंड अघात् परण्डक नाम १ ॥ व्याघ्र-
पुच्छ १ गन्धर्वहस्त २ ॥ ५० ॥ परण्ड
३ उरुयूक ४ रुचक ५ चिप्रक ६ चञ्जु
७ पञ्चांगुल ८ मंड ९ वर्धमान १०
व्यडम्बक ११ ॥ ५१ ॥

अल्पा शमी शमीरं स्या-

छोटीशमी(जौंटी)का नाम १॥ शमीर १॥

-छमी सकुमला शिवा ॥
शमी (जौंटी) क नाम ३ ॥

शमी १ सतुस्र २ शिवा ३ ॥
पिण्डीतको मरुषकं श्वसन
करहाटक ॥ ५२ ॥ शाल्यञ्ज मद्दे-
मयनपठक नाम ६ ॥ पिण्डीतक १
मरुषक २ श्वसन ३ करहाटक ४ ॥ ५२ ॥
शाल्य ५ मद्दे ६ ॥

शमी (जौंटी) क नाम ३ ॥

शमी १ सतुस्र २ शिवा ३ ॥
पिण्डीतको मरुषकं श्वसन
करहाटक ॥ ५२ ॥ शाल्यञ्ज मद्दे-

मयनपठक नाम ६ ॥ पिण्डीतक १
मरुषक २ श्वसन ३ करहाटक ४ ॥ ५२ ॥
शाल्य ५ मद्दे ६ ॥

शाल्य ५ मद्दे ६ ॥

शक्रपादपः पारिभद्रकः ॥ भद्र-
शरु टुकिलिमं पीतदारु च दारु
च ॥ ५३ ॥ पूतिकाष्ठं च सप्त
स्युर्देवदारु-

देवदारुके नाम ८ ॥ शक्रपादप १
पारिभद्रक २ भद्रदारु ३ टुकिलिम ४
पीतदारु ५ दारु ६ ॥ ५३ ॥ पूति-
काष्ठ ७ देवदारु ॥ ८ ॥

पयथ द्वयोः ॥

पाटलिः पाटला मोघा काचस्थाली
फलरुहा ॥ ५४ ॥

कृष्णवृन्ता कुबेराक्षी-

पाडरीके नाम ७ ॥ पाटलि १ पाट-
ला २ मोघा ३ काचस्थाली ४ फलरुहा
५ ॥ ५४ ॥ कृष्णवृन्ता ६ कुबेराक्षी ७ ॥

-श्यामा तु महिलाह्वया ॥
लता गोविन्दिनी गुन्द्रा प्रियगु-
फलिनी फली ॥ ५५ ॥ विष्व-
क्सेना गन्धफली कारम्भा प्रिय-
कश्च सा ॥

काकुनीके नाम १२ ॥ श्यामा १
महिलाह्वया २ लता ३ गोविन्दिनी ४
गुन्द्रा ५ प्रियगु ६ फलिनी ७ फली ८
॥ ५५ ॥ विष्वक्सेना ९ गन्धफली
१० कारम्भा ११ प्रियक १२ ॥

मण्डूकपर्णपत्रोर्णनटकद्वंगटुण्डु-
काः ॥ ५६ ॥ स्योनाकशुकनाम-
क्षदीर्घवृन्तकुटन्नटाः ॥

शोणकश्चारलौ-

सरिखन (सोनापाठाके नाम १२ ॥
मण्डूकपर्ण १ पत्रोर्ण २ नट ३ कद्वंग ४
टुण्डुक ५ ॥ ५६ ॥ स्योनाक ६ शुक-
नास ७ ऋक्ष ८ दीर्घवृन्त ९ कुटन्नट
१० शोणक ११ अरल्ल १२ ॥

-तिष्यफलात्वामलकी त्रिषु ५७ ॥
अमृता च व्यवस्था च-

आमलके नाम ४ ॥ तिष्यफला १
आमलकी २ ॥ ५७ ॥ अमृता ३ वय स्या ४ ॥

-त्रिलिङ्गस्तु विभीतकः ॥ ना-
क्षस्तुषः कर्षफलो भूतावासः
कलिद्रुमः ५८ ॥

बहेडेके नाम ६ ॥ विभीतक १ अक्ष
२ तुष ३ कर्षफल ४ भूतावास ५
कलिद्रुम ६ ॥ ५८ ॥

अभया त्वव्यथा पथ्या कायस्था
पूतनामृता ॥ हरतिकी हैमवती
चेतकी श्रेयसी शिवा ॥ ५९ ॥

हरडके नाम ११ ॥ अभया १ अव्यथा
२ पथ्या ३ कायस्था ४ पूतना ५
अमृता ६ हरतिकी ७ हैमवती ८ चेतकी
९ श्रेयसी १० शिवा ११ ॥ ५९ ॥

पीतदृ* सरल* पूषिकाष्ठ चा-
सरलके नाम ३ ॥ पीतदृ १ सरल
० पूषिकाष्ठ ३ ॥

-ऽय दृमोत्पल* ॥

कॉणिकार* परिध्याघो-

करनेके नाम ३ ॥ दृमोत्पल १ कॉणि
कार २ परिध्याघ ३ ॥

-लकुचो लिङ्गुचो बडु* ॥ ६० ॥

बडहरके नाम ३ ॥ लकुच १
लिङ्गुच २ बडु ३ ॥ ६० ॥

पनस* कष्टकिफलो-

कष्टहरके नाम २ ॥ पनस १ कष्ट
किफल २ ॥

-निजुलो द्विजलोऽम्बुज* ॥

समुद्रपत्रक नाम ३ ॥ निजुल १
द्विजल २ अम्बुज ३ ॥

काकोदुम्बरिका फल्गुर्मलयूर्ज-
घनेफला ॥ ६१ ॥

कटूमरके नाम ४ ॥ काकोदुम्बरिका
१ फल्गु २ मयू ३ ज्यनेफला ४ ॥ ६१ ॥

अरिष्ट* सवतोमद्राद्दिगुनियासमाल
फा* ॥ पियुमन्द* निये-

नीयके नाम ६ ॥ अरिष्ट १
तोमद्र २ दिगुनियास ३ मालफ ४
पियुमन्द ५ निये ६ ॥

-ऽग्रपिच्छलाऽगुरुशिशपाः ६२ ॥

सीसमके नाम ३ ॥ पिच्छला १
अगुरु २ शिशपा ३ ॥ ६२ ॥

कपिला मस्मगर्मा सा-

कृष्णवर्ण सीसमका नाम १ ॥
मस्मगमा ॥

शिरीपस्तु कपीतन* ॥

मण्डिलो-

शिरिसक नाम ३ ॥ शिरीप १ कपी-
तन २ मण्डिल ३ ॥

-प्यय चाम्पेयश्चम्पको हेमपु

प्यक* ॥ ६३ ॥

चम्पेक नाम ३ ॥ चाम्पेय १

चम्पक २ हेमपुप्यक ३ ॥ ६३ ॥

एतस्य कलिका गन्धकली
स्या-

चम्पेकी कलीका नाम १ ॥

गन्धकली १ ॥

-टय केसरो ॥ वजुलो-

मीठसिराके नामके २ ॥ केसर १ वजु २ ॥

-ऽम्बुलोऽशोक-

अशोक नाम २ ॥ अम्बु १ अशोक २ ॥

-समौ करकद्रादिर्मा ॥ ६४ ॥

करक नाम २ ॥ करक १ दाडिम २ ॥

चाम्पेय* केसरो नागकगरः
कामनादय ॥

चपापुष्पके नाम ४ ॥ चापेय १
केसर २ नागकेसर ३ काञ्चनाह्वय ४
जया जयन्ती तर्कारी नादेयी
वैजयन्तिका ॥ ६५ ॥

जाहीके नाम ५ ॥ जया १ जयन्ती २
तर्कारी ३ नादेयी ४ वैजयन्तिका ५ ॥ ६५ ॥
श्रीपर्णमग्निमन्थः स्यात्कणिका
गणिकारिका ॥ जयो-

अरणीके नाम ५ ॥ श्रीपर्ण १ अग्नि-
मय २ कणिका ३ गणिकारिका ४ जय ५ ॥
-ऽथ कुटजः शक्रो वत्सको
गिरिमल्लिका ॥ ६६ ॥

कुरयाके नाम ४ ॥ कुटज १ शक्र-
२ वत्सक ३ गिरिमल्लिका ४ ॥ ६६ ॥
एतस्यैव कलिङ्गेन्द्रयवभद्रयवं
फले ॥

इन्द्रजव अर्थात् कुरैयाके फलके नाम
३ ॥ कलिङ्ग १ इन्द्रयव २ भद्रयव ३ ॥
कृष्णपाकफलाविन्नसुषेणाः क-
रमर्दके ॥ ६७ ॥

करोंदाके नाम ४ ॥ कृष्णपाकफल १
अविन्न २ सुषेण ३ करमर्दक ४ ॥ ६७ ॥

कालस्कन्धस्तमालः स्यात्तापि-
च्छो-

तमालके नाम ३ ॥ कालस्कन्ध १
तमाल २ तापिच्छ ३ ॥

-प्यथ सिन्दुके ॥

सिन्दुवारेन्द्रसुरसौ निर्गुण्डीन्द्राणि-
केत्यपि ॥ ६८ ॥

म्योडी (सिंभाद्र) के नाम ५ ॥ सिन्दुक १
सिन्दुवार २ इन्द्रसुरस ३ निर्गुण्डी ४
इन्द्राणिका ५ ॥ ६८ ॥

वेणी खरा गरी देवताडो जीमूत
इत्यापि ॥

वृन्दाल वृक्ष जो गुजरातमें गोडी
प्रसिद्ध है उसके नाम ५ ॥ वेणी १
खरा २ गरी ३ देवताड ४ जीमूत ५ ॥

श्रीहस्तिनी तु भूरुण्डी-

घुइया (अरबी) के नाम २ ॥ श्रीह-
स्तिनी १ भूरुण्डी २ ॥

-तृणशून्यं तु मल्लिका ॥ ६९ ॥
भूपदी शीतभीरुश्च-

बेला (मल्लिका) के नाम ४ ॥ तृण-
शून्य १ मल्लिका २ ॥ ६९ ॥ भूपदी ३
शीतभीरु ४ ॥

-सैवास्फोटा वनोद्भवा ॥

वनवेलाका नाम १ ॥ आस्फोटा १ ॥
शेफालिका तु सुवहा निर्गुण्डी
नीलिका च सा ॥ ७० ॥

न्यवारी (कालेपुष्पवाली निर्गुण्डी)
के नाम ४ ॥ शेफालिका १ सुवहा २
निर्गुण्डी ३ नीलिका ४ ॥ ७० ॥

सितासौ श्वेतसुरसा भूतवे-

उजडी नेवाडीक नाम २॥ श्वेत
सुरसा १ भूतकेसी २ ॥

-श्यय मागधी ॥

गणिका मूयिकाग्बष्ठा-

जुहीके नाम ४ ॥ मागधी १

गणिका २ यूपिका ३ अबष्ठा ४ ॥

-सा पीता हेमपुष्पिका ॥ ७१ ॥

पीले फुल्की जुहीका नाम १॥ हेमपु

ष्पिका १ ॥ ७१ ॥

अतिमुक्त' पुण्ड्रक' स्यादासन्ती

माधवी लता ॥

बसन्तीके नाम ९॥ अतिमुक्त १ पु

ण्ड्रक २ वासन्ती ३ माधवी ४ लता ९॥

मुमना मालती जातिः-

भमलीके नाम ३ ॥ मुमनस् १

मालती २ जाति ३ ॥

-सप्तला नवमालिका ॥ ७२ ॥

बर्नाली वेडीके नाम २॥ सप्तला १

नवमालिका २ ॥ ७२ ॥

माध्य कुन्द-

कुन्दक नाम २ ॥ माध्य १ कुन्द २॥

-रक्तकस्तु घन्पूको घन्धुर्जीवक' ॥

दूपरी कुन्दके नाम ३ ॥ रक्तक १

घन्पूक २ घन्धुर्जीवक ३ ॥

महा कुमारी तरणि-

धीम्बारके नाम ३॥ सहा १ कुमारी
२ तरणि ३ ॥

-रम्भानस्तु महासहा ॥ ७३ ॥

कटैयाके नाम २॥ रम्भान १ महा
सहा २ ॥ ७३ ॥

सत्र शोणे कुरवक-

छाळकटैयाका नाम १॥ कुरवक १॥

-स्वत्र पीते कुरण्टक' ॥

पीली कटैयाका नाम १॥ कुरण्टक १॥

नीली शिण्टी द्वयोर्बाणा दासी

चातगलत्र सा ॥ ७४ ॥

मीठी शिडीके नाम ३ ॥ बाणा १

दासी २ चातगलत्र ३ ॥ ७४ ॥

सैरयकस्तु शिण्टी स्या-

शिडीमात्रक नाम २ ॥ सैरयेक १

शिण्टी २ ॥

-सस्मिन्कुरवकोऽरुणे ॥

छाळ शिडीका नाम १॥ कुरवक १ ॥

पीता कुरण्टको शिण्टी सस्मि

न्सहचरी द्वयो' ॥ ७५ ॥

पीली शिडीक नाम २ ॥ कुरण्टक १

सहचरी २ ॥ ७५ ॥

ओण्डपुर्व जपापुर्व-

गुदरके नाम २ ॥ ओण्डपुर्व १

जपापुर्व २ ॥

-वज्रपुष्प विलस्य यत् ॥

तिलीके फूलका नाम १ ॥ वज्रपुष्प १ ॥

प्रतिहासशतप्रासचण्डातहय-

मारकाः ॥ ७६ ॥ करवीरे-

कदङ्गल (कनेर) के नाम ९ ॥

प्रतिहास १ शतप्रास २ चण्डात ३

हयमारक ४ ॥ ७६ ॥ करवीर ९ ॥

-करिरे तु क्रकरग्रन्थिलावृभौ ॥

करिरेके नाम ३ ॥ करीर १ क्रकर
२ ग्रन्थिल ३ ॥

उन्मत्तः कितवो धूर्तो धत्तूरः
कनकाह्वयः ॥ ७७ ॥

मातुलो मदनश्चा-

धतूरेके नाम ७ ॥ उन्मत्त १ कितव
२ धूर्त्त ३ धत्तूर ४ कनकाह्वय ५ ॥ ७७ ॥
मातुल ६ मदन ७ ॥

-ऽस्य फले मातुलपुत्रकः ॥

धतूरेके फलका नाम १ ॥ मातुल-
पुत्रक १ ॥

फलपूरो बीजपूरो-

विजौरा नीबूके नाम २ ॥ फलपूर १
बीजपूर २ ॥

-रुचको मातुलङ्गके ॥ ७८ ॥

विजौरा नीबूके भेद ॥ मातुलङ्ग १
रुचक २ ॥ ७८ ॥

समीरणो मरुवकः प्रस्थपुष्पः
फणिज्जकः ॥ जम्बीरोऽ-

मरुवाके नाम ९ ॥ समीरण १

मरुवक २ प्रस्थपुष्प ३ फणिज्जक ४
जवीर ५ ॥

-प्यथ पर्णासि काठिञ्जरकुठे-
रकौ ॥ ७९ ॥

पनसके नामः ३ ॥ पर्णास १ काठि-
ञ्जर २ कुठेरक ३ ॥ ७९ ॥

सितेर्जकोऽत्र-

श्वेत पनसका नाम १ ॥ अर्जक १ ॥

--पाठी तु चित्रको वह्निसंज्ञकः ॥

- चीतेके नाम ३ पाठी १ चित्रक २
वह्निसंज्ञक ३ जितने अग्नि के नाम उतने
भी चीतेके नाम हैं ॥

अर्काह्वसुकाऽऽस्फोटगणरूपवि-
कीरणाः ॥ ८० ॥ मन्दारश्चा-
र्कपर्णो-

आकके नाम ७ ॥ अर्काह्व १ वसुक
२ आस्फोट ३ गणरूप ४ विकारण ५
॥ ८० ॥ मन्दार ६ अर्कपर्ण ७ सूर्यके
सव नाम आकके नाम हैं ॥

-ऽत्र शुक्लेर्कप्रतापसौ ॥

श्वेत आकके नाम २ ॥ अर्क १
प्रतापस २ ॥

शिवमल्ली पाशुपत एकाष्टीलो
बुको वसुः ॥ ८१ ॥

गूमके नाम, ९ ॥ शिवमल्ली १ पा-
शुपत २ एकाष्टील ३ बुक ४ वसु
५ ॥ ८१ ॥

बन्दा वृक्षादनी वृसरुहा जीव
वन्तिकेत्यापे ॥

आकाशवेलेके नाम ४ ॥ बन्दा १
वृक्षादनी २ वृसरुहा ३ र्जावन्तिका ४ ॥

वत्सादनी छिन्नरुहा गुडूची
तन्त्रिकाऽमृता ॥ ८२ ॥ जीव
न्तिका सोमवल्ली विशल्या
मधुपर्ण्यपि ॥

गिद्योपके नाम ९ ॥ वत्सादनी १
छिन्नरुहा २ गुडूची ३ तन्त्रिका ४ अ
मृता ५ ॥ ८२ ॥ जीवन्तिका ६ सोम-
वल्ली ७ विशल्या ८ मधुपर्णी ९ ॥

मूर्वा देवी मधुरसा मोरटा ते-
जनी सषा ॥ ८३ ॥ मधुलिफा
मधुभेणी गोकर्णी पीष्ठपर्ण्यपि ॥

चिनारके नाम १० ॥ मूर्वा १ देवी
२ मधुरसा ३ मोरटा ४ तेजनी ५
सषा ६ ॥ ८३ ॥ मधुलिफा ७ मधु
भेणी ८ गोकर्णी ९ पीष्ठपर्णी १० ॥

पाठाम्बुष्टा विद्वकर्णी स्यापनी
श्रेयसी रसा ॥ ८४ ॥ एकाष्टी
छा पापवेली प्राचीना वनवि-
क्तिका ॥

पेटेके नाम १० ॥ पाठा १ अम्बुष्टा
२ विद्वकर्णी ३ स्यापनी ४ श्रेयसी ५
रसा ६ ॥ ८४ ॥ एकाष्टीछा ७ पाप-
वेली ८ प्राचीना ९ वनविकृता १० ॥

कटु 'कटुम्बराऽशोकोरुहिणी
कटुरोहिणी ॥ ८५ ॥ मत्स्यपिप्पा

कृष्णमेदी चक्राङ्गी शकुलादनी ॥
कुटकीके नाम ८ ॥ कटु १ क-

टम्बरा २ अशोकोरुहिणी ३ कटुरो-
हिणी ४ ॥ ८५ ॥ मत्स्यपिप्पा ५
कृष्णमेदी ६ चक्राङ्गी ७ शकुलादनी ८ ॥

आत्मगुप्ताजहाऽप्यण्डाकण्डूरा
मावृपायणी ॥ ८६ ॥ ऋष्यमो-
क्ता शुकशिम्विः कपिकच्छुब्ध
मर्कटी ॥

केचक नाम ९ ॥ आत्मगुप्ता १
अजहा २ अण्डा ३ कण्डूरा ४ प्राह
पायणी ५ ॥ ८६ ॥ ऋष्यमोक्ता ६
शुकशिम्वि ७ कपिकच्छुब्ध ८ मर्कटी ९ ॥

चित्रोपचित्रा न्यमोघी द्रवन्ती
क्षम्बरी धूपा ॥ ८७ ॥ मत्स्यक्रे-
णी सुतब्रेणी रण्डा मूषिकप-
र्ण्यपि ॥

मूलीके नाम १० ॥ चित्रा १ उप
चित्रा २ न्यमोघी ३ द्रवन्ती ४ क्षम्बरी ५
धूपा ६ ॥ ८७ ॥ मत्स्यक्रेणी ७ सुतब्रेणी
८ रण्डा ९ मूषिकपर्णी १० ॥

अपामार्गः सौखारिको धामार्ग
धमयूरकौ ॥ ८८ ॥ मत्स्यपर्णी
केद्रपर्णी किण्णिही खरमञ्जरी ॥
अपामार्गः नाम ८ ॥ अपामार्ग १

शैखरिक २ अधामार्गव ३ मयूरक ४
॥ ८८ ॥ प्रत्यक्पर्णी ५ केशपर्णी ६
किण्णिही ७ खरमञ्जरी ८ ॥

हञ्जिका ब्राह्मणी पद्मा भार्गी
ब्राह्मणयष्टिका ॥ ८९ ॥ अंगार-
वल्ली बालेयशाकवर्वरवर्धकाः ॥

भारगीके नाम ९ ॥ हञ्जिका १
ब्राह्मणी २ पद्मा ३ भार्गी ४ ब्राह्म-
णयष्टिका ५ ॥ ८९ ॥ अंगारवल्ली
६ बालेयशाक ७ वर्वर ८ वर्द्धक ९ ॥

मञ्जिष्ठा विकसा जिगी समंगा
कालमोषिका ॥ ९० ॥ मण्डूकपर्णी
मण्डीरी मण्डी योजनवल्ह्यापि ॥

मजीठके नाम ९ ॥ मञ्जिष्ठा १
विकसा २ जिगी ३ समगा ४ काल-
मोषिका ५ ॥ ९० ॥ मण्डूकपर्णी ६
मण्डीरी ७ मण्डी ८ योजनवल्ली ९ ॥

यासो यवासो दुःस्पर्शो धन्व-
यासः कुनाशकः ॥ ९१ ॥ रोदनी
कच्छुरानन्ता समुद्रान्ता दुरालभा ॥

जवासेके नाम १० ॥ यास १
यवास २ दुःस्पर्श ३ धन्वयास ४
कुनाशक ५ ॥ ९१ ॥ रोदनी ६
कच्छुरा ७ अनन्ता ८ समुद्रान्ता ९
दुरालभा १० ॥

पृथ्विपर्णी पृथक्पर्णी चित्रपर्ण-

द्विपर्णिका ॥ ९२ ॥ क्रोष्टुविन्ना
सिंहपुच्छी कलशी धावनी गुहा ॥
पिठिवनके नाम ९ ॥ पृथ्विपर्णी १

पृथक्पर्णी २ चित्रपर्णी ३ अघ्रिपर्णिका
४ ॥ ९२ ॥ क्रोष्टुविन्ना ५ सिंहपुच्छी
६ कलशी ७ धावनी ८ गुहा ९ ॥

निदिग्धिका स्पृशी व्याघ्री
बृहती कण्टकारिका ॥ ९३ ॥
प्रचोदनी कुली क्षुद्रा दुःस्पर्शा
राष्ट्रिकेत्यापि ॥

भटकटैया (कटेहली) के नाम
१० ॥ निदिग्धिका १ स्पृशी २ व्याघ्री ३
३ बृहती ४ कण्टकारिका ५ ॥ ९३ ॥
प्रचोदनी ६ कुली ७ क्षुद्रा ८ दुःस्पर्शा
९ राष्ट्रिका १० ॥

नीली काला क्लीतकिका ग्रामी-
णा मधुपर्णिका ॥ ९४ ॥ रजनी
श्रीफली तुत्या द्रोणी दोला च
नीलिनी ॥

नीलके नाम ११ ॥ नीली १ काला
२ क्लीतकिका ३ ग्रामीणा ४ मधु-
पर्णिका ५ ॥ ९४ ॥ रजनी ६ श्रीफली
७ तुत्या ८ द्रोणी ९ दोला १०
नीलिनी ११ ॥

अवल्गुजः सोमराजी सुवलिः
सोमवल्लिका ॥ ९५ ॥ कालमेषी
कृष्णफला वाकुची पूतिफल्यपि ॥
वाकुचीके नाम ८ ॥ अवल्गुज १

सोमराजी २ सुबलि ३ सोमवष्टिका ४
॥ ९९ ॥ काष्मेयी ९ कृष्णसला ९
माकुची ७ पूतिकली ८ ॥

कृष्णोपकृस्या वैदेही मागधी
घपला कणा ॥ ९६ ॥ उपणा
पिप्पली शौण्डी कोला-

पीपलके नाम १० ॥ कृष्णा १
उपकृस्या २ वैदेही ३ मागधी ४
घपला ९ कणा ६ ॥ ९६ ॥ उपणा
७ पिप्पली ८ शौण्डी ९ कोला १० ॥

उय करिपिप्पली ॥
कपिवल्ली कोलबल्ली भ्रैयसी
वक्षिरं पुमान् ॥ ९७ ॥

गन्धपीपलके नाम ९ ॥ करिपिप्पली
१ कपिवल्ली २ कोलबल्ली ३ भ्रैयसी ४
वक्षिर ९ ॥ ९७ ॥

चव्य तु चविका-
चावके नाम २ ॥ चव्य १ चविका २ ॥
-काकचिन्नामुभे तु कृष्णला ॥

धुनुची (चिरमठी) क नाम ३ ॥
काकचिन्ना १ गुग्गा २ कृष्णला ३ ॥
पलकपा त्विधुगन्धा भद्रा
स्वाहुकण्टक ॥ ९८ ॥ गोक-

ण्को गोसुरको वनर्वागाट इत्यपि ॥
गोसुरक नाम ७ ॥ पलकपा १
धुगन्धा २ भद्रा ३ स्वाहुकण्टक

४ ॥ ९८ ॥ गोकण्टक ९ गोसुरक
६ वनशृङ्गाट ७ ॥

विश्वा विषा प्रतिविषाऽतिवि
पोषविषारुणा ॥ ९९ ॥ शृंगी
महौषध चा-

धत्तीसक नाम ८ ॥ विषा १ विषा २
प्रतिविषा ३ अतिविषा ४ उपविषा ९
अरुणा ६ ॥ ९९ ॥ शृंगी ७ महौषध ८ ॥

-उय क्षीरावी दुग्धिका समे ॥
श्रीके नाम २ ॥ क्षीरावी १ दुग्धिका २ ॥
क्षसमूली बहुसुताऽमीरिन्दी-

वरी वरी ॥ १०० ॥ शृष्यप्रोक्ता
ऽमीरुपत्री नारायण्य क्षतावरी ॥
अहेर-

क्षतावरीके नाम १० ॥ क्षतमूली
१ बहुसुता २ अमीर ३ इन्दीवरी ४
वरी ९ ॥ १०० ॥ शृष्यप्रोक्ता ६
अमीरुपत्री ७ नारायणी ८ क्षतावरी
९ अहेर १० ॥

-उय पीतद्रकालेयकहरिद्रवः ॥
॥ १०१ ॥ दार्दी पचम्पचा दारु
हरिद्रा पर्जनीत्यपि ॥

दारुश्रीके नाम ७ ॥ पीतद्रु १
कालेयक २ हरिद्र ३ ॥ १०१ ॥ दार्दी ४
पचम्पचा ९ दारुहरिद्रा ६ पर्जनी ७ ॥

बचोमगन्धा पद्मगन्धा गोलोमी
क्षतपर्विका ॥ १०२ ॥

वचके नाम ९॥ वचा १ उग्रगन्धा
२ षड्ग्रन्था ३ गोलोमी ४ शत-
पर्विका ५ ॥ १०२ ॥

शुक्ला हैमवती-

जिसका श्वेत जड हो उस वचका
नाम १ ॥ हैमवती १ ॥

-वैद्यमातृसिंह्यौ तु वाशिका ॥
वृषोऽटरूपः सिंहास्यो वासिको
वाजिदन्तकः ॥ १०३ ॥

अडूसेके नाम ८॥ वैद्यमातृ १ सिंही
२ वाशिका ३ वृष ४ अटरूप ५ सिंहास्य
६ वासिक ७ वाजिदन्तक ८ ॥ १०३ ॥

आस्फोटा गिरिकर्णी स्याद्विष्णु-
क्रान्तापराजिता ॥

विष्णुक्रान्ताके नाम ४॥ आस्फोटा
१ गिरिकर्णी २ विष्णुक्राता ३ अपरा-
जिता ४ ॥

इक्षुगन्धा तु काण्डेषु कोकिलाक्षे-
क्षुरक्षुराः ॥ १०४ ॥

तालमखानेके नाम ९॥ इक्षुगन्धा
१ काण्डेषु २ कोकिलाक्ष ३ इक्षुर ४
क्षुर ५ ॥ १०४ ॥

शालेयः स्याच्छीतशिवश्छत्रा
मधुरिका मिसिः ॥

मिश्रेया-

सौंफके नाम ६॥ शालेय १ शीत-
शिव २ छत्रा ३ मधुरिका ४ मिसी ५
मिश्रेया ६ ॥

प्यथ सीहुण्डो वज्रःस्तुक्छी स्तुही
गुडा ॥ १०५ ॥ समन्तदुग्धा-

सेहुंड (योहर) के नाम ६॥ सीहुंड
१ वज्र २ स्तुह् ३ स्तुही ४ गुडा ५ ॥
१०५ ॥ समन्तदुग्धा ६ ॥

-ऽथो वेल्लममोघा चित्रतण्डुला ॥
तण्डुलश्च कृमिघ्नश्च विडङ्गं पुंन-
पुंसकम् ॥ १०६ ॥

वायविडगके नाम ६॥ वेल्ल १
अमोघा २ चित्रतण्डुला ३ तण्डुल ४
कृमिघ्न ५ विडङ्ग ६ ॥ १०६ ॥

बला वाट्यालको-
वरियरा (खरहँटी) के नाम २॥
बला १ वाट्यालक २ ॥

-घण्टारवा तु शणपुष्पिका ॥
सनाटाके नाम २ ॥ घण्टारवा १
शणपुष्पिका २ ॥

मृद्रीका गोस्तनी द्राक्षा स्वाद्री
मधुरसेति च ॥ १०७ ॥

दाखके नाम ९ ॥ मृद्रीका १
गोस्तनी २ द्राक्षा ३ स्वाद्री ४ मधु-
रसा ५ ॥ १०७ ॥

सर्वानुभूतिः सरला त्रिपुटा त्रिवृता
त्रिवृत् ॥ त्रिभण्डी रोचनी-

श्वेत त्रिधारा (निसोत) के नाम ७॥
सर्वानुभूति १ सरला २ त्रिपुटा ३ त्रिवृता
४ त्रिवृत् ५ त्रिभण्डी ६ रोचनी ७ ॥

—श्यामापालिन्द्यौ तु मुपेणिका
॥ १०८ ॥ काला मसुरविदलाऽ
र्धचन्द्रा कास्त्रमेपिका ॥

काष्ठे त्रिधारे (निस्रोत) के नाम ७ ॥
श्यामा १ पाळिन्दी २ मुपेणिका ३
॥ १०८ ॥ काला ४ मसुरविदला ५
अर्धचन्द्रा ६ कास्त्रमेपिका ७ ॥

मधुक छीतकं यष्टीमधुक मधुय
ष्टिका ॥ १०९ ॥

जेठीमधुके नाम ४ ॥ मधुक १
छीतक २ यष्टीमधुक ३ मधुयष्टिका ४
॥ १०९ ॥

विदारी क्षीरशुद्धेशुगन्वा
क्रोष्टी तु या सिवा ॥

शुद्धमूत्रमूत्रके नाम ४ ॥ विदारी १
क्षीरशुद्धा २ शुगन्वा ३ क्रोष्टी ॥
अन्या क्षीरविदारी स्यान्महाभेत
र्शगन्धिका ॥ ११० ॥

शुद्धमूत्रमूत्रके नाम ३ ॥ क्षीरवि
दारी १ महाभेता २ श्लशगन्धिका ३ ॥
॥ ११० ॥

टाङ्गली शारदी सौमपिप्पली
शकुत्तादनी ॥

जठरीपलक नाम ४ ॥ टाङ्गली १
शारदी २ सौमपिपली ३ शकुत्तादनी ४ ॥
खराश्वा कारवी क्षीप्यो मयूरो
सौचमस्तकः ॥ १११ ॥

मयूरशिखा वा अजुमोदकं नाम ९ ॥
खराश्वा १ कारवी २ क्षीप्य ३ मयूरः
सौचमस्तक ९ ॥ १११ ॥

गोपी श्यामा शारिवा स्या
दनन्तोत्पलशारिवा ॥
फालीशाम्ब (अन्तमूल) के नाम ९ ॥
गोपी १ श्यामा २ शारिवा ३ अनन्ता ४
उत्पलशारिवा ९ ॥

योग्यसृष्टिः सिद्धिलक्ष्म्यौ—
सृष्टि, औपधिके नाम ४ ॥ योग्य १
सृष्टि २ सिद्धि ३ लक्ष्मी ४ ॥

—वृद्धेरप्याह्वया इमे ॥ ११२ ॥
यही नाम वृद्धिनामक औपधिकेमी
होते हैं ॥ ११२ ॥

कदली वारणमुसा रम्भा मोचा
शुमत्फला ॥ काष्ठीला—

कलके नाम ६ ॥ कदली १ वारण
मुसा २ रम्भा ३ मोचा ४ अंशुमत्फला
५ काष्ठीला ६ ॥

—मुत्रपर्णी तु काकमुद्रा सहे-
त्सपि ॥ ११३ ॥

वनमृगज नाम ३ ॥ मुत्रपर्णी १
काकमुद्रा २ सहा ३ ॥ ११३ ॥

वाचाकी हिंगुली सिंही भण्टाकी
दुष्मर्षिणी ॥

वनमृग (रानकटहरी) के नाम ९ ॥

वार्ताकी १ हिगुली २ सिंही ३ भण्टाकी ४
दुष्प्रधर्षिणी ५ ॥

नाकुली सुरसा रास्ना सुगन्धा
गन्धनाकुली ॥ ११४ ॥ नकुलेष्टा
भुजंगाक्षी छत्राकी सुवहा
च सा ॥

रासन (तुळसी) के नाम ९ ॥

नाकुली १ सुरसा २ रास्ना ३ सुगन्धा ४
गन्धनाकुली ५ ॥ ११४ ॥ नकुलेष्टा ६
भुजगाक्षी ७ छत्राकी ८ सुवहा ९ ॥
विदारिगन्धांशुमती सालपर्णी
स्थिरा ध्रुवा ॥ ११५ ॥

शालपर्णी वा सरिवनके नाम ५ ॥

विदारिगन्धा १ अंशुमती २ शालपर्णी
३ स्थिरा ४ ध्रुवा ५ ॥ ११५ ॥

तुण्डिकेरी समुद्रान्ता कार्पासी
वदरेति च ॥

कपासके नाम ४ ॥ तुडिकेरी १

समुद्रान्ता २ कार्पासी ३ वदरा ४ ॥

भारद्वाजी तु सा वन्या—

वनकी कपास अर्थात् नरमाका नाम
१ ॥ भारद्वाजी १ ॥

—शृंगी तु ऋषभो वृषः ॥ ११६ ॥

काकडासीगीके नाम ३ ॥ शृङ्गी १

ऋषभ २ वृष ३ ॥ ११६ ॥

गांगेरुकी नागबला झषा हस्व-
गवेधुका ॥

ककही (गंगेरु) के नाम ४ ॥

गांगेरुकी १ नागबला २ झषा ३
हस्वगवेधुका ४ ॥

धामार्गवो घोषकः स्या—

श्वेत तुरईके नाम २ ॥ धामार्गव
१ घोषक २ ॥

न्महाजाली स पीतकः ॥ ११७ ॥

पीलेफूलकी तुरईका नाम १ ॥

महाजाली १ ॥ ११७ ॥

ज्योत्स्नी पटोलिका जाली—

चचेंडेके नाम ३ ॥ ज्योत्स्नी १
पटोलिका २ जाली ३ ॥

—नादेयी भूमिजम्बुका ॥

भूमिजामुनके नाम २ ॥ नादेयी १
भूमिजम्बुका २ ॥

स्यालंगलिक्यग्निशिखा—

कारियारी (कलहारी) के नाम २ ॥
लागलिकी १ अग्निशिखा २ ॥

—काकांगी काकनासिका ॥ ११८ ॥

काकजघा अर्थात् कौवाठोढी
(मकोह) के नाम २ ॥ काकांगी १
काकनासिका २ ॥ ११८ ॥

गोधापदी तु सुवहा—

हसपदी (लज्जावती) के नाम २ ॥
गोधापदी १ सुवहा २ ॥

—मुसली तालमूलिका ॥

मूसलीके नाम २ ॥ मुसली १ ताल
मूलिका २ ॥

अजङ्गुगी विपाणी स्या-

मेढ्रासीगीके नाम २ ॥ मजशृङ्गी १
विपाणी २ ॥

-श्रोत्रिहादाविके समे ॥ ११९ ॥

गोमीके नाम २ ॥ गोन्दिहा १
दार्किन् ३ ॥ ११९ ॥

ताम्बूलबल्ली ताम्बूली नागव
ल्लघ-

नागकेळ अर्थात् पानक नाम ३ ॥
तांबूलबल्ली १ तांबूली २ नागबल्ली ३ ॥

-प्यय द्विजा ॥

हरेणु रेणुका कौन्ती कपिला
भस्मगन्धिनी ॥ १२० ॥

गगनधूरिके नाम ६ ॥ द्विजा १
हरेणु २ रेणुका ३ कौन्ती ४ कपिला
५ भस्मगन्धिनी ६ ॥ १२० ॥

पलावाल्लकमैलेयं सुगन्धिहरि
वाल्लकम् ॥ वाल्लकं च-

एलमा नामक गन्धद्रव्यविशेषके
नाम १ ॥ एलावाल्लक १ ऐलेय २
सुगन्धि ३ हरिवाल्लक ४ वाल्लक ५ ॥

-ज्य पालङ्गुषा मुकुन्द कु-
न्दकुन्दुरु ॥ १२१ ॥

पालवाके नाम ४ ॥ पालकी १
मुकुन्द २ कुन्द ३ कुन्दुरु ४ ॥ १२१ ॥

वालं निधिरबाहंघोदीर्ष्यं केशाम्बु
नाम च ॥

नेत्रवालाक नाम ४ ॥ बाळ १

हीबर २ बर्हिष्ठ ३ उदीष्व ४ ॥
केशके और उदकके सब नाम ५ ॥

कालानुसार्यवृद्धाश्मपुष्पहीव-
शिवानि तु ॥ १२२ ॥ शैलेय-

शिक्षाजीतक नाम ५ ॥ काञ्जु-
सार्य १ शृद्ध २ अश्मपुष्प ३ शक्ति
शिव ४ ॥ १२२ ॥ शैलेय ५ ॥

-तालपर्णी तु देत्या गन्धकुटी
मुरा ॥ गन्धिनी-

मुरेठी वा ताल्मिषपत्रके नाम ५ ॥
तालपर्णी १ देत्या २ गन्धकुटी ३
मुरा ४ गन्धिनी ५ ॥

-गजभक्ष्या तु सुवहा सुरभी
रसा ॥ १२३ ॥ महेरुणा कुन्दु-
रुकी सल्लकी हादिनीति च ॥

कासके नाम ८ ॥ गजभक्ष्या १
सुवहा २ सुरभि ३ रसा ४ ॥ १२३ ॥
महेरुणा ५ कुन्दुरुकी ६ सल्लकी ७
हादिनी ८ ॥

अग्निज्वालासुभिसे तु धातकी
धातुपुष्पिका ॥ १२४ ॥

धष (धायकृष्ण) क नाम ४ ॥
अग्निज्वाला १ सुभिसे २ धातकी ३
धातुपुष्पिका ४ ॥ १२४ ॥

पृथ्वीका चन्द्रबालंला निष्कु-
न्धिर्बहुला-

पृथ्वीका चन्द्रबालंला निष्कु-
न्धिर्बहुला-

पृथ्वीका चन्द्रबालंला निष्कु-
न्धिर्बहुला-

पृथ्वीका चन्द्रबालंला निष्कु-
न्धिर्बहुला-

बढी इलायची के नाम ५॥पृथ्वीका १
चन्द्रवाला २एला ३निष्कुटी ४ बहुला ५॥

—ऽथ सा ॥

सूक्ष्मोपकुञ्चिका तुत्या कोरङ्गी
त्रिपुटा त्रुटिः ॥ १२५ ॥

गुजराती (छोटी) इलायचीके
नाम ५ ॥ उपकुञ्चिका १ तुत्या २
कोरङ्गी ३ त्रिपुटा ४ त्रुटि ५ ॥ १२५ ॥

व्याधिः कुष्ठं पारिभाष्यं व्याप्यं
पाकलमुत्पलम् ॥

कूठके नाम ६ ॥ व्याधि १ कुष्ठ २
पारिभाष्य ३ व्याप्य ४ पाकल ५ उत्पल ६ ॥

शंखिनी चोरपुष्पी स्यात्केशि-

शखाहुलीके नाम ३ ॥ शंखिनी १
चोरपुष्पी २ केशिनी ३ ॥

—न्यथ वितुन्नकः ॥ १२६ ॥

झटामलाज्झटा ताली शिवा ताम-
लकीति च ॥

भूम्यामलकी अर्थात् अँवरीके नाम
७ ॥ वितुन्नक १ ॥ १२६ ॥ झटा २
अमला ३ अज्झटा ४ ताली ५ शिवा
६ तामलकी ७ ॥

प्रपौण्डरीकं पौण्डर्य-

गुलाबके नाम २ ॥ प्रपौण्डरीक १
पौण्डर्य २ ॥

—मथ तुन्नः कुबेरकः ॥ १२७ ॥
कुणिः कृच्छः कान्तलको नन्दि-
वृक्षो-

तुनके नाम ६ ॥ तुन्न १ कुबेरक २ ॥ १२७ ॥
कुणि ३ कृच्छ ४ कान्तलक ५ नन्दिवृक्ष ६ ॥

—ऽथ राक्षसी ॥

चण्डा धनहरी क्षेमदुष्पत्रगणहा-
सकाः ॥ १२८ ॥

धनहरीके नाम ६ ॥ राक्षसी १
चण्डा २ धनहरी ३ क्षेम ४ दुष्पत्र ५
गणहासक ६ ॥ १२८ ॥

व्याडायुधं व्याघ्रनखं करजं
चक्रकारकम् ॥

नखा, गन्धद्रव्यके नाम ४ ॥ व्या-
डायुध १ व्याघ्रनख २ करज ३ चक्रकारक ४
सुषिरा विद्रुमलता कपोताग्निर्नदी
नली ॥ १२९ ॥

मालकागनीके नाम ५ ॥ सुषिरा १
विद्रुमलता २ कपोताग्नि ३ नदी ४
नली ५ ॥ १२९ ॥

धमन्यञ्जनकेशी च हनुर्हृदविला-
सिनी ॥

ककूदनिके नाम ४ ॥ धमनी १ अञ्ज-
नकेशी २ हनु ३ हृदविलासिनी ४ ॥
शुक्तिः शंखः खुरः कोलदलं
नख-

नक्षी नाम गन्धद्रव्यविशेषके नाम
१ ॥ छक्ति १ शंस २ सुर ३ कोळ-
दळ ४ नख ५ ॥

-मषाडकी ॥ १३० ॥

काशी मृत्स्ना सुवरिका मृत्ताळक
सुराक्ष्मे ॥

भारहरेके नाम १ ॥ भाडकी १ ॥

॥ १३० ॥ काशी २ मृत्स्ना ३ सुवरिका
४ मृत्ताळक ५ सुराक्ष्म ६ ॥

कुटस्रट दाशपुर वानेयं परिपेख्वम्
॥ १३१ ॥ छुवगोपुरगोनदकैवर्तो
मुस्तकानि च ॥

मोयाक नाम २ ॥ कुटस्रट १ दाश
पुर २ वानेय ३ परिपेख्व ४ ॥ १३१ ॥
दश ५ गोपुर ६ गोनर्द ७ कैवर्तो ८ मुस्तक ९
ग्रन्थिपर्ण शुक्र वर्हपुष्प स्थौणे
यकुक्कुरे ॥ १३२ ॥

कत्तरोके नाम १ ॥ ग्रन्थिपर्ण १ शुक्र २
वर्हपुष्प ३ स्थौण्य ४ कुक्कुर ५ ॥ १३२ ॥
मरुन्माला तु पिशुना स्पृया देवी
छता छपु ॥ समुद्रान्ता बधू को
त्रिपर्वा लंकोपिकेत्यपि ॥ १३३ ॥

भस्तरकर नाम १ ॥ मरुन्माला
१ पिशुना २ स्पृया ३ देवी ४ छता ५
छपु ६ समुद्रान्ता ७ बधू ८ कपटिका
९ लकारिका ॥ १ ॥ १३३ ॥

तपस्विनी जटा मांसी जटिला
छोमशा मिशी ॥

जटामांसीके नाम १ ॥ तपस्विनी १
जटा २ मांसी ३ जटिला ४ छोमशा
५ मिशी ६ ॥

त्वक्पत्रमुत्कट मृङ्गं त्वर्ष चोष
वराङ्कम् ॥ १३४ ॥

तजके नाम १ ॥ त्वक्पत्र १ उत्कट २
मृंग ३ त्वर्ष ४ चोष ५ वराङ्क ६ ॥ १३४
कर्धूरको द्राघिडक कास्पको
वेधमुस्तक ॥

कनूरके नाम ४ कर्धूरफ १ द्राघि
डक २ कास्पक ३ वेधमुस्तक ४ ॥

ओषध्यो जाविमात्रे स्यु-
सन अमोक्षा नाम १ ॥ ओषधी १ ॥
-स्वातो सर्वमीषधम् ॥ १३५ ॥
असमानका नाम १ ॥ ओषध १ ॥ १३५ ॥

शाकाल्य पत्रपुष्पादि-
तर्करिमात्रका नाम १ ॥ शाक १ ॥
-तण्डुलीयोऽल्पमारिप ॥

चीराई के नाम २ ॥ तण्डुलीय १ अत्र
मारिप २ ॥

विशल्यामिश्रिखाज्जन्ता फलिनी
शक्रपुष्पिका ॥ १३६ ॥

कथियाटी इन्द्रपुष्पिका नाम १ ॥
विशल्या १ अमिश्रिता २ अजन्ता ३
फलिनी ४ शक्रपुष्पिका ५ ॥ १३६ ॥

स्यादृक्षगन्धा छगलान्ध्यावेगी
वृद्धदारकः ॥ जुङ्गो-

विधाराके नाम ५ ॥ ऋक्षगन्धा
१ छगलान्त्री २ आवेगी ३ वृद्धदारक
४ जुङ्ग ५ ॥

-ब्राह्मी तु मत्स्याक्षी वयस्था
सोमवल्लरी ॥ १३७ ॥

ब्राह्मीके नाम ४ ॥ ब्राह्मी १ मत्स्याक्षी
२ वयस्था ३ सोमवल्लरी ४ ॥ १३७ ॥

पटुपर्णी हैमवती स्वर्णक्षीरी
हिमावती ॥

मकोईके नाम ४ ॥ पटुपर्णी १
हैमवती २ स्वर्णक्षीरी ३ हिमावती ४ ॥

हयपुच्छी तु काम्बोजी माष-
पर्णी महासहा ॥ १३८ ॥

मूगके नाम ४ ॥ हयपुच्छी १ काम्बोजी
२ माषपर्णी ३ महासहा ४ ॥ १३८ ॥

तुण्डिकेरी रक्तफला विम्बिका
पल्लिपर्ण्यापि ॥

कुटुरीके नाम ४ ॥ तुण्डिकेरी १
रक्तफला २ विम्बिका ३ पल्लिपर्णी ४ ॥

बर्वरा कवरी तुंगी खरपुष्पा-
ऽजगन्धिका ॥ १३९ ॥

बर्वराके नाम ५ ॥ बर्वरा १ कवरी
२ तुंगी ३ खरपुष्पा ४ अजगन्धिका
५ ॥ १३९ ॥

एलापर्णी तु सुवहा रास्ना
युक्तरसा च सा ॥

एलापर्णीके नाम ४ ॥ एलापर्णी १
सुवहा २ रास्ना ३ युक्तरसा ४ ॥

चांगेरी चुक्रिका दन्तशठाम्ब-
ष्ठाम्ललोणिका ॥ १४० ॥

अम्लोना वा चूकाके नाम ५ ॥
चांगेरी १ चुक्रिका २ दन्तशठ ३
अम्बष्ठ ४ अम्ललोणिका ५ ॥ १४० ॥

सहस्रवेधी चुक्रोऽम्लवेतसः
शतवेध्यापि ॥

अमलवेतके नाम ४ ॥ सहस्रवेधी १
चुक्र २ अम्लवेतस ३ शतवेधी ४ ॥

नमस्कारी गण्डकारी समंगा
खदिरेत्यापि ॥ १४१ ॥

किसी २ के मतसे चांगेरी आदि ९
भी अमलवेतके नाम है ॥ लजालूके
नाम ४ ॥ नमस्कारी १ गण्डकारी २
समगा ३ खदिरा ४ ॥ १४१ ॥

जीवन्ती जीवनी जीवा जीव-
नीया मधुः स्रवा ॥

जिसे गुर्जरदेशमें दोडी कहते हैं उस
औषधिके नाम ६ ॥ जीवन्ती १ जीवनी
२ जीवा ३ जीवनीया ४ मधु ५
स्रवा ६ ॥ कोईक ' मधुस्रवा ' एक-
नाम कहते हैं ॥

कूर्चशीर्षो मधुरकः शृंगहस्वा-
ङ्गजीवकाः ॥ १४२ ॥

जीवकके नाम ५ ॥ कूर्चशीर्ष १
मधुरक २ शृंग ३ हस्वाग ४ जीवक
५ ॥ १४२ ॥

किरासविको, मूनिम्योऽनार्य
विको—

धिरायसेके नाम ३ ॥ किरासविक
१ मूनिम्य २ अनार्यविक ३ ॥

—5य सतला ॥

विमला सातला मूरिफेला
चमकपेत्यापि ॥ १४३ ॥

सीङ्गमेदके नाम १ ॥ सतला १
विमला २ सातला ३ मूरिफेला ४
चमकपा ५ ॥ १४३ ॥

वायसोली स्वादुरसा वयस्या
काकोलीके नाम ३ ॥ वायसोली
१ स्वादुरसा २ वयस्या ३ ॥

—5य मकूलकः ॥

निकुम्भो दन्तिका प्रत्यक्षे
व्युदुम्बरपर्णपि ॥ १४४ ॥

वज्रदन्ती कर्पात्दन्तिमाके नाम विसके
वीसको जयशाल कहते हैं १ ॥ मकूलक १
निकुम्भ २ दन्तिका ३ प्रत्यक्षेणी ४
उदुम्बरपर्णी ५ ॥ १४४ ॥

अजमोदा तुमगन्धा ब्रह्मदर्मा
यमानिका ॥

अजमोद या अम्बाफनके नाम
४ ॥ अजमोदा १ तुमगन्धा २ ब्रह्म
दर्मा ३ यमानिका ४ ॥

मूले पुष्करकाश्मीरपद्मपत्राणि
पौष्करे ॥ १४५ ॥

पौष्करमूष्क नाम ३ ॥ पुष्कर १
काश्मीर २ पद्मपत्र ३ ॥ १४५ ॥

अध्यघातिचरा पद्मा धारणी
पद्मधारिणी ॥

पद्माखक नाम ५ ॥ अध्यघा १
अतिचरा २ पद्मा ३ धारणी ४
पद्मधारिणी ५ ॥

काम्पिल्य* कर्कशक्षन्द्रो रक्ता
गोरोचनीत्यपि ॥ १४६ ॥

कम्पिलेके नाम ५ ॥ काम्पिल्य १
कर्कश २ चन्द्र ३ रक्तांग ४ रोचनी
५ ॥ १४६ ॥

प्रपुष्पाब्जस्त्वेडगजो दृष्टमक्षम
मर्दका ॥ पद्मा उरणाख्यश्च—

चक्रक वा पद्मक नाम ६ ॥ प्रपु
ष्पाब्ज १ एडगज २ दृष्टम ३ चक्रमर्दक
४ पद्मा ५ उरणाख्य ६ ॥

—पलाण्डुस्तु सुकन्दक* १४७ ॥
प्याजके नाम २ ॥ पलाण्डु १
सुकन्दक २ ॥ १४७ ॥

लवाकवृद्धमौ तत्र हरिते—
हरे प्याजके नाम २ ॥ लवार्क १
वृद्धम २ ॥

—5य महोषधम् ॥
लघुर्न गृह्ननारिष्टमहाकन्दर
सोनका ॥ १४८ ॥

लघुर्नके नाम ६ ॥ महोषध १ लघुर्न
२ गृह्नन ३ अरिष्ट ४ महाकन्दर ५
सोनका ६ ॥ १४८ ॥

पुमर्नवा तु क्षोषधी—

गदहपुरैना (सांठी) के नाम २ ॥
पुनर्नवा १ शोधघ्नी २ ॥

—वितुन्नं सुनिषण्णकम् ॥

विस्खपडाके नाम २ ॥ वितुन्न १
सुनिषण्णक २ ॥

स्याद्वातकः शीतलोऽपराजिता
शणपर्ण्यपि ॥ १४९ ॥

पटशनके नाम ४ ॥ वातक १ शीतल
२ अपराजिता ३ शणपर्णी ४ ॥ १४९ ॥

पारावताद्ग्रिः कटभी पण्या
ज्योतिष्मती लता ॥

मालकागनीके नाम ५ ॥ पारावताग्रि
१ कटभी २ पण्या ३ ज्योतिष्मती ४
लता ५ ॥

वार्षिकं त्रायमाणा स्यात्रायन्ती
बलभद्रिका ॥ १५० ॥

त्रायमाणके नाम ४ ॥ वार्षिक १
त्रायमाणा २ त्रायन्ती ३ बलभद्रिका
४ ॥ १५० ॥

विष्वक्सेनप्रिया गृष्टिर्वाराही
बदरेत्यापि ॥

बाराहीकन्दके नाम ४ ॥ विष्वक्से-
नप्रिया १ गृष्टि २ वाराही ३ बदरा ४ ॥

मार्कवो भृङ्गराजः स्या—

भृङ्गराज (भगारा) के नाम २ ॥

मार्कव १ भृङ्गराज २ ॥

—काकमाची तु वायसी ॥ १५१ ॥

कावैया वा कौवाहाडी गोडीके नाम
२ ॥ काकमाची १ वायसी २ ॥ १५१ ॥

शतपुष्पा सितच्छत्राऽतिच्छत्रा
मधुरा मिसिः ॥ अवाक्पुष्पी
कारवी च—

सौफके नाम ७ ॥ शतपुष्पा १
सितच्छत्रा २ अतिच्छत्रा ३ मधुरा ४
मिसि ५ अवाक्पुष्पी ६ कारवी ७ ॥

—सरणा तु प्रसारिणी ॥ १५२ ॥

तस्यां कटंभरा राजबला भद्र-
बलेत्यापि ॥

कुञ्जप्रसारिणी वा चाद्वेल वा
प्रसारनि (खीप) के नाम ९ ॥ सरणा
१ प्रसारिणी २ ॥ १५२ ॥ कटम्भरा ३
राजबला ४ भद्रबला ५ ॥

जनी जतूका रजनी जतुकुञ्चक-
वर्तिनी ॥ १५३ ॥ संस्पर्शा—

चकवतके नाम ६ ॥ जनी १ जतूका
२ रजनी २ जतुकुञ्च ४ चक्रवर्तिनी
५ ॥ १५३ ॥ संस्पर्शा ६ ॥

—ऽथ शठी गन्धमूली षड्ग्रन्थि-
केत्यापि ॥ कर्चुरोऽपि पलाशो—

कचूरके नाम ९ ॥ शठी १ गन्ध-
मूली २ षड्ग्रन्थिका ३ कर्चूर ४
पलाश ५ ॥

—ऽथ कारवेलः काठिलकः ॥ १५४ ॥
सुषवी चा—

फरलोक नाम ३ ॥ फारुड १
फयिडुक २ ॥ १९४ ॥ सुक्वी ३ ॥

-ऽय कुलक पटोलस्वित्तक*
पटु* ॥

परवरु नाम ४ ॥ कुठक १ पटोल
२ पित्तक ३ पटु ४ ॥

कूप्मांडकस्तु ककार-
कुम्हडा (काहडा) के नाम २ ॥

कूप्माण्डक १ कर्कार २ ॥
-रिषारु* ककटी स्त्रियौ ॥ १९५ ॥

ककडीक नाम ॥ ईषारु १ ककटी २
॥ १९५ ॥

इस्वाकु कटुतुम्बी स्या-
रामतुर्द्ध अर्थात् कौस्तुभ नाम २ ॥

इषारु १ कटुतुम्बी २ ॥
-सुम्ब्यलावृद्धमे समे ॥

तुम्बीक नाम २ तुम्बी १ मलानु २ ॥
चित्रा गवाक्षी गोडुम्ब्या-

जठक ककटी (गडुमा) क नाम ३ ॥
चित्रा १ गवाक्षी २ गोडुम्ब्या ३ ॥

-विशाला त्विन्द्रवारुणी ॥ २९१ ॥
इन्द्रवारुणीक नाम ॥ विशाला १

इन्द्रवारुणी २ ॥ १९६ ॥
-अशोघ्न* सुरणः कन्द -

सूरण अषात् अनीकन्द नाम ३ ॥
अशोघ्न १ सुरण २ कन्द ३ ॥

गण्डीरस्तु समष्टिला ॥

गंडरीक नाम २ ॥ गंडीर १
समष्टिला २ ॥

कलम्ब्यु-

कल्युआका नाम १ ॥ कलम्बी १ ॥
-पादिका-

पोईका नाम १ ॥ उपोदिका १ ॥
-स्त्री तु मूलक-

मूलीका नाम १ ॥ मूलक १ ॥
-हिलमोचिका ॥ १९७ ॥

हिम्साका नाम १ ॥ हिम्बोचिका १
॥ १९७ ॥

वास्तुर्क-

यथुएका नाम १ ॥ वास्तुक १ ॥
-आकमेदा* स्यु-

यह सब द्राक्के भेद कहे ॥
-ईर्वा तु गुठपरिष्का ॥

सहस्रवीयाभागव्यौ रुहा
ऽनन्ता-

दूषक नाम ६ ॥ दूषा १ दूष
परिष्का - सहस्रवीर्या ३ मागर्षा ४
रुहा ५ अमन्ता ६ ॥

-ऽय सा सिवा ॥ १९८ ॥
गोलोमी शतवीर्या च गण्डाली
शकुलाक्षक* ॥

उज्ज्वली दूषक नाम ४ ॥ १९८ ॥
गोलोमी १ शतवीर्या २ गण्डाली २
शकुलाक्षक ३ ॥

कुरुविन्दो भेषनामा मुस्ता
मुस्तकमस्त्रियाम् ॥ १५९ ॥

मोथाके नाम ४ ॥ कुरुविन्द १
भेषनामन् २ मुस्ता ३ मुस्तक ४ ॥
॥ १५९ ॥

रयाद्भद्रमुस्तकी गुन्द्रा-
नागरमोथाके नाम २ ॥ भद्रमुस्त-
क १ गुन्द्रा २ ॥

-चूडाला चक्रलोच्चटा ॥
मोथाविशेषके नाम ३ ॥ चूडाला
१ चक्रला २ उच्चटा ३ ॥

वंशे त्वक्सारकर्मारत्वचिसार-
तृणध्वजाः ॥ १६० ॥ शतपर्वा
यवफलो वेणुमस्करतेजनाः ॥

वाशके नाम १० ॥ वश १ त्व-
क्सार २ कर्मार २ त्वचिसार ४ तृणध्वज
५ ॥ १६० ॥ शतपर्वन् ६ यवफल ७
वेणु ८ मस्कर ९ तेजन १० ॥

वैणवः कीचकास्ते स्युर्ये स्वन-
न्त्यनिलोद्धताः ॥ १६१ ॥

जो छेदमें वायु जानेसे शब्द करने
लगे उन वांशोंका नाम १ ॥ कीचक
१ ॥ १६१ ॥

ग्रन्थिर्ना पर्वपरुषी-

गांठके नाम ३ ॥ ग्रन्थि १ पर्वन्
२ परुष ३ ॥

-गुन्द्रस्तेजनकः शरः ॥

शरके नाम ३ ॥ गुन्द्र १ तेज-
नक २ शर ३ ॥

नडस्तु धमनः पोटगलो-
नलके नाम ३ ॥ नड १ धमन २
पोटगल ३ ॥

-ऽथो काशमस्त्रियाम् ॥ १६२ ॥
इक्षुगन्धा पोटगलः-

काशके नाम ३ ॥ काश १ ॥ १६२ ॥
इक्षुगन्धा २ पोटगल ३ ॥

-पुंसि भूमि तु बल्वजाः ॥
वगईका नाम १ ॥ बल्वज १ ॥
रसाल इक्षु-

ऊख अर्थात् गन्नाकं नाम २ ॥
रसाल १ इक्षु २ ॥

-स्तद्देदाः पुण्ड्रकान्तारका
दयः ॥ १६३ ॥

पोंडा ऊखके नाम २ ॥ पुण्ड्र १
कान्तारक २ आदि ॥ १६३ ॥

स्याद्दीरणं वीरतरं-
गांडरेके नाम २ ॥ वीरण १
वीरतर २ ॥

-मूलेऽस्योशीरमस्त्रियाम् ॥
अभयं नलदं सेव्यममृणालं जला-
शयम् ॥ १६४ ॥ लामज्जकं

लघुलयमवदाहेष्टकापथे ॥

गांडरेकी जड अर्थात् खशके नाम
१ ॥ उशीर १ अभय २ नलद ३ सेव्य

४ अमृणाळ ५ जलाशय ६ ॥ ११४ ॥
 कामजक ७ लघुल्य ८ लब्धाह ९
 इष्टकापय १० ॥

नडादयस्त्वण गर्भुच्छद्यामाक-
 प्रमुखा अपि ॥ १६५ ॥

नडादि गर्भुत् श्यामाफलादिका
 नाम १ ॥ तृण १ ॥ १६५ ॥

असी कुश कुया दर्भ पवित्र-
 कुशक नाम ४ ॥ कुश १ कुय २
 दर्भ ३ पवित्र ४ ॥

-मय कर्तृणम् ॥

पौरसौगधिकध्यामदेवजग्ध
 फतौहिपम् ॥ १६६ ॥

रोहितके नाम ६ ॥ कर्तृण १ पौर २
 सौगन्धिक ३ ध्याम ४ देवजग्ध ५
 रौक्षिय ६ ॥ १६६ ॥

छत्रातिच्छत्रपालघ्नौ-

पानीके तृणके नाम ३ ॥ छत्रा १
 अतिच्छत्र २ पाळत्र ३ ॥

-मालातृणकभूस्त्वणे ॥

तृणश्लेषके नाम २ ॥ मालातृ
 णक १ भूस्त्वण २ ॥

क्षुण्य बालतृण-

मये तृणके नाम २ ॥ क्षुण्य १
 बालतृण २ ॥

-घासो मवस-

घासक नाम २ ॥ घास १ यवसर ॥
 -तृणमर्जुनम् ॥ १६७ ॥

तृणमात्रक नाम २ ॥ तृण १
 अर्जुन २ ॥ १६७ ॥

तृणानां संहतिस्त्वण्या-

तृणम्मूहका नाम १ ॥ तृण्या १ ॥
 -नडया तु नडसंहतिः ॥

नडोक समूहका नाम १ ॥ नडया १ ॥
 तृणराजाह्वयस्तालो-

ताडके नाम २ ॥ तृणराज १ ताड २ ॥
 -नालिकेरस्तु लाङ्गली १६८ ॥

नारियळक नाम २ ॥ नालिकेर १
 अंगली २ ॥ १६८ ॥

घोष्ठा तु पुगः क्रमुको गुवाका
 खपुरो-

सुपारीके नाम ५ ॥ घोष्ठा १ पूग
 २ क्रमुक ३ गुवाक ४ खपुर ५ ॥

-ऽस्य तु ॥ फलमुदेग-

सुपारीक फल्का नाम १ ॥
 उदेग १ ॥

-मेते च हिन्तालसाहितारुप'
 ॥ १६९ ॥ सर्जुरा केतकी ताली
 सर्जुरी च तृणतुमाः ॥

सर्जुरीके नाम ३ ॥ सर्जुर १ केतकी
 २ ताली ३ सर्जुरी शारेका तृणतुम
 नाम ६ ॥ १६९ ॥

इति वनोपधिषु ४ ॥

अथ सिंहादिवर्गः ५.

सिंहो मृगेन्द्रः पञ्चास्यो हर्यक्षः
केसरी हरिः ॥

सिंहके नाम ६ ॥ सिंह १ मृगेन्द्र २
पञ्चास्य ३ हर्यक्ष ४ केसरिन् ५ हरिः ६ ॥

शार्दूलद्वीपनौ व्याघ्रे-

वाघके नाम ३ ॥ शार्दूल १ द्वीपिन् २
व्याघ्र ३ ॥

-तरक्षुस्तु मृगादनः ॥ १ ॥

चीत्तेके नाम २ ॥ तरक्षु १ मृगादन
२ ॥ १ ॥

वराहः सूकरो घृष्टिः कोलः पोत्री
किरिः किटिः ॥ दंष्ट्री घोणी
स्तब्धरोमा क्रोडो भूदार इत्यपि २

सूअरके नाम १२ ॥ वराह १ सूकर
२ घृष्टि ३ कोल ४ पोत्रिन् ५ किरिः ६
किटि ७ दंष्ट्रिन् ८ घोणिन् ९ स्तब्ध-
रोमन् १० क्रोड ११ भूदार १२ ॥ २ ॥

कपिप्लवङ्गप्लवगशाखामृगवली-

मुखाः ॥ मर्कटो वानरः कीशो
वनौका-

वानरके नाम ९ ॥ कपि १ प्लवङ्ग २
प्लवग ३ शाखामृग ४ वलीमुख ५ मर्कट
६ वानर ७ कीश ८ वनौकस् ९ ॥

-अथ भल्लुके ॥ ३ ॥

ऋक्षाऽच्छभल्लभल्लका-

५

रीछके नाम ४ ॥ भल्लुक १ ॥ ३ ॥

ऋक्ष २ अच्छभल्ल ३ भल्लुक ४ ॥

-गण्डके खङ्गखङ्गिनौ ॥

गैडेके नाम ३ ॥ गण्डक १ खङ्ग २
खङ्गिन् ३ ॥

लुलायो महिपो वाहद्विषत्कासर-
सैरिभाः ॥ ४ ॥

मैसेके नाम ५ ॥ लुलाय १ महिष २
वाहद्विषत् ३ कासर ४ सैरिभ ५ ॥ ४ ॥

स्त्रियां शिवा भूरिमायगोमायुमृग-
धूर्तकाः ॥ शृगालवचकक्रोष्टुफे-
रुफेरवजम्बुकाः ॥ ५ ॥

सियार-गीदडके नाम १० ॥ शिवा
१ भूरिमाय २ गोमायु ३ मृगधूर्तक ४
शृगाल ५ वचक ६ क्रोष्टु ७ फेरु ८
फेरव ९ जम्बुक १० ॥ ५ ॥

ओतुर्विडालो मार्जारो वृषदंशक
आखुमुक्-

विलावके नाम ५ ॥ ओतु १ विडाल
२ मार्जार ३ वृषदंशक/४ आखुमुक् ५ ॥

त्रयो गौधेरगौधारगौधेया गो-
धिकात्मजे ॥ ६ ॥

चन्दनगोह (गुहेरा) अर्थात् यह
जन्तु काले सर्पसे गोहमें उत्पन्न होता
है उसके नाम ३ ॥ गौधेर १ गौधार
२ गौधेय ३ ॥ ६ ॥

श्रावित्तु शल्य-

साहीके नाम २॥प्राक्दि १ शस्य २॥

स्तछोन्नि शलली शललं शलमू॥

साहीके परोंके नाम १ ॥ शल्लि

१ शल्ल २ शल ३ ॥

वातप्रमीवातमृगं—

शीघ्रगामी मृगविशेषके नाम २ ॥

वातप्रमी १ वातमृग २ ॥

—कोकत्स्वीहामृगो वृकः ॥ ७ ॥

मन्थियेके नाम ३ ॥ कोक १ ईहा

मृग २ वृक ३ ॥ ७ ॥

मृगे कुत्रगवातायुहरिणाग्निनयो

नय* ॥

मृगके नाम १ ॥ मृग १ कुत्र २

वातायु ३ हरिण ४ अग्निनयो ५ ॥

प्रेण्यमेण्याश्चर्माद्य—

हरिणीके चर्म मांसादिका नाम १ ॥

प्रेण्य १ ॥

—मेणस्मैण—

हरिणके चर्म मांसादिका नाम १ ॥ मेण १ ॥

—मुभे प्रियु ॥ ८ ॥

प्रेण्य और एण ये शब्द तीनों

निर्गोमें हातेहैं ॥ ८ ॥

कन्दली कन्दली चीनश्चमूरुमि

पकावपि ॥ समूहमेति हरिणा

अमी अग्निनयोनय* ॥ ९ ॥

छिन् २ चीन ३ चमूर ४ प्रियक ५

समूह ६ हरिण ७ ॥ ९ ॥

कृष्णसाररुच्यहुरकुसुम्वररोहि

पा* ॥ गोकर्णपृषत्तैणश्मररोहिताम्ब-

मरो मृगा* ॥ १० ॥

तथा मृगोंके भेद १२ ॥ कृष्णसार

१ रुच २ न्यकु ३ रुकु ४ शम्बर ५

रोहिण ६ गोकर्ण ७ पृषत् ८ एण ९

शस्य १० रोहित ११ चमर १२ ॥ १० ॥

गन्धर्व* शरभो राम श्मरो

गवय* शश* ॥ इत्यादयो मृगे

न्द्राद्या गवाद्या* पशुजातयः ॥ ११ ॥

तथा मृगोंके भेद १२ ॥ गन्धर्व १

शरभ २ राम ३ श्मर ४ गवय ५ शश

६ इति प्रकार मृग आदि और सिंह

आदि तथा गौआदि पशुजाति कह

छाते हैं ॥ ११ ॥

चन्द्रुर्मुपकोप्यालु—

चूहेके नाम ३ ॥ चन्द्रु १ मूक २

आलु ३ ॥

—गिरिका बालमृपिका ॥

छोटी बुहियाके नाम २ ॥ गिरिका

१ बालमृपिका २ ॥

सरट* कृकलासः स्या—

गिरगटके नाम २ ॥ सरट १ कृक

लास २ ॥

न्मुमली मृदगोपिका ॥ १२ ॥

छपकलीके नाम २ ॥ मुसली १
गृहगोधिका २ ॥ १२ ॥

लूता स्त्री तन्तुवायोर्णनाभमर्कटकाः १
समाः ॥

मकडीके नाम ४ ॥ लूता १ तन्तुवाय
२ उर्णनाभ ३ मर्कटक ४ ॥

नीलगुस्तु कृमिः—

कीटविशेषके नाम २ ॥ नीलगु १ कृमि २ ॥

—कर्णजलौकाः शतपद्युभे ॥ १३ ॥

कानखजूरेके नाम २ ॥ कर्णजलौकस्
१ शतपदी २ ॥ १३ ॥

वृश्चिकः शूककीटः स्या—

ऊनी वस्त्रके खानेवाले कीड़ेके नाम
२ ॥ वृश्चिक १ शूककीट २ ॥

—दलिद्रोणौ तु वृश्चिके ॥

बीछूके नाम ३ ॥ अलि १ द्रोण २ वृश्चिक ३ ॥

पारावतः कलरवः कपोतो—

कवूतरके नाम ३ ॥ पारावत १
कलरव २ कपोत ३ ॥

—ऽथ शशादनः ॥ १४ ॥

पत्री श्येन—

बाजके नाम ३ ॥ शशादन १ ॥

॥ १४ ॥ पत्रिन् २ श्येन ३ ॥

—उलूकस्तु वायसारातिपेचकौ ॥

उलूके नाम ३ ॥ उलूक १ वायसा-
राति २ पेचक ३ ॥

व्याघ्राटः स्याद्भरद्वाजः—

भरद्वाज पक्षीके नाम २ ॥ व्याघ्राट

१ भरद्वाज २ ॥

खञ्जरीटस्तु खञ्जनः ॥ १५ ॥

खञ्जनके नाम २ ॥ खञ्जरीट १ ॥
खञ्जन २ ॥ १५ ॥

—लोहपृष्ठस्तु कङ्कः स्या—

कक पक्षीके नाम २ ॥ लोहपृष्ठ १ कक २ ॥

—दथ चाषः किकीदिविः ॥

नीलकण्ठके नाम २ ॥ चाष १
किकीदिवि २ ॥

कलिङ्गभृङ्गधूम्याटा—

मस्तकचूडपक्षीके नाम ३ ॥
कलिङ्ग १ भृङ्ग २ धूम्याटा ३ ॥

—अथ स्याच्छतपत्रकः ॥ १६ ॥

दार्वाघाटो—

खुटबढई पक्षीके नाम २ ॥ शतप-
त्रक १ ॥ १६ ॥ दार्वाघाट २ ॥

—ऽथ सारङ्गस्तोककश्चातकः
समाः ॥

पपीहा अर्थात् चातकके नाम ३ ॥
सारङ्ग १ तोकक २ चातक ३ ॥

कृकवाकुस्ताम्रचूडः कुक्कुटश्चर-
णायुधः ॥ १७ ॥

मुरगेके नाम ४ ॥ कृकवाकु १ ताम्र-
चूड २ कुक्कुट ३ चरणायुध ४ ॥ १७ ॥

घटक कलविहक स्या-

किरोटे (चिडे) क नाम २ ॥

घटक १ कलविक २ ॥

-घस्य स्त्री घटका-

विहयाका नाम १ ॥ घटका १ ॥

-वयोः ॥ प्रमपत्ये चाटकैर'-

इनके बघेका नाम १ ॥ चाटकैर १ ॥

रूपपत्ये घटकैव सा ॥ १८ ॥

इनक बघीका नाम १ ॥ चिटका १ ॥ १८ ॥

ककीरेट्टा कोट्टुः स्या-

एक प्रकारक अशुभ शब्द बरनेवाले

पक्षीके नाम २ ॥ ककीरेट्टु १ कोट्टु २ ॥

।-रुक्मणककरी समौ ॥

विडियाविशेकेके नाम २ ॥ रुक्मण १

ककर २ ॥

वनप्रियः परमृवः कोकिल-

पिक इत्यपि ॥ १९ ॥

कायकेके नाम ४ ॥ वनप्रिय १

परमृव २ कोकिल ३ पिक ४ ॥ १९ ॥

कोके तु करटारिष्टवलिपुष्टसकृ-

त्यमा ॥ ध्वाङ्मात्मघोषपरमृ-

वलिभ्रुवापसा अपि ॥ २० ॥

कौकेके नाम १ ॥ काक १ कट

१ करिष्ट ३ वलिपुष्ट ४ सकृत्यव ५

प्राष्ठ ६ भावयोष ७ परमृव ८

वलिभ्रु ९ भावस १० ॥ २० ॥

द्रोणकाफस्तु काकोलो-

बोम कौकेके नाम २ ॥ द्रोणकाफ १

काकाल २ ॥

-दात्पूइः कालकण्ठक ॥

काले कौकेके नाम २ ॥ दात्पूइ १

कालकण्ठक २ ॥

आतापिचिह्नौ-

चीह्नेके नाम २ ॥ आतापि १ चिह्न २ ॥

-दाक्षाम्यगृध्रौ-

गीषक नाम २ ॥ दाक्षाम्य १ गृध्र २ ॥

-कीरशुकौ-

तोटक नाम २ ॥ कीर १ शुक २ ॥

-समौ ॥ २१ ॥

आतापि और चिह्न, दाक्षाम्य और

गृध्र, तथा कीर और शुक शब्द समान

हैं ॥ २१ ॥

-शुक्लीश्वौ-

शुक्लीश्वीके नाम २ ॥ शुक्ली १ श्वी २ ॥

-ऽथ घक कक'-

बगुलेके नाम २ ॥ घक १ कक २ ॥

-पुष्करावस्तु सारस ॥

सारसके नाम २ ॥ पुष्कराव १ सारस २ ॥

कोकबकभकसाको रथाङ्गादय

नामक ॥ २३ ॥

बकई बकबाके नाम ३ ॥ कोक १

बक २ बकबाक ३ रथांग ४ ॥ २३ ॥

कादम्बः कलहंसः स्या-

वर्तक पक्षीके नाम २ ॥ कादम्ब

१ कलहस २ ॥

दुत्क्रोशकुररौ समौ ॥

कुररी पक्षीके नाम २ ॥ उत्क्रोश १ १ ॥ २६ ॥

कुरर २ ॥

हंसास्तु श्वेतगरुतश्चक्रांगा मा-
नसौकसः ॥ २३ ॥

हसके नाम ४ ॥ हस १ श्वेतगरुत
२ चक्रांग ३ मानसौकस ४ ॥ २३ ॥

राजहंसास्तु ते चञ्चुचरणै-
लोहितैः सिताः ॥

जिन हसोंकी चोंच और पैर लाल
हों और देह उज्ज्वल हो उन हसोंका
नाम १ ॥ राजहस १ ॥

मलिनैर्मल्लिकाक्षास्ते-

जिन हसोंके चरणादि मूले हों
उनका १ ॥ मल्लिकाक्ष १ ॥

धार्तराष्ट्राः सितेतरैः ॥ २४ ॥

जिनके चोंच और चरण काले हों उन
हसोंका नाम १ धार्तराष्ट्र १ ॥ २४ ॥

शरारिराटिराडिश्च-

आडी पक्षीके नाम ३ ॥ शरारि १
आटि २ आडि ३ ॥

-बलाका विसकण्ठिका ॥

बगुलेके दूसरी जातिके नाम २ ॥

बलाका १ विसकण्ठिका २ ॥

हंसस्य योषिद्वरटा-

हसनीका नाम १ ॥ वरटा १ ॥

-सारसस्य तु लक्ष्मणा ॥ २५ ॥

सारसकी स्त्रीका नाम १ ॥ लक्ष्मणा

१ ॥ २५ ॥

जतुकाऽजिनपत्रा स्या-

चिमगादरके नाम २ ॥ जतुका १

अजिनपत्रा २ ॥

त्परोष्णी तैलपायिका ॥

चपरा पक्षीके नाम २ ॥ परोष्णी

१ तैलपायिका २ ॥

वर्वणा मक्षिका नीला-

मक्खीके नाम ३ ॥ वर्वणा १

मक्षिका २ नीला ३ ॥

-सरघा मधुमक्षिका ॥ २६ ॥

शहदकी मक्खीके नाम २ ॥ सरघा

१ मधुमक्षिका २ ॥ २६ ॥

पताङ्गिका पुत्तिका स्या-

छोटी मधुमक्खीके नाम २ ॥

पतंगिका १ पुत्तिका २ ॥

दंशस्तु वनमक्षिका ॥

ढासके नाम २ ॥ दश १ वनमक्षिका २ ॥

दंशी तज्जातिरल्पा स्या-

छोटे ढासका नाम १ ॥ दशी १ ॥

-गन्धोली वरटा द्वयोः ॥ २७ ॥

गन्धोली मक्खीके नाम २ ॥ गन्धोली

१ वरटा २ ॥ २७ ॥

शृगारी शीरुका चीरी सिल्लि
का घ समा इमा ॥

शीरुके नाम ४ ॥ शृगारी १
शीरुका २ चीरी ३ सिल्लिका ४ ॥

समौ पतगशलभौ-

पतगके नाम २ ॥ पतंग १ शलम २ ॥

-खद्योतो ज्योतिरिगणा २८ ॥

जुगनु कोडेके नाम २ ॥ खद्योत

१ ज्योतिरिगण २ ॥ २८ ॥

मधुवतो मधुकरो मधुलिण्म

धुपालिन् ॥ द्विरेफपुष्यच्छिन्नुं

गपट्पदभ्रमराख्य ॥ २९ ॥

मधुकरेके नाम १ ॥ मधुवत १ मधु

कर २ मधुच्छिन्नु ३ मधुप ४ मलिन् ५

द्विरेफ ६ पुष्यच्छिन्नु ७ मङ्ग ८ पट्पद

९ भ्रमर १ मलि ११ ॥ २९ ॥

मयूरो बार्हिणो बर्हि नीलकण्ठो

मुजंगमुक् ॥ शिखाबलः शिखी

केकी मेघनादानुलास्मपि ॥ ३० ॥

मोरके नाम २ ॥ मयूर १ बार्हिण २

बार्हिन् ३ नीलकण्ठ ४ मुजंगमुक् ५

शिखाबल ६ शिखिन् ७ केकिन् ८

मेघनादानुलास्मिन् ९ ॥ ३० ॥

केका वाणी मयूरस्य-

मोरके शब्दका नाम १ ॥ केका १ ॥

-समौ चन्द्रकमचकौ ॥

मोरके परोपर चन्द्राकार धिक्के
नाम २ ॥ चन्द्रक १ मेचक २ ॥

शिखा घृडा-

मोरकी घोटीकेनाम २ ॥ शिखा १ घृडा २ ॥

-शिखण्डस्तु पिच्छयर्ह, नष्ट

सके ॥ ३१ ॥

मोरके परोके नाम ६ ॥ शिखण्ड १

पिच्छ २ यर्ह ३ ॥ ३१ ॥

खगे विहंगाविहगाविहगमविहा

यस ॥ शकुन्तिपाक्षिशकुनिशकुन्त

शकुनद्रिजा ॥ ३२ ॥ पतत्रिपत्रि-

पतगपतत्पत्ररयाण्डजा ॥ नगौ

कोवाजिविकिरविविष्किरपतत्रय

॥ ३३ ॥ नीबोद्गवा गरुत्मन्त

पित्तन्तो नमसंगमा ॥

पक्षीमात्रके नाम २७ ॥ खग १ शिग

२ शिखा ३ शिखाम ४ विहायस ५

शकुन्ति ६ पक्षिन् ७ शकुनि ८ शकुन्त

९ शकुम १० शिज ११ ॥ ३२ ॥

पतत्रिन् १२ पत्रिन् १३ पतग १४

पतत् १५ पत्ररय १६ शिखण्ड १७

नगौकम् १८ वाकिन् १९ विकिर २०

विकिर २१ विष्किर २२ पतत्रि २३ ॥

३३ ॥ नीबोद्गवा २४ गरुत्मन्त २५

पित्तत् २६ नमसंगम २७ ॥

तेषां विशेषा हारीतो मङ्ग

कारण्डव छवा ॥ ३४ ॥ तित्तिरि-

कुक्कुभो लावो जीवञ्जीवश्च
कोरकः ॥ कोयष्टिकाष्टिष्टिभको
वर्तको वर्तिकादयः ॥ ३५ ॥

पक्षियोंके भेद १३ ॥ हारीत १
मद्गु २ कारण्डव ३ पुत्र ४ ॥ ३४ ॥

तित्तिरि ५ कुक्कुभ ६ लाव ७ जीव-
जीव ८ चकोरक ९ कोयष्टिक १०
टिष्टिभक ११ वर्तक १२ वर्तिका १३
इत्यादि ॥ ३५ ॥

गरुत्पक्षच्छदाः पत्रं पतत्रं च
तनूरुहम् ॥

पक्षियोंके परोके नाम ६ ॥ गरुत् १
पक्षर छद ३ पत्र ४ पतत्र ५ तनूरुह ६ ॥

स्त्री पक्षतिः पक्षमूलं-

पक्षियोंके बाजूके नाम २ ॥
पक्षति १ पक्षमूल २ ॥

-चञ्चुस्त्रोटिरुभे स्त्रियौ ॥ ३६ ॥

चोंचके नाम २ ॥ चञ्चु १
त्रोटि २ ॥ ३६ ॥

प्रडीनोड्डीनसंडीनान्येताः खग
गतिक्रियाः ॥

पक्षियोंकी चालके भेद ३ ॥
प्रडीन १ उड्डीन २ सडीन ३ ॥

पेशी कोशो द्विहीनेण्डं-

अण्डेके नाम ३ ॥ पेशी १ कोश २
अण्ड ३ ॥

-कुलायो नीडमास्त्रियाम् ॥ ३७ ॥

पक्षियोंके घरके नाम २ ॥ कुलाय
१ नीड २ ॥ ३७ ॥

पोतः पाकोऽर्भको डिम्भः पृथु-
कः शावकः शिशुः ॥

पक्षीके वा साधारण बच्चेके
नाम ७ ॥ पोत १ः पाक २ अर्भक ३
डिम्भ ४ पृथुक ५ शावक ६ शिशु ७ ॥

स्त्रीपुंसौ मिथुनं द्वन्द्वं-

स्त्रीपुरुषके जोडेके नाम ३ ॥

स्त्रीपुस १ मिथुन २ द्वन्द्व ३ ॥

-युगं तु युगुलं युगम् ॥ ३८ ॥

जोडेके नाम ३ ॥ युग १ युगुल २
युग ३ ॥ ३८ ॥

समूहो निवहव्यूहसंदोहविसर-

ब्रजाः ॥ स्तोमौघनिकरव्रात-
वारसंघातसंचयाः ॥ ३९ ॥ समु-

दायः समुदयः समवायश्चयो

गणः ॥ स्त्रियां तु संहतिर्वृन्दं

निकुरम्बं कदम्बकम् ॥ ४० ॥

समूहके नाम २२ ॥ समूह १

निवह २ व्यूह ३ सन्दोह ४ विसर ५

ब्रज ६ स्तोम ७ ओघ ८ निकर ९

व्रात १० वार ११ संघात १२

सचय १३ ॥ ३९ ॥ समुदाय १४

समुदय १५ समवाय १६ चय १७

गण १८ संहति १९ वृन्द २० नि-
कुरम्ब २१ कदम्बक २२ ॥ ४० ॥

वृन्दभेदा -

अथ समूहोंके भेद कहतहैं ॥

-समैवर्ग-

जीव अजीव एकही जातिके
समूहका नाम १ ॥ वग १ ॥

-सघसार्यो तु जन्तुभिः ॥

कवच प्राणियोंके समूहके नाम २ ॥
सव १ सार्य २ ॥

सजातीयैः कुल-

एक जातिके ही प्राणियोंके
समूहका नाम १ ॥ कुल १ ॥

-यूय तिरस्वां पुनर्पुंसकम् ॥४१॥

पक्षियोंके समूहका नाम १ ॥
यूय १ ॥ ४१ ॥

पशूनां समजो-

पशुओंके समूहका नाम १ ॥ समज १ ॥

-ऽप्येषां समाजो-

पक्षी और पशुओंसे दूसरोंके
समूहका नाम १ ॥ समाज १ ॥

-ऽथ सधर्मिणाम् ॥

स्माभिकाष-

एकधर्मिणियोंके समूहका नाम १ ॥
निकाष १ ॥

-पुञ्जराशी तुकर फुटम-
स्त्रियाम् ॥ ४२ ॥

असादिके ऊचे ढेरके नाम ४ ॥
पुञ्ज १ राशी २ तुकर ३ फुट ४ ॥ ४२ ॥

कापोतशीकमायूरतीक्ष्णरादीनि
वद्गणे ॥

(क्यूतरोंके समूहका नाम) कापोता ॥
(तीतोंके समूहका नाम) शीक ॥

(मयूरोंके समूहका नाम) मायूरा (तीत-
रोंके समूहका नाम) तीक्ष्ण इत्यादि ॥

गृहासक्ताः पक्षिभ्युगाश्चेकास्ते
गृह्यकाश्च ते ॥ ४३ ॥

घरके पाछेहुए मृगपक्षी आदिके
नाम २ ॥ छेक १ गृह्यक २ ॥ ४३ ॥

इति सिंहादिर्नाम ॥ ५ ॥

अथ मनुष्यवर्गः ६

मनुष्या मानुषा मर्त्या मनुजा
मानवा नराः ॥

मनुष्यमात्रक नाम ६ ॥ मनुष्य १
मानुष २ मर्त्य ३ मनुज ४ मानव ५
नर ६ ॥

स्यु पुमांस पञ्चमना पुरुषा
पुरुषा नर ॥ १ ॥

मनुष्यभक्तिपुरुषके नाम ५ ॥ पुंस्
१ पञ्चमन २ पुरुष ३ पूरुष ४
वृ ५ ॥ १ ॥

स्त्री धोपिद्वला योषा नारी
सीमतिनी वयू ॥ प्रतीपदर्शिनी

वामावनिता महिला तथा ॥ २ ॥
स्त्रीके नाम १ १ ॥ स्त्री १ धोपि २

अवका ३ योषा ४ नारी ५ सीमतिनी ६

वधू ७ प्रतीपदर्शिनी ८ वामाएवनिता
१० महिला ११ ॥ २ ॥

विशेषा-

स्त्रियोंके विशेषभेद कहते हैं ॥

-स्त्वङ्गना भीरुः कामिनी

वामलोचना ॥ प्रमदा मानिनी
कान्ता ललना च नितम्बिनी
॥ ३ ॥ सुन्दरी रमणी रामा-

अच्छे अगोंवाली स्त्रीका नाम १ ॥

अगना १ ॥ डरभूत स्त्रीका नाम १ ॥

भीरु १ ॥ कामयुतस्त्रीका नाम १ ॥

कामिनी १ ॥ सुन्दरनेत्रोंवाली स्त्रीका

नाम १ ॥ वामलोचना १ ॥ बहुतकामवती

स्त्रीका नाम १ ॥ प्रमदा १ ॥ प्रणयको-

पवाली स्त्रीका नाम १ ॥ मानिनी १ ॥

मन हरनेवाली स्त्रीका नाम १ ॥ कान्ता

१ ॥ दुलारी स्त्रीके नाम २ ॥ ललना १

नितम्बिनी २ ॥ ३ ॥ सुन्दरअगोंवाली

स्त्रीका नाम १ ॥ सुन्दर अङ्गोंवाली

स्त्रीकेनाम सुन्दरी १ ॥ जिसमें

अतिचित्त रमित हो उस स्त्रीका नाम १ ॥

रमणी १ ॥ विहारके योग्य स्त्रीका

नाम १ ॥ रामा १ ॥

-कोपना सैव भामिनी ॥

कोपवाली स्त्रीके नाम २ ॥ कोपना १
भामिनी २ ॥

वरारोहा मत्तकाशिन्युत्तमा
वरवर्णिनी ॥ ४ ॥

बहुत ही उत्तम स्त्रीके नाम ४ ॥
वरारोहा १ मत्तकाशिनी २ उत्तमा ३
वरवर्णिनी ४ ॥ ४ ॥

कृताभिषेका महिषी-

जिस रानीका अभिषेक हुआ हो
उसका नाम १ ॥ महिषी १ ॥

-भोगिन्योऽन्या नृपस्त्रियः ॥

महिषीको छोड़ राजाकी अन्यस्त्रि-
योंका नाम १ ॥ भोगिनी १ ॥

पत्नी पाणिगृहीती च द्वितीया
सहधर्मिणी ॥ ५ ॥ भार्या जा-
याय पुंभूमि दाराः-

व्याहीहुई स्त्रीके नाम ७ ॥ पत्नी १
पाणिगृहीती २ द्वितीया ३ सहधर्मिणी
४ ॥ ५ ॥ भार्या ५ जाया ६ दारा पु० व० ७ ॥

स्यात्तु कुटुम्बिनी ॥

पुरन्ध्री-

जिस स्त्रीके पतिपुत्र दोनों विद्य-
मानहों उसके नाम २ ॥ कुटुम्बिनी १
पुरन्ध्री २ ॥

**-सुचरित्रा तु सती साध्वी
पतिव्रता ॥ ६ ॥**

पतिव्रता स्त्रीके नाम ४ ॥ सुचरित्रा १
सती २ साध्वी ३ पतिव्रता ४ ॥ ६ ॥

कृतसापत्निकाध्यूढाधिविन्ना-

जिसके बहुतसी स्त्रिया हो उनमें
जो प्रथम व्याही गई हो उसके नाम ३ ॥

हस्तापत्निका १ अघ्यूडा २ अधि
क्विका ३ ॥

-ऽय स्वयंवरा ॥

पतिवरा च वर्याय-

जो अपने आप स्वयवरादिमें पति
की इच्छा करे उस स्त्रीके नाम ३ ॥

स्वयवरा १ पतिवरा २ वर्या ३ ॥

-कुलस्त्री कुलपालिका ॥ ७ ॥

कुलवती स्त्रीके नाम २ ॥ कुल
स्त्री १ कुलपालिका २ ॥ ७ ॥

कन्या कुमारी-

पांच वर्षकी कन्याके नाम २ ॥

कन्या १ कुमारी २ ॥

-गौरी तु नमिकाऽनागतार्तवा ॥

दशवर्षकी कन्याके नाम ३ ॥ गौरी
१ नमिका २ अनागतार्तवा ३ ॥

स्यान्मध्यमा दृष्टरजा-

त्रिस्रो रजोधर्म होजाय उस
स्त्रीका नाम १ ॥ मध्यमा १ ॥

-स्तरुणी युवति समे ॥ ८ ॥

युवास्त्रीके नाम २ ॥ तरुणी १
युवता २ ॥ ८ ॥

समास्तुपाजनीविध्व-

बहू (पुत्रबधू) के नाम ३ ॥
स्तुपा १ जनी २ बधू ३ ॥

-क्षिरप्टी तु सुवाग्निनी ॥

जो कि किंचित् पुत्रबध्याका प्राप्त
प्याही इह निवसिताक परमें रहनी हो

उस स्त्रीके नाम २ ॥ क्षिरप्टी १ ॥
सुवाग्निनी २ ॥

इच्छावती कामुका स्या-

जो धनादिकी इच्छा करती हो उस
स्त्रीके नाम २ ॥ इच्छावती १ कामुका २ ॥

-वृपस्यन्ती तु कामुकी ॥ ९ ॥

मयुनकी इच्छाकरनेवासी स्त्रीक
नाम २ ॥ वृपस्यन्ती १ कामुकी २ ॥ ९ ॥

कान्तार्थिनी तु या याति सके-
त साऽमिसारिका ॥

जो पतिकी इच्छाकर कामार्थ हो
सकेत स्थानको जाये उस स्त्रीका नाम

१ ॥ अमिसारिका १ ॥

पुंसली घर्षिणी धन्वन्वसती
कुलदेवरी ॥ १० ॥ स्वैरिणी पां

शुला च स्या-

ध्वमिधारिणी स्त्रीके नाम ८ ॥
पुंसली १ घर्षिणी २ धन्वकी ३ वसती

४ कुलदेवरी ५ श्वरी ६ ॥ १० ॥ स्वैरिणी
७ पाशुला ८ ॥

-दशिंश्वी क्षिशुना विना ॥

विनपुत्रवासी स्त्रीका नाम १ ॥
दशिंश्वी १ ॥

अवीरा निष्पतिमुठा-

जिसके पतिपुत्र न हों उस स्त्रीका
नाम १ ॥ अवीरा १ ॥

-विश्वस्ताविधवे समे ॥ ११ ॥

विश्व स्त्रीक नाम २ ॥ विश्वस्ता १
विधवा २ ॥ ११ ॥

आलिः सखी वयस्याथ—
सखी वा साथके खेलनेवाली स्त्रीके
नाम ३॥ आलि १ संखी २ वयस्यो ३॥

—पतिवल्नी समर्तुका ॥

जिस स्त्रीका पति जीता हो उसके
नाम २॥ पतिवल्नी १ समर्तुका २ ॥

वृद्धा पलिक्री—

वृद्धी स्त्रीके नाम २॥ वृद्धा १ पलिक्री २॥

—प्राज्ञी तु प्रज्ञा—

कुछ कुछ समझदार स्त्रीके नाम २॥
प्राज्ञी १ प्रज्ञा २ ॥

—प्राज्ञा तु धीमती ॥ १२ ॥

अतिबुद्धिमती स्त्रीके नाम २॥ प्राज्ञा
१ धीमती २ ॥ १२ ॥

शूद्री शूद्रस्य भार्या स्या—

चाहे अन्य जातिभी हो पर शूद्रकी
स्त्री हो उस स्त्रीका नाम १॥ शूद्री १॥

—च्छूद्रा तज्जातिरेव च ॥

शूद्रजातिका नाम १ ॥ शूद्रा १॥
आभीरी तु महाशूद्री जातिपुंयो-
गयोः समा ॥ १३ ॥

अहिरनिके नाम २ ॥ आभीरी १
महाशूद्री २ ॥ १३ ॥

अर्याणी स्वयमर्या स्या—

बनैनीके नाम २॥ अर्याणी १ अर्या २॥

त्क्षत्रिया क्षात्रियाण्यपि ॥

क्षत्रियानीके नाम २ ॥ क्षत्रिया १
क्षत्रियाणी २ ॥

उप अध्यायाप्युपाध्यायी—

पढितानीके नाम २ ॥ उपाध्याया
१ उपाध्यायी २ ॥

—स्यादाचार्यापि च स्वतः ॥ १४ ॥

जो अपने आप मत्रोके अर्थ कहस
के उसका नाम १॥ आचार्या १॥ १४॥

आचार्यानी तु पुंयोगे—

चाहे मंत्रादिकी व्याख्या न करसके
पर आचार्यकी स्त्री हो उसका नाम १॥
आचार्यानी १ ॥

—स्यादर्या—

तैसेही अर्य (वैश्य) की स्त्रीका
नाम १॥ अर्या १ ॥

—क्षत्रियी तथा ॥

क्षत्रियकी स्त्रीका नाम १॥ क्षत्रियी १॥

उपाध्यायान्युपाध्यायी—

पढानेवालेकी स्त्रीके इसी प्रकारके
नाम २॥ उपाध्यायनी १ उपाध्यायी २॥

—पोटा स्त्री पुंसलक्षणा ॥ १५ ॥

ढाढीमूछ आदियुक्त स्त्रीका नाम १॥
पोटा १ ॥ १५ ॥

वीरपत्नी वीरभार्या—

वीरकी स्त्रीके नाम २॥ वीरपत्नी १
वीरभार्या २ ॥

—धीरमार्ता तु वीरसू ॥

धीरकी माताके नाम २ ॥ धीरमातृ

१ वीरसू २ ॥

जातापत्या प्रजाता च प्रसूता च
प्रसूतिका ॥ १६ ॥

जिसके बाळक पैदा हुआ हो उस
कीके नाम ४ ॥ जातापत्या १ प्रजाता
२ प्रसूता ३ प्रसूतिका ४ ॥ १६ ॥

स्त्री नामिका कोटवी स्या-
नगी स्त्रीके नाम २ ॥ नामिका १ कोटवी २

—इदूती सचारिके समे ॥

दूतिके नाम २ ॥ इदूती १ सचारिका २ ॥

कात्यायन्यर्षबुद्धा या कापायनस
नाश्रवा ॥ १७ ॥

गेह आदिसे रंगे हुए वस्त्र पहननेवाली
बुद्ध बुद्ध विवशा स्त्रीके नाम १ ॥

कात्यायनी १ ॥ १७ ॥

सैरन्धी परवेशमस्या स्ववशा
क्षिल्पकारिका ॥

अपनी इच्छाके अनुसार पराय गृह
में रहकर शिष्यकार्य करनेवाली स्त्रीके
नाम १ ॥ सैरन्धी १ ॥

असिक्री स्यादधृद्धा या मेप्यान्तः
पुरचारिणी ॥ १८ ॥

घरके भीतर सेना आदि काय करने वा
वीरानामकी कामना २ ॥ असिक्री १ ॥ १८ ॥

वारस्त्री गणिका वेद्या रूपा
जीवा-

वेद्याके नाम ४ ॥ वारस्त्री १
गणिका २ वेद्या ३ रूपाजीवा ४ ॥

—ऽय सा अनै ॥

सत्कृष्ठा वारमुत्स्या स्या-

जिसका पुरुष अधिक सम्कार करे
भर्यात् समने क्षेत्र वेद्याका नाम १ ॥
वारमुत्स्या १ ॥

—कुट्टनी शम्भली समे ॥ १९ ॥

कुट्टनीके नाम २ ॥ कुट्टनी १ ॥

शम्भली २ ॥ १९ ॥

विप्रश्रिका त्वीसणिका दैवज्ञा-
सामुद्रिक आदि शास्त्रानुसार छ्छण

जानकर शुभाशुभ फल कहनेवाली स्त्री
के नाम ३ ॥ विप्रश्रिका १ श्रुश्रिका २
दैवज्ञा ३ ॥

—ऽय रजस्वला ॥

स्त्रीधर्मिण्यविरात्रेयी मलिनी
पुष्पवत्सपि ॥ २० ॥ ऋतुमत्य
प्युत्कस्यापि-

रजस्वला स्त्रीके नाम ८ ॥ रजस्वला १
स्त्रीधर्मिणी २ अत्रि ३ आत्रेयी ४ मलिनी ५
पुष्पवती ६ ॥ २ ॥ ऋतुमती ७ उदक्या ८ ॥

—स्याद्रजः पुष्पमातनम् ॥

स्त्रीके मासिक रजोधर्मके नाम ३ ॥
रजस् १ पुष्प २ आतन ३ ॥

श्रद्धालुदोहदवती-

गर्भके समय अनेकप्रकारकी इच्छा करनेवाली स्त्रीके नाम २ ॥ श्रद्धालु १ दोहदवती २ ॥

-निष्कला विगतार्तवा ॥२१॥

रजोहीन स्त्रीके नाम २ ॥ निष्कला १ विगतार्तवा २ ॥ २१ ॥

आपन्नसत्त्वा स्याद्गुर्विण्यन्त-
र्वत्नी च गर्भिणी ॥

गर्भवाली स्त्रीके नाम ४ ॥ आप-
न्नसत्त्वा १ गुर्विणी २ अन्तर्वत्नी ३
गर्भिणी ४ ॥

गणिकादेस्तु गाणिक्यं गा-
भिणं यौवतं गणे ॥ २२ ॥

वेश्याओंके समूहका नाम १ ॥ गाणि-
क्य १ ॥ गर्भिणियोंके समूहका नाम
१ ॥ गर्भिण १ ॥ युवतियोंके समू-
हका नाम १ ॥ यौवत १ ॥ २२ ॥

पुनर्भूदिधिषूरूढा द्वि-

जिस स्त्रीका विवाहसंस्कार द्वितीय-
वार हो उस स्त्रीके नाम २ ॥ पुनर्भू
१ दिधिषू २ ॥

-स्तस्या दिधिषुः पतिः ॥

उसके पतिकका नाम १ ॥ दिधिषु १ ॥

स तु द्विजोऽग्नेदिधिषुः सैव

यस्य कुटुम्बिनी ॥ २३ ॥

जिसका द्वितीयवार विवाह संस्कार

हो वह स्त्री थीर उसका पति उन
दोनोंसे उत्पन्न बालकका नाम १ ॥

अग्नेदिधिषु १ ॥ २३ ॥

कानीनः कन्यकाजातः सुतो-

कन्यासे उत्पन्न हुए पुत्रके नाम २ ॥

कानीन १ कन्यकाजात २ ॥

-ऽथ सुभगासुतः ॥

सौभागिनेयः-

सौभाग्यवती स्त्रीके पुत्रके नाम २ ॥

सुभगासुत १ सौभागिनेय २ ॥

-स्यात्पारस्त्रैणेयस्तु परस्त्रिया २४ ॥

परस्त्रीके पुत्रका नाम १ ॥ पार-
स्त्रैणेय १ ॥ २४ ॥

पैतृष्वसेयः स्यात्पैतृष्वस्त्रीयश्च

पितृष्वसुः ॥ सुतो-

पिताकी बहन अर्थात् भूवाके
पुत्रके नाम २ ॥ पैतृष्वसेय १ पैतृष्व-
स्त्रीय २ ॥

-मातृष्वसुश्चैवं-

मातृकीके पुत्रके नाम २ ॥ मातृ-
ष्वसेय १ मातृष्वस्त्रीय २ ॥

-वैमात्रेयो विमातृजः ॥ २५ ॥

सौतेले भाईके नाम २ ॥ वैमात्रेय
१ विमातृज २ ॥ २५ ॥

अथ बान्धकिनेयः स्याद्बन्धु-
लश्चासतीसुतः ॥ कौलटेरः कौ-
लटेयो-

कुलटाके पुत्रक नाम ९ ॥
 भान्वक्त्रिनेय १ घन्धुल २ असतीसुत
 ३ कौलटेर ४ कौलटेय ५ ॥

—मिधुकी तु सती यदि ॥२६॥
 सदा कौलटिनेयोऽस्या* कौल
 टेयोऽपि, चात्मज* ॥

ओ सती मिश्राकं निमित्त धरोमे
 फिरे ॥ २६ ॥ उसके पुत्रक नाम २ ॥
 कौलटिनेय १ कौलटेय २ ॥

—आत्मजस्तनयः सन्तुः सुत* पुत्र
 पुत्रके नाम ६ ॥ आत्मज १ तनय
 २ सन्तु ३ सुत ४ पुत्र ५ ॥

—स्त्रियां त्वमी ॥ २७ ॥
 आहुर्दुहितरं सर्वे—
 जो पुत्रक नाम स्त्रीस्त्रिगमें हो तो
 पुत्रीक नाम हो जातेहैं ॥ २७ ॥

—ऽपत्य लोकं तयो* समे ॥
 पुत्र पुत्री साधारणका नाम २ ॥
 अपत्य १ लोक २ ॥

स्वभावे त्वीरसोरस्यौ—
 सगपुत्रे नाम २ ॥ बीरस १
 टरस्य २ ॥

—सातस्तु जनकः पिता ॥२८॥
 पिताक नाम ३ ॥ सात १ जनक २
 विदु ३ ॥ २८ ॥

जनपित्री प्रसूमाता जननी—
 माता नाम ८ ॥ जनपित्री १
 प्रसू २ माता ३ जननी ४

—भगिनी स्वसा ॥

बहिनक नाम २ ॥ भगिनी १
 स्वसृ २ ॥

ननान्दा तु स्वसा पत्यु—

ननदका नाम १ ॥ ननान्द १ ॥

—नैष्ठी पौत्री सुतात्मजा २९ ॥

नास्तिकिक नाम ३ ॥ नैष्ठी १
 पौत्री २ सुतात्मजा ३ ॥ २९ ॥

भायोस्तु भ्रातृवर्गस्य यावरः
 स्यु* परस्परम् ॥

भापसमें भ्रातृवर्गकी लियोंका नाम
 १ ॥ यातृ १ ॥

प्रजावती भ्रातृजाया—
 मौमाईके नाम २ ॥ प्रजावती १

भ्रातृजाया २ ॥
 मातुलानी तु मातुली ॥३०॥

मामीके नाम २ ॥ मातुलानी १
 मातुली २ ॥ ३० ॥

पतिपत्न्योः प्रसूः श्वश्रुः—
 पति भीर स्त्रीको माताका नाम
 १ ॥ श्वश्रु १ ॥

—श्वशुरस्तु पिता तयो* ॥
 पति भीर स्त्रीक पिताका नाम १ ॥
 श्वशुर १ ॥

पितुभ्राता पितृव्य* स्या—
 चाचा या ताऊका नाम १ ॥ पितृव्य १ ॥
 —मातुभ्राता तु मातुल ॥३१॥

मामाके नाम २ ॥ मातुर्भ्रातृ १ ॥
मातुल २ ॥ ३१ ॥

श्यालाः स्युर्भ्रातरः पत्न्याः—
शालेका नाम १ ॥ श्याल १ ॥
—स्वामिनो देवृदेवरौ ॥

देवरके नाम २ ॥ देवृ १ देवर २ ॥
स्वस्त्रीयो भागिनेयः स्या—
भानजेके नाम २ ॥ स्वस्त्रीय १
भागिनेय २ ॥

—जामाता दुहितुः पतिः ॥ ३२ ॥
जमाईके नाम २ ॥ जामातृ १
दुहितुःपति २ ॥ ३२ ॥

पितामहः पितृपिता—
दादाके नाम २ ॥ पितामह १ ॥
पितृपितृ २ ॥

—तत्पिता प्रपितामहः ॥
परदादाका नाम १ ॥ प्रपितामह १ ॥
मातुर्मातामहाद्येवं—

इसी प्रकार (नानाका नाम) माता-
मह (परनानाका नाम) प्रमातामह ॥
—सपिण्डास्तु सनाभयः ॥ ३३ ॥

सपिण्डके नाम २ ॥ सपिण्ड १
सनाभि २ ॥ ३३ ॥
समानोदर्यसोदर्यसगर्भ्यसहजाः
समाः ॥

सगेभाईके नाम ४ ॥ समानोदर्य १
सोदर्य २ सगर्भ्य ३ सहज ४ ॥

सगोत्रवान्धवज्ञातिबन्धुस्वस्व-
जनाः समाः ॥ ३४ ॥

एक गोत्रवाल्लोके अर्थात् समगोत्रि-
योके नाम ६ ॥ सगोत्र १ बान्धव २
ज्ञाति ३ बन्धु ४ स्व६स्वजन ६ ॥ ३४ ॥

ज्ञातेयं बन्धुता तेषां क्रमाद्भा-
वसमूहयोः ॥

विरादरीके भावका नाम १ ॥ ज्ञातेय
१ ॥ परिवारके समूहका नाम १ ॥
बन्धुता १ ॥

धवः प्रियः पतिर्भर्ता—
पतिके नाम ४ ॥ धव १ प्रिय २
पति ३ भर्तृ ४ ॥

—जारस्तूपपतिः समौ ॥ ३५ ॥
जिसके साथ व्याही हो उससे अ-
न्यसे मैथुन करती हो तो उस पतिके
नाम २ ॥ जार १ उपपति २ ॥ ३५ ॥

अमृते जारजः कुण्डो—
अपने पतिके जीतेही अन्य पतिसे
जो पुत्र हो उसका नाम १ ॥ कुण्ड १ ॥

—मृते भर्तारि गोलकः ॥
जो पतिके मरनेपर अन्य पतिसे उत्प-
न्नहो उसका नाम १ ॥ गोलक १ ॥

भात्रीयो भ्रातृजो—
भतीजेके नाम २ ॥ भ्रात्रीय १
भ्रातृज २ ॥

—भ्रातृभगिन्त्यौ भ्रातराबुभौ ॥ ३६ ॥

बहिनभर्षके नाम २ ॥ भ्रातृमरिणी
(न्यो) १ भ्रातृ (तरो) २ ॥ ३६ ॥

मातापितरौ पितरौ मातर
पितरौ प्रसूजनपितरौ ॥

जहां मातापिताको साथ ही कइना
हो उसके नाम ४ ॥ मातापितृ (तरो)
१ पितृ (तरो) २ मातरपितृ (तरो)
३ प्रसूजनपितृ (तरो) ४ ॥

शश्रूषशुरौ शशुरौ-
ऐसेही सामुससुरके नाम २ ॥
शश्रूषशुर (रौ) १ शशुर (रौ) २ ॥

-पुत्रौ पुत्रश्च दुहित्वा च ३७ ॥
इसी प्रकार कन्यापुत्रका नाम १ ॥
पुत्र (प्रो) १ ॥ ३७ ॥

दपती जपती जायापती मा
यापती च षौ ॥

श्रीपुरुषरु इच्छे नाम ४ ॥ दम्पति
(ती) १ जम्पति (ती) २ जायापति
(ती) २ मायापति (ती) २ ॥

गमाशयो जरायुं स्या-
गर्मस्थानके नाम २ ॥ गर्माशय १
जरायु २ ॥

-दुह्य च कललोडखियाम् ॥ ३८ ॥
गर्मस्थानके नाम २ ॥ उल्ल १
कल्ल २ ॥ ३८ ॥

सतिमासो वैजननो-
गम रहनम गर्भमें वा दसमें मास

नाम जिसमें बालक पैदा होता है २ ॥
सतिमास १ वैजनन २ ॥

-गर्भो भ्रूण इमौ समौ ॥
गर्भके नाम २ ॥ गर्भ १ भ्रूण २ ॥
तृतीयाप्रकृतिः पण्डु ह्रीवा
पण्डो नपुंसके ॥ ३९ ॥

हीमडेके नाम १ ॥ तृतीयाप्रकृति
१ पण्ड २ ह्रीव ३ पण्ड ४ नपुंसक
१ ॥ ३९ ॥

शिशुत्व शैशव वाल्यं-
बालक्यनके नाम ३ ॥ शिशुत्व १
शैशव २ वाल्य ३ ॥

-तारुण्यं यौवनं समे ॥
जवानीके नाम २ ॥ तारुण्य १
यौवन ३ ॥

स्यात्स्याविरं तु वृद्धत्व-
बुढ़ापेके नाम २ ॥ स्याविर १
वृद्धत्व २ ॥

-वृद्धसंधेऽपि वार्धकम् ॥ ४० ॥
बुढ़ोंके समूहका नाम १ ॥ वार्धक
१ ॥ ४० ॥

पठितं जरसा शौक्ल्य केशादौ
भक्तियुद्धापने कसा आधिक्यमें जरा
करके जो सफदी भावी है उसका

नाम १ ॥ पठित १ ॥
-विक्षता जरा ॥
बुढ़ाईके नाम २ ॥ विक्षता १ जरा २ ॥

स्यादुत्तानगया दिम्भा स्तन
पा घ स्तनन्धर्या ॥ ४१ ॥

दूधपिई छोटी लडकीके नाम ४ ॥

उत्तानशया १ डिम्भा २ स्तनपा ३
स्तनन्धयी ४ ॥ ४१ ॥

वालस्तु स्यान्माणवको-

सोलह वर्षपर्यन्त लडकेके नाम २ ॥

वाल १ माणवक २ ॥

-वयःस्थस्तरुणो युवा ॥

जवानपुरुषके नाम ३ ॥ वयःस्थ १

तरुण २ युवन् ३ ॥

प्रवयाः स्थविरो वृद्धो जीनो
जीर्णो जरत्नापि ॥ ४२ ॥

वृढेके नाम ६ ॥ प्रवयस् १

स्थविर २ वृद्ध ३ जीन ४ जीर्ण ५

जरत् ६ ॥ ४२ ॥

वर्षीयान्दशमी ज्याया-

अतिवृढेके नाम ३ ॥ वर्षीयस् १

दशमिन् २ ज्यायस् ३ ॥

-पूर्वजस्त्वग्रियोऽग्रजः ॥

ज्येष्ठभाईके नाम ३ ॥ पूर्वज १

अग्रिय २ अग्रज ३ ॥

जघन्यजे स्युः कनिष्ठयवीयोव-
रजानुजाः ॥ ४३ ॥

छोटे भाईके नाम ५ ॥ जघन्यज १

कनिष्ठ २ यवीयस् ३ अवरज ४

अनुज ५ ॥ ४३ ॥

अमांसो दुर्बलश्छातो-

दुबलेके नाम ३ ॥ अमांस १

दुबल २ छात ३ ॥

बलवान्मांसलोऽसलः ॥

बलवान्के नाम ३ ॥ बलवत् १
मासल २ असल ३ ॥

तुन्दिलस्तुन्दिभस्तुन्दीवृहत्कुक्षिः
पिचण्डिलः ॥ ४४ ॥

बडे पेटवालेके नाम ५ ॥ तुन्दिल १
तुन्दिभ २ तुन्दिन् ३ वृहत्कुक्षि ४
पिचण्डिल ५ ॥ ४४ ॥

अवटीटोऽवनाटश्चाऽवभ्रटो नत-
नासिके ॥

चपटी नाकवालेके नाम ३ ॥ अव-

टीट १ अवनाट २ अवभ्रट ३ ॥

केशवः केशिकः केशी-

अच्छे बालवालेके नाम ३ ॥ केशव १
केशिक २ केशिन् ३ ॥

वालिनो बालिभः समौ ॥ ४५ ॥

जिसकी बुढापेके मारे खाल सिकुरगई
हो उसके नाम २ ॥ बालिन १
बालिभ २ ॥ ४५ ॥

विकलाङ्गस्त्वपोगण्डः-

जिसका अपनेहीसे कोई अंग अधिक
वा कम हो उसके नाम २ ॥ विक-
लाग १ अपोगण्ड २ ॥

खर्वो ह्रस्वश्च वामनः ॥

वौनेके नाम ३ ॥ खर्व १ ह्रस्व २
वामन ३ ॥

खरणाः स्यात्खरणसो-

जिसकी तीधी नाकहो उसके
नाम २ ॥ खरणस् १ खरणस २ ॥

विमस्तु गतनासिक' ॥ ४६ ॥

नक्केके नाम २ ॥ विम १ गतना
सिकर ॥ ४६ ॥

खुरणा' स्यात्खुरणस'-

जिसकी पशुके खुरकी सख
नासिका हो उसके नाम २ ॥ खुरणस् १
१ खुरणस २ ॥

प्रभु' प्रगतजानुक' ॥

बात आदिरोगसे जिसके घुटने बहुत
दूर २ हागए हों उसके नाम २ ॥

प्रभु १ प्रगतजानुक २ ॥

ऊर्ध्वगुर्ध्वजानु' स्या-

जिसके घुटने ऊँचे हों उसके नाम २
ऊर्ध्वगु १ ऊर्ध्वजानु २ ॥

-त्संगु संहतजानुक' ॥ ४७ ॥

जिसके घुटने निड हुए हों उसके
नाम २ ॥ त्संगु १ संहतजानुक २ ॥ ४७ ॥

स्यादिड बधिर'-

बधिरके नाम २ ॥ दिड १ बधिर २ ॥

-कुम्भे गडुल -

कुम्भके नाम २ ॥ कुम्भ १ गडुल २ ॥

-कुम्भे कुणि ॥

जिगर हाथमें रोगादिसे कुठ भि-
कार हो उराननाम २ ॥ कुम्भ १ कुणि २ ॥

पृथ्निगल्पना'-

जिसका बहुत ही छोटा शरीरहो
उसके नाम २ ॥ पृथ्नि १ अपतनु २ ॥

-धोण' पगी-

खूलेके नाम २ ॥ धोण १ पंगुर २ ॥

-मृण्डस्तु मृण्डिते ॥ ४८ ॥

जिसका शिर मुँहाडुवा हा उसके
नाम २ ॥ मृण्ड १ मृण्डित २ ॥ ४८ ॥

बलिर' केकरे-

भडे (जिसके नेत्रकी पुतली फिरती
हो) उसके नाम २ ॥ बलिर १ केकर २ ॥

-खोडे खल-

खगडके नाम २ ॥ खोडे १ खल २ ॥

खिपु जरावरा' ॥

जडुल' कालका पिप्पु-

जिसके भगमें उगुनाकारका चिह्न
हो उसके नाम २ ॥ जडुल १ कालक २
पिप्पु ३ ॥

स्तिलकास्तिलकालव' ॥ ४९ ॥

देहके तिलके नाम २ ॥ स्तिलक १
स्तिलकालक २ ॥ ४९ ॥

अनामय स्यादारोग्य'-

दिना रोगके नाम २ ॥ अनामय १
आरोग्य २ ॥

-चिकित्सा द्यप्रतिप्रिया ॥

रोगजनक नाम २ ॥ चिकित्सा १
प्रतिप्रिया २ ॥

भेषजौषधभैषज्यान्वगदो जायुरि
त्यपि ॥ ५० ॥

औषधके नाम ५ ॥ भेषज १ औषध
२ भैषज्य ३ अगद ४ जायु ५ ॥ ५० ॥

स्त्री रुग्जा चोपतापरोगव्याधि
गदामयाः ॥

रोगके नाम ७ ॥ रुग् १ रुजा २
उपताप ३ रोग ४ व्याधि ५ गद ६
आमय ७ ॥

क्षयः शोषश्च यक्ष्मा च-

क्षयी रोगके नाम ३ ॥ क्षय १ शोष
२ ॥ यक्ष्मन् ३ ॥

-प्रतिश्यायस्तु पीनसः ॥ ५१ ॥

पीनसरोगके नाम २ ॥ प्रतिश्याय
१ पीनस २ ॥ ५१ ॥

स्त्रा क्षुत्क्षुतं क्षवः पुंसि-

छीकके नाम ३ ॥ क्षुत् १ क्षुत २ क्षव ३ ॥

-कासस्तु क्षवथुः पुमान् ॥

खासीके नाम २ ॥ कास १ क्षवथु २ ॥

शोफस्तु श्वयथुः शोथः-

सूजनके नाम ३ ॥ शोक १ श्वयथु
२ शोथ ३ ॥

-पादस्फोटो विपादिका ॥ ५२ ॥

विवायी रोगके नाम २ ॥ पाद-
स्फोट १ विपादिका २ ॥ ५२ ॥

किलाससिध्मे-

सेह्नुवा (सीप) के नाम २ ॥

किलास १ सिध्म २ ॥

कच्छां तु पामपामे विचर्चिका ॥

खाजुरोगके नाम ४ ॥ कच्छ १

पामन् २ पामा ३ विचर्चिका ४ ॥

कण्डूः खर्जूश्च कण्डूया-

खुजलीके नाम ३ ॥ कण्डू १ खर्जू २

कण्डूया ३ ॥

-विस्फोटः पिटकोऽस्त्रियाम् ॥ ५३ ॥

फोडेके नाम २ ॥ विस्फोट १ पिटक

२ ॥ ५३ ॥

व्रणोऽस्त्रियामीर्ममरुः क्लीवे-

घावके नाम ३ ॥ व्रण १ ईर्म २ अरुस् ३

-नाडीव्रणः पुमान् ॥

नासूरका नाम १ ॥ नाडीव्रण १ ॥

कोठो मण्डलकं-

जो गोल उज्ज्वल चन्दे पढजातेहैं उस

कोठके नाम २ ॥ कोठ १ मण्डलक २ ॥

कुष्ठश्वित्रे-

छाजनके नाम २ ॥ कुष्ठ १ श्वित्र २ ॥

-दुर्नामकार्शसी ॥ ५४ ॥

ववासीरके नाम २ ॥ दुर्नामक १

अर्शस् २ ॥ ५४ ॥

आनाहस्तु विवन्धः स्या-

कजई जिसमें मलमूत्र रुकजाय उस

रोगके नाम २ ॥ आनाह १ विवन्ध २ ॥

-दृहणी रुक्प्रवाहिका ॥

संमहणी रोगके नाम २ ॥ महणी
१ प्रवाहिका २ ॥

प्रच्छेदिका वमिश्च स्त्री पुमांस्तु
वमयुः समाः ॥ ५५ ॥

उच्छ्रिता अयोत् पमनके नाम ३ ॥
प्रच्छेदिका १ वमि २ वमयु ३ ॥ ५५ ॥

ध्याधिभेदा विद्रधि' स्त्री ज्वरमेह
भगन्दरा' ॥

म्यरथिया (एकप्रकारका फोडा) का
नाम १ ॥ विद्रधि १ ॥ ज्वरका नाम १ ॥
चर १ ॥

प्रमेहका नाम १ ॥ मेह १ ॥
भगन्दर अर्थात् गुदसमीपके फोडाका
नाम १ ॥ भगन्दर १ ॥

अश्मरी मूत्रकृच्छ्रं स्यात्-
कर्करोग अर्थात् पयरीरोगके नाम
२ ॥ अश्मरी १ मूत्रकृच्छ्र २ ॥

-पूर्वे शुक्रावधेस्त्रिषु ॥ ५६ ॥
पहले लेकर शुक्रशब्दके पहले २के
शब्द तीनों स्थानोंमें होते हैं ॥ ५६ ॥

रोगहार्यगर्दकारा भिपज्वैद्यौ
चिकित्सके ॥

वेद्यक नाम ५ ॥ रोगहारिन् १ भगव
कार २ भिपज्व ३ वेद्य ४ चिकित्सक ५ ॥

वाचो निरामय कल्प उद्याघो
निर्गतो गदात् ५७ ॥

रोगरहितके नाम ४ ॥ वाचो १ निरा
मय २ कल्प ३ उद्याघ ४ ॥ ५७ ॥

ग्लानगलास्तु-
रोगवशात् क्षीण हो जाननात्मके
नाम २ ॥ ग्लान १ गलास्तु २ ॥

-रामयावी विवृत्वो ध्याधितो
स्पदु' ॥

आतुरोऽभ्यमितोऽभ्यान्त-
रोगीके नाम ७ ॥ आभ्यान्ति
विहृत २ ध्याधित ३ स्पदु ४ ॥
आतुर ५ अभ्यमित ६ अभ्यान्त ७ ॥

समी पामनकच्छुरो ॥ ५८ ॥
सुचर्मीवालेक नाम २ ॥ पामन १
कच्छुर २ ॥ ५८ ॥

दृष्टो दृष्टरोगी स्या-
दृष्टरोगके नाम १ ॥ दृष्ट १
दृष्टरोगिन् २ ॥

-दर्शोरोगयुतोऽर्धस' ॥
बवासीरोगीका नाम १ ॥ अर्धस १ ॥
वातकी वातरोगी स्यात्-
वातरोगीके नाम २ ॥ वातकिन्
१ वातरोगिन् २ ॥

-सात्तिसारोऽविसारकी ॥ ५९ ॥
विसारके बहुत दस्त हो उत्सक नाम
२ ॥ सात्तिसार १ अतिसारकिन् २
॥ ५९ ॥

स्यु' क्षिन्नासे शुद्धधिष्ठपिष्टा'
क्षिमेऽक्षिण चाप्यमी ॥

चुन्धेके नाम ४ ॥ छिन्नाक्ष १

चुल्ल २ चिल्ल ३ पिल्ल ४ ॥

उन्मत्त उन्मादवति-

उन्मत्त अर्थात् वावलेके नाम २ ॥

उन्मत्त १ उन्मादवत् २ ॥

-श्लेष्मलः श्लेष्मणः कफी ॥६०॥

कफरोगवालेके नाम ३ ॥ श्लेष्मल

१ श्लेष्मण २ कफिन् ३ ॥६० ॥

न्युब्जो भुग्ने रुजा-

कुवडेका नाम १ ॥ न्युब्ज १ ॥

-वृद्धनाभौ तुन्दिलतुन्दिभौ ॥

जिसकी वातरोगसे नाभि बढजाय

उसके नाम ३ ॥ वृद्धनाभि १ तुन्दिल

२ तुन्दिभ ३ ॥

किलासी सिध्मलो-

किलास (सर्प) रोगीके नाम २ ॥

किलासिन् १ सिध्मल २ ॥

-अन्धोऽहक-

अन्धेके नाम २ ॥ अन्ध १

अहक २ ॥

मूर्च्छाले मूर्तमूर्च्छितौ ॥ ६१ ॥

बेहोशीके नाम ३ ॥ मूर्च्छाल १

मूर्त २ मूर्च्छित ३ ॥ ६१ ॥

शुक्रं तेजोरेतसी च बीजवी-

र्येन्द्रियाणि च ॥

धातुके नाम ६ ॥ शुक्र १ तेजसू २

रेतसू ३ बीज ४ वीर्य ५ इन्द्रिय ६ ॥

मायुः पित्तं-

पित्तके नाम २ ॥ मायु १ पित्त २ ॥

-कफः श्लेष्मा-

कफके नाम २ ॥ कफ १ श्लेष्मन् २ ॥

स्त्रियां तु त्वगसृग्धरा ॥६२ ॥

खालके नाम २ ॥ त्वच् १ असृ-

ग्धरा २ ॥ ६२ ॥

पिशितं तरसं मांसं पल्लं

क्रव्यमामिषम् ॥

मासके नाम ६ ॥ पिशित १ तरस

२ मास ३ पल्ल ४ क्रव्य ५ आमिष ६ ॥

उत्तप्तं शुष्कमांसं स्यात्तद्वल्लूर

त्रिलिङ्गकम् ॥ ६३ ॥

सूखेमासके नाम ३ ॥ उत्तप्त १

शुष्कमास २ वल्लूर ३ ॥ ६३ ॥

रुधिरोऽसृग्लोहितास्त्ररक्तक्षत-

जशोणितम् ॥

रुधिरके नाम ७ ॥ रुधिर १ असृज्

२ लोहित ३ अस्त ४ रक्त ५ क्षतज

६ शोणित ७ ॥

बुक्काग्रमांसं-

कलेजेके नाम २ ॥ बुक्का १

अग्रमास २ ॥

-हृदयं ह-

हृदयके नाम २ ॥ हृदय १ हृद् २ ॥

न्मेदस्तु वषा वसा ॥ ६४ ॥

चरबीके नाम ३ ॥ मेदस् १ वषा
२ वसा ३ ॥ ६४ ॥

पश्वाद्गीवाशिरा मन्या-

गलेके पीछेकी मसका नाम १ ॥ मन्या १ ॥

नाडी तु धमनि शिरा ॥

नाडीके नाम ३ ॥ नाडी १ धमनि
२ शिरा ३ ॥

तिलक क्लोम-

शरीरके तिलके नाम २ ॥ तिलक
१ क्लोम २ ॥

-मस्तिष्क गोद-

गुर्दके नाम २ ॥ मस्तिष्क १ गोद २ ॥

-फिट मलोऽखियाम् ॥ ६५ ॥

मिठके नाम २ ॥ फिट १ मल २ ॥ ६५ ॥

अन्त्रं पुरीत-

आंतोके नाम २ ॥ अन्त्र १ पुरीत २ ॥

-दुल्मस्तु घृहा पु-

पत्रेया (तिडी) रोगके नाम २ ॥ २
गुम् १ घृहा २ ॥

-स्पघ वस्तसा ॥ छायु श्रिया-

ममरु नाम २ ॥ वस्तसा १ ग्रायु २ ॥

-वालरपण्डयपृती तु समे

इमे ॥ ६६ ॥

पामे जा न्दनी ओर पत्रिया हा
मरु नाम २ ॥ काररपण्ड १ पण्ड
२ ॥ ६६ ॥

शृणिका स्पन्दिनी लाला-

छारके नाम ३ ॥ शृणिका १
स्पन्दिनी २ लाला ३ ॥

-दृषिका भेषयोर्मलम् ॥

कीचर (गीठ) का नाम १ ॥ दृषिका १ ॥

मूत्र प्रसाव-

मूत्रके नाम २ ॥ मूत्र १ प्रसाव २ ॥

-उच्चारारवस्करो शमलं शकृत्

॥ ६७ ॥ पुरीप गूषबर्चस्कमली

विष्ठाविशौ स्त्रियौ ॥

मिष्ठाके नाम ९ ॥ उषार १

अयस्कर २ शमल ३ शकृत् ४ ॥

॥ ६७ ॥ पुरीप ५ गूष ६ बवस्त ७

विष्ठा ८ किर ९ ॥

स्यात्कर्पर कपालोऽस्त्री-

कपालके नाम २ ॥ कर्पर १ कपाल २ ॥

कीकस्त फुल्पमस्यि च ॥ ६८ ॥

हृदीके नाम ३ ॥ कीकस्त १ फुल्प

२ अस्यि ३ ॥ ६८ ॥

स्याच्छरीरास्यि कफाल-

काकरका नाम १ ॥ कफाल १ ॥

-पृष्ठास्थि तु कजोरुका ॥

पीठकी हृदीका नाम १ ॥ कजोरुका १ ॥

शिराऽस्थनि करोटि री-

गोदडीका नाम १ ॥ करोटि १ ॥

-पाइर्वास्थनि तु पशुंका ॥ ६९ ॥

पशुडीका नाम १ ॥ पशुंका १ ॥ ६९ ॥

अद्र प्रतीराऽपवोऽपचना-

अङ्गके नाम ४॥ अग १ प्रतीक २

अवयव ३ अपघन ४ ॥

—5थ कलेवरम् ॥

गात्रं वपुः संहननं शरीरं वर्षम
विग्रहः ॥ ७० ॥ कायो देहः क्ली-
बपुंसोः स्त्रियां मूर्तिस्तनुस्तनूः ॥

देहके नाम १२ ॥ कलेवर १ गात्र
२ वपुस् ३ सहनन ४ शरीर ५ वर्षमन्
६ विग्रह ७ ॥ ७० ॥ काय ८ देह ९
मूर्ति १० तनु ११ तनू १२ ॥

पादाग्रं प्रपदं—

पावके आगेके नाम २॥ पादाग्र १
प्रपद २ ॥

—पादः पदंघ्रिश्वरणोऽस्त्रि-
याम् ॥ ७१ ॥

पावके नाम ४ ॥ पाद १ पद् २
अघ्रि ३ चरण ४ ॥ ७१ ॥

तद्गन्थी घुटिके गुल्फौ—

टाकनोंके नाम २ ॥ घुटिका १
गुल्फ २ ॥

—पुमान्पार्ष्णिस्तयोरधः ॥

एडीका नाम १ ॥ पार्ष्णि १ ॥

जघ्ना तु प्रसृता—

जघा (पीडी) के नाम २॥ जघा
प्रसृता २ ॥

—जानूरुपर्वाधीवदस्त्रियाम् ७२

जानुके नाम ३ ॥ जानु १ ऊरु,
पर्वन् २ अधीवत् ३ ॥ ७२ ॥

सक्थि क्लीबे पुमानूरु—

निरोहके नाम २॥ सक्थि १ ऊरु २॥

—स्तत्सन्धिः पुंसि वङ्क्षणः ॥

टिहुनीका नाम १ ॥ वक्षण १ ॥

गुदं त्वपानं पायुर्ना—

गुदाके नाम ३ ॥ गुद १ ॥ अपान २
पायु ३ ॥

वस्तिर्नाभिरधो द्वयोः ॥ ७३ ॥

जहा मूत्र रहता है अर्थात् पेडूका नाम
१ ॥ वस्ति १ ॥ ७३ ॥

कटो ना श्रोणिफलकं—

कमरके दोनों बगलके नाम ३ ॥
कट १ श्रोणि २ फलक ३ ॥

—कटिः श्रोणिः ककुब्जती ॥

कमरके नाम ३ ॥ कटि १ श्रेणि २
ककुब्जती ३ ॥

पश्चान्नितम्बः स्त्रीकट्याः—

स्त्रीके चूतरका नाम १ ॥ नितम्ब १ ॥

—क्लीबे तु जघनं पुरः ॥ ७४ ॥

स्त्रीके जाघका नाम १ ॥ जघन १ ॥
॥ ७४ ॥

कूपकौ तु नितम्बस्थौ द्वयहीने
कुकुन्दरे ॥

नितम्बमें जो दो गड्ढे होते हैं उनका
नाम १ ॥ कुकुन्दर १ ॥

स्त्रियां स्फिचौ कटिप्रोथा—

कूलेके नाम २ ॥ स्फिच् १ कटि-
प्रोथ २ ॥

-दुपस्यो वक्ष्यमाणयोः ॥७२॥
 लिंगयोनिका नाम १ ॥ उपस्य १ ॥ ७१ ॥
 भग योनिद्वयो -
 योनिके नाम २ ॥ भग १ योनि २ ॥
 -गिश्रो मेह्रं मेहनशोकसी ॥
 लिङ्ग नाम ४ ॥ शिश्र १ मद् २
 महन ३ शकम् ४ ॥
 मुष्कोऽण्डकोणो वृषण -
 अटकाशके नाम ३ ॥ मुष्क १
 अण्डकोश २ वृषण ३ ॥
 पृष्ठवगाधरे त्रिकम् ॥ ७६ ॥
 पीठक वानक नीच गदा तनि
 गद निउ ? उम जायका नाम १ ॥
 त्रिक १ ॥ ७६ ॥
 पिचण्डपृशी जठरोदं हुन्द-
 पत्रक नाम ९ ॥ पिचण्ड १ पुशि
 २ जठर ३ टण्ड ४ हुन्द ५ ॥
 -स्त्री गुर्ची ॥
 पत्रके नाम २ ॥ स्त्री १ गुच २ ॥
 गृणं तु गुणाम ग्या-
 अण्ड भण्डागण नाम ७ ॥
 वृण १ ग्याण २ ॥
 -स ना म् मुमान्तम् ७७ ॥
 ना क नाम ७ ॥ ना १ मन्ता
 २ ॥ ७७ ॥
 उग नर्ग य बाध-

द्वयक नाम ३ ॥ उरस् १ वस्त १
 वक्षस् ३ ॥
 पृष्ठ तु चरमं तनोः ॥
 पीठका नाम १ ॥ पृष्ठ १ ॥
 स्कन्धो भुजशिरोऽसोऽस्त्री-
 कथेके नाम ३ ॥ स्कन्ध १ मुक्
 शिरस् २ अंत ३ ॥
 -मधी तस्यैव जघ्नी ॥ ७८ ॥
 हस्तिका नाम १ ॥ जघ्नी १ ॥ ७८ ॥
 यादुमूले उभे कर्तौ-
 बगडोका नाम १ ॥ कर्ता १ ॥
 पाश्वमस्त्री तयोरधः ॥
 वगट् नीधका नाम १ ॥ गध १ ॥
 मध्यम चावलम् च मध्योऽस्त्री
 पत्रक नीधका चौर कमरक उर
 के मागके नाम ३ ॥ मध्य १
 अण्ड २ मध्य ३ ॥
 -दो परी द्वयोः ॥ ७९ ॥
 भुजपाद् प्रवष्टा दो स्या-
 बाटके नाम ४ ॥ ७९ ॥ प्र १
 बाहू प्रवष्ट २ दो ४ ॥
 -त्वगाणिस्तु कूर्परः ॥
 कानीके नाम ॥ कूर्पर १ ॥
 अस्यापरि प्रगणः स्या-
 क नीर उरजा नाम १ ॥ ८० ॥
 -प्रकाङ्गस्य शाप्यः ॥ ८० ॥

कोनीके नीचेका नाम १ ॥ प्रकोष्ठ १ ॥ ८०

मणिवन्धादाकनिष्ठं करस्य
करभो बहिः ॥

मणिवन्धसे कनिष्ठा अगुलीपर्य-
तका नाम १ ॥ करभ १ ॥

पञ्चशाखः शयः पाणि-

हाथके नाम ३ ॥ पञ्चशाख १
शय २ पाणि ३ ॥

-स्तर्जनी स्यात्प्रदेशिनी ॥ ८१ ॥

हाथके अगूठके पासकी अगुलीके
नाम २ ॥ तर्जनी १ प्रदेशिनी २ ॥ ८१ ॥

अंगुल्यः करशाखाः स्युः-

अगुलियोंके नाम २ ॥ अगुली १
करशाखा २ ॥

-पुस्यंगुष्ठः-

अगूठेका नाम १ ॥ अगुष्ठ १ ॥

-प्रदेशिनी ॥

अगूठके पासवाली अगुलीका
नाम १ ॥ प्रदेशिनी १ ॥

मध्यमाऽनामिका चापि कनिष्ठा
चेति ता. क्रमात् ॥ ८२ ॥

बीचवाली अगुलीका नाम १ ॥
मध्यमा २ ॥

बीचवाली और कन अगुलीके बीच-
वालीका नाम १ ॥ अनामिका १ ॥

कन अगुलीका नाम १ ॥ कनिष्ठा
१ ॥ ८२ ॥

पुनर्भवः कररुहो नखोऽस्त्री
नखरोऽस्त्रियाम् ॥

नाखुनोंके नाम ४ ॥ पुनर्भव १
कररुह २ नख ३ नखर ४ ॥

प्रादेशतालगोकर्णास्तर्जन्यादि-
युते तते ॥ ८३ ॥

अगुष्ठ तर्जनीतककी लम्बाईका
नाम १ ॥ प्रादेश १ ॥

अगुष्ठ बीचवालीके फैलानेकी लम्बा-
ईका नाम १ ॥ ताल १ ॥

अगुष्ठ अनामिकाके फैलानेकी
लम्बाईका नाम १ ॥ गोकर्ण १ ॥ ८३ ॥

अंगुष्ठे सकनिष्ठे स्याद्वितस्ति-
द्वादशांगुलः ॥

नापनेमें विलस्तके नाम २ ॥
वितस्ति १ द्वादशांगुल २ ॥

पाणौ चपेटप्रतलप्रहस्ता विस्तृ-
तांगुलौ ॥ ८४ ॥

थप्पडके नाम ३ ॥ चपेट १
प्रतल २ प्रहस्त ३ ॥ ८४ ॥

द्वौ संहतौ संहतलप्रतलौ वाम-
दक्षिणौ ॥

दुहत्थडेके नाम २ ॥ सहतल १ प्रतल २ ॥

पाणिर्निकुब्जः प्रसृति-

चुल्लेका नाम १ ॥ प्रसृति १ ॥

-स्तौ युतावञ्जलिः पुमान् ८५

अञ्जलिनाम १ ॥ अञ्जलि १ ॥ ८९ ॥

प्रकोष्ठे विस्तृतकरे हस्तो-

हायका नाम १ ॥ हस्त १ ॥

-सुदृष्या तु वदया ॥

सरतिः स्या-

मुद्गी बांधे हायका नाम १ ॥

(सरति) रति १ ॥

-सरतिस्तु निष्कनिष्ठेन मु-

दिना ॥ ८९ ॥

कनि अगुळियाको छोडके मुद्गीबांधे

हायका नाम १ ॥ अरति १ ॥ ८९ ॥

व्यामो घाहो' सकर्म्योस्त्वतयो

स्तिपगन्तरम् ॥

हाय फैलानका नाम १ ॥ व्याम १ ॥

ऊर्ध्वविस्तृतदो' पाणिर्नुमाने

पौरुष त्रिपु ॥ ८७ ॥

ऊपरका हाय उठाभे नापनेका

नाम १ ॥ पौरुष १ ॥ ८७ ॥

कण्ठो गलो-

गळेके नाम २ ॥ कण्ठ १ गळ २ ॥

-ऽय भीषार्पा शिरोधि'

कन्धरेत्यपि ॥

गर्दनके नाम ३ ॥ भीमा १

शिरोधि २ कन्धरा ३ ॥

कम्पुमीवा त्रिरेखा सा-

तीन रेखासे युक्त गर्दनका नाम

१ ॥ कम्पुमीवा ॥ १ ॥

-श्वदुर्घाटा कृकाटिका ॥ ८८ ॥

घाटीके नाम ३ ॥ श्वदु १ घाटा

२ कृकाटिका ३ ॥ ८८ ॥

वक्रान्ये वदन तुण्डमाननं

लपन मुखम् ॥

मुँडके नाम ७ ॥ वक्र १ आस्य

२ वदन ३ तुण्ड ४ आनन ५ लपन

६ मुख ७ ॥

छुषि घ्राणं गन्धवाहा घोणा

नासा च नासिका ॥ ८९ ॥

नासक नाम ९ ॥ घ्राण १ गन्धवाहा २

घोणा ३ नासा ४ नासिका ९ ॥ ८९ ॥

ओष्ठाधरो तु रदनच्छदी

दशनवासिणी ॥

होठके नाम ४ ॥ ओष्ठ १ अधर २

रदनच्छद ३ दशनवासिणी ४ ॥

अघस्त्राश्विभुक्-

टोडीका नाम १ ॥ श्विभुक् १ ॥

-गण्डी कपोला-

गाळके नाम २ ॥ गण्ड १ कपोल २ ॥

-त्तपरा इनु' ॥ ९० ॥

कनपटीका नाम १ ॥ इनु १ ॥ ९० ॥

रदना दक्षना वृन्ता ग्दा-

दाढके नाम ४ ॥ रदन १ दशन

२ दन्त ३ रद ४ ॥

-स्तालु तु फाकुदम् ॥

सादृशक नाम २ ॥ तालु १ फाकुद १ ॥

रसज्ञा रसना जिह्वा—

जीभके नाम ३ ॥ रसज्ञा १ रसना
२ जिह्वा ३ ॥

प्रान्तावोष्ठस्य सृक्किणी ॥९१ ॥

होठोके किनारोका नाम १ ॥
सृक्किणी १ ॥ ९१ ॥

ललाटमलिकं गोधि—

लिलारके नाम ३ ॥ ललाट १
अलिक २ गोधि ३ ॥

रूध्वे दृग्भ्यां भ्रुवौ स्त्रियौ ॥

भौहका नाम १ ॥ भ्रू १ ॥

कूर्चमस्त्री भ्रुवोर्मध्यं—

भौहके बीचका नाम १ ॥ कूर्च १ ॥

- तारकाक्षः कनीनिका ॥९२ ॥

आखके तिलका नाम १ ॥ तारका १ ॥ ९२

लोचनं नयनं नेत्रमीक्षणं

चक्षुरक्षिणी ॥ दृग्दृष्टी चा—

आखके नाम ८ ॥ लोचन १
२ नेत्र ३ ईक्षण ४ चक्षुस् ५ अक्षि
६ दृश ७ दृष्टि ८ ॥

-ऽसु नेत्राम्बु रोदनं चास्र-
मश्रु च ॥ ९३ ॥

आसूके नाम ५ ॥ असु १ नेत्राम्बु २
रोदन ३ अस्र ४ अश्रु ५ ॥ ९३ ॥

अपाङ्गौ नेत्रयोरन्तौ—

आखके किनारोंका नाम १ ॥
अपाग १ ॥

—कटाक्षोऽपाङ्गदर्शने ॥

अपागसे देखनेका नाम १ ॥ कटाक्ष १ ॥

कर्णशब्दग्रहौ श्रोत्रं श्रुतिः

स्त्री श्रवणं श्रवः ॥ ९४ ॥

कानके नाम ६ ॥ कर्ण १ शब्दग्रह २
श्रोत्र ३ श्रुति ४ श्रवण ५ श्रवम् ६ ॥ ९४ ॥

उत्तमाङ्गं शिरः शीर्षं मूर्द्धा ना
मस्तकोऽस्त्रियाम् ॥

शिरके नाम ५ ॥ उत्तमाग १ शिरस्
२ शीर्ष ३ मूर्द्धन् ४ मस्तक ५ ॥

चिकुरः कुन्तलो वालः कचः
केशः शिरोरुहः ॥ ९५ ॥

वालके नाम ६ ॥ चिकुर १ कुन्तल
२ वाल ३ कच ४ केश ५ शिरोरुह ६ ॥ ९५ ॥

तद्दन्दे कैशिकं कैश्य—

वाल्लोंके समूहके नाम २ ॥ कैशिक
१ कैश्य २ ॥

—मलकाश्चूर्णकुन्तलाः ॥

टेढे वाल्लोंके नाम २ ॥ अलक १
चूर्णकुन्तल २ ॥

ते ललाटे भ्रमरकाः—

ललाटपर लटकते हुए वाल्लोंका
नाम १ ॥ भ्रमरक १ ॥

—काकपक्षः शिखण्डकः ॥ ९६ ॥

जुल्फोंके नाम २ ॥ काकपक्ष १
शिखण्डक ३ ॥ ९६ ॥

कवरी केशवैशो-
मांगके नाम २ ॥ कवरी १ केश
पश २ ॥

-इय घम्मिहः सयता कचा ॥
वैधुए बाळोंका नाम १ ॥ घम्मिह १ ॥

शिरवा घूडा केशपाशी-
घोटीके नाम ३ ॥ शिखा १ घूडा
२ केशपाशी ३ ॥

-प्रतिनस्तु सदा जटा ॥ ९७ ॥
जटाके नाम २ ॥ सटा १ जटा २ ॥ ९७ ॥

वेणि प्रवेणी-
तेजदि न छानके ह्यु छटरे बाळ हो
जानक नाम २ ॥ पणि १ प्रवेणी २ ॥

-शीर्ष्यशिरस्यो विशदे कचे ॥
साफ बाळोंके नाम २ ॥ शीर्ष्य
१ शिरस्य २ ॥

पाश पशभ्य हस्तभ्य कला
पाया कचात्परे ॥ ९८ ॥
कशसमूह नाम ३ ॥ केशपाश १ कश
पश २ कुन्तलहस्त ३ ॥ इत्यादि ॥ ९८ ॥

तनूहं रोम लोम-
रुके नाम ३ ॥ तनूह १ रोमन्
२ लोमन् ३ ॥

-तदृष्टी श्मश्रु पुमुख ॥
बाडी मूठका नाम २ ॥ श्मश्रु १ ॥
आकल्पवर्षी नेपथ्य प्रति
कम प्रयाधनम् ॥ ९९ ॥

अछंकारणी शोमाक नाम १ ॥
आकल्प १ क्य २ नेपथ्य ३ प्रतिक
र्मन् ४ प्रसाधन ५ ॥ ९९ ॥

दशैवे त्रि-
यह भागे कहे दश शब्द तीनों
छिगोंमें होते हैं ॥

-प्वलकर्त्ताऽलकरिष्युश्च-
अछंकार करनेवाळक नाम २ ॥
अलकर्व १ अलकरिष्यु २ ॥

-मण्डित ॥
प्रसाधितोऽल इक्षुतश्च मूषितश्च
परिष्कृत ॥ १०० ॥

अलकास्युक्तक नाम १ ॥ मण्डित
१ प्रसाधित २ अलकृत ३ मूषित ४
परिष्कृत ५ ॥ १०० ॥

विम्राह्म्राजिष्युरोचिष्यु-
अछंकारादिसे अतिशोमित इमर
नाम ३ ॥ विम्राह् २ म्राजिष्यु ३
रोचिष्यु ३ ॥

-भूषण स्मादलक्रिया ॥
सेवारन वा सिंगारनके नाम २ ॥
भूषण १ अलक्रिया २ ॥

अलङ्कारस्वामरण परिष्कारो
विभूषणम् ॥ १०१ ॥ मण्डन घा-

गहन आदिके नाम १ ॥ अलङ्कार
१ आमरण २ परिष्कार ३ विभूषण
४ ॥ १०१ ॥ मण्डन ५ ॥

-५थ मुकुटं किरीटं पुत्रपुंसकम् ॥

मुकुटके नाम २ ॥ मुकुट १ किरीट २ ॥
दोनोंभी पुं० न० ॥

चूडामणिः शिरोरत्नं-

चोटीकी मणिके नाम २ ॥ चूडामणि
१ शिरोरत्न २ ॥

-तरलो हारमध्यगः ॥ १०२ ॥

जो हारके बीचमें सबसे बड़ा मणि
होता है उसका नाम १ ॥ तरल १ ॥ १०२

वालपाश्या पारितथ्या-

चोटीके गहनेके नाम २ ॥ वालपाश्या
१ पारितथ्या २ ॥

-पत्रपाश्या ललाटिका ॥

बेदी वा टीकेके नाम २ ॥ पत्रपाश्या
ललाटिका २ ॥

कर्णिका तालपत्रं स्या-

वाली वा तरकीके नाम २ ॥ कर्णिका
१ तालपत्र २ ॥

-त्कुण्डलं कर्णवेष्टनम् ॥ १०३ ॥

सुवर्णादिरचित वालीके नाम २ ॥
कुण्डल १ कर्णवेष्टन २ ॥ १०३ ॥

त्रैवेयकं कण्ठभूषा-

कण्ठी वा कण्ठके नाम २ ॥ त्रैवेयक
१ कण्ठभूषा २ ॥

-लम्बनं स्याल्ललन्तिका ॥

जो सूँधीतक लम्बी कण्ठी हो उस
कण्ठीके नाम २ ॥ लम्बन १ ललन्तिका २ ॥

स्वर्णैः प्रालम्बिका-

ऐसी ही यदि सोनेकी कण्ठी हो तो
उस कण्ठीका नाम १ ॥ प्रालम्बिका १ ॥

-५थोरःसूत्रिका मौक्तिकैः

कृता ॥ १०४ ॥

और वैसी ही मोतीसे गुथी हो तो
उसका नाम १ ॥ उरसूत्रिका १ ॥ १०४ ॥

हारो मुक्तावली-

मोतीके हारके नाम २ ॥ हार १
मुक्तावली २ ॥

-देवच्छन्दोसौ शतयाष्टिका ॥

जो सौ लडका हार हो उसका
नाम १ ॥ देवच्छन्द १ ॥

हारभेदा यष्टिभेदाद्गुच्छा-
र्धगोस्तनाः ॥ १०५ ॥ अर्धहारो

माणवक एकावल्येकयाष्टिका ॥

सैव नक्षत्रमाला स्यात्सप्तविं-
शतिमौक्तिकैः ॥ १०६ ॥

बत्तीस लडका हार हो उसका नाम १ ॥

गुच्छ १ ॥ जो चौबीस लडका हार हो

उसका नाम १ ॥ गुच्छार्ध १ ॥ चार लडका

हार हो उसका नाम १ ॥ गोस्तन १ ॥ १०५

बारह लडका हार हो उसका नाम १ ॥

अर्द्धहार १ ॥ बीस लडका हार हो उसका

नाम १ ॥ माणवक १ ॥ एक लडका हार

हो उसका नाम १ ॥ एकावली १ ॥ वही

एक छट अगर सत्ताईस मोतियोंकी
हो तो उसका नाम १ ॥ नक्षत्रमाला
१ ॥ १०६ ॥

आवापक पारिहायः कटक
बलयोऽस्त्रियाम् ॥

पट्टीके नाम ४ ॥ आवापक १ पारि
हाय २ कटक ३ षष्ठय ४ ॥

केचूरमद्गद तुल्ये-

बाज्रवन्दभाति मुखाके गहनोंके
नाम २ ॥ केचूर १ मद्गद २ ॥

-अमुलीयकभूर्मिका ॥ १०७ ॥

छन्लेअगूठीके नाम २ ॥ अमुलीयक १
अर्मिका २ ॥ १०७ ॥

साक्षरांगुलिमुद्रा सा-

मोहरसहित अंगूठीका नाम १ ॥
अंगुलिमुद्रा १ ॥

-फक्कण करभूषणम् ॥

फक्कण नाम २ ॥ फक्कण १ कर
भूषण २ ॥

स्त्रीकट्यां मेखला काञ्ची
सप्तकी रक्षणा तथा ॥ १०८ ॥

स्त्रीके सारसन चा-

स्त्रीके कमरकी जनीर अर्थात्
नक्षत्रके नाम २ ॥ मेखला १ काञ्ची १
२ सप्तकी रक्षणा ४ ॥ १ ॥ सारसन १

-ऽथ पुस्कण्यां शृङ्खलं त्रिषु ॥
पुस्कणके जनीरका नाम १ ॥ शृङ्खल १ ॥

पादाङ्गदं तुलाकोटिमञ्जारी
नूपुरोऽस्त्रियाम् ॥ १०९ ॥

पैत्रण आदि स्त्रीके पांरके गहनेके
नाम ४ ॥ पादाङ्गद १ तुलाकोटि २ ॥
मञ्जीर ३ नूपुर ४ ॥ १०९ ॥

हंसक पादकटक-

कठके नाम २ ॥ हंसक १ पादकटक २ ॥
-किंकिणी क्षुद्रघण्टिका ॥

क्षुद्रघण्टेके नाम २ ॥ किंकिणी १
क्षुद्रघण्टिका २ ॥

त्वक्फलाक्रिमिरोमाणि वस्त्र-
योनि-

मापा ॥ शृङ्खली छल फल और
काँचके रोम वस्त्रके उत्पन्न होनेके
स्वान हैं ॥

-दंश त्रिषु ॥ ११० ॥

मापा ॥ यह दंतों शब्द तीनों
लिंगोंमें होत हैं ॥ ११ ॥

बास्करं क्षीमादि-

शृङ्खलादिकी छल्ले बने हुए बच्चोंके
नाम २ ॥ बास्कर १ क्षीमा २ ह्यपादि ॥

-फालं तु कापासं वादर च
तत् ॥

फालसे बने हुए बच्चोंके नाम ६ ॥
फाल १ कापास २ वादर ३ ॥

कौशेय वृमिकोशोत्स्यं-

रेशमीबच्चोंका नाम १ ॥ कौशेय १ ॥

-राङ्गचं मृगरुमजम् ॥१११॥

ऊनीवस्त्रोका नाम १॥राङ्गव १॥१११॥

अनाहतं निष्प्रवाणि तन्त्रकं
च नवाम्बरम् ॥

कोरेवस्त्रके नाम ४॥ अनाहत १ नि-
ष्प्रवाणिन् २ तन्त्रक ३ नवाम्बर ४ ॥

तत्स्यादुद्गमनीयं यद्द्वौतयोर्वस्त्र-
योर्युगम् ॥ ११२ ॥

धुलेहुये दो वस्त्रोके जोडेका नाम
१ ॥ उद्गमनीय १ ॥ ११२ ॥

पत्रोर्णं धौतकौशेयं-

धुलेहुए रेशमी वस्त्रका नाम १ ॥
पत्रोर्ण १ ॥

-बहुमूल्यं महाधनम् ॥

बडेमोलके वस्त्रादिता नाम १ ॥
महाधन १ ॥

क्षौमं दुकूलं स्या-

हुपट्टके नाम २ ॥ क्षौम १ दुकूल २ ॥

-द्वे तु निवीतं प्रावृतं त्रिपु ११३

कपडेके छोरके नाम २ ॥ निवीत
१ प्रावृत २ ॥ ११३ ॥

स्त्रियां बहुत्वे वस्त्रस्य दशाः
स्युर्वस्तयोर्द्वयोः ॥

छीराका नाम १ ॥ दशा १ ॥

दैर्घ्यमायाम आरोहः-

कपडेआदिकी लम्बाईके नाम ३ ॥
दैर्घ्य १ आयाम २ आरोह ३ ॥

-परिणाहो विशालता ॥ ११४ ॥

कपडेआदिकी चौडाईके नाम २ ॥

परिणाह १ विशालता २ ॥ ११४ ॥

पटञ्चरं जीर्णवस्त्रं-

पुराने कपडेके नाम २ ॥ पटञ्चर १
जीर्णवस्त्र २ ॥

-समौ नक्तककर्पटो ॥

फटेचीथरेके नाम २ ॥ नक्तक १ कर्पट २ ॥

वस्त्रमाच्छादनं वासश्चैलं वस-
नमंशुकम् ॥ ११५ ॥

कपडेमात्रके नाम ६ ॥ वस्त्र १ आ-
च्छादन २ वासस् ३ चैल ४ वसन ५
अशुक ६ ॥ ११५ ॥

सुचेलकः पटोऽस्त्री-

अच्छे वस्त्रके नाम २ ॥ सुचेलक १ पट २ ॥

-स्याद्वराशिः स्थूलशाटकः ॥

मोटे वस्त्रके नाम २ ॥ वराशि १
स्थूलशाटक २ ॥

निचोलः प्रच्छदपटः-

पालकी आदिके ढकनेके वस्त्रके
नाम २ ॥ निचोल १ प्रच्छदपट २ ॥

-समौ रल्लककम्बलौ ॥ ११६ ॥

कम्बलके नाम २ ॥ रल्लक १ कम्बल
२ ॥ ११६ ॥

अन्तरीयोपसंव्यानपरिधाना-
न्यधांशुके ॥

धोतीके नाम ४ ॥ अन्तरीय १ उप
संस्थान २ परिधान ३ अर्धोद्युक्त ४ ॥
द्वी प्रावारोचरासङ्गौ समौ
घृहविका तथा ॥ ११७ ॥
सम्मानमुत्तरीय च-

अंगौठा (स्मालआदि) के नाम ९ ॥
प्रावार १ उत्तरसङ्ग २ घृहविका ३
॥ ११७ ॥ सम्मान ४ उत्तरीय ५ ॥

-घोळ* कूर्पासकोऽस्त्रियाम् ॥
चोलीके नाम २ ॥ घोळ १ कूर्पासक २ ॥
नीश्वार* स्यात्प्रावरणे हिमा
निलनिवारणे ॥ ११८ ॥

रत्नाङ्का नाम १ ॥ नीश्वार १ ॥ ११८ ॥
अर्धोरुकं वरस्त्रीणा स्याच्च
ण्डातकमस्त्रियाम् ॥

अर्धोरुके नाम १ ॥ चण्डातक १ ॥
स्याच्चिष्वाप्रपदीर्नं तस्याप्रोत्प्या
प्रपदं हि यत् ॥ ११९ ॥

अर्धोरुके नाम १ ॥ चाप्रपदीम
१ ॥ ११९ ॥

अस्त्री विधानमुल्लोचो-
चक्षुरके नाम २ ॥ कितान १
उल्लोच २ ॥

-दृष्याय वस्त्रवेश्मनि ॥
तम्बू वा डेराका नाम १ ॥ दृष्य १ ॥
प्रतिसीरा जवनिका स्याच्चिर
स्करिणी च सा ॥ १२ ॥

कनातके नाम ३ ॥ प्रतिसीरा १ अण
निका २ तिरस्करिणी ३ ॥ १२० ॥

परिकमाङ्गसंस्कार -
आनादि अंगसंस्कारके नाम २ ॥

परिकर्मन् १ अङ्गसंस्कार २ ॥
-स्यान्मार्ष्टिर्माजना मृजा ॥

पौञ्जनेके नाम ३ ॥ मार्ष्टि १ मा
जना २ मृजा ३ ॥

उद्वर्तनोत्सादने द्वे समे-
उद्वर्तनके नाम २ ॥ उद्वर्तन १
उत्सादन २ ॥

-आप्लाव आप्लव ॥ १२१ ॥
खान-

खानेके नाम ३ ॥ आप्लाव १ आप्लव
२ ॥ १२१ ॥ खान ३ ॥

-चर्चा तु चार्चिक्य स्यात्सको-
चन्दनादिस देहके छपक नाम ३ ॥

चर्चा १ चार्चिक्य २ स्यात्सक ३ ॥
-ऽय प्रबोधनम् ॥

अनुबोध-
गन्धोमटनिके नाम २ ॥ प्रबान
१ अनुबोध २ ॥

-पत्रलेखा पत्रांगुलिरिमे समे १२२ ॥
खियोके गाल् स्तनादिपर कस्तूरी च
न्दनसे की हुई चित्रकारीके नाम २ ॥
पत्रलेखा १ पत्रांगुलि २ ॥ १२२ ॥

तमालपत्रतिलकचित्रकाणि
विशेषकम् ॥ द्वितीयं च तुरीयं
च न, स्त्रिया-

मस्तकमें चन्दन कस्तूरी, आदिसे
टीका लगानेके नाम ४ ॥ तमालपत्र
१ तिलक २ चित्रक ३ विशेषक ४ ॥

-मथ कुंकुमम् ॥ १२३ ॥

काश्मीरजन्माग्निशिखं वरं वा-
ह्लीकपीतने ॥ रक्तसंकोचपिशुनं
धीरं लोहितचन्दनम् ॥ १२४ ॥

केशरके नाम ११ ॥ कुकुम १ ॥
१२३ ॥ काश्मीरजन्मन् २ अग्निशिख
३ वर ४ वाह्लीक ५ पीतन ६ रक्त-
सकोच ७ पिशुन ८ धीर ९ लोहित
१० चन्दन ११ ॥ १२४ ॥

लाक्षा राक्षा जतु क्लीबे यावो-
ऽलक्तो द्रुमामयः ॥

महावरके नाम ६ ॥ लाक्षा १ राक्षा २
जतु ३ याव ४ अलक्त ५ द्रुमामय ६ ॥

लवङ्गं देवकुसुमं श्रीसंज्ञ-

लोगके नाम ३ ॥ लवग १ देव-
कुसुम २ श्रीसज्ञ ३ ॥

-मथ जायकम् ॥ १२५ ॥

कालीयकं च कालानुसार्यं चा-

पीले चन्दनके नाम ३ ॥ जायक १ ॥
॥ १२५ कालीयक २ कालानुसार्य ३ ॥

-ऽथ समार्थकम् ॥ वंशकागुरु-
राजारहलोहं कृमिजजोङ्गकम् १२६ ॥

अगरके नाम ६ ॥ वशक १
अगुरु २ राजार्ह ३ लोह ४ कृमिज ५
जोङ्गक ६ ॥ १२६ ॥

कालागुर्वगुरुः-

काले अगरके नाम २ ॥ काला-
गुरु १ अगुरु २ ॥

-स्यात्तन्मंगल्या मल्लिगन्धि
यत् ॥

अगरका भेद १ ॥ मंगल्या १ ॥
यक्षधूपः सर्जरसो राल सर्वर-

सावापि ॥ १२७ बहुरूपोऽ-
रालके नाम ५ ॥ यक्षधूप १
सर्जरस २ राल ३ सर्वरस ४ ॥ १२७ ॥
बहुरूप ५ ॥

-प्यथ वृकधूपकृत्रिमधूपकौ ॥

कृत्रिम धूपके नाम २ ॥ वृकधूप १
कृत्रिमधूप २ ॥

तुरुष्कः पिण्डकः सिंहो याव-
नो-

लोवानके नाम ४ ॥ तुरुष्क १
पिण्डक २ सिंह ३ यावन ४ ॥

-प्यथ पायसः ॥ १२८ ॥

श्रीवासी वृकधूपोऽपि श्रीवेष्टसरल-
द्रवौ ॥

देवदारु घूपके नाम १ ॥ पायस १
॥ १२८ ॥ धीवास २ शुकघूप ३
धीमष्ट ४ सरलश्रव ५ ॥

मृगनाभिमृगमद* कस्तूरी घा-
कस्तूरीफ नाम ३ ॥ मृगनाभि १
मृगमद २ कस्तूरी ३ ॥

-ऽथ कोलकम् ॥ १२९ ॥
कस्तूरीकोलक कोशफल-
कलाठने नाम ३ ॥ कोलक १ ॥

॥ १२९ ॥ कलाठक २ काशफल ३ ॥
-मय कपूरमस्त्रियाम् ॥ घन
सारश्चन्द्रसप्त* सिताम्रो हिमवा
सुका ॥ १३० ॥

कपूरके नाम ५ ॥ कपूर १ ॥
घनसार २ चन्द्रसप्त ३ सिताम्र ४
हिमपाजुका ५ ॥ १३० ॥

गन्धसारो मलयजो मद्रथीश्च
न्दनोऽस्त्रियाम् ॥
मडवागिरि चन्दनके नाम ४ ॥ गन्ध
सार १ मडवाज २ मद्रथी ३ चन्दन ४ ॥

तेलपर्णिकगोनीप इरिचन्दन
मस्त्रियाम् ॥ १३१ ॥

सप्त चन्दनका नाम १ ॥ तेलपर्णिक
१ ॥ तिस्रैवे कमल्प ममान गन्ध हा
उय चन्दनरा नाम १ ॥ गोनीप १ ॥

कनिजामे चन्दनरा नाम १ ॥
गिरिचन्दन १ ॥ १३१ ॥

तिलपर्णी तु पत्रांग रञ्जन रक्त
चन्दनम् ॥ कुचन्दन चा-
लाञ्छन्दनके नाम ५ ॥ तिल-
पर्णी १ पत्रांग २ रञ्जन ३ रक्तचन्दन
४ कुचन्दन ५ ॥

-ऽथ जातीकोशजातीफले
समे ॥ १३२ ॥

जायफलक नाम २ ॥ जातीकोश
१ जातीफल २ ॥ १३२ ॥

कर्पूरागरुकस्तूरीककोलेर्यसक-
र्वम* ॥
कपूर अगरुकस्तूरी और ककोल
इन को बराबर मिजानेसे जो छपन
बनताहै उसका नाम १ ॥ यक्षफर्दम १ ॥

गात्रानुलेपनी वर्तिर्बर्णक स्या
दिलेपनम् ॥ १३३ ॥

विसीहूर्ई छपन बस्तुके नाम २ ॥
गात्रानुलेपनी १ वर्ति २ ॥

विसी(रगडी) हूर्ई छेपन बस्तुक नाम
२ ॥ वर्ति १ छिपन २ ॥ १३३ ॥

घृणानि वासयोगा* स्यु-
कपडठान करके जो गन्धमस्तु घोडी
जाय उसके नाम १ ॥ घृणी १ वासयोग १ ॥

-भाषित वासित त्रिपु ॥
पुण इगामि वसाइ इर बस्तुक
नाम २ ॥ भाषित १ वासित २ ॥

संस्कारो गन्धमाल्याद्यैर्यः

स्यात्तदधिवासनम् ॥ १३४ ॥

सुगन्ध पुष्पादिसे संस्कार करनेके नाम १ ॥ अधिवासन १ ॥ १३४ ॥

माल्यं मालास्रजौ मूर्ध्नि-

सिरपै धारण करने योग्य मालाके नाम ३ ॥ माल्य १ माला २ स्रज् ३ ॥

-केशमध्ये तु गर्भकः ॥

बालोंके बीचमें धारण की हुई मालाका नाम १ ॥ गर्भक १ ॥

प्रभ्रष्टक शिखालम्बि-

जो चोटीमें गुन्दी हुई माला हो उसका नाम १ ॥ प्रभ्रष्टक १ ॥

-पुरोन्यस्तं ललामकम् ॥ १३५ ॥

जो शिखामें लिलारतक लपेटी माला हो उसका नाम १ ॥ ललामक १ ॥ १३५ ॥

प्रालम्बमृजुलम्बि स्यात्कण्ठा-

कठमें पहरी हुई मालाका नाम १ ॥ प्रालम्ब १ ॥

-द्वैकक्षिकं तु तत्- ॥ यत्तिर्यक्-
क्षित्तमुरासि-

जो यज्ञोपवीतके तुल्य पहनीजाय उस मालाका नाम १ ॥ वैकक्षिक १ ॥

-शिखास्वापीडशेखरौ ॥ १३६ ॥

जो शिखामें पहरी जाय उसमालाके नाम २ ॥ आपीड १ शेखर २ ॥ १३६ ॥

रचना स्यात्परिस्पन्द-

माला आदिके बनानेके नाम २ ॥

रचना १ परिस्पन्द २ ॥

-आभोगः परिपूर्णता ॥

सर्वसामग्रीके पूरे होनेके नाम २ ॥

आभोग १ परिपूर्णता २ ॥

उपधानं तूपवर्हः-

तकियेके नाम २ ॥ उपधान १ उपवर्ह २ ॥

-शय्यायां शयनीयवत् ॥ १३७ ॥

शयनं-

बिछौनेके नाम ३ ॥ शय्या १ शयनीय २ ॥ १३७ ॥ शयन ३ ॥

-मञ्चपर्यकपल्यंकाः खट्वा

समाः ॥

पलग वा खाटके नाम ४ ॥ मञ्च १ पर्यङ्क २ पल्यङ्क ३ खट्वा ४ ॥

गेन्दुकः न्दुको-

गेदके नाम २ ॥ गेन्दुक १ कन्दुक २ ॥

-दीपः प्रदीपः-

दियाके नाम २ ॥ दीप १ प्रदीप २ ॥

-पीठमासनम् ॥ १३८ ॥

पीठाके नाम २ ॥ पीठ १ आसन २ ॥ १३८ ॥

समुद्रकः संपुटकः-

डिब्बाके नाम २ ॥ समुद्रक १ सपुटक २ ॥

-प्रतिमाहः पतद्ग्रह ॥

पीकदानके नाम २ ॥ प्रतिमाह १
पतद्ग्रह २ ॥

प्रसाधनी ककृतिका-
कवीक नाम २ ॥ प्रसाधनी १
ककृतिका २ ॥

-पिष्टाव पटवासक ॥ १३९ ॥
पुकाके नाम २ ॥ पिष्टाव १ पटवा
सक २ ॥ १३९ ॥

दुर्पणे मुकुरादुर्णी-
दुर्पण (सीस) के नाम ३ ॥ दुर्पण
१ मुकुर २ आदर्श ३ ॥

-ध्यजनं तालवृन्तकम् ॥
पंखेके नाम २ ॥ ध्यजन १ तालवृन्तक २ ॥
इति मनुष्यवर्ग ॥ ८ ॥

अथ ब्रह्मवर्गः ७

संततिर्गोत्रजननकुलान्धभिज
नान्धयौ ॥ बशोऽन्ववाय सन्तानो
वंशके नाम ९ ॥ सन्तति १ गोत्र २
जनन ३ कुल ४ अमिजन ५ अन्धय
६ बश ७ अन्वाय ८ सन्तान ९ ॥

-वणाः स्फुर्भाङ्गणादयः ॥ १ ॥
ब्राह्मण आदिका नाम १ ॥ कर्ण १ ॥ १ ॥

बिमक्षत्रियविन्दूवाध्वार्तुव
र्ण्यमिति स्मृतम् ॥

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारोंका
इकट्ठा नाम १ ॥ चार्तुर्वर्ण्य १ ॥

राजबीजी राजवश्यो-
राजाक वंशबालोंके नाम २ ॥
राजबीजिन् १ राजवंश्य २ ॥

-बीज्यस्तु कुलसंभवः ॥ २ ॥
कुलीनक नाम २ ॥ बीज्य १ कुल-
संभव २ ॥ २ ॥

महाकुलकुलीनार्यसम्पस
अनसाधवः ॥

सज्जनके नाम १ ॥ महाकुल १ कुलीन २
आर्य्य ३ सम्प ४ सज्जन ५ साधु ६ ॥

ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो मि
धुश्चतुष्टये ॥ ३ ॥ आश्रमोऽङ्गी-
ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थ यति इन
चारोंका इकट्ठा नाम १ ॥ ३ ॥ आश्रम १ ॥

-द्विजात्यप्रजन्मभूदेववाद
वाः ॥ विप्रश्च ब्राह्मणो-

ब्राह्मणके नाम १ ॥ द्विजाति १
अप्रजन्मन् २ भूदेव ३ वाद ४ विप्र ५
ब्राह्मण ६ ॥

-ऽसौ पद्कर्मो यागादि
भिवृत् ॥ ४ ॥

इया अभ्ययल दान वासन अघ्या-
पन प्रतिग्रह इन पद् कर्मोंकरक उक्त
विप्रका नाम १ ॥ पद्कर्मन् १ ॥ ४ ॥

विद्वान्विपश्चिदोषज्ञः सन्सुधीः
कोविदो बुधः ॥ धीरो मनीषी
ज्ञः प्राज्ञः संख्यावान्पण्डितः
कविः ॥ ६ ॥ धीमान्सूरिः कृती
कृष्टिर्लब्धवर्णो विचक्षणः ॥ दूरदर्शी
दीर्घदर्शी-

पण्डितके नाम २२ ॥ विद्वस् १
विपश्चित् २ दोषज्ञ ३ सत् ४ सुधी ५
कोविद ६ बुध ७ धीर ८ मनीषिन् ९ ज्ञ
१० प्राज्ञ ११ संख्यावत् १२ पण्डित १३
कवि १४ ॥ ५ ॥ धीमत् १५ सूरि १६
कृतिन् १७ कृष्टि १८ लब्धवर्ण १९ विच-
क्षण २० दूरदर्शिन् २१ दीर्घदर्शिन् २२ ॥

-श्रोत्रियच्छान्दसौ समौ ॥ ६ ॥

वेदपाठीके नाम २ ॥ श्रोत्रिय १
छान्दस २ ॥ ६ ॥

उपाध्यायोऽध्यापको-

जो पढाता हो उस पढितके नाम
२ ॥ उपाध्याय १ अध्यापक २ ॥

-ऽय स्यान्निषेकादिकृद्गुरुः ॥

गर्माधानादि कर्म करानेवालेका
नाम १ ॥ गुरु १ ॥

मन्त्रव्याख्याकृदाचार्य-

मन्त्रकी व्याख्या करनेवालेका नाम
१ ॥ आचार्य १ ॥

-आदेष्टा त्वध्वरे-

यज्ञमें सब ऋत्विजोंके सिखानेवाले-
का नाम १ ॥ आदेष्टृ १ ॥

व्रती ॥ ७ ॥

यथा च यजमानश्च-

यजमानके नाम ३ ॥ व्रतिन् १
॥ ७ ॥ यष्टृ २ यजमान ३ ॥

-स सोमवति दीक्षितः ॥

सोमयज्ञके यजमानका नाम १ ॥
दीक्षित १ ॥

इज्याशीलो यायजूको-

वारम्बार यज्ञ करनेवालेके नाम २ ॥
इज्याशील १ यायजूक २ ॥

-यज्वा तु विधिनेष्टवान् ॥ ८ ॥

जो विधिसे यज्ञ करै उसका नाम १ ॥
यज्वन् १ ॥ ८ ॥

स गीष्पतीष्ट्या स्थपतिः-

बृहस्पति यज्ञ करनेवालेका नाम १ ॥
स्थपति १ ॥

सोमपीथी तु सोमपाः ॥

सोमबल्लीका रस पीनेवालेके नाम
२ ॥ सोमपीथिन् १ सोमपा २ ॥

सर्ववेदाः स धेनेष्टो यागः

सर्वस्वदक्षिणः ॥ ९ ॥

जो यज्ञमें अपना सब धन ठे डाले
उसका नाम १ ॥ सर्ववेदस् १ ॥ ९ ॥

अनृचानः प्रवचने साङ्गेऽधीती-

सांगोपांग षट् पठनेवाछेका नाम
१ ॥ अनूधान १ ॥

—गुरोस्तु यः ॥ लघ्यानुज्ञ
समावृत्त—

यही अनूधान गुल्की गृहस्याग्रमा
दिमें प्राप्त होनेकी आज्ञा पावे तो उसका
नाम १ ॥ समावृत्त १ ॥

—सुत्वा स्वभिपवे कृते ॥१०॥
अभिपव स्नानकरियाका नाम १ ॥
सुत्वा १ ॥ १० ॥

छात्रान्तेवासिनौ शिष्ये—
विद्यार्थिकि नाम ३ ॥ छात्र १
अन्तेवासिन् २ शिष्य ३ ॥

—शैशाः प्रायमकल्पिकाः ॥
छोटे (नये) विद्यार्थिकि नाम २ ॥
शैश १ प्रायमकल्पिक २ ॥

एकअक्षप्रताधारा मिथं सत्र-
क्षचारिणं ॥ ११ ॥
सहपाठी अर्थात् एक साथ एकही
बस्तु पढ़नेवाछेका नाम १ ॥ सत्रक्षचा-
रिन् १ ॥ ११ ॥

सतीर्थ्यास्त्वेकगुरव-
नितने एक गुरुसे पढ़ते हों उनका
नाम १ ॥ सर्तीय्ये १ ॥

—भित्तवार्निमिमभिधित् ॥
जो भित्तको बटोरे हे उसका नाम
१ ॥ भिमिधित् १ ॥

पारम्पर्योपदेशे स्यादैतिह्यभि
तिहाड्ययम् ॥ १२ ॥

परम्परा उपदेशके नाम २ ॥ ऐतिह्य
१ इतिह्य २ ॥ १२ ॥

उपज्ञा ज्ञानमार्थं स्या-
प्रथमज्ञानका नाम १ ॥ उपज्ञा १ ॥
—ज्ज्ञात्वारम्य उपक्रमं ॥

समष्टके ग्रन्थके प्रारम्भकरनेका नाम १ ॥
उपक्रम १ ॥

यज्ञं सवोऽध्वरो यागः सप्तत-
न्तुर्मखं ऋतुं ॥ १३ ॥
यज्ञके नाम ७ ॥ पञ्च १ सप्त २
अध्वर ३ याग ४ सप्ततन्तु ५ मख ६
ऋतु ७ ॥ १३ ॥

पाठो होमभ्रातिथीनां सपर्या
सर्पणं बलिं ॥ एते पञ्च महायज्ञा
ब्रह्मयज्ञादिनामकाः ॥ १४ ॥

महायज्ञके नाम ९ ॥ पाठ १ होम
२ अतिथिपूर्णा ३ सर्पण ४ बलि ५ ॥ १४ ॥

समज्या परिपत्तोष्ठी सभास
मितिसंसदः ॥ आस्थानी ह्रीब
मास्थान स्त्रीनुपुंसकयोः सदं १५ ॥

सभाके नाम ९ ॥ समज्या १ पारि-
पद् २ गोष्ठी ३ समा ४ समिति ५
संसद ६ आस्थानी ७ आस्थान ८
सदस् ९ ॥ १५ ॥

प्राग्वंशः प्राग्घविर्गेहा-
 सदस्योके गृहका नाम १ ॥ प्राग्वश १
 -त्सदस्या विधिदर्शिनः ॥
 समामे विचार करनेवालोका नाम
 १ ॥ सदस्य १ ॥
 सभासदः सभास्ताराः सभ्याः
 सामाजिकाश्च ते ॥ १६ ॥
 समामे बैठनेवालोंके नाम ४ ॥
 सभासद १ सभास्तार २ सभ्य ३
 सामाजिक ४ ॥ १६ ॥
 अध्वर्युद्गातृहोतारो यजुः साम-
 र्गिवदः क्रमात् ॥
 यजुर्वेद जाननेवालेका नाम १ ॥
 अध्वर्यु १ ॥ सामवेदीका नाम १ ॥ उद्गातृ
 १ ॥ ऋग्वेदीका नाम १ ॥ होतृ १ ॥
 आग्नीध्राद्या धनैर्वार्या ऋत्विजो
 याजकाश्च ते ॥ १७ ॥
 जिनको धन आदि देकर यज्ञमें वरण
 किया जाय तिस आग्नीध्र आदि सोलहके
 नाम २ ॥ ऋत्विज १ याजक २ ॥ १७ ॥
 वेदिः परिष्कृता भूमिः-
 वेदीके नाम १ ॥ वेदि १ ॥
 -समे स्थण्डिलचत्वरे ॥
 यज्ञार्थ चवृतराके नाम २ ॥
 स्थण्डिल १ चत्वरे २ ॥
 चषालो यूपकटकः-
 खम्भाने ऊपर जो ककणाकार

काष्ठका रहता है उसके नाम २ ॥ चषाल
 १ यूपकटक २ ॥

-कूम्वा सुगहना वृत्तिः ॥ १८ ॥
 यज्ञोको अन्यजाति न देखनेके
 निमित्त जो टट्टी धादि लगाई जाती
 है उसका नाम १ ॥ कुम्वा १ ॥ १८ ॥

यूपायं तर्म-
 यज्ञस्तम्भके आगेके नाम २ ॥ यूपाय
 १ तर्मन् २ ॥

-निर्मन्थ्यदारुणि त्वराणिर्द्वयोः ॥
 जिस लकड़ीको मथके अग्नि निका-
 लते है उसका नाम १ ॥ अरणि १ ॥
 दक्षिणाग्निर्गार्हपत्याहवनीयौ
 त्रयोऽग्नयः ॥ १९ ॥

यज्ञकी अग्निके नाम ३ ॥ दक्षिणाग्नि
 १ गार्हपत्य २ आहवनीय ३ ॥ १९ ॥

अग्नित्रयमिदं त्रेता-
 इन तीनों अग्नियोंका नाम १ ॥ त्रेता १ ॥

-प्रणीतः संस्कृतोऽनलः ॥
 संस्कारित अग्निका नाम १ ॥ प्रणीत १
 समूह्यः परिचाय्योपचाय्यत्पत्रां
 प्रयोगिणः ॥ २० ॥

यज्ञाग्निके नाम ३ ॥ समूह्य १ परि-
 चाय्य २ उपचाय्य ३ ॥ २० ॥

यो गार्हपत्यादानीय दक्षि-
 णाग्निः प्रणीयते ॥

तस्मिन्नानाय्यो-

गार्हपत्यामिसे छेकर जो दक्षिणा
मि प्रवेश कराया जाये उसका नाम १ ॥
भान्ताम्य १ ॥

-ऽथाम्नायी स्वाहा च इतमु
किप्रया ॥ २१ ॥

स्वाहा अर्पात् अमिफी खीके नाम ३ ॥
अम्नायी १ स्वाहा २ इतमुकिप्रया ३ ॥ २१ ॥

अन्तस्तामिधेनी धाय्या च मा
स्यादमितमिन्धने ॥

अमिधाअन्तेके अथ जो अन्धा पढी
जाय उसके नाम २ ॥ सामिधेनी १
धाम्या २ ॥

गायत्रीप्रमुखं छन्दो-

गायत्री ठगिह् अनुष्टुप् इत्यादिका
नाम १ ॥ छन्दस् १ ॥

-इत्थपाके चरुः प्रुमान् ॥ २२ ॥

अग्निमें छेडने योग्य साकस्यका नाम
१ ॥ चरु १ ॥ २२ ॥

आमिक्षा सा शृतोप्यो या
क्षीरे स्यादधियोगतः ॥

गरमपक दूधमें दही डालनेसे जो
भनता है उसका नाम १ ॥ आमिक्षा १ ॥

धवित्र व्यजनं तद्यदधित
मृगधर्मणा ॥ २३ ॥

मृगधर्मण् बनी हुये वीजनाका नाम
१ ॥ धवित्र १ ॥ २३ ॥

पृषदाज्य सदध्याज्ये-

दही घी मिल्हुएका नाम १ ॥ पृषदाज्य १ ॥

-परमाश्रं तु पायसम् ॥

खीरके नाम २ ॥ परमाश्र १ पायस २ ॥
हव्यकव्ये देवपिथ्ये अन्न-

देवताके अर्घ्यकी खीरका नाम १ ॥
हव्य १ ॥ पितरीकी खीरका नाम १ ॥

कव्य १ ॥

पात्र सुवादिकम् ॥ २४ ॥

सुवा आदिका नाम १ ॥ पात्र १ ॥ २४ ॥
ध्रुवापभृज्जुर्नातु सुवो भेदा

सुचः स्त्रिय* ॥

सुवाके भेद ४ ॥ ध्रुवा १ उपभेद २
शुद्ध ३ सुव ४ ॥

उपाकृत* पशुरसौ योऽमिमन्थ्य
अतौ इतः ॥ २५ ॥

यज्ञक पशुका नाम १ ॥ उपाकृत
१ ॥ २५ ॥

परम्पराक शमन प्रोक्षण च
वधार्थकम् ॥

यज्ञके अर्घ्य पशुमारनेक नाम १ ॥
परम्पराक १ शमन २ प्रोक्षण ३ ॥

वाच्यलिङ्गाः प्रमीतोपसंपन्नप्रो
क्षिता इते ॥ २६ ॥

यज्ञमें मारेहुये पशुके नाम १ ॥ प्रमीत
१ उपसम्पन्न २ प्रोक्षित ३ ॥ २६ ॥

साभाय्य इवि-

साकल्यके नाम २ ॥ सान्नाय्य १ ॥
हविष् २ ॥

-रप्रौ तु हुतं त्रिषु वषट्कृतम् ॥
अग्निमें जो हुनाजावे उसका नाम
१ ॥ वषट्कृत १ ॥

दीक्षान्तोऽवभृथो यज्ञः-

यज्ञान्तस्नानका नाम १ ॥ अवभृथ १ ॥

-तत्कर्मार्हं तु यज्ञियम् ॥

॥ २७ ॥ त्रि-

यज्ञयोग्यवस्तुका नाम १ ॥ यज्ञिय

१ ॥ २७ ॥

-ष्वथ क्रतुकर्मैष्टं-

यज्ञमें कर्मका नाम १ ॥ इष्ट १ ॥

-पूर्त खातादि कर्म यत् ॥

वावडी तालाव आदि खुदानेका

नाम १ ॥ पूर्त १ ॥

अमृतं विघसो यज्ञशेषभोजन-
शेषयोः ॥ २८ ॥

यज्ञसे बची हुई जाउरि आदिका
नाम १ ॥ अमृत १ ॥ और भोजनसे बची
हुई वस्तुका नाम १ ॥ विघस १ ॥ २८ ॥

त्यागो विहापितं दानमुत्सर्जन-
विसर्जने ॥ विश्राणनं वितरणं
स्पर्शनं प्रतिपादनम् ॥ २९ ॥
प्रादेशनं निर्वपणमपवर्जनमंहतिः ॥

दानके नाम १ ४ ॥ त्याग १ विहा-

पित ९ दान ३ उत्सर्जन ४ विसर्जन ९

विश्राणन ६ वितरण ७ स्पर्शन ८ प्रति-

पादन ९ ॥ २९ ॥ प्रादेशन १० निर्व-

पण ११ अपवर्जन १२ ॥ अहति १३ ॥

मृतार्थं तदहे दानं त्रिषु स्या

दौर्ध्वदेहिकम् ॥ ३० ॥

मृतकके अर्थ जो दश दिनके बीचमें

पिडादि दिये जाते हैं उनका नाम १ ॥

और्ध्वदेहिक १ ॥ ३० ॥

पितृदानं निवापः स्या-

पितरोंके देनेके निमित्त जो दान

दिया जावे उसके नाम २ ॥ पितृदान १

निवाप २ ॥

-च्छ्राद्धं तत्कर्म शास्त्रतः ॥

पितरोंके देनेके निमित्तके कर्मका

नाम ॥ १ ॥ श्राद्ध १ ॥

अन्वाहार्यमासिके-

अमावास्याके श्राद्धके नाम २ ॥ अ-

न्वाहार्य १ मासिक २ ॥

-ऽशोऽष्टमोऽद्भः कुतपोऽस्त्रि

याम् ॥ ३१ ॥

दिनके आठवें हिस्सेका नाम १ ॥

कुतप १ ॥ ३१ ॥

पर्येषणा परीष्टिश्राद्धेषणा च

गवेषणा ॥

श्राद्धमे ब्राह्मणकी भक्ति और सेवा

करनेके नाम २ ॥ पर्येफणा १ परीष्टि
२ ॥ धर्म आदिके खोजनेके नाम २ ॥
अभ्यपणा १ गभेफणा २ ॥ मापा-
अथवा ४ नाम धम आदिके खोजने
केही जानने ॥

सनिस्त्वध्यपणा-

कित्तीक नाम २ ॥ सनि १ अध्येफणा २ ॥

-याच्यजाडभिश्चस्त्रियाचनऽ

र्थना ॥ ३२ ॥

मांगन्के नाम ४ ॥ याच्य १ अभि-
द्यस्ति १ याचना ३ अर्थना ४ ॥ ३२ ॥

-यन्तु त्रि-

मापा-यह छ शब्द तीनों लिगोमें
ह्रात है ॥

-ध्वध्यमर्घाय पाथ पाढाय
वारिणि ॥

पूजाथ पानी छोडनेका नाम १ ॥
अर्घ्य १ ॥ पाथ धोनेको छोडने योग्य
पानीका नाम १ पाथ १ ॥

क्रमादात्तिथ्यातिथेय अतिथ्यर्थेऽ
त्र साधुनि ॥ ३३ ॥

अतिथिक अर्थ जो कर्म टसका नाम
१ ॥ आति प १ ॥ अतिथिक निमित्त जो
मिन्द हो यह १ ॥ आतिथय १ ॥ ३३ ॥
स्युगवेणिक आगन्तुरतिथिना गृ-
हागते ॥

मदिमानऽ नाम ४ ॥ आगन्तिक १
आगन्तु २ अतिथि ३ गृहागत ४ ॥ ३६ ॥ पथ्याय ५ ॥

पूजा नमस्याऽपचितिः सपर्यार्घा
र्हणा समा ॥ ३४ ॥

पूजाके नाम १ ॥ पूजा १ नमस्या २
अपचिति ३ सपर्या ४ अर्घ्या ५ अर्हणा
६ ॥ ३४ ॥

वरिवस्या तु शुश्रूपा परिचर्या
प्युपासना ॥

उपासनाके नाम ४ ॥ वरिवस्या १
शुश्रूपा २ परिचर्या ३ उपासना ४ ॥

ग्रज्याऽटाटथा पर्यटनं-

विदेशमें अगणकरनेके नाम ३ ॥ ग्रज्या
१ अटाटथा २ पर्यटन ३ ॥

-चर्या त्वीयापथे स्थितिः ॥ ३५ ॥
योगमार्गमें स्थितिका नाम १ ॥
चर्या १ ॥ ३५ ॥

उपस्पर्शस्वाशमन-
आशमने नाम २ ॥ उपस्पर्श १ ॥
आशमन २ ॥

-मथ मौनमभाषणम् ॥
सुपरहनेके नाम २ ॥ मौन १ अभा-
षण २ ॥

आनुपूर्वा भ्रियां वाऽऽवृत्परि-
पाटी अनुक्रमः ॥ ३६ ॥ पर्यायश्चा

अनुक्रमक नाम ५ ॥ आनुपूर्वा १
आहृत् २ परिपाटी ३ अनुक्रमक

४ ॥ ३६ ॥ पथ्याय ५ ॥

-उतिपातस्तु स्यात्पर्यय उपा-
त्ययः ॥

अतिक्रमके नाम ३ ॥ अतिपात २
पर्यय २ ॥ उपात्यय ३ ॥

नियमो व्रतमस्त्री-

व्रतके नाम २ ॥ नियम १ व्रत २ ॥

-तच्चोपवासादि पुण्यकम् ॥ ३७ ॥

चान्द्रायणादि व्रतका नाम १ ॥ पुण्य
१ ॥ ३७ ॥

औपवस्त तूपवासो-

उपवासके नाम २ ॥ औपवस्त १
उपवास २ ॥

-विवेकः पृथगात्मता ॥

प्रकृतिपुरुषके भेद जाननेके विचारके
नाम २ ॥ विवेक १ पृथगात्मता २ ॥

स्याद्ब्रह्मवर्चसं वृत्ताध्ययनद्धि-

सदाचारपालन और वेदाभ्यास कर
नेसे जो तेज होता है उसका नाम १ ॥
ब्रह्मवर्चस १ ॥

-रथाञ्जलिः ॥ ३८ ॥ पाठे-

ब्रह्माञ्जलिः-

वेदपढनेके समयकी अञ्जलिका नाम
१ ॥ ब्रह्माञ्जलि १ ॥ ३८ ॥

-पाठे विप्रुषो ब्रह्मविन्दवः ॥

वेदपढनेके समय जो मुखसे जल चूता
है उनका नाम १ ॥ ब्रह्मविन्दु १ ॥

ध्यानयोगासने ब्रह्मासनं-

ध्यान और योगके आसनका नाम

१ ॥ ब्रह्मासन १ ॥

-कल्पे विधिक्रमौ ॥ ३९ ॥

नियोगशास्त्रके नाम ३ ॥ कल्प १

विधि २ क्रम ३ ॥ ३९ ॥

मुख्यः स्यात्प्रथमः कल्पो-

प्रथम विधिका नाम १ ॥ मुख्य १ ॥

-ऽनुकल्पस्तु ततोऽधमः ॥

द्वितीयविधिका नाम १ ॥ अनुकल्प १ ॥

संस्कारपूर्व ग्रहणं स्यादुपाकर-
णं श्रुतेः ॥ ४० ॥

संस्कारपूर्वके वेदके सुननेका नाम १ ॥

उपाकरण १ ॥ ४० ॥

समे तु पादग्रहणमभिवादन
मित्युभे ॥

नामगोत्रादि पूर्वके प्रणाम करनेके
नाम २ ॥ पादग्रहण १ अभिवादन २ ॥

भिक्षुः परिव्राट् कर्मन्दी पारा
शर्यपि मस्करी ॥ ४१ ॥

सन्यासीके नाम ५ ॥ भिक्षु १ परि-
व्राज् २ कर्मन्दिन् ३ पाराशारिन् ४

मस्कारिन् ५ ॥ ४१ ॥

तपस्वी तापसः पारिकांक्षी-
तपस्वीके नाम ३ ॥ तपस्विन् १ तापस

२ पारिकाक्षिन् ३ ॥

-वाचयमो मुनिः ॥

मुनिके नाम २ ॥ वाचयम १ मुनि २ ॥

तपःश्लेशसहो दान्तो-

तपस्याक कश्चि सन्नेत्रालका नाम

१ ॥ दान्त १ ॥

-वर्णिनो ब्रह्मचारिणः ॥ ४२ ॥

ब्रह्मचारीके नाम २ ॥ वर्णिन् १

ब्रह्मचारिन् २ ॥ ४२ ॥

फूपयः सत्यवचसः-

कृषिके नाम २ ॥ कृषि १ सत्यवचस २ ॥

-आवकस्त्वाष्टुषो प्रतो ॥

जो कदव्रतभारण किये हुये गुरुकी

आवासे स्नाम फरे उसका नाम १ ॥

आवक १ ॥

ये निर्जितेन्द्रियमामा पतिनो
यस्यस्य से ॥ ४३ ॥

निर्जितके नाम २ ॥ पतिन् १ ॥

पति २ ॥ ४३ ॥

यः स्पण्डिले प्रतवशाच्छेते स्य

ण्डिलशाख्यसौ ॥ स्थाण्डिलश्चा-

जो प्रतवश हो पृथ्वीपर चकुररा

बना उसपर छोमे उसके नाम २ ॥ स्थाण्डि

लशाखिन् १ स्थाण्डिल २ ॥

-इय विरजस्तमनः स्युर्दया

तिगा ॥ ४४ ॥

रजोगुण तमोगुण रहित म्यासादि

मुनिके नाम २ ॥ विरजस्तमन् १ इया

तिगा २ ॥ ४४ ॥

पवित्र प्रयत पूत -

पवित्रक नाम ३ ॥ पवित्र १ प्रयत

२ पूत ३ ॥

-पारवण्डा सर्वलिङ्गिन् ॥

यौक्ष्ण्यपणकादि दुष्टशास्त्रवर्तियोंके

नाम २ ॥ पारवण्ड १ सर्वलिङ्गिन् २ ॥

पालाशो दण्ड आपादो प्रते-

ब्रह्मचर्यमे पलाशके दण्डका नाम

१ ॥ आपाद १ ॥

-राम्मस्तु वैणवः ॥ ४५ ॥

यदि वह दण्ड नस्तका हो तो उसका

नाम १ राम्म १ ॥ ४५ ॥

अक्षी कमण्डलुः कुण्डी-

ब्रतियोंके छोटके नाम २ ॥ कमण्डलु

१ कुण्डी २ ॥

-व्रतिनामासनं पृसी ॥

जोर उनके आसनका नाम १ ॥

पृसी १ ॥

अजिनं चर्म कृत्तिः स्त्री-

मृगाणिके चर्मके नाम ३ ॥ अजिन

१ चर्मन् २ कृत्ति ३ ॥

-मैस भिक्षाकदम्बसु ॥ ४६ ॥

भिक्षाके दरका नाम १ ॥ मैस १ ॥ ४६ ॥

स्वाध्यायः स्याज्जपः—

वेदके अभ्यासके नाम २॥ स्वाध्याय
१ जप २ ॥

—सुत्याऽभिषवः सवनं च सा॥

यज्ञौषधिके कूटनेके नाम ३॥ सुत्या
१ अभिषव २ सवन ३ ॥

सर्वेनसामपध्वंसि जप्यं त्रिष्व-
धमर्षणम् ॥ ४७ ॥

सर्व पापके नाशकरनेवाले भत्रका
नाम १ ॥ अधमर्षण १ ॥ ४७ ॥

दर्शश्च पौर्णमासश्च यागौ प-
क्षान्तयोः पृथक् ॥

अमावसके दिनके यज्ञका नाम १॥
दर्श १ पौर्णमासीके दिनके यज्ञका नाम
१ ॥ पौर्णमास १ ॥

शररिसाधनापेक्षं नित्यं यत्कम
तद्यमः ॥ ४८ ॥

अहिंसा सत्य चोरी न करना ब्रह्मच-
र्य अपरिग्रह (दान न लेना) इन
नित्यकर्मका नाम १ ॥ यम १ ॥ ४८ ॥

नियमस्तु स यत्कर्म नित्यमा-
गन्तुसाधनम् ॥

शौच सन्तोष तप स्वाध्याय ईश्वर-
प्रणिधान इन आगन्तु कर्म साधनका
नाम १ ॥ नियम १ ॥

उपवीतं ब्रह्मसूत्रं प्रोद्धृते दक्षि-
णे करे ॥ ४९ ॥

वाये काधेके जनेऊके नाम २॥ उप-
वीत १ ब्रह्मसूत्र २ ॥ ४९ ॥

प्राचीनावीतमन्यस्मि—

दहने कांधेपर रहनेवाले जनेऊका
नाम १ ॥ प्राचीनावीत १ ॥

निवीतं कण्ठलम्बितम् ॥

मालाकार यज्ञोपवीत पहिरनेका
नाम २ ॥ निवीत १ ॥

अंगुल्यग्रे तीर्थदैवं—

भाषा ॥ अगुलियोका अंग्रभाग दे-
वताओका तीर्थ कहाता है ॥

—स्वल्पांगुल्योर्मूले कायम् ॥ ५० ॥

भाषा—कन अगुलियोके मूलका नाम
१ ॥ प्रजापति तीर्थ है ॥ ५० ॥

मध्येऽङ्गुष्ठांगुल्योः पित्र्यं—

भाषा—अगुष्ठ और तर्जनी अगुलीके
मध्येमें पितृतीर्थ कहाता है ॥

—मूले त्वंगुष्ठस्य ब्राह्मम् ॥

भाषा ॥ अगुष्ठके मूलमे ब्राह्मतीर्थ
कहाता है ॥

स्याद्ब्रह्मभूयं ब्रह्मत्वं ब्रह्मसायु-
ज्यमित्यपि ॥ ५१ ॥

ब्रह्ममें मिलजानेके नाम ३ ॥ ब्रह्म-
भूय १ ब्रह्मत्व २ ब्रह्मसायुज्य ३ ॥ ५१ ॥

देवभूयादिकं तद्वत्—

देवमें मिलजानेके नाम ३ ॥ देवभूय
१ देवल २ देवसायुज्य ३ ॥

—कृच्छ्र सान्त्वपनादिकम् ॥

गोमूत्र गोबर दूध दही घी कुष्ठो
दक इमका मक्षण करन और एक रात्रिके
उपवासका नाम १ ॥ कृच्छ्र १ ॥

सन्ध्यासंबत्पनशने पुमान्प्रायो
सन्ध्यासूर्वक मोचनत्यागका नाम
१ ॥ प्राय १ ॥

—अथ वीरहा ॥५२॥ नष्टामि—
जिस तपस्वीका अग्नि शुभ्रगई हो
उस तपस्वीक नाम ॥ वीरहन् १
॥५२॥ नष्टामि २ ॥

कुहना छोमान्मिथ्येर्षापथक-
रूपना ॥

दम्भसे ध्यानादि करनेका नाम १ ॥
कुहना १ ॥

प्रात्य सस्कारहीन स्या—
जिस ब्राह्मणका गौण फालमेंमी
बशापर्वाण न हुआ हो उसका नाम
१ ॥ प्रात्य १ ॥

—दस्वाध्यायो निराकृति ॥७३॥
ब्रह्मध्यामरहितका नाम १ ॥ निरा
कृति १ ॥ ७३ ॥

धमध्वजी छिन्नवृत्ति—
बहुतरिवा श्राद्धक नाम १ ॥
धमध्वजि १ छिन्नवृत्ति २ ॥
—रवकीर्णो शतग्रह ॥

जिसका ब्रह्मध्वर्ष नष्ट होगया हो
उसके नाम २ ॥ भवकृष्णिन् १ शतग्रह २ ॥

सुते यस्मिन्नस्तमेति सुते य
स्मिन्नदेति च ॥ ५४ ॥ अशुमान
मिनिमुक्ताम्युदितौ च यथाक्रमम् ॥
साय संध्यामें सोनेवालेका नाम १ ॥
अमिनिर्मुक्त १ ॥ प्रातःकालकी संध्यामें
सोनेवालेका नाम १ ॥ अम्युदित १ ॥ ५४ ॥

परिवेसाञ्जुजोञ्जुदे ज्येष्ठे दार
परिग्रहात् ॥ ५५ ॥

जिसका बड़ा माई न ग्याहा गया
हो प्रथम छोटा ग्याहा जाय हा उस
छोटेका नाम १ ॥ परिवृत् १ ॥ ५५ ॥

परिवित्तिस्तु तज्ज्यायान—
उसके बड़माईका नाम १ ॥ परि
वित्ति १ ॥

—विवाहोपयमौ ममौ ॥ तथा
परिणयोद्वाहोपयामा पाणिपी
दनम् ॥ ५६ ॥

विवाहके नाम ६ ॥ विवाह १ उप-
यम परिणय २ उद्वाह ४ उपयाम २
पाणिपीदन ६ ॥ ५६ ॥

ध्ववायो ग्राम्यधमा मैथुन
निधुवन रतम् ॥
मैथुनका नाम ५ ॥ ध्ववाय १ ग्राम्य
धम मैथुन ६ निधुवन ४ रत ५ ॥

त्रिवर्गो धर्मकामार्थै-

वेदविहितयज्ञादि विधि, स्त्रीसेवन,
न्यायसे धनोपार्जन, इनका नाम १ ॥
त्रिवर्ग १ ॥

-श्रुतुर्वर्गः समोक्षकैः ॥ ५७ ॥

और मोक्ष करके युक्त धर्म अर्थ काम
हो तो उसका नाम १ ॥ चतुर्वर्ग १ ॥ ५७ ॥

सवलैस्तैश्चतुर्भद्रं-

और वे धर्मादि सबल हो तो उनका
नाम १ ॥ चतुर्भद्र १ ॥

-जन्याः स्निग्धा वरस्य ये ॥ ५८ ॥

वराती अर्थात् वरके पक्षवालोंका
नाम १ ॥ १ ॥ जन्य १ ॥ ५८ ॥

इति ब्रह्मवर्गः ॥ ७ ॥

अथ क्षत्रियवर्गः ८.

मूर्धाभिषिक्तो राजन्यो बाहुजः
क्षत्रियो विराट् ॥

क्षत्रियके नाम ५ ॥ मूर्धाभिषिक्त १
राजन्य २ बाहुज ३ क्षत्रिय ४ विराट् ५ ॥

राजा राट् पार्थिवक्षमाभृत्पभू-
पमहीक्षितः ॥ १ ॥

राजाके नाम ७ ॥ राजन् १ राज्
-२ पार्थिव ३ क्षमाभृत् ४ पभू ५
महीक्षित् ७ ॥ १ ॥

राजा तु प्रणताशेषसामन्तः
स्यादधीश्वरः ॥

जो बहुत राजाओका मालिक हो

उसका नाम १ ॥ अधीश्वर १ ॥

चक्रवर्ती सार्वभौमो-

समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका जिसका राज्य
हो उसके नाम २ ॥ चक्रवर्तिन् १
सार्वभौम २ ॥

-नृपोऽन्यो मण्डलेश्वरः ॥ २ ॥

चारहजार ४००० कोशके भूमंडलके
राजाका नाम १ ॥ मण्डलेश्वर १ ॥ २ ॥

येनेष्टं राजसूयेन मण्डलस्ये-
श्वरश्च यः ॥ शास्ति यश्चाज्ञया
राज्ञः स सम्रा-

वही मण्डलेश्वर राजसूययज्ञ किये हो
और सब राजाओका शिक्षक हो तो
उसका नाम १ ॥ सम्राज् १ ॥

-इय राजकम् ॥ ३ ॥ राज-
न्यकं च नृपतिक्षत्रियाणां गणे
क्रमात् ॥

राजाओंके गणका नाम १ ॥
राजक १ ॥ ३ ॥ और क्षत्रियोंके गणका
नाम १ ॥ राजन्यक १ ॥

मन्त्री धीसचिवोऽमात्यो-

मन्त्रीके नाम ३ ॥ मन्त्रिन् १ धीस-
चिव २ अमात्य ३ ॥

-ऽन्ये कर्मसचिवास्ततः ॥ ४ ॥

मन्त्रीसे छोटे अन्य मुसाहिवोंका
नाम १ ॥ कर्मसचिव १ ॥ ४ ॥

महामात्रा प्रधानानि-

सुरूपमन्त्रीक नाम २ ॥ महामात्र १
प्रधान २ ॥

-पुरोधास्तु पुरोहितं ॥

पुरोहितके नाम २ ॥ पुरोधस् १
पुरोहित २ ॥

वृष्टरि व्यवहारार्णा प्राड्विवाकास्त
दर्शकौ ॥ ५ ॥

पत्र अर्थात् स्यामोधीशक नाम २ ॥
प्राड्विवाक १ अक्षदर्शक २ ॥ ५ ॥

प्रतीहारो द्वाग्पालद्वाःस्थद्वा
स्थितदर्शकाः ॥

द्वाग्पालक नाम ५ ॥ प्रतीहार १
द्वाग्पालकश्चास्यश्चा स्थितदर्शकः ५ ॥

रक्षिबर्गस्वनीकस्यो-

रक्षबाळेके नाम २ ॥ रक्षिबर्ग १
अनीकस्य २ ॥

-ऽथाध्यक्षाधिकृती सर्वा ॥ ६ ॥

अधिकारीक नाम ॥ अध्यक्ष १
अधिष्ठ २ ॥ ६ ॥

स्यायुक्तोऽधिकृता ग्रामे-

एक ग्रामक ठेकरका नाम १ ॥
स्यायुक्त १ ॥

गोपो ग्रामेषु भूःस्यु ॥

बहुत ग्रामके ठेकरका नाम १ ॥

गोप १ ॥

भौरिकं कनकप्रध्यक्षो-

सोन्के अधिकारीके नाम २ ॥

भौरिक १ कनकाध्यक्ष २ ॥

-रूप्याध्यक्षस्तु नैष्किकं ॥ ७ ॥

खजानचीक नाम २ ॥ रूपाध्यक्ष
१ नैष्किक २ ॥ ७ ॥

अन्तःपुरे त्वधिकृतं स्यादन्त
र्बेशिको जनः ॥

जो जनानेसी बस्तुओंका अधिकारी
हो उसका नाम १ ॥ अन्तर्बेशिक १ ॥

सौविदह्याः कञ्चुकिन् स्यात्पत्या
सौविदाश्च ते ॥ ८ ॥

राजा वा राजस्त्रियोंके निकट जो
वेत लिय हुए खूब रहते हैं उनके नाम

४ ॥ सौविदह्य १ कञ्चुकिन् २ स्यात्पत्या
३ सौविद ४ ॥ ८ ॥

पण्डो बपवरस्तुसर्वा-

खोजोंके नाम २ ॥ पण्ड १ बपवर २ ॥

-सेवकार्येभ्यनुजीविनः ॥

सेवक वा नौकरके नाम ३ ॥ सेवक
१ अर्थिन् २ अनुजीविन् ३ ॥

विपमानन्तरो राजा शत्रु-
राजाके दसन पासक राजाका नाम

१ ॥ शत्रु १ ॥

-ामत्रमत पग्म् ॥ ९ ॥

उत्सर्ग अर्थात् राजाका नाम १ ॥

मित्र १ ॥ ९ ॥

उदासीनः परतरः—

इन शत्रु मित्रोंसे पर अन्य राजा-
ओंका नाम १ ॥ उदासीन १ ॥

—पार्ष्णिग्राहस्तु पृष्टतः ॥

अपने राज्यके पीछे राजा हो उसका
नाम १ ॥ पार्ष्णिग्राह १ ॥

रिपौ वैरिसपत्नारिद्विषद्वेषणदु-
हृदः ॥ १० ॥ द्विद्विषक्षाहितामित्रद-
स्युशात्रवशत्रवः ॥ अभिघातिपरा-
रातिप्रत्यर्थिपरिपथिनः ॥ ११ ॥

दुश्मनके नाम १९ ॥ रिपु १ वैरि-
न् २ सपत्न ३ अरि ४ द्विपत् ५ द्वेषण
६ दुहृद् ७ ॥ १० ॥ द्विप् ८ विपक्ष ९
अहित १० अमित्र ११ दस्यु १२
शात्रव १३ शत्रु १४ अभिघातिन् १५
पर १६ अराति १७ प्रत्यर्थिन् १८
परिपथिन् १९ ॥ ११ ॥

वयस्यः स्निग्धः सवया—

हमजोलीके नाम ३ ॥ वयस्य १
स्निग्ध २ सवयसू ३ ॥

—अथ मित्रं सरवा सुहृत् ॥

मित्रके नाम ३ ॥ मित्र १ सखि २ सुहृद् ३
सख्यं साप्तपदीनं स्या—
मित्रताके नाम २ ॥ सख्य १ सा-
प्तपदीन २ ॥

--दुनुरोधोऽनुवर्तनम् ॥ १२ ॥

७

भला मनाने (मुलाहिजे)के नाम २ ॥

अनुरोध १ अनुवर्तन २ ॥ १२ ॥

यथार्हवर्णः प्रणिधिरपसर्पश्चरः

स्पशः ॥ चारश्च गूढपुरुष—

जासूस वा हलिकारेके नाम ७ ॥
यथार्हवर्ण १ प्रणिधि २ अपसर्प ३ चर
४ स्पश ५ चार ६ गूढपुरुष ७ ॥

—श्चाप्तप्रत्ययितौ समौ ॥ १३ ॥

विश्वासीके नाम २ ॥ आप्त १
प्रत्ययित २ ॥ १३ ॥

सांवत्सरो ज्योतिषिको देव-
ज्ञगणकावपि ॥ स्युर्मौहूर्तिकमौ-
हूर्तज्ञानिकार्तान्तिका अपि ॥ १४ ॥

ज्योतिषी पण्डितके नाम ८ ॥ साव-
त्सर १ ज्योतिषिक २ देवज्ञ ३ गणक
४ मौहूर्तिक ५ मौहूर्त् ६ ज्ञानिन् ७
कार्तान्तिक ८ ॥ १४ ॥

तान्त्रिको ज्ञातसिद्धान्तः—

शास्त्रीके नाम २ ॥ तान्त्रिक १
ज्ञातसिद्धान्त २ ॥

—सत्री गृहपतिः समौ—

मोदीके नाम २ ॥ सत्रिन् १ गृहपति २ ॥
लिपिकरोऽक्षरचणोऽक्षरचुञ्चु-
श्च लेखके ॥ १५ ॥

लेखकके नाम ४ ॥ लिपिकर १ अक्षर-
चण २ अक्षरचुञ्चु ३ लेखक ४ ॥ १५ ॥

लिखिताक्षरविन्यासे लिपिर्लि
विरुमे स्त्रियौ ॥

लिखित इए लखके नाम ४ ॥ लिखित १
अक्षरविन्यास २ लिपि ३ लिखि ४ ॥

स्यात्सदेशहरो दृषो-

दृष्टके नाम २ ॥ संदेशहर १ दृष्ट २ ॥

-दृष्ट्य सद्भावकर्मणी ॥ २६ ॥

दृष्टपनका नाम १ ॥ दृष्ट्य १ ॥ २६ ॥

अध्वनीनोऽध्वगोऽध्वम्य पान्य
पथिक इत्यपि ॥

रस्तेगीरक नाम ६ ॥ अध्वनीन १
अध्वग २ अध्वम्य ३ पान्य ४ पथिक ५ ॥

स्वाम्यमास्यमुहृत्कोशराष्ट्रदुर्ग
वलानि च ॥ १७ ॥ राज्याङ्गानि
मकृतयः पीराणां श्रेणयोऽपि च ॥

स्वामी (राजा) अमात्य (मन्त्री) सुहृद्
(मित्र) कोश (खजाना) राष्ट्र (देशकी
भूमि) दुर्ग (दुर्गमस्थान) कळ (फौज)
॥ १७ ॥ पुरासी और शिल्पी इन
सबके नाम २ ॥ राज्याङ्ग १ प्रकृति २ ॥
संधिर्ना विग्रहो याममासर्न द्वेष
माश्रयः ॥ १८ ॥ पहगुणाः-

सुवर्णादि देक शत्रुन मित्रानेक्य नाम
१ ॥ सन्धि १ ॥ शत्रुक साय विग्रहनेपा
नाम १ ॥ विग्रह १ ॥ शत्रुपर चडाई कर
नेका नाम १ ॥ याम १ ॥ अपन स्थानपर

सीपार हो रहनेका नाम १ ॥ आसन १ ॥
शत्रुके अधिकारियोंमें झूट करानेका नाम
१ ॥ द्वेष १ ॥ दूसरेका आसरा लेनेका
नाम १ ॥ आश्रय १ ॥ १८ ॥ यह
गुण कष्टकारक हैं

-शक्तयस्त्रिंशत् प्रभाषोत्साह
मन्त्रजाः ॥

राजाकी शक्तियोंके नाम ३ ॥ प्रमात्र
१ उत्साहज २ मन्त्रज ३ ॥

क्षयं स्थानं च वृद्धिश्च त्रिवर्गो
नीतिषेदिनाम् ॥ १९ ॥

नीतिशास्त्रोक्त क्षय स्थान वृद्धि
नाम १ ॥ त्रिवर्ग १ ॥ १९ ॥

स प्रताप प्रमावक्ष यत्तेज
कोशदण्डसम् ॥

खजाना और दंडके प्रमाणके नाम
२ ॥ प्रताप १ प्रमाण २ ॥

सामदाने भेददण्डावित्युपायव
दुष्टयम् ॥ २० ॥

राजाके चारों उपायोंके नाम ४ ॥
सामन् १ दान २ भेददण्ड ३ ॥ २० ॥

साहसं तु धर्मो दण्ड-
दण्ड देनेके नाम ३ ॥ साहस १ दम
२ दण्ड ३ ॥

-साम सान्त्व-
सत्रुक फरनके नाम २ ॥ सामन् १
सामन् २ ॥

-मथो समौ ॥ भेदोपजापा-
फरक डालनेके नाम २ ॥ भेद १

उपजाप २ ॥

-उपधा धर्माद्यैर्यत्परीक्षणम् २१

धर्म अर्थ काम और भयसे मत्री
इत्यादिकोंकी परीक्षा करनेका नाम १
॥ उपधा १ ॥ २१ ॥

पञ्च त्रि-

भाषा-अषडक्षीण आदि निःशलाक
पर्यन्त पाच शब्द तीनों लिङ्गोंमें होतेहैं॥

-ष्वषडक्षीणोयस्तृतीयाद्यगो-
चरः ॥

दो जनोकीही सलाहका नाम १ ॥
षडक्षीण १ ॥

विविक्तविजनच्छन्ननिःशलाका
स्तथा रहः ॥ २२ ॥ रहश्चोपांशु
वालङ्गे-

एकान्तके नाम ७ ॥ विविक्त १
विजन २ छन्न ३ निःशलाक ४ रहस् ५
॥ २२ ॥ रह ६ उपांशु ७ ॥

-रहस्यं तद्भवे त्रिषु ॥

एकान्तकी बात वा कामका नाम १
॥ रहस्य १ ॥

समौ विस्रम्भविश्वासौ-

विश्वासके नाम २ ॥ विस्रम्भ १
विश्वास २ ॥

-भ्रेषो भ्रंशो यथोचितात् ॥ २३

अन्यायका नाम १ ॥ भ्रेष १ ॥ २३ ॥

अभ्रेषन्यायकलपास्तु देशरूपं

समञ्जसम् ॥

न्यायके नाम ५ ॥ अभ्रेष १ न्याय
२ कल्प ३ देशरूप ४ समञ्जस ५ ॥

युक्तमौपयिकं लभ्यं भजमाना-
भिनीतवत् ॥ २४ ॥ न्याय्यं च

त्रिषु षट्-

न्यायसे जो वस्तु ली जावे उसके नाम
६ ॥ युक्त १ औपयिक २ लभ्य ३ भज-
मान ४ ॥ अभिनीत ५ ॥ २४ ॥ न्याय्य

६ ॥ ये छः शब्द त्रिलिङ्ग हैं ॥

-संप्रधारणा तु समर्थनम् ॥

यही उचित है ऐसे निश्चय करनेके
नाम २ ॥ सम्प्रधारणा १ समर्थन २ ॥

अववादस्तु निर्देशो निदेशः
शासनं च सः ॥ २५ ॥ शिष्टि-

श्राज्ञा च-

आज्ञाके नाम ६ ॥ अववाद १ निर्देश
२ निदेश ३ शासन ४ ॥ २५ ॥

शिष्टि ५ आज्ञा ६ ॥

-संस्था तु मर्यादा धारणा
स्थितिः ॥

मर्यादाके नाम ४ ॥ संस्था १
मर्यादा, २ धारणा ३ स्थिति ४ ॥

आगोऽपराधो मन्तुश्च-
अपराधके नाम ३ ॥ आगस् १ अ
पराध १ मन्तु ३ ॥

-समे वृद्धानबन्धने ॥ २६ ॥
बधनके नाम २ ॥ उदान ॥ बन्धन
२ ॥ २६ ॥

द्विपाद्यो द्विगुणो दण्डो-
द्वय दण्डका नाम १ द्विपाद्य १ ॥
-भागधेयं करो वलिं ॥
करके नाम ३ ॥ भागधेय १ कर २
वलि ३ ॥

घटादिदेय शुल्कोऽस्त्री-
घाटीबगेरुमें देन योग्य महसूलका
नाम १ ॥ शुल्क १ ॥

-प्राभृत तु मदेशनम् ॥ २७ ॥
मित्रादिको भेंट वा नजर देनेके नाम
२ ॥ प्राभृत १ मदेशन २ ॥ २७ ॥

उपायनमुपमाह्यमुपहारस्तथो
पदा ॥

राजाको भेंट वा नजर देनेके नाम ३ ॥
उपायन १ उपमाह्य २ उपहार ३ उपदा ३ ॥

यावकादि तु यदर्थं मुदायो
हरणं च तत् ॥ २८ ॥

दहन वा मार्शयन्तुर्भोके देनेको वस्तु
के नाम २ मुदाय १ हरण २ ॥ २८ ॥

तत्पातस्तु तदात्वं स्या-

वर्तमानसमयके नाम २ ॥ तत्काल
१ तदात्वं २

-दुस्तरं काल आयति ॥
आनबाल समयका नाम १ आयति १ ॥

सांख्यिकं फल सद्य-
तुरन्तके फलका नाम १ सांख्यिक १ ॥

-उदकं फलमुत्तरम् ॥ २९ ॥
आगेके होनेवालेका नाम १ ॥ उदकं
१ ॥ २९ ॥

अदृष्टवृत्तितोयादि-
भाग छान और अतिदृष्टि होने का

दि उत्पातका नाम १ ॥ अदृष्ट १ ॥

-दृष्टं स्वपरचक्रवम् ॥
अपने या पराये राज्यसे चौतखिके
मयका नाम १ ॥ दृष्ट १ ॥

महीमुजामहिमयं स्वपक्षमयं
मयम् ॥ ३० ॥

अपने सहायकसे मयका नाम १ ॥
अहिमय १ ॥ ३० ॥

प्रक्रिया स्वधिकारः स्या-
कानून चलानेके नाम २ ॥ प्रक्रिया
१ अधिकार २ ॥

-धामर तु प्रकीर्णकम् ॥
धामरक नाम २ ॥ धामर १ प्रकीर्णक २ ॥

नृपासनं यत्तद्द्रवासन-
मणि आदिसे बनी हुई राजगदीक मान

२ ॥ नृपासन १ मद्रासन २ ॥

-सिंहासनं तु तत् ॥ ३१ ॥

हैमं-

कदाचित् वही राजाके बैठनेका स्थान सोनेसे बनाहो तो उसका नाम १ ॥ सिंहासन १ ॥ ३१ ॥

-छत्रं त्वातपत्रं-

छतुरीके नाम २ ॥ छत्र १ आतपत्र २ ॥

-राज्ञस्तु नृपलक्ष्म तत् ॥

राजाके छत्रका नाम १ ॥ नृपलक्ष्मन् १ ॥

भद्रकुम्भः पूर्णकुम्भो-

मरेघडेके नाम २ ॥ भद्रकुम्भ १ पूर्णकुम्भ २ ॥

भृङ्गारः कनकालुका ॥ ३२ ॥

झारी या गडुवेके नाम २ ॥ भृङ्गार १ कनकालुका २ ॥ ३२ ॥

निवेशः शिविरं षण्ढे-

उराके नाम २ ॥ निवेश १ शिविर २ ॥

सज्जनं तूपरक्षणम् ॥

पहरेके नाम २ ॥ सज्जन १ उपरक्षण २ ॥

हस्त्यश्वरथपादातं सेनाङ्गं स्याच्चतुष्टयम् ॥ ३३ ॥

हाथी घोडा रथ सिपाही इन सबका नाम १ ॥ सेनाङ्ग १ ॥ ३३ ॥

दन्ती दन्तावलो हस्ती द्विरदोऽनेकपो द्विपः ॥ मतङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः करी ॥ ३४ ॥ इभः स्तम्बेरमः पद्मी-

हाथीके नाम १ ॥ दन्तिन् १ दन्तावल २ हस्तिन् ३ द्विरद ४ अनेकप ५ द्विप ६ मतगज ७ गज ८ नाग ९ कुञ्जर १० वारण ११ करिन् १२ ॥ ३४ ॥ इभ १३ स्तम्बेरम १४ ॥ पद्मिन् १५ ॥

-यूथनाथस्तु यूथपः ॥

हाथियोंके सिरदार हाथीके नाम २ ॥

यूथनाथ १ यूथप २ ॥

मदोत्कटो मदकलः-

मदान्व हाथीके नाम २ ॥ मदोत्कट १ मदकल २ ॥

-कलभः करिशावकः ॥ ३५ ॥

हाथीके बच्चोंके नाम २ ॥ कलभ १ करिशावक २ ॥ ३५ ॥

प्रभिन्नो गर्जितो मत्तः-

जिसके मद बहता हो उसके नाम ३ ॥ प्रभिन्न १ गर्जित २ मत्त ३ ॥

-समाबुद्धान्तनिर्मदौ ॥

वे मदवालेके नाम २ ॥ उद्धान्त १ निर्मद २ ॥

हास्तिकं गजता वृन्दे-

हाथियोंके समूहके नाम २ ॥ हास्तिक १ गजता २ ॥

-करिणी धेनुका वशा ॥ ३६ ॥

हथिनीके नाम ३ ॥ करिणी १ धेनुका २ वशा ३ ॥ ३६ ॥

आगोऽपराधो मन्तुश्च-
 अपराधकं नाम ३ ॥ आगस् १ अ
 पराध २ मन्तु ३ ॥
 -समे तृहानबन्धने ॥ २६ ॥
 बन्धनकं नाम २ ॥ तृहान ॥ बधन
 २ ॥ २६ ॥
 द्विषाधो द्विगुणो दण्डो-
 दूने दण्डका नाम १ द्विषाध १ ॥
 -भागधेयं करो वलिं ॥
 करके नाम ३ ॥ भागधेय १ कर २
 वलि ३ ॥
 घट्टादिदेय शुल्कोऽस्त्री-
 घाटीबगेरुहम देन योग्य महसूलका
 नाम १ ॥ शुल्क १ ॥
 -प्राभृत तु प्रदेष्टनम् ॥ २७ ॥
 मित्रादिको भट्ट वा नजर देनेके नाम
 २ ॥ प्राभृत १ प्रदेष्टन २ ॥ २७ ॥
 उपायनमुपमाह्वमुपहारस्त्वयो
 पवा ॥
 राजाको भेट्ट वा नजर देनेके नाम ३ ॥
 उपायन १ उपमाह्व २ उपहार ३ उपदा ३ ॥
 यासकादि तु यद्देयं सुदायो
 हरणं च तसु ॥ २८ ॥
 दहज वा भाईबन्धुभोंके देनेकी वस्तु
 के नाम २ सुदाय १ हरण २ ॥ २८ ॥
 तत्कारुस्तु तदास्व स्या-

वर्तमानसमयके नाम २ ॥ तत्कारु
 १ तदास्व २
 -दुत्तरं काल आयति ॥
 आननाल समयका नाम १ आयति ॥
 सांघट्टिकं फल सघ-
 ट्टरस्तके फलका नाम १ सांघट्टिक १ ॥
 -उदर्कं फलमुत्तरम् ॥ २९ ॥
 आगके होनेवालेका नाम १ ॥ उदर्क
 १ ॥ २९ ॥
 अष्टष्ट, बद्धितोयादि-
 आग आने और अतिदृष्टिहोन आ
 दि उत्पातका नाम १ ॥ अष्टष्ट १ ॥
 -दृष्ट स्वपरधकजम् ॥
 अपन या पराय राज्यसे चौरादिके
 मयका नाम १ ॥ दृष्ट १ ॥
 महीमुजामहिभयं स्वपसप्रमम
 मयम् ॥ ३० ॥
 अपने सहायकसे मयका नाम १ ॥
 अहिभय १ ॥ ३० ॥
 प्राक्रिया त्वधिकारं स्या-
 कानून चखानेके नाम २ ॥ प्राक्रिया
 १ अधिकार २ ॥
 -धामर तु प्रकीर्णकम् ॥
 धंकरके नाम २ ॥ धामर १ प्रकीर्णक २ ॥
 नृपासनं यत्तद्भ्रासन-
 मणि आदिते कनीहुई राजगरीके नाम
 २ ॥ नृपासन १ भ्रासन २ ॥

-ॐ शृंगले ॥ अन्दुको
निगडोऽस्त्री स्या-

हाथीकी जजीरके नाम ३ ॥ शृखल
१ अन्दुक २ निगड ३ ॥

-दंकुशोऽस्त्री सृणिः स्त्रियाम् ४१
अकुशके नाम २ ॥ अकुश १
सृणि २ ॥ ४१ ॥

दूष्या कक्ष्या वरत्रा च-
हाथीकी कमर बाधनेकी रस्तीके
नाम ३ ॥ दूष्या १ कक्ष्या २ वरत्रा ३ ॥

-कल्पना सज्जना समे ॥
मालिकके चढनेके वास्ते हाथीको
तैयारकरनेके नाम २ ॥ कल्पना १
सज्जना २ ॥

प्रवेण्यास्तरणं वर्णः परिस्तोमः
कुथो द्वयोः ॥ ४२ ॥

गद्दी वा झूलके नाम ५ ॥ प्रवेणी
१ आस्तरण २ वर्ण ३ परिस्तोम ४
कुथ ५ ॥ ४२ ॥

वीतं त्वसीरं हस्त्यश्वं-
हाथी घोडेका नाम १ ॥ वीत १ ॥
-वारी तु गजबन्धनी ॥
जिस भूमिमें हाथी बाधेजायँ उस-
का नाम १ ॥ वारी १ ॥

घोडेके वीतितुरगतुरङ्गाश्वतुर
ङ्गमाः ॥ ४३ ॥ वाजिवाहार्वा

गन्धर्वहयसैन्धवसप्तयः ॥

घोडेके नाम १३ ॥ वोटक १
वीति २ तुरग ३ तुरङ्ग ४ अश्व ५
तुरङ्गम ६ ॥ ४३ ॥ वाजिन् ७ वाह
८ अर्धन् ९ गन्धर्व १० हय ११
सैन्धव १२ सप्ति १३ ॥

आजानेयाः कुलीनाः स्यु-
कुलीन घोडेका नाम १ ॥ आजानेय १ ॥
-र्विनीताः साधुवाहिनः ॥ ४४ ॥
सीखेहुये घोडेका नाम १ ॥
विनीत १ ॥ ४४ ॥

वनायुजाः पारसीकाः काम्बो-
जा बाह्लिका ह्याः ॥
वनायु देशमें पैदाहुए घोडेका
नाम १ ॥ वनायुज १ ॥
पारसदेशोत्पन्न घोडेका नाम १ ॥
पारसीक १ ॥

काबुली घोडेका नाम १ ॥ बाह्लिक १ ॥
ययुरश्वोऽश्वमेधीयो-
अश्वमेधके श्यामकर्णवाले घोडेका
नाम १ ॥ ययु १ ॥

-जवनस्तु जवाधिकः ॥ ४५ ॥
जल्दी चलनेवाले घोडेका नाम
१ ॥ जवन १ ॥ ४५ ॥

पृष्ठ्यः स्थैरी-
लदनेवाले घोडेके नाम २ ॥ पृष्ठ्य १
स्थैरी

गण्डः कर्णे-

हाथीके गालके नाम २ ॥ गण्ड १

श्ल १ ॥

-मदो दानं-

हाथीके मदके नाम २ ॥ मद १

दान २ ॥

-वमयु कर्णशक्तिः ॥

हाथीकी सूँसे पानी निकलनेके

नाम २ ॥ वमयु १ कर्णशक्ति २ ॥

कुम्भौ तु पिण्डौ शिरस-

हाथीके मस्तकके मांसके नाम १ ॥

कुम्भ १ ॥

-स्तयोमध्ये विदुः पुमान् ॥ ३७ ॥

दोनों कुम्भोंके मध्यमें जो खाली रहता

है उसका नाम १ ॥ विदु १ ॥ ३७ ॥

अबमहो छलाट स्या-

हाथीके छिजारका नाम १ ॥ अबमह १

-दिविका स्वसिकूटकम् ॥

उसके नेत्रोंकी गोलाईके नाम २ ॥

दिविका १ स्वसिकूटक २ ॥

अपांगदेशो निर्माणं-

उसके निहारनेका नाम १ ॥ निर्माण १ ॥

-कणमूर्छं तु घृत्तिका ॥ ३८ ॥

हाथीके जहाँ से कान जमते हैं उस

जगहका नाम १ ॥ घृत्तिका १ ॥ ३८ ॥

अथ कुम्भस्य वाहित्यं-

हाथीके छिजारके नीचेका नाम १ ॥

वाहित्य १ ॥

प्रतिमानमघोऽस्य यत् ॥

वाहित्यके नीचेका नाम १ ॥ प्रति

मान १ ॥

आसन स्कन्धदेशः स्या-

हाथीके कन्धेका नाम १ ॥ आसन १ ॥

-त्पद्मकं विन्दुजालकम् ॥ ३९ ॥

हाथीके विन्दुओंका नाम १ ॥ पद्म

१ ॥ ३९ ॥

पार्श्वभाग पक्षभागो-

हाथीकी बगलके नाम २ ॥ पार्श्वभाग

१ पक्षभाग २ ॥

-दन्तभागस्तु भोऽग्रत ॥

हाथीके आगेके भागका नाम १ ॥

दन्तभाग १ ॥

द्वी पूर्वपश्चाज्जघान्दिदेशी गात्रा

द्वे क्रमात् ॥ ४० ॥

हाथीके आगेके पंजादि भागका

नाम १ ॥ गात्र १ ॥ हाथीके पीछेके

भागका नाम १ ॥ अग्र १ ॥ ४० ॥

तोत्रं वैशुक-

चायुककी डबीके नाम २ ॥ तोत्र

१ वैशुक २ ॥

-माखानं बन्धस्तम्भे-

हाथीके बन्धके नाम १ ॥ माखान १ ॥

न सम-	रथे काम्बलवास्राद्याः कम्बालादिभिरावृते ॥ ५४ ॥
॥ पुष्परथ	कम्बलके परदेवाले रथका नाम १
	॥ काम्बल १ ॥ ५४ ॥
न च समं	त्रिषु द्वैपादयो-
	भाषा-द्वैप आदि शब्द तीनों लिंगो
३॥ कर्णोरथ	मे होते हैं ॥
	-रथ्या रथकव्या रथत्रजे ॥
पी स्या-	रथके समूहके नाम २ ॥ रथ्या १
प्रशकट २ ॥	रथकव्या २ ॥
कम् ॥ ५२ ॥	धूःस्त्री क्लीबे यानमुखं-
गन्त्री १ (गान्त्री)	-धूरीके नाम २ ॥ वुर १ यानमुख २ ॥
	स्याद्रथाङ्गमपस्करः ॥ ५५ ॥
प्रयानं स्या-	तागेके नाम २ ॥ रथाग १ अपस्कर
२ ॥ शिविका १	२ ॥ ५५ ॥
दिका स्त्रियाम् ॥	चक्रं रथाङ्गं-
के नाम २ ॥ दोली	पहियेके नाम २ ॥ चक्र १ रथाङ्ग २ ॥
	-तस्यान्ते नेमिः स्त्रीस्यात्प्रधिः
याघ्रौ द्वीपिचर्मा-	पुमान् ॥
॥	रथकी नेमिके नाम २ ॥ नेमि १ प्रधि २ ॥
मडेका परदा हो उसके	पिण्डिका नाभि-
यात्र २ ॥ ५३ ॥	पुष्टीके नाम २ ॥ पिण्डिका १ नाभि २ ॥
दसंवीतः स्यन्दनः	-रक्षाग्रकीलके तु द्वयोरणिः
॥	॥ ५६ ॥
परदेके रथका नाम १ ॥	कुलावेका नाम १ ॥ अणि १ ॥ ५६ ॥
॥	रथगुप्तिर्वरूथो ना-

-सित* कर्को-	वल्गितं प्लुतम् ॥ ४८ ॥ गतपोऽ
उबले घोडका नाम १ ॥ कर्क १ ॥	सू* पञ्च धारा-
-रथ्यो वोढा रथस्य य* ॥	घोडेके पांशु प्रकारकी चालोंके
रथके घोडेका नाम १ ॥ रथ्य १ ॥	नाम ५ ॥ आस्कन्दित १ घौरित्क २
बाल* किशोरो-	रचित ३ वल्गित ४ प्लुत ५ ॥ ४८ ॥
घोडेके बडेका नाम १ ॥ किशोर १ ॥	-घोणा तु प्रोथमस्त्रियाम् ॥
-वाम्यन्धा वडवा-	घोडेकी नाकका नाम १ ॥ प्रोथ १ ॥
घोडीके नाम ३ ॥ यामी १	कविका तु खलीनोऽस्त्री-
भन्धा २ वडवा ३ ॥	घोडेकी छागके नाम २ ॥ कविका
-वाडव गण ॥ ४६ ॥	१ खलीन २ ॥
घोडीके समूहका नाम १ वाडव १ ॥ ४६ ॥	-शफं क्लीबे सुरः पुमान् ॥ ४९ ॥
त्रिष्वान्धीन यदन्धेन दिनेनैकेन	घोडेके सुरके नाम ३ ॥ शफ १
गम्यते ॥	सुर २ (सुर) ३ ॥ ४९ ॥
घोडेके एक दिन चलने योग्य	पुच्छाञ्जली लूमलांगूले-
मार्गका नाम १ ॥ आन्धीन १ ॥	पूँछके नाम ३ ॥ पुच्छ १ छप २ लांगूल ३ ॥
कश्यपु तु मध्यमन्धानां-	-वालहस्तश्च बालधि ॥
घोडेके मध्यमागका नाम १ ॥ कश्यप १ ॥	वालहस्त पूँछके नाम २ ॥ बाल
-हेपा हेपा च निःस्वन ॥ ४७ ॥	हस्त १ बालधि २ ॥
घोडेके शब्दका नाम २ ॥ हेपा १	त्रिपुपावृत्तच्छठिती परावृत्ते
हेपा २ ॥ ४७ ॥	मुहुर्मुवि ॥ ५० ॥
निगालस्तु गलोद्देशे-	शुभीमे लोटमङ्ग नाम २ ॥ उपा
घोडेके गलेका नाम १ ॥ निगाल १ ॥	वृष १ छठित २ ॥ ५ ॥
-वृन्दे त्वन्धीयमाश्वषत् ॥	यान चक्रिणि युद्धार्थं शतान् ७
घोडोंके समूहका नाम २ ॥	स्पन्दनो रथः ॥
वन्धीय १ भाष २ ॥	युद्धके रथके नाम ३ ॥ शतान १
आस्कन्दित घौरित्क रचित	स्पन्दन २ रथ ३ ॥

वसौ पुष्परथश्चक्रयानं न सम-
राय यत् ॥ ५१ -

सामान्य रथका नाम १ ॥ पुष्परथ
१ ॥ ५१ ॥

कर्णोरथः प्रवहणं डयनं च समं
त्रयम् ॥

द्विर्योकी गाडीके नाम ३ ॥ कर्णोरथ
१ प्रवहण २ डयन ३ ॥

ह्रीवेऽनः शकटोऽस्त्री स्या-
लकडेके नाम २ अनस् १ शकट २ ॥

-दन्त्री कम्बलिवाह्यकेम् ॥ ५२ ॥

गाडीके नाम २ ॥ गन्त्री १ (गान्त्री)
२ ॥ ५२ ॥

शिविका याप्ययानं स्या-
पालकीके नाम २ ॥ शिविका १
याप्ययान २ ॥

-दोला प्रेखादिका स्त्रियाम् ॥
दोली वा हिढोलेके नाम २ ॥ दोली
१ प्रेखा २ ॥

उभौ तु द्वैपवैयाघ्रौ द्वीपिचर्मा-
वृते रथे ॥ ५३ ॥

जिसमे बघेरके चमडेका परदा हो उसके
नाम २ ॥ द्वैप १ वैयाघ्र २ ॥ ५३ ॥

पाण्डुकम्बलसंवीतः स्यन्दनः
पाण्डुकम्बली ॥

पीले रगवाले परदेके रथका नाम १ ॥
पाण्डुकम्बली १ ॥

रथे काम्बलवास्त्राद्याः कम्बा-
लादिभिरावृते ॥ ५४ ॥

कम्बलके परदेवाले रथका नाम १
॥ काम्बल १ ॥ ५४ ॥

त्रिषु द्वैपादयो-
भाषा-द्वैप आदि शब्द तीनों लिंगों

मे होते है ॥
-रथ्या रथकव्या रथव्रजे ॥

रथके समूहके नाम २ ॥ रथ्या १
रथकव्या २ ॥

धूःस्त्री ह्रीवे यानमुखं-
धूरीके नाम २ ॥ धुर १ यानमुख २ ॥

स्याद्रथाङ्गमपस्करः ॥ ५५ ॥
तागेके नाम २ ॥ रथांग १ अपस्कर
२ ॥ ५५ ॥

चक्रं रथाङ्गं-
पहियेके नाम २ ॥ चक्र १ रथाङ्ग २ ॥

-तस्यान्ते नेमिः स्त्रीस्यात्प्रधिः
पुमान् ॥

रथकी नेमिके नाम २ ॥ नेमि १ प्रधि २ ॥

पिण्डिका नाभि-
पुष्टीके नाम २ ॥ पिण्डिका १ नाभि २ ॥

-रक्षाग्रकीलके तु द्वयोरणिः
॥ ५६ ॥

कुलावेका नाम १ ॥ अणि १ ॥ ५६ ॥
रथगुप्तिर्वरूथो ना-

छोहे जड़ेहुये रयके भावरणके नाम २ ॥	निपन्तु १ प्राजित् ४ यन्तु ३ सूत ४
रयगुप्ति १ वरुय २ ॥	श्वत् ९ सारयि ९ ॥ १९ ॥ सम्यष्ट ७
कूषरस्तु युगंधरः ॥	दक्षिणस्य ८ ॥
काठके छुएके बांधनेके स्थानके नाम	रथिन* स्पन्दनारोहा-
२ ॥ कूषर १ युगंधर २ ॥	रयके ऊपर चढ़के छडनेवालोंके नाम
अनुकर्षो दार्वधःस्त-	२ ॥ रथिन १ स्पन्दनारोह २
सुगनके नाम १ ॥ अनुर्ष १ ॥	-अम्भारोहास्तु सादिन ॥ ६० ॥
-प्रासङ्गो ना युगाद्युग ॥ ५७ ॥	धुइसवारक नाम २ ॥ अम्भारोह १
शुएक नाम २ ॥ प्रासग १ युग २ ॥ ५७ ॥	सादिन् २ ॥ ६० ॥
सर्वे स्पाटाहर्न यान युग्यं पत्र	भय योधाश्च योद्धार -
च घोरणम् ॥	छडनेवालोंके नाम ३ ॥ मट १
सवारीके नाम ९ ॥ बाहन १ यान	योध २ योद्धू ३ ॥
२ युग्य ३ पत्र ४ घोरण ५	-सेनारक्षास्तु 'सेनिका' ॥
परम्परावाहन यद्यद्वेनीतकम	पहरा देनेवालोंके नाम २ ॥ सेनारक्ष १
स्त्रियाम् ॥ ५८ ॥	सेनिक २ ॥
फहार आदि पाहनोंका नाम १ ॥	सेनायां समवेता ये सेन्यास्ते
वेनीतक १ ॥ ५८ ॥	सेनिकाश्च ते ॥ ६१ ॥
आघोरणा इस्तिपका इस्त्या	सम्पूर्ण सेनाक नाम २ ॥ सेन्य १
रोहा निपादिन ॥	सेनिक २ ॥ ६१ ॥
दायीधानूक नाम ४ ॥ आघोरण १	बलिनो ये सहस्रेण साहस्रास्ते
इस्तिपक २ इस्त्यारोह ३ निपादिन् ४ ॥	सहस्रिण* ॥
नियता प्राजिता यन्वा सूत* सत्ता	हजार सिपाहियोंके माछि-स्के नाम २ ॥
च सारयि* ॥ ५९ ॥ सम्येष्टद	साहस्र १ सहस्रिन् २ ॥
क्षिणस्थ्या च गंशारयकुटुम्भिन ॥	परियिस्य* परिचरः-
रयानि* इरुनवालोंके नाम ८ ॥ पारचर २ ॥	जो फौज रखानके अर्थ चारोंतरफ

—सेनानीर्वाहिनीपतिः ॥ ६२ ॥
सेनाके मालिकके नाम २ ॥
सेनानी १ वाहिनीपति २ ॥ ६२ ॥

कञ्चुको वारवाणोऽस्त्री—
योद्धाओंको युद्धके समय पहरनेके
वस्त्रके नाम २ ॥ कञ्चुक १ वारवाण २ ॥

यत्तु मध्ये सकञ्चुकाः ॥
बध्नांति तत्सारसनमधिकाङ्गो—
इसे पहन कर जो योद्धा पट्टी
बाधते हैं उसके नाम २ ॥ सारसन
१ अधिकाग २ ॥

—ऽथ शीर्षकम् ॥ ६३ ॥ शीर्ष-
ण्यं च शिरस्त्रे—
टोपके नाम ३ ॥ शीर्षक १
॥ ६३ ॥ शीर्षण्य २ शिरस्त्र ३ ॥

—ऽथ तनुत्र वर्म दंशनम् ॥ उर-
श्छदः कङ्कटको जगरः कवचोऽ-
स्त्रियाम् ॥ ६४ ॥

कवचके नाम ७ ॥ तनुत्र १ वर्मन्
२ दशन ३ उरश्छद ४ ककटक ५
जगर ६ कवच ७ ॥ ६४ ॥

आमुक्तः प्रतिमुक्तश्च पिनद्धश्चा-
पिनद्धवत् ॥

पहिरेहुए कवचके नाम ४ ॥ आमुक्त
१ प्रतिमुक्त २ पिनद्ध ३ अपिनद्ध ४ ॥

संनद्धो वर्मितः सज्जो दंशितो
व्यूढककटः ॥ ६५ ॥

मत्रादि कवच धारण किये हुएके
नाम ५ ॥ सनद्ध १ वर्मित २ सज्ज ३
दशित ४ व्यूढककट ५ ॥ ६५ ॥

त्रिष्वामुक्तादयो—
भाषा ॥ आमुक्त आदि शब्द-
तीनो लिंगोंमें होतेहैं ॥

—वर्मभृतां कावचिकं गणे ॥
कवच धारण करनेवालोंके समू-
हका नाम १ ॥ कावचिक १ ॥

पदातिपत्तिपदगपादातिकपदा-
जयः ॥ ६६ ॥ पद्मश्च पदिकश्चा-
पैदलके नाम ७ ॥ पदाति १
पत्ति २ पदग ३ पादातिक ४ पदाजि
५ ॥ ६६ ॥ पद्म ३ पदिक ७ ॥

—ऽथ पादातं पत्तिसंहतिः ॥
पैदलसमूहके नाम २ ॥ पादात १
पत्तिसंहति २ ॥

शस्त्राजीवे काण्डपृष्ठाभ्यायुधीया
युधिकाः समाः ॥ ६७ ॥

जो हथियार बांधकर जीविका करते
हैं उनके नाम ४ ॥ शस्त्राजीव १ काण्ड-
पृष्ठ २ भायुधीय ३ आयुधिक ४ ॥ ६७ ॥

कृतहस्तः सुप्रयोगविशिखः
कृतपुंखवत् ॥

तीरन्दाजक नाम ३ ॥ कृतहस्त १
सुप्रयोगविशिख २ कृतपुख ३ ॥

लोहे जडबुये रथक आबरणके नाम २ ॥ रथगुप्ति १ वरूय २ ॥ कूचरस्तु युर्गधर ॥ काठके शृण्के बाधनके स्थानके नाम २ ॥ कूचर १ युर्गधर २ ॥ अनुकर्षो दार्वघःस्यं- सुगनके नाम १ ॥ अनुकर्ष १ ॥ -प्रासङ्गो ना युगाद्युग ॥५७॥ शृण्के नाम २ ॥ प्रासङ्ग १ युग २ ॥५७॥ सर्वं स्याद्वाहन यानं युग्मं पत्र च घोरणम् ॥ सवारीके नाम १ ॥ वाहन १ यान २ युग्म ३ पत्र ४ घोरण ५ परम्परावाहन यच्छैनीतकम् स्त्रियाम् ॥ ५८ ॥ कहार आदि बाह्मोंका नाम १ ॥ कैनीतिक १ ॥ ५८ ॥ आघोरणा इस्तिपक्ता इस्त्या रोहा निपादिनः ॥ हापीवान्के नाम ४ ॥ आघोरण १ इस्तिपक्ता २ इस्त्यारोह ३ निपादिन् ४ ॥ नियंता प्राजिता यन्ता सूत* सत्ता च सागथि* ॥ ५९ ॥ सव्येषुद क्षिणस्थो च सङ्घारथकुट्टुम्भिन* ॥ रथादि हॉरुनराठके नाम ८ ॥	निपन्तु १ प्राजितु ४ यन्तु ३ सूत ४ क्षत ५ सारथि ६ ॥ ५९ ॥ सव्य ७ दक्षिणस्थ ८ ॥ रथिन* स्पन्दनारोहा- रथक ऊपर चढके छडनेवालोंके नाम २ ॥ रथिन १ स्पन्दनारोह २ -अश्वारोहास्तु सादिन* ॥ ६० ॥ सुडसवारक नाम २ ॥ अश्वारोह १ सादिन् २ ॥ ६० ॥ भटा योधाश्च योद्धार - छटनबाणके नाम ३ ॥ भटा १ योध २ योद्ध ३ ॥ -सेनागक्षास्तु सैनिका* ॥ पहरा देनेवालोंके नाम २ ॥ सेनागच्छ १ सैनिक २ ॥ सेनार्या समवेता ये सैन्यास्ते सैनिकाश्च वे ॥ ६१ ॥ सम्पूर्ण सेनाके नाम २ ॥ सैन्य १ सैनिक २ ॥ ६१ ॥ बलिनो ये सहस्रेण साहस्रास्ते सहस्रिणः ॥ इबार सिपाहियोंके माछिकके नाम १ ॥ साहस्र १ सहस्रिन् २ ॥ परिधिस्थ* परिधरः- जो फौज रक्षामेके अर्थ चारोंतरफ घूमताहे उसकनाम १ ॥ परिधिस्थ १ परिधर २ ॥
--	---

वेगसे चलनेवालेके नाम ६ ॥ तरस्विन्
१ त्वरित २ वेगिन् ३ प्रजविन् ४ जवन ५
जव ६ ॥ ७३ ॥

जद्यो यः शक्यते जेतुं-

जिसे जीतसके उसका नाम १ ॥

जय्य १ ॥

-जेयो जेतव्यमात्रके ॥

जीतने लायकका नाम १ ॥ जेय १

जैत्रस्तु जेता-

जो जीतसके उसके नाम २ ॥ जैत्र १

जेतृ २ ॥

-यो गच्छत्यलं विद्विषतः प्रति
॥ ७४ ॥ सोऽभ्यमित्र्योऽभ्यमि-
त्रीयोऽप्यभ्यमित्रिण इत्यपि ॥

सामर्थ्यसे शत्रुओंके समुख जानेवाले
के नाम ३ ॥ ७४ ॥ अभ्यमित्र्य १ अभ्य-
मित्रीय २ अभ्यमित्रिण ३ ॥

ऊर्जस्वलः स्यादूर्जस्वी य ऊर्जा-
तिशयान्वितः ॥ ७५ ॥

पहलवानके नाम ३ ॥ ऊर्जस्वल १
ऊर्जस्विन् २ ऊर्जातिशय ३ ॥ ७५ ॥

स्यादुरस्वानुरसिलो-

बढी छातीवालेके नाम २ ॥ उरस्वत् १
उरसिल २ ॥

-रथिनो रथिको रथी ॥

रथके स्वामीके नाम ३ ॥ रथिन १

थिक ३ रथिन् ३ ॥

कामङ्गाम्यनुकामीनो-

जो अपने मनसे चलता हो उसका
नाम १ ॥ अनुकामीन १ ॥

-ह्यत्यन्तीनस्तथा भृशम् ॥ ७६ ॥

वारम्वार चलनेवालेका नाम १ ॥

अत्यन्तीन १ ॥ ७६ ॥

शूरो वीरश्च विक्रान्तो -

शूरके नाम ३ ॥ शूर १ वीर २

विक्रान्त ३ ॥

-जेता जिष्णुश्च जित्वरः ॥

जीतने वालेके नाम ३ ॥ जेतृ १ जिष्णु

जित्वर ३ ॥

सांयुगीनो रणे साधु-

युद्धकुशलका नाम १ ॥ सांयुगीन १ ॥

--शस्त्राजीवादयस्त्रिषु ॥ ७७ ॥

भाषा-शस्त्राजीव आदि शब्द तीनों
लिंगों में होते हैं ॥ ७७ ॥

ध्वजिनी बाहिनी सेना पृतनाऽ

नीकिनी चमूः ॥ वरूथिनी बलं

सैन्यं चक्रं चानीकमस्त्रियाम् ॥ ७८ ॥

सेनाके नाम १ १ ॥ ध्वजिनी १ बाहि-

नी २ सेना ३ पृतना ४ अनीकिनी ५

चमू ६ वरूथिनी ७ बल ८ सैन्यं ९ चक्र

१० अनीक ११ ॥ ७८ ॥

व्यूहस्तु बलविन्यासो-

अपराहृष्टपत्कोऽसौ लक्ष्पाद्य
श्च्युतसायक* ॥ ६८ ॥

बिसका तीर निशानेस चूक जाय
उसका नाम ॥ अपराहृष्टपत्क १ ॥ ६८ ॥

धन्वी धनुष्मान्वाणुष्को निय
अधस्त्री धनुर्धर* ॥

धनु वा बाण बांधनेवालेके नाम
६ ॥ धन्विन् १ धनुष्मात् २ धानुष्क
निर्देगिन् ४ अस्त्रिन् ५ धनुर्धर ६ ॥

स्यात्काण्डवांसु काण्डीर-
कबल बाण बांधनेवालेके नाम २ ॥
काण्डवत् १ काण्डीर २ ॥

-शाक्तीकःशक्तिहेतिकः ॥ ६९ ॥
शक्ति आदिके शस्त्रधारीके नाम २ ॥
शाक्तीक १ शक्तिहेतिक २ ॥ ६९ ॥

याष्टीकपारम्भधिकौ यष्टिपार्श्व
धहेतिकौ ॥

ठठिया रखनेवाळका नाम १ ॥
याष्टीक १ ॥ फरसा बांधनेवाळेका
नाम १ ॥ पारम्भधिक १ ॥

नैखिशिकोऽसिहेतिः स्या-
तरवार बांधेहुएके नाम २ ॥ नैखि
शिक १ अस्त्रिहेति २ ॥

-रसमौ प्रामिकत्कौन्तिको ७० ॥
बट्टमके बांधनेवाळेका नाम १ ॥
प्रामिक १ ॥ माळेवाळेका नाम १ ॥
कौन्तिक १ ॥ ७० ॥

चर्मो फलकपाणि* स्या-
ढाल बांधनेवाळेके नाम २ ॥ चर्मिक
१ फलकपाणि २ ॥

-पताकिो वैजयन्तिक* ॥
निशान बांधनेवाळेके नाम २ ॥
पताकिन् १ वैजयन्तिक २ ॥

अनुषुब* सहायभ्याऽनुचरोऽ-
भिघर* समा* ॥ ७१ ॥

सहायकक नाम ४ ॥ अनुषुब १
सहाय २ अनुचर ३ अभिघर ४ ॥ ७१ ॥

पुरोगायेसरप्रष्ठामस्तारपुर-
सरा* ॥ पुरोगमः पुरोगामी-
अप्रगामीके नाम ७ ॥ पुरोग १

अप्रेस्तर २ प्रष्ठ ३ अप्रतस्तर २
पुरस्तर ५ पुरोगम ६ पुरोगामिन् ७ ॥

-मन्दगामी तु मन्थर* ॥ ७२ ॥
धीरे चढनेवाळेके नाम २ ॥
मन्दगामिन् १ मन्थर २ ॥ ७२ ॥

जंघाळोऽतिजवस्तुल्मी-
जादे चढनेवाळेके नाम २ ॥
जंघाळ १ अतिजव २ ॥

जघाकारिकजांघिकौ ॥
जो जघाके बडसे जिता हे उसके
नाम २ ॥ जघाकारिक १ जांघिक २ ॥
तरस्वी त्वरितो बेगी प्रजपी
जपनो जब* ॥ ७३ ॥

वेगसे चलनेवालेके नाम ६ ॥ तरस्विन्
१ त्वरित २ वेगिन् ३ प्रजविन् ४ जवन ५
जव ६ ॥ ७३ ॥

जय्यो यः शक्यते जेतुं-

जिसे जीतसके उसका नाम १ ॥

जय्य १ ॥

-जेयो जेतव्यमात्रके ॥

जीतने लायकका नाम १ ॥ जेय १

जेत्रस्तु जेता-

जो जीतसके उसके नाम २ ॥ जेत्र १

जेतृ २ ॥

-यो गच्छत्यलं विद्विषतः प्रति
॥ ७४ ॥ सोऽभ्यमित्र्योऽभ्यमि-
त्रीयोऽप्यभ्यमित्रिण इत्यपि ॥

सामर्थ्यसे शत्रुओंके समुख जानेवाले
के नाम ३ ॥ ७४ ॥ अभ्यमित्र्य १ अभ्य-
मित्रिय २ अभ्यमित्रिण ३ ॥

ऊर्जस्वलः स्यादूर्जस्वी य ऊर्जा-
तिशयान्वितः ॥ ७५ ॥

पहलवानके नाम ३ ॥ ऊर्जस्वल १
ऊर्जस्विन् २ ऊर्जातिशय ३ ॥ ७५ ॥

स्यादुरस्वानुरसिलो-

बढी छातीवालेके नाम २ ॥ उरस्वत् १
उरसिल २ ॥

-रथिनो रथिको रथी ॥

रथके स्वामीके नाम ३ ॥ रथिन १
थिक ३ रथिन् ३ ॥

कामङ्गाम्यनुकामीनो-

जो अपने मनसे चलता हो उसका

नाम १ ॥ अनुकामीन १ ॥

-ह्यत्यन्तीनस्तथा भृशम् ॥ ७६ ॥

वारम्बार चलनेवालेका नाम १ ॥

अत्यन्तीन १ ॥ ७६ ॥

शूरो वीरश्च विक्रान्तो-

शूरके नाम ३ ॥ शूर १ वीर २

विक्रान्त ३ ॥

-जेता जिष्णुश्च जित्वरः ॥

जीतने वालेके नाम ३ ॥ जेतृ १ जिष्णु

जित्वर ३ ॥

सांयुगीनो रणे साधु-

युद्धकुशलका नाम १ ॥ सांयुगीन १ ॥

--शस्त्राजीवादयस्त्रिषु ॥ ७७ ॥

भाषा-शस्त्राजीव आदि शब्द तीनों
लिंगों में होते हैं ॥ ७७ ॥

ध्वजिनी बाहिनी सेना पृतनाऽ
नीकिनी चमूः ॥ वरूथिनी बलं

सैन्यं चक्रं चानीकमस्त्रियाम् ॥ ७८ ॥

सेनाके नाम १ १ ॥ ध्वजिनी १ बाहि-

नी २ सेना ३ पृतना ४ अनीकिनी ५

चमू ६ वरूथिनी ७ बल ८ सैन्य ९ चक्र

१० अनीक ११ ॥ ७८ ॥

व्यूहस्तु बलविन्यासो-

अपराद्रूपत्कोऽसौ लक्ष्वाद्य
श्च्युतसामक' ॥ ६८ ॥

निसका त्तिर निशानेस चूक जाय
उस्का नाम १ ॥ अपराद्रूपत्क' ॥ ६८ ॥

घन्वी घनुष्मान्घानुष्को निप
ङ्घस्त्री घनुर्घर' ॥

घनु वा घाण बांधनेवालेके नाम
६ ॥ घन्किन् १ घनुष्मत २ घामुष्क
निर्घमिन् ४ अस्मिन् ५ घनुर्घर ६ ॥

स्यात्काण्डवास्तु काण्डीर'-
कण्ड वाण बांधनेवालेके नाम २ ॥

काण्डकत् १ काण्डीर २ ॥

-शाक्तीकःशक्तिहेतिका ॥ ६९ ॥

शक्ति आदिके शस्त्रधारीके नाम २ ॥

शाक्तीक १ शक्तिहेतिक २ ॥ ६९ ॥

याष्टीकपारम्बाधिकौ यष्टिपार्श्व
घहेतिकौ ॥

अठिया रखनेवालेका नाम १ ॥

याष्टीक १ ॥ फरसा बांधनेवालेका

नाम १ ॥ पारम्बाधिक १ ॥

नैर्बिशिकोऽसिहेति' स्या-

तरवार वाघेदुएके नाम २ ॥ नैर्बि

शिक १ असिहेति २ ॥

-स्समी प्रासिककौन्तिकी ७० ॥

अस्सुमके बांधनेवालेका नाम १ ॥

प्रासिक १ ॥ माळेवालेका नाम १ ॥

कौन्तिक १ ॥ ७० ॥

चर्मो फलकपाणि' स्या-

ढाल बांधनेवालेके नाम २ ॥ चर्मिन्

१ फलकपाणि २ ॥

-त्पर्वकी वैजयन्तिक' ॥

निशान बांधनेवालेके नाम २ ॥

पताकिन् १ वैजयन्तिक २ ॥

अनुप्लव' सहायधाऽनुचरोऽ-
भिचर' समाः ॥ ७१ ॥

सहायकेके नाम ४ ॥ अनुप्लव १

सहाय २ अनुचर ३ अभिचर ४ ॥ ७१ ॥

पुरोगामेसरप्रष्टामत्त' सरपुर'-

सरा' ॥ पुरोगमः पुरोगामी-

अप्रगामीके नाम ७ ॥ पुरोग १

अप्रेसर २ प्रष्ट ३ अप्रतन्तर २

पुरस्सर ५ पुरोगम ६ पुरोगामिन् ७ ॥

-मन्दगामी तु मन्दर' ॥ ७२ ॥

धीरे चढनेवालेके नाम ९ ॥

मन्दगामिन् १ मन्दर २ ॥ ७२ ॥

जघालोऽतिजक्स्तुस्यौ-

जादे चढनेवालेके नाम २ ॥

जघाल १ अतिजक् २ ॥

जघाकरिकजाधिकौ ॥

जो जघाके बलसे जीता है उसके

नाम २ ॥ जघाकरिक १ जाधिक २ ॥

तरस्वी त्वरितो बेगी मजबी

जघनो जव' ॥ ७३ ॥

वेगसे चलनेवालेके नाम ६ ॥ तरस्विन्
१ त्वरित २ वेगिन् ३ प्रजविन् ४ जवन ५
जव ६ ॥ ७३ ॥

जय्यो यः शक्यते जेतुं-

जिसे जीतसके उसका नाम १ ॥

जय्य १ ॥

-जैयो जेतव्यमात्रके ॥

जीतने लायकका नाम १ ॥ जेय १

जैत्रस्तु जेता-

जो जीतसके उसके नाम २ ॥ जैत्र १

जेतृ २ ॥

-यो गच्छत्यलं विद्विषतः प्रति
॥ ७४ ॥ सोऽभ्यमिष्योऽभ्यमि-
त्रीयोप्यभ्यमित्रीण इत्यपि ॥

सामर्थ्यसे शत्रुओंके समुख जानेवाले
के नाम ३ ॥ ७४ ॥ अभ्यमिष्य १ अभ्य-
मित्रीय २ अभ्यमित्रीण ३ ॥

ऊर्जस्वलः स्यादूर्जस्वी य ऊर्जा-
तिशयान्वितः ॥ ७५ ॥

पहलवानके नाम ३ ॥ ऊर्जस्वल १
ऊर्जस्विन् २ ऊर्जातिशय ३ ॥ ७५ ॥

स्यादुरस्वानुरसिलो-

बड़ी छातीवालेके नाम २ ॥ उरस्वत् १
उरसिल २ ॥

-रथिनो रथिको रथी ॥

रथके स्वामीके नाम ३ ॥ रथिन १
थिक ३ रथिन् ३ ॥

कामङ्गाम्यनुकामीनो-

जो अपने मनसे चलता हो उसका
नाम १ ॥ अनुकामीन १ ॥

-ह्यत्यन्तीनस्तथा भृशम् ॥ ७६ ॥

वारम्बार चलनेवालेका नाम १ ॥
अत्यन्तीन १ ॥ ७६ ॥

शूरो वीरश्च विक्रान्तो-

शूरके नाम ३ ॥ शूर १ वीर २
विक्रान्त ३ ॥

-जेता जिष्णुश्च जित्वरः ॥

जीतने वालेके नाम ३ ॥ जेतृ १ जिष्णु
जित्वर ३ ॥

सांयुगीनो रणे साधु-

युद्धकुशलका नाम १ ॥ सांयुगीन १ ॥
--शस्त्राजीवाद्यस्त्रिषु ॥ ७७ ॥

भापा-शस्त्राजीव आदि शब्द तीनों
लिंगों में होते हैं ॥ ७७ ॥

ध्वजिनी वाहिनी सेना पृतनाऽ
नीकिनी चमूः ॥ वरूथिनी बलं
सैन्यं चक्रं चानीकमस्त्रियासु ॥ ७८ ॥

सेनाके नाम १ ॥ ध्वजिनी १ वाहि-
नी २ सेना ३ पृतना ४ अनीकिनी ५
चमू ६ वरूथिनी ७ बल ८ सैन्य ९ चक्र
१० अनीक ११ ॥ ७८ ॥

व्यूहस्तु बलविन्यासो-

सेनाकी रचनाके नाम २॥ ब्यूह ?
बहुविध्यास २ ॥

—भेदा दण्डादयो युधि ॥

सेनाकी रचनाके अनेकभेद १॥ दण्ड
इत्यादि १॥ ये अक्र, समूर, कमळ आदिक
ब्यूह हैं.

प्रत्यासारो ब्यूहपार्ष्णिः—

ब्यूहके पीछेके नाम २॥ प्रत्यासार ?
ब्यूहपार्ष्णि २ ॥

सैन्यपृष्ठे प्रतिग्रहः ॥ ७९ ॥

फौजके पीछेके नाम २ ॥ सैन्यपृष्ठ ?
प्रतिग्रह २ ॥ ७९ ॥

एकेमैकरया अथवा पश्चि पञ्च
पदातिका ॥

जिसमें हाथी १ रथ १ घोड़े ३ पैदल
९ हों उम सेनाका नाम १॥ पश्चि १॥

पत्पङ्केसिगुणै सर्वै क्रमादा
ख्या मघोचरम् ॥ ८० ॥ सेना
मुख गुल्मगणौ वाहिनी पृतना
चमूः ॥ अनीकिनी—

क्रमसे सिगुने पश्चि (पैदलों)के नाम
७ ॥ ८० ॥ (तीन पश्चि (पैदलों)का
नाम) ॥ सेनामुख १ (तीन सेनामुखका
नाम) गुल्म १ ॥ (तीन गुल्मका नाम)
गण १ ॥ (तीन गणका नाम)
वाहिनी १ ॥ (तीन वाहिनीका नाम)
पृतना १ ॥ (तीन पृतनाका नाम) चमू
१ ॥ (तीन चमूका नाम) अनीकिनी १ ॥

—दक्षानीकिन्यसौहि—

दक्ष अनीकिनीका नाम १ ॥ अश्वी
हिणी १ ॥

अश्वीहिणी आदि सेनाकर प्रमाण ।

सेना	पदक (पश्चि)	सेना मुख	गुण	गण	वाहि नी	पृतना	चमू	अनीकिनी	अश्वीहिणी
हाथी रथ	१	३	९	२७	८१	२४३	७२९	२१८७	२१८७
घोड़े	३	९	२७	८१	२४३	७२९	२१८७	६५६१	६५६१
पैदल	५	१५	४५	१३५	४०५	१२१५	३६४५	११५३५	११५३५

—अथ सपदि ॥ ८१ ॥ संपत्ति

श्रीश्व लक्ष्मीश्च—

संपत्तिक नाम ४॥ सपदि १॥ ८१ ॥

सपदि २ भी ३ लक्ष्मी ४ ॥

—विपत्तमां निपदापदौ ॥

विपत्तिक नाम ३ ॥ विपत्ति १ निपद

२ आपद ३ ॥

आयुध सु महरणं अस्त्रमस्त्र—

हथियारके नाम ४ ॥ आयुध १ प्रह-
रण २ शस्त्र ३ अस्त्र ४ ॥

—मथास्त्रियौ ॥ ८२ ॥ धनुश्चा-
पौ धन्वशरासनकोदण्डकार्मुकम् ॥
इष्वासोऽ—

धनुषके नाम ७ ॥ ८२ ॥ धनुस्
१ चाप २ धन्वन् ३ शरासन ४
कोदण्ड ५ कार्मुक ६ इष्वास ७ ॥

—प्यथ कर्णस्य कालपृष्ठं शरा-
सनम् ॥ ८३ ॥

राजा कर्णके धनुषके नाम १ ॥
कालपृष्ठ २ ॥ ८३ ॥

कपिध्वजस्य गाण्डीवगाण्डिवौ
पुंनपुंसकौ ॥

अर्जुनके धनुषका नाम २ ॥ गा-
ण्डीव १ गाण्डिव २ ॥

कोटिरस्याटनी—

धनुषके दोनों कोनोके नाम २ ॥
कोटि १ अटनी २ ॥

—गोधातले ज्याघातवारणे ८४ ॥

चमडेके दस्तानोंके नाम २ ॥
गोधा १ तल २ ॥ ८४ ॥

लस्तकस्तु धनुर्मध्यं—

धनुषके मध्यभागका नाम १ ॥
लस्तक १ ॥

—मौर्वी ज्या शिञ्जिनी गुणः ॥

धनुषकी प्रत्यञ्चाके नाम ४ ॥ मौ-
र्वी १ ज्या २ शिञ्जिनी ३ गुण ४ ॥

स्यात्प्रत्यालीढमालीढमित्या-
दि स्थानपञ्चकम् ॥ ८५ ॥

धनुषधारियोंके आसनविशेषके नाम
२ ॥ प्रत्यालीढ १ आलीढ २ ॥ इत्यादि
पाँच स्थान ॥ ८५ ॥

लक्षं लक्ष्य व्यं

निशानेके नाम ३ ॥ लक्ष १ लक्ष्य
२ शरव्य ३ ॥

—शराभ्यास उपासनम् ॥

बाणछोडनेके अभ्यासके नाम २ ॥
शराभ्यास १ उपासन २ ॥

पृषत्कबाणविशिखा अजिह्व-
गखगाशुगाः ॥ ८६ ॥ कलम्बमा-
र्गणशराः पत्री रोप इषुर्द्वयोः ॥

बाणके नाम १ २ ॥ पृषत्क १ बाण
२ विशिख ३ अजिह्वग ४ खग ५ आशु-
ग ६ ॥ ८६ ॥ कलम्ब ७ मार्गण ७
शर ९ पत्रिन् १० रोप ११ इषु १२ ॥

प्रक्ष्वेडनास्तु नागचाः—

लोहेके तीरके नाम २ ॥ प्रक्ष्वेडन
१ नाराच २ ॥

—पक्षो वाज—

बाणके पक्षके नाम २ ॥ पक्ष १ वाज २ ॥

—स्त्रिषूतरे ॥ ८७ ॥

सेनाकी रचनाके नाम २॥ म्यूह १
बलन्यास २ ॥

—भेदा दण्डादयो युधि ॥

सेनाको रचनाके अनेकभेद १॥ दण्ड
इत्यादि १॥ वे चक्र, मयूर, कमल आदिक
म्यूह ई.

प्रत्यासारो व्यूहपार्ष्णिः—

व्यूहक पीछेके नाम २॥ प्रत्यासार १
म्यूहपार्ष्णि २ ॥

सैन्यपृष्ठे प्रतिग्रह ॥ ७९ ॥

फौजके पीछेके नाम २ ॥ सैन्यपृष्ठ १
प्रतिग्रह २ ॥ ७९ ॥

एकेभैकरया अश्वपत्तिः पञ्च
पदासिका ॥

निसमें हापी १ रथ १ घोड़े ३ कैदल
१ हों उम सेनाका नाम १॥ पत्ति १॥

पत्त्यहीस्त्रिगुणैः सर्वैः क्रमादा
ख्या यद्योत्तरम् ॥ ८० ॥ सेना
मुखं गुल्मगणी वाहिनी पृथना
चमू ॥ अनीकिनी—

क्रमसे त्रिगुने पत्ति (पैदलोंके नाम
७ ॥ ८० ॥ (तीन पत्ति (पैदलों) का
नाम) ॥ सेनामुख १ (तीन सेनामुखका
नाम) गुल्म १॥ (तीन गुल्मका नाम)
गण १ ॥ (तीन गणका नाम)
वाहिनी १ ॥ (तीन वाहिनीका नाम)
पृथना १ ॥ (तीन पृथनाका नाम) चमू
१॥ (तीन चमूका नाम) अनीकिनी १॥

—दशानीकिन्यसौहि—

दश अनीकिनीका नाम १ ॥ अश्वी
हिणी १ ॥

असौहिणी आदि सेनाका प्रमाण ।

सेना	पैदल (पत्ति)	संवा मुख	गुल	गम	वाहि नी	पृथना	चमू	अनीकिनी	असौहिणी
सानी रथ	१	३	९	२७	८१	२४३	७२९	२१८७	२१८७
बाँडे	३	९	२७	८१	२४३	७२९	२१८७	६५६१	६५६१
पैदल	५	१५	४५	१३५	४०५	१२१५	३६४५	११५३५	११५३५

—अथ संपदि ॥ ८१ ॥ सपत्ति

श्रीश्च लक्ष्मीश्च—

सम्पत्ति नाम ४॥ सपद् १॥ ८१ ॥

सपत्ति २ श्री ३ लक्ष्मी ४ ॥

—विपत्त्यां विपदापदौ ॥

विपत्तिके नाम ३ ॥ विपत्ति १ विपद्
२ आपद् ३ ॥

आयुध तु महरणं शस्त्रमस्त्र—

हथियारके नाम ४ ॥ आयुध १ प्रह-
रण २ शस्त्र ३ अस्त्र ४ ॥

-मथास्त्रियौ ॥ ८२ ॥ धनुश्चा-
पौ धन्वशरासनकोदण्डकार्मुकम् ॥
इष्वासोऽ-

धनुषके नाम ७ ॥ ८२ ॥ धनुस्
१ चाप २ धन्वन् ३ शरासन ४
कोदण्ड ५ कार्मुक ६ इष्वास ७ ॥

-प्यथ कर्णस्य कालपृष्ठं शरा-
सनम् ॥ ८३ ॥

राजा कर्णके धनुषके नाम १ ॥
कालपृष्ठ २ ॥ ८३ ॥

कापिध्वजस्य गाण्डीवगाण्डिवौ
पुनपुंसकौ ॥

अर्जुनके धनुषका नाम २ ॥ गा-
ण्डीव १ गाण्डिव २ ॥

कोटिरस्याटनी-

धनुषके दोनों कोनोके नाम २ ॥
कोटि १ अटनी २ ॥

-गोधातले ज्याघातवारणे ८४ ॥

चमडेके दस्तानोंके नाम २ ॥
गोधा १ तल २ ॥ ८४ ॥

लस्तकस्तु धनुर्मध्यं-

धनुषके मध्यभागका नाम १ ॥
लस्तक १ ॥

-मौर्वी ज्या शिञ्जिनी गुणः ॥

धनुषकी प्रत्यञ्चके नाम ४ ॥ मौ-
र्वी १ ज्या २ शिञ्जिनी ३ गुण ४ ॥

स्यात्प्रत्यालीढमालीढमित्या-
दि स्थानपञ्चकम् ॥ ८५ ॥

धनुषधारियोंके आसनविशेषके नाम
२ ॥ प्रत्यालीढ १ आलीढ २ ॥ इत्यादि
पाँच स्थान ॥ ८५ ॥

लक्षं लक्ष्य व्यं

निशानेके नाम ३ ॥ लक्ष १ लक्ष्य
२ शरव्य ३ ॥

-शराभ्यास उपासनम् ॥

बाणछोडनेके अभ्यासके नाम २ ॥
शराभ्यास १ उपासन २ ॥

पृषत्कबाणविशिखा अजिह्व-
गखगाशुगाः ॥ ८६ ॥ कलम्बमा-
र्गणशराः पत्री रोप इषुर्द्वयोः ॥

बाणके नाम १ २ ॥ पृषत्क १ बाण
२ विशिख ३ अजिह्वग ४ खग ५ आशु-
ग ६ ॥ ८६ ॥ कलम्ब ७ मार्गण ७
शर ९ पत्रिन् १० रोप ११ इषु १२ ॥

प्रक्ष्वेडनास्तु नागचाः-

लोहेके तीरके नाम २ ॥ प्रक्ष्वेडन
१ नाराच २ ॥

-पक्षो वाज-

बाणके पक्षके नाम २ ॥ पक्ष १ वाज २ ॥

-स्त्रिषूत्तरं ॥ ८७ ॥

अर्थ-लित्तरयत सप्त शब्द
तीनों स्त्रियं होत हे ॥ ८७ ॥

निरस्त प्रहिते षाणे-

छोटेबुपे षाणका नाम ॥ निरस्त १ ॥

-विपाक्तं दिग्धलितकौ ॥

षिपयुक्त षाणके नाम ३ ॥ विपाक्त

१ दिग्ध २ लिप्तक ३ ॥

तूणोपासद्गूणीरनिपंगा इषुधिर्द

यो ॥ ८८ ॥ तूण्या-

तरकसर नाम ६ ॥ तूण १ उपासग

२ तूणीर ३ निम्मा ४ इषुधि ५ ॥

॥ ८८ ॥ तूणी ६ ॥

-खद्यो तु निखिगचन्द्रहासासि

गिष्टय ॥ कीक्षेयको मण्डलामः

करवाल कृपाणवत् ॥ ८९ ॥

तउत्तारके नाम ९ ॥ खद्य १ निखि

दा २ चन्द्रहास ३ अक्षि ४ सिष्टि ५

कीक्षेयक ६ मण्डलाम ७ करवाल ८

उत्तार ९ ॥ ८९ ॥

तारु रङ्गादिमुर्धे स्या-

तारुभादिपरी मूका नाम १ ॥ तारु १ ॥

-मखन्दा तत्रिय यनम् ॥

तारुभादिपरी नाम २ ॥ मखन्दा १ ॥

पल्लोऽपरी पल्ल यम-

पल्ल नाम ३ ॥ पल्ल १ पल्ल

२ यम ३ ॥

-संमाहा शाष्टम्य य ॥ ९० ॥

वाटकी मूका नाम १ ॥ संमाहा १ ॥ ९० ॥

वृषणो मुद्गरघनी-

मुद्गरफनाम ३ ॥ वृषण १ मुद्गर १ २ घन ३ ॥

-स्यादीली करवालिका ॥

गुठीके नाम २ ॥ दीली १ करवालिका २ ॥

भिन्दिपालः सुगस्तुल्यौ-

गोफनक नाम २ ॥ भिन्दिपाल १ सुग २ ॥

-परिघ परिघातिन ॥ ९१ ॥

परिघके नाम १ ॥ परिघ १ परि

घातिन् २ ॥ ९१ ॥

द्वयो कुठार स्वधिति परशुभ

परशुभः ॥

कुठारके नाम ४ ॥ कुठार १

स्वधिति २ परशु ३ परशुभ ४ ॥

स्याच्छत्री घासिपुत्री च मुरि

का घासिधेनुका ॥ ९२ ॥

पुरीके नाम ४ ॥ शत्री १ भसि

पुत्री २ मुरिका ३ भसिधेनुका ४ ॥ ९२ ॥

वा पुसि शल्य धंशुना-

पुसिके नाम २ ॥ शल्य १ धंशु २ ॥

सर्वला क्षोमरोऽश्विमाम-

गदासके नाम २ ॥ सर्वला १ क्षोमर २ ॥

मासस्तु शुन्त -

मा क नाम २ ॥ मास १ शुन्त २ ॥

-माणन्तु गिर्य पाल्यध्रि

वाप्य ॥ ९३ ॥

खड्गादिकी नोकके नाम ४॥कोण १
पालि २ अश्रि ३ कोटि ४ ॥ ९३ ॥

सर्वाभिसारः सर्वौघः सर्वसन्न-
हनार्थकः ॥

सेनाकी तैयारीके नाम ३ ॥ सर्वा-
भिसार १ सर्वौघ २ सर्वसनहन ३ ॥

लोहाभिसारोऽस्त्रभृतां गङ्गां
नीराजनाविधिः ॥ ९४ ॥

महानवमीके पहिले लडाईके निमित्त
राजाओंके शस्त्र पूजनेका नाम ? ॥
लोहाभिसार १ ॥ ९४ ॥

यत्सेनयाभिगमनमरौ तदभि-
षेणनम् ॥

शत्रुके ऊपर सेना चढनेका नाम
१ ॥ अभिषेणन १ ॥

यात्रा ब्रज्याऽभिनिर्माणं प्रस्था-
नं गमनं गमः ॥ ९५ ॥

चलनेके नाम ६ ॥ यात्रा १
ब्रज्या २ अभिनिर्माण ३ प्रस्थान ४
गमन ५ गम ६ ॥ ९५ ॥

स्थादासारः प्रसरणं-

सेनाके फैलनेके नाम २ ॥ आसार
१ प्रसरण २ ॥

-प्रचक्रं चलितार्थकम् ॥

चलीहुई सेनाके नाम २ ॥ प्रचक्र
१ चलित २ ॥

अहितान्प्रत्यभीतस्य रणे यान-
मभिक्रमः ॥ ९६ ॥

निडर होकर शत्रुपर चढाईका
नाम १ ॥ अभिक्रम १ ॥ ९६ ॥

वैतालिका बोधकरा-

प्रातःकालके राजाके जगानेवा-
लोंके नाम २ ॥ वैतालिका १ बोधकर २ ॥

-श्रक्रिका घाण्टिकाऽर्थकाः ॥

घडियालीके नाम २ ॥ चाक्रिका १
घाण्टिका २ ॥

स्युर्मागधास्तु मगधा-

राजाका वश वर्णन करनेवालाके
नाम २ ॥ मागधा १ ॥ मगधा २ ॥

-वन्दिनः स्तुतिपाठकाः ॥ ९७ ॥

भाटके नाम २ ॥ वन्दिन् १
स्तुतिपाठक २ ॥ ९७ ॥

संशप्तकास्तु समयात्सङ्ग्रामा-
दनिर्वर्तिनः ॥

शपथ खाकर युद्धमें पीठ न देने-
वालाके नाम १ ॥ संशप्तक १ ॥

रेणुर्द्वयोः स्त्रियां धूलिः पांसुर्ना
न द्वयो रजः ॥ ९८ ॥

धूलिके नाम ४ ॥ रेणु १ धूलि २
पासु ३ रजस् ४ ॥ ९८ ॥

चूर्णे क्षोदः-

चूनके नाम २ ॥ चूर्ण १ क्षोद २ ॥

अथ-उत्तकरयत्त सव शब्द
तीनों लिंगम होत है ॥ ८७ ॥

निग्स्त* महिते बाणे-

ओडेदुय बाणका नाम ॥ निरस्त १ ॥

-विपाक्ते दिग्धलितकौ ॥

विपयुक्त बाणक नाम ३ ॥ विपाक

१ दिग्ध २ उत्तक ३ ॥

मूणांपासद्भ्रूणीरनिपगा इपुधिर्द

यो ॥ ८८ ॥ मूर्णा-

सकसक नाम ६ ॥ मूर्ण १ टपामंग

० तर्गार ० निपगा ० इपुधि १ ॥

॥ ८८ ॥ तर्गा १ ॥

-सग्गे तु निम्बिचन्द्रहासासि

गृथ्य ॥ कीक्षेयको मण्डलाम

करवाल* कृपाणवत् ॥ ८९ ॥

सगरक नाम १ ॥ पद्म १ निधि

श २ घन्हास २ शसि ४ तिपि ९

कीषक ६ मण्डलाम ७ करवाल ८

पद्मग ० ॥ ८९ ॥

त्सक सग्गादिमुर्धा स्या-

सगरभाषिको मूक का नाम १ ॥ सक १ ॥

-मरगा क्षत्रियन्धनम् ॥

सगर १ मरगा नाम १ ॥ मरगा १ ॥

पन्थासि पन्थाम-

पन्थाम नाम २ ॥ पन्थक १ पन्थ

प १ ॥

-ममादा गुह्यस्य व ॥ ९० ॥

टाळ्फा मूळका नाम १ ॥ संमाह १ ॥ ९० ॥

दृघणो मुद्गरघनौ-

मुद्गरकनाम १ ॥ दृघण १ मुद्गर १ घन १ ॥

-स्पादीली करवालिका ॥

गुप्तीके नाम २ ॥ स्पादी १ करवालिका २ ॥

भिन्दिपाल* सृगस्तुल्यौ-

गोपनक नाम २ ॥ भिन्दिपाल १ सृग १ ॥

-परिघ परिघातिन् ॥ ९१ ॥

परिघक नाम २ ॥ परिघ १ पार-

घातिन् ० ॥ ९१ ॥

द्वयो* कुठार स्वधिति परशुध

परशुध ॥

कुठारीके नाम ४ ॥ कुठार १

स्वधिति २ परशु ३ परशुध ४ ॥

स्माच्छेरी शासिपुत्री घ मुरि

का घासिधनुका ॥ ९२ ॥

दुर्तीके नाम ४ ॥ शरी १ अस्ति

पुरी २ दुरिता ३ अस्तिगुका ४ ॥ ९२ ॥

वा पुसि अत्यं शत्रुना-

पुसिक नाम २ ॥ शत्रु १ शत्रु १ ॥

गर्वला क्षामरोडमियाम-

गर्वलाके नाम ० ॥ क्षामरोड १ क्षामरोड १ ॥

मासस्तु गुन्त -

मा के नाम २ ॥ मास १ गुन्त २ ॥

-हागस्तु मिय पान्पथि

मास्य ॥ ९३ ॥

खड्गादिकी नोकके नाम ४॥कोण १
पालि २ अश्रि ३ कोटि ४ ॥ ९३ ॥

सर्वाभिसारः सर्वौघः सर्वसन्न-
हनार्थकः ॥

सेनाकी तैयारीके नाम ३ ॥ सर्वा-
भिसार १ सर्वौघ २ सर्वसनहन ३ ॥

लोहाभिसारोऽस्त्रभृतां राज्ञां
नीराजनाविधिः ॥ ९४ ॥

महानवमीके पहिले लडाईके निमित्त
राजाओके शस्त्र पूजनेका नाम १ ॥
लोहाभिसार १ ॥ ९४ ॥

यत्सेनयाभिगमनमरौ तदभि-
षेणनम् ॥

शत्रुके ऊपर सेना चढनेका नाम
१ ॥ अभिषेणन १ ॥

यात्रा ब्रज्याऽभिनिर्माणं प्रस्था-
नं गमनं गमः ॥ ९५ ॥

चलनेके नाम ६ ॥ यात्रा १
ब्रज्या २ अभिनिर्माण ३ प्रस्थान ४
गमन ५ गम ६ ॥ ९५ ॥

स्यादासारः प्रसरणं-

सेनाके फैलनके नाम २ ॥ आसार
१ प्रसरण २ ॥

-प्रचक्रं चलितार्थकम् ॥

चलीहुई सेनाके नाम २ ॥ प्रचक्र
१ चलित २ ॥

अहितान्प्रत्यभीतस्य रणे यान-
मभिक्रमः ॥ ९६ ॥

निडर होकर शत्रुपर चढाईका
नाम १ ॥ अभिक्रम १ ॥ ९६ ॥

वैतालिका बोधकरा-

प्रातःकालके राजाके जगानेवा-
लोंके नाम २ ॥ वैतालिका १ बोधकर २ ॥

-श्रक्तिका घाण्टिकाऽर्थकाः ॥

घडियालीके नाम २ ॥ चाक्रिका १
घाण्टिका २ ॥

स्युर्मागधास्तु मगधा-

राजाका वश वर्णन करनेवालोंके
नाम २ ॥ मागधा १ ॥ मगधा २ ॥

-वन्दिनः स्तुतिपाठकाः ॥ ९७ ॥

भाटके नाम २ ॥ वन्दिन् १
स्तुतिपाठक २ ॥ ९७ ॥

संशप्तकास्तु सप्तयात्सङ्ख्यामा-
दनिवर्तिनः ॥

शपथ खाकर युद्धमें पीठ न देने-
वालेका नाम १ ॥ सशप्तक १ ॥

रेणुर्द्वयोः स्त्रियां धूलिः पांसुर्ना
न द्वयो रजः ॥ ९८ ॥

धूलिके नाम ४ ॥ रेणु १ धूलि २
पासु ३ रजस् ४ ॥ ९८ ॥

चूर्णं क्षोदः-

चूनके नाम २ ॥ चूर्ण १ क्षोद २ ॥

—समुत्पिञ्जपिञ्जली भृक्षमाकुले ॥

अकुष्ठानेके नाम २ ॥ समुत्पिञ्ज
१ पिञ्ज २ ॥

पताका वैजयन्ती स्यात्केतन
ध्वजमस्त्रियाम् ॥ ९९ ॥

ध्वजके नाम ४ ॥ पताका १ वैज
यन्ती २ केतन ३ ध्वज ४ ॥ ९९ ॥

सा वीराशंसन युद्धभूमिर्याऽ
तिभयमदा ॥

म १ युद्ध २ स्थानका नाम १ ॥
वीराशंसन १ ॥

अह पूर्वमह पूर्वमित्यहपूर्विका
स्त्रियाम् ॥ १०० ॥

जिसमें वीर कहें कि, हम पहले
छडेगे हम पहले छडेगे उस छडाईका
नाम १ ॥ अहपूर्विका १ ॥ १०० ॥

आहोपुरुषिका दर्पाद्या स्यात्स
भाषनात्मनि ॥

जिसमें कहें कि हम पुरुष हैं हमहीं
छडेगे उसका नाम १ ॥ आहोपुरुषिका १ ॥

अहमहमिका तु सा स्यात्परस्पर
यो भवत्यर्हकार ॥ १०१ ॥

आपसक इस कथनका कि, हम
दूसरे हैं हम एक दूसरे डरता नाम
१ ॥ अहमहमिका १ ॥ १०१ ॥

द्रविण तरराहोवलगायाणि

स्याम शुष्म च ॥ शक्ति परा
क्रमः प्राणो-

पराक्रमके नाम १० ॥ द्रविण १
तरस् २ छहस् ३ वळ ४ शौर्य ५
स्यामन् ६ शुष्मन् ७ शक्ति ८ परा
क्रम ९ प्राण १० ॥

—विक्रमस्त्वतिशक्तिता १०२ ॥
भतिपराक्रमक नाम २ ॥ विक्रम

१ भतिशक्तिता २ ॥ १०२ ॥
वीरपानं तु यत्पानं घृषे

भाविनि वा रणे ॥
छडनेके निमित्त पहले या पीछे नसा

खान पीनेका नाम १ ॥ वीरपान १ ॥
युद्धमायोधनं जन्य प्रघनं प्रावि

दारणम् ॥ १०३ ॥ मृघमात्क
न्दन सङ्ख्य समीकं साम्परा

यिकम् ॥ अस्त्रियां समरानीक
रणा कलहविप्रही ॥ १०४ ॥

समहाराभिसपातकलिसस्फोटसंयु
गा ॥ अभ्यामर्दसमाघातसं

ग्रामाभ्यागमाहवा ॥ १०५ ॥
समुदाय स्त्रियं सपत्सामित्या

मिसमिष्टुघ ॥
सुद्ध नाम १ ॥ सुद्ध १ आयोधन २

जन्य ३ प्रघन ४ प्रविदारण ५ ॥ १ ॥ ३ ॥
शुद्ध आसन्दन ७ सपत्सामित्या ९

सापरायिक १० समर ११ अनीक १२
रण १३ कलह १४ विप्रह १२ ॥ १०४ ॥
सप्रहार १६ अभिसम्पात १७ कलि १८
सस्फोट १९ संयुग २० अभ्यामर्द २१ समा
घात २२ सग्राम २३ अभ्यागम २४ आहव
२५ ॥ १०५ ॥ समुदाय २६ सयत् २७ स-
मिति २८ आजि २९ समित् ३० युध् ३१ ॥

नियुद्धं बाहुयुद्धे स्या-

भुजाके युद्धके नाम २ ॥ नियुद्ध १
बाहुयुद्ध २ ॥

तुमुलं रणसंकुले ॥ १०६ ॥

घोरसग्रामका नाम १ ॥ तुमुल १ ॥
॥ १०६ ॥

क्ष्वेडा तु सिंहनादः स्या-

वीरोंके गर्जनेके नाम २ ॥ क्ष्वेडा १
सिंहनाद २ ॥

त्कारिणां घटना घटा ॥

हाथियोंके समूहके नाम २ ॥ घटना
१ घटा २ ॥

ऋन्दनं योधसंरावो-

युद्धके शब्दका नाम १ ॥ ऋन्दन १ ॥

-वृंहितं करिगर्जितम् ॥ १०७ ॥

हाथीके शब्दका नाम १ ॥ वृंहित १ ॥
॥ १०७ ॥

विस्फारो धनुषः स्वानः-

धनुषके शब्दका नाम १ ॥ विस्फार १ ॥

-पटहाडम्बरौ समौ ॥

नगाडके शब्दके नाम २ ॥ पटह १
आडवर २ ॥

प्रसभं तु बलात्कारो हठो-

हठके नाम ३ ॥ प्रसभ १ बलात्कार
२ हठ ३ ॥

-स्थ स्वलितं छलम् ॥ १०८ ॥

धोखा देनेके नाम २ ॥ स्वलित १
छल २ ॥ १०८ ॥

अजन्यं क्लीवमुत्पात उपसर्गः
समं त्रयम् ॥

उत्पातके नाम ३ ॥ अजन्य १
उत्पात २ उपसर्ग ३ ॥

मूर्च्छा तु कश्मलं मोहो-

मूर्च्छाके नाम ३ ॥ मूर्च्छा १ कश्मल २
मोह ३ ॥

-प्यवमर्दस्तु पीडनम् ॥ १०९ ॥

देशादिको उपद्रव देनेके नाम २ ॥
अवमर्द १ पीडन २ ॥ १०९ ॥

अभ्यवस्कन्दनं त्वभ्यासादनं-

धोखेसे दवालेनेके नाम २ ॥ अभ्यव
स्कन्दन १ अभ्यासादन २ ॥

-विजयो जयः ॥

जीतके नाम २ ॥ विजय १ जय २ ॥
वैरशुद्धिः प्रतिकारो वैरनिर्या-
तनं च सा ॥ ११० ॥

-समुत्पिञ्जापिञ्जली मृशमाकुले ॥

अकुलान्के नाम २ ॥ समुत्पिञ्ज
१ पिञ्ज २ ॥

पताका वैजयन्ती स्यात्केतन
ध्वजमस्त्रियाम् ॥ ९९ ॥

संज्ञके नाम ४ ॥ पताका १ वैज-
यन्ती २ केतन ३ ध्वज ४ ॥ ९९ ॥

सा वीराशंसनं युद्धमूर्धियां
विमयप्रदा ॥

मर युद्ध स्यान्का नाम १ ॥
वीराशंसन १ ॥

अह पूर्वमह पूर्वमित्पहपूर्विका
स्त्रियाम् ॥ १०० ॥

जिसमें वीर कहें कि हम पहल
छड़ेगे हम पहल छड़ेगे उस छडाईका
नाम १ ॥ अहपूर्विका १ ॥ १० ॥

आहोपुरुषिका दर्पाद्या स्यात्स
भावनात्मनि ॥

जिसमें कहें कि हम पुरुष हैं हमही
छड़ेगे उसका नाम १ ॥ आहोपुरुषिका १ ॥

अहमहमिका तु सा स्यात्परस्परं
यो भवत्परिहारः ॥ १०१ ॥

आपसके इस कहनेको कि, हम
शक्त हैं हम सब सक्षरें उसका नाम
१ ॥ अहमहमिका १ ॥ १ १ ॥

द्रविर्ण सरःसहोबलशीयांणि

स्याम शुष्म च ॥ शक्ति परा
क्रमः प्राणो-

पराक्रमके नाम १० ॥ द्रविण १
सरस् २ सहस् ३ बल ४ शीर्ष ५
स्याम् ६ शुष्मन् ७ शक्ति ८ परा-
क्रम ९ प्राण १ ॥

-विक्रमस्त्वविशक्तिता १०२ ॥
अतिपराक्रमके नाम २ ॥ विक्रम

१ अतिशक्तिता २ ॥ १०२ ॥

वीरपान तु यत्पानं वृषे
भाविनि वा रणे ॥

छडनेके निमित्त पहले या पीछे नसा
खाने पीनेका नाम १ ॥ वीरपान १ ॥

युद्धमायोधनं जन्य प्रघन प्रवि-
दारणम् ॥ १०३ ॥ मृघमास्क-

न्दन सकृन्ध्य समीक साम्परा
यिकम् ॥ अस्त्रियां समरानीक
रणा कलहविग्रही ॥ १०४ ॥

समहाराभिसपाठकलिसंस्फोन्स्यु
गा ॥ अभ्यामर्दसमाघातसं

ग्रामाभ्यागमाहवा ॥ १०५ ॥
समुदायः स्त्रियः समस्तामित्या

जितमिच्छुषः ॥
युद्धक नाम १ ॥ युद्ध १ आयोधन २
जन्य ३ प्रघन ४ प्रविदारण ५ ॥ १ ॥ ३ ॥

मृघ ६ आस्कन्दन ७ सकृन्ध्य ८ समीक ९

-चिता चित्या चितिः त्रि-
याम् ॥ ११७ ॥

चिताके नाम ३ ॥ चिता १ चित्या
२ चिति ३ ॥ ११७ ॥

कबन्धोऽस्त्री क्रियायुक्तमप-
मूर्धकलेवरम् ॥

शिररहित चेष्टा करनेवाले शरीरका
नाम १ ॥ कबन्ध १ ॥

श्मशानं स्यात्पितृवनं-

श्मशानके नाम २ ॥ श्मशान १
पितृवन २ ॥

-कुणपः शवमस्त्रियाम् ॥ ११८ ॥

मुर्देके नाम २ ॥ कुणप १ शव २ ॥
॥ ११८ ॥

प्रग्रहोपग्रहो बन्ध्यां-

कैदीके नाम ३ ॥ प्रग्रह १ उपग्रह
बन्दी ३ ॥

-कारा स्याद्बन्धनालये ॥

जेहलखानेका नाम १ ॥ कारा १ ॥

पुंसि अक्षयः प्राणाश्चैवं-

प्राण २ ॥ असु १ प्राण २ ॥

धारणम् ॥ ११९ ॥

२ ॥ जीव १ असु-

२ ॥

कालो-

१ ॥ आयुम् १ ॥

-ना जीवातुर्जीवनौपधम् ॥

मृतसजीवनी वृष्टीके नाम २ ॥

जीवातु १ जीवनौपध २ ॥

इति क्षत्रियवर्गः ॥ ८ ॥

अथ वैश्यवर्गः ९.

ऊरव्या ऊरुजा अर्या वैश्या
भूमिस्पृशी विशः ॥

वैश्यके नाम ६ ॥ ऊरव्य १ ऊरुज २
अर्य ३ वैश्य ४ भूमिस्पृक् ५ विश ६ ॥

आजीवो जीविका, वार्ता वृत्तिर्व-
र्तनजीवने ॥ १ ॥

जीविकाके नाम ६ ॥ आजीव १

जीविका २ वार्ता ३ वृत्ति ४ वर्त्तन
५ जीवन ६ ॥ १ ॥

स्त्रियां कृषिः पाशुपाल्यं वा-
णिज्यं चेति वृत्तयः ॥

जीविकाके भेद ३ ॥ (खेती कर-
नेका नाम) कृषि १ ॥ (पशुपालनका
नाम) पाशुपाल्य २ ॥ (व्यापारका
नाम) वाणिज्य ३ ॥ ये तीनों वैश्य-
वृत्ति हैं ॥

सेवा श्ववृत्ति-

परसेवाके नाम २ ॥ सेवा १
श्ववृत्ति २ ॥

-गृत्तं कृषि-

के दूरकरनेके नाम शक्रेच्छुद्धि १
प्रतीकार २ केरनिर्वासन ३ ॥ ११० ॥

प्रदावोद्रावसन्द्रावसन्दावा वि
द्रवो द्रव ॥ अपक्रमोऽपयान घ-

पलायन (भागने) के नाम ८ ॥
प्रदाव १ उद्राव २ सद्राव ३ सन्दाव ४

विद्रव ५ द्रव ६ अपक्रम ७ अपयान ८ ॥
-रणेमङ्ग पराजय ॥ १११ ॥

हारके नाम २ ॥ रणेमङ्ग १ परा
जय २ ॥ १११ ॥

पराजितपरामूर्त्तौ-

हारके नाम २ ॥ पराजित १ परा-
मूर्त्त २ ॥

-त्रिषु नष्टतिरोहितौ ॥
त्रिषुके नाम २ ॥ नष्ट १ तिरो
हित २ ॥

प्रमापण निवर्हण निकारण वि

धारणम् ॥ ११२ ॥ प्रवासन प

रासनं निपूदनं निर्हिसनम् ॥ नि

र्वासनं सज्ञपन निर्मन्थनमपासनम्

॥ ११३ ॥ निस्तर्हणं निहननं
क्षणन परिवजनम् ॥ निवापण
विशसन मारण प्रतिघातनम्
॥ ११४ ॥ उद्दासनममथनक्रय
नोज्जासनानि घ ॥ अलम्भाविज

विशरघातोन्माथवघा अपि ११५
मारनेके नाम ३० ॥ प्रमापण १

निवर्हण २ निकारण ३ विशारण ४ ॥
॥ ११२ ॥ प्रवासन ५ पयसन ६ निपू-

दन ७ निर्हिसन ८ निर्वासन ९ सज्ज-
पन १० निर्मन्थन ११ अपासन १२ ॥

॥ ११३ ॥ निस्तर्हण १३ निहनन १४
क्षणन १५ परिवर्जन १६ निर्वापण

१७ विशसन १८ मारण १९ प्रति-
घातन २० ॥ ११४ ॥ उद्दासन २१

मथन २२ क्रयन २३ उद्भासन २४
आलम्भ २५ पिञ्ज २६ विशर २७ ॥

घात २८ उन्माथ २९ वघ ३० ॥
॥ ११५ ॥

स्यात्पञ्चता कालधर्मो दिष्टान्त'

मलयोऽन्यम ॥ अन्तो नाशो
द्रयोर्भृत्युर्मरण निधनोऽस्त्रियाम्

॥ ११६ ॥
मृत्युके नाम १० ॥ पञ्चता १ काल-

धर्म २ दिष्टान्त ३ प्रत्यय ४ अत्यय ५
अन्त ६ नाश ७ मृत्यु ८ मरण ९

निधन १० ॥ ११६ ॥
परामुप्राप्तपञ्चत्वपरेतमेतसस्थिताः ॥

मृतममीदी शिष्येते-

मृत्युको प्राप्तदृष्टेके नाम ७ ॥ परामु
१ प्राप्तपञ्चत्व २ परेत ३ मृत ४ संरिमत्
५ मृत ६ ममीत ७ ॥

-चिता चित्या चितिः खि-
याम् ॥ ११७ ॥

चिताके नाम ३ ॥ चिता १ चित्या
२ चिति ३ ॥ ११७ ॥

कबन्धोऽस्त्री क्रियायुक्तमप-
मूर्धकलेवरम् ॥

शिररहित चेष्टा करनेवाले शरीरका
नाम १ ॥ कबन्ध १ ॥

श्मशानं स्यात्पितृवनं-

श्मशानके नाम २ ॥ श्मशान १
पितृवन २ ॥

-कुणपः शवमस्त्रियाम् ॥ ११८ ॥

मुर्देके नाम २ ॥ कुणप १ शव २ ॥
॥ ११८ ॥

प्रग्रहोपग्रहो वन्द्यां-

कैदीके नाम ३ ॥ प्रग्रह १ उपग्रह
वन्दी ३ ॥

-कारा स्याद्बन्धनालये ॥

जेहलखानेका नाम १ ॥ कारा १ ॥

पुंसि भूस्न्यसवः प्राणाश्चैवं-

प्राणके नाम २ ॥ असु १ प्राण २ ॥

-जीवोऽसुधारणम् ॥ ११९ ॥

जीवके नाम २ ॥ जीव १ असु-
धारण २ ॥ ११९ ॥

आयुर्जीवितकालो-

आयुका नाम १ ॥ आयुम् १ ॥

-ना जीवातुर्जीवनौषधम् ॥

मृतसजीवनी बूटीके नाम २ ॥

जीवातु १ जीवनौषध २ ॥

इति क्षत्रियवर्गः ॥ ८ ॥

अथ वैश्यवर्गः ९.

ऊरव्या ऊरुजा अर्या वैश्या

भूमिस्पृशो विशः ॥

वैश्यके नाम ६ ॥ ऊरव्य १ ऊरुज २

अर्य ३ वैश्य ४ भूमिस्पृक् ५ विश ६ ॥

आजीवो जीविका, वार्ता वृत्तिर्व-
र्तनजीवने ॥ १ ॥

जीविकाके नाम ६ ॥ आजीव १

जीविका २ वार्ता ३ वृत्ति ४ वर्त्तन

५ जीवन ६ ॥ १ ॥

स्त्रियां कृषिः पाशुपाल्यं वा-

णिज्यं चेति वृत्तयः ॥

जीविकाके भेद ३ ॥ (खेती कर-

नेका नाम) कृषि १ ॥ (पशुपालनका

नाम) पाशुपाल्य २ ॥ (व्यापारका

नाम) वाणिज्य ३ ॥ ये तीनों वैश्य-

वृत्ति हैं ॥

सेवा श्ववृत्ति-

परसेवाके नाम २ ॥ सेवा १

श्ववृत्ति २ ॥

-गृत्तं कृषि-

क्षेत्रीकेनाम २ ॥ अमृत १ कृषि २ ॥

—रुच्छशिल स्वृतम् ॥ २ ॥

उच्छृष्टिके नाम ३ ॥ उच्छ १

शिल २ अत ३ ॥ २ ॥

द्वे याचितायाचितयोर्घासख्य
मृतामृते ॥

मांगनस प्राप्तियुई वस्तुका नाम १ ॥

मृत १ ॥ किना मांगे प्राप्तियुई वस्तुका
नाम १ ॥ अमृत १ ॥

सत्यानृतं वणिग्माव' स्या-

व्यापारक नाम २ ॥ सत्यानत १

वणिसमाव २ ॥

—हृणं पर्युदम्बनम् ॥ ३ ॥ उद्दारो-

कर्जके नाम ३ ॥ कृष्ण १ पर्युदम्बन

२ ॥ ३ ॥ उद्धार ३ ॥

—अर्यप्रयोगस्तु कुसीद वृद्धि
जीविका ॥

व्याजके नाम ३ ॥ अर्यप्रयोग १

कुसीद २ वृद्धिजीविका ३ ॥

याच्छ्रातं पाचितक-

मांगनेकी वस्तुका नाम १ ॥ पाचितक १ ॥

—निमयादापमित्यकम् ॥ ४ ॥

बायदेपर लीङ्गइ वस्तुका नाम १ ॥

आपमित्यक १ ॥ ४ ॥

उत्तमर्णाधमर्णौ द्वौ प्रयोक्तृमा

इक्रे क्रमात् ॥

कृष्ण दन्तबालेका नाम १ ॥ उत्तमर्ण
१ ॥ कृष्णकेलनबालेकानाम १ ॥ अधमर्ण १ ॥

कुसीदिको वार्धुपिको वृद्धभाजी
वम्ब वार्धुपि ॥ ५ ॥

व्याजसे जीनबालेक नाम ४ ॥ कुसी
दिक १ वार्धुपिक २ वृद्धभाजीव ३
वार्धुपि ४ ॥ ५ ॥

क्षेत्राजीवः कर्षकश्च कृषिकश्च
कृषीवल ॥

क्षिस्तानके नाम ४ ॥ क्षेत्रा जीव १
कर्षक २ कृषिक ३ कृषीवल ४ ॥

क्षेत्रं त्रैवेयशाल्यं त्रीहिसाल्युद्
भोचितम् ॥ ६ ॥

त्रीहि होनेके योग्य शल्यका नाम
१ ॥ त्रैहय १ ॥

धानके शतका नाम १ ॥ शाल्य १ ॥ ६ ॥
यद्यं यवकर्म पट्टिकर्म यवादिमबर्न
हि यत् ॥

जौके शतका नाम १ ॥ यव्य १ ॥ शोटे
जौके शतका नाम १ ॥ यवस्य १ ॥

साठीके शतका नाम १ ॥ पट्टिकर्म १ ॥

तिस्य तैलीनवन्मापोमाणुमगा
द्विरूपता ॥ ७ ॥

तिसके शतके नाम २ ॥ तिस्य १
तैलीन २ ॥ उरद होम्बालके नाम २ ॥

माध्य १ मापीण २ ॥ अखसी होनेबालके

नाम २ ॥ उम्य १ औमीन २ ॥ अणुके
होनेवालेके नाम २ ॥ अणव्य १ आण-
वीन २ ॥ भग (ताग) होनेवालेके
नाम २ ॥ भग्य २ भगीन २ ॥ ७ ॥

**मौद्गीनकौद्रवीणादिशेषधान्यो-
द्भवक्षमम् ॥**

मूगहोनेवालेका नाम १ ॥ मौद्गीन
१ ॥ कोदो होनेवाले खेतका नाम १ ॥
क्रौद्रवीण १ ॥ चणेहोनेवाले खेतका
नाम १ ॥ चाणकीन १ ॥ गेंहू होने-
वालेका नाम १ ॥ गौधूमीन १ इत्यादि ॥

बीजाकृत तूसकृष्टं—

बीज बोनेका नाम १ ॥ बीजाकृत १ ॥

—सीत्यं कृष्टं च हल्यवत् ॥ ८ ॥

जोतेहुए खेतके नाम ३ ॥ सीत्य
१ कृष्ट २ हल्य ३ ॥ ८ ॥

**त्रिगुणाकृतं तृतीयाकृतं त्रिहल्यं
त्रिसीत्यमपि तस्मिन् ॥**

तीनवार जुतेहुये खेतके नाम ४ ॥

त्रिगुणाकृत १ तृतीयाकृत २ त्रिहल्य
३ त्रिसीत्य ४ ॥

**द्विगुणाकृते तु सर्वं पूर्वं शम्बा-
कृतमपीह ॥ ९ ॥**

दोवार जुतेहुयेके नाम ४ ॥ द्विगुणाकृत १

द्वितीयाकृत २ द्विहल्य २ द्विसीत्य ४ ॥ ९ ॥

**द्रोणाढकादिवापादौ द्रौणिक-
काढकिकादयः ॥**

जिसमें द्रोण (१०२४) तोला घान-
आदि बोया जाय उस खेतका नाम १ ॥

द्रौणिक १ ॥ आढक (२९६) तोला
भर वालेका नाम १ ॥ आढकिक १ ॥ आदि

खारीवापस्तु खारीक—

जिसमें खारी (४ द्रोण अर्थात्
४०९६) तोला भर अन्न बोया जाय
उसका नाम ॥ १ ॥ खारीक १ ॥

—उत्तमर्णादयस्त्रिषु ॥ १० ॥

उत्तमर्णादि शब्द तीनों लिंगोंमें
होते हे ॥ १० ॥

**पुंनपुंसकयोर्वप्रः केदारः क्षेत्र-
खेतके नाम ३ ॥ वप्र १ केदार २ क्षेत्र ३ ॥**

—मस्य तु ॥ कैदारकं स्यात्कै-
दार्यं क्षेत्रं कैदारिकं गणे ॥ ११ ॥

खेतके समूहके नाम ४ ॥ कैदारक १
कैदार्य २ क्षेत्र ३ कैदारिक ४ ॥ ११ ॥

लोष्ठानि लेष्टवः पुंसि—

ढेलेके नाम २ ॥ लोष्ट १ लेष्ट २ ॥

—कोटिशो लोष्टभेदनः ॥

मूगरीके नाम २ ॥ कोटिश १
लोष्टभेदन २ ॥

प्राजनं तोदनं स्तोत्रं—

पैने (लॉठी, चाबुक आदि) के नाम
३ ॥ प्राजन १ तोदन २ तोत्र ३ ॥

—खनिप्रमवदारणे ॥ १२ ॥

कुदाळके नाम २ ॥ खनिप्र १
भवदारण २ ॥ १२ ॥

दात्र लवित्र—
सुरपा फाषडा आदिक नाम २ ॥
दात्र १ लवित्र २ ॥

—माधन्वो योत्र योक्र—
मायक नाम ३ ॥ आधन्व १ योत्र
२ योक्र ३ ॥

—मयो फलम् ॥ निरीष कुटफं
फाला कृपको—

फाल अर्थात् हलके नीचे लगाइये
लोहेके नाम १ ॥ फल १ निरीषो १
कुटक १ फाल ४ कृष्क १ ॥

—लाङ्गल इलम् ॥ १३ ॥
गोदारण घ सीरो—

हलके नाम ४ ॥ लाङ्गल १ हल
२ ॥ १३ ॥ गोदारण ३ सीर ४ ॥

—उय शम्मा स्त्री युगकीलका ॥
उय (सिम्ह) के नाम २ ॥
शम्मा १ युगकीलका २ ॥

—ईपा लाङ्गलवृषः स्या—
हलस हाल) के नाम २ ॥ ईपा
१ लाङ्गलवृष २ ॥

—स्तीता लाङ्गलपद्धति ॥ १४ ॥
हलकी रत्ना (मूढ) के नाम २ ॥
स्तीता १ लाङ्गलपद्धति २ ॥ १४ ॥

पुंसि मेधिः खले दाठ न्यस्तं
पत्पशुवन्धने ॥

जाघान्यमर्दनकरनकं स्थान अर्थात्
पेरमें गाढेहुय पशु बांधनक सूत्रे (मूढ)
क नाम २ ॥ मेधि १ खलदाठ २ ॥

आशुयोहि पाटला स्या—
सही (धान) के नाम ३ ॥
आशु १ ब्रीहि २ पाटल ३ ॥

—च्छित्तशूकयवौ समौ ॥ १५ ॥
शूके नाम २ ॥ शित्तशूक १ यव २ ॥ १५ ॥

वोकमस्तु तत्र हरिते—
हरे जोका नाम १ ॥ वोक १ ॥
—कलायस्तु सतीनक ॥

हरेणुरवण्डिकौ चास्मिन्—
मठरके नाम ४ ॥ कलाय १
सतीनक २ हरेणु ३ अण्डिक ४ ॥

—कोरदूपस्तु कोद्रवः ॥ १६ ॥
कोद्रोके नाम २ ॥ कोरदूप १
कोद्रव २ ॥ १६ ॥

मङ्गल्यको मसूरो—
मसूरके नाम २ ॥ मङ्गल्यक १
मसूर २ ॥

—उय मङ्गल्यकमयुष्टकौ ॥ बन)
मुष्टे—
मोठके नाम ३ ॥ मङ्गल्यक १
मयुष्टक २ बनमुष्ट ३ ॥

सर्षपे तु द्वौ तन्तुभकदम्बकौ १७

सर्षपके नाम ३ ॥ सर्षप १ तन्तुभर २

कदम्बक ३ ॥ १७ ॥

सिद्धार्थस्त्वेष धवलो-

सफेदसरसोका नाम १ ॥ सिद्धार्थ १ ॥

-गोधूमः सुमनः संभौ ॥

गेहूँके नाम २ ॥ गोधूम १ सुमन २ ॥

स्याद्यावकस्तु कुलमाष-

कुलथीके नाम २ ॥ यावक १ कुलमाष २ ॥

-श्रणको हरिमन्थकः ॥ १८ ॥

अरहरे (चने) के नाम २ ॥ चणक १

हरिमन्थक २ ॥ १८ ॥

द्वौ तिले तिलपेजश्च तिलपि-

ञ्च निष्फले ॥

'फलहीन' 'वाञ्छितिल' 'रान तिल'

के नाम २ ॥ तिलपेज १ तिलपिज २ ॥

क्षवः क्षुताभिजननो राजिका

कृष्णिकाऽऽसुरी ॥ १९ ॥

राईके नाम ९ ॥ क्षव १ क्षुताभिज-

नन २ राजिका ३ कृष्णिका ४ आसुरी

९ ॥ १९ ॥

स्त्रियौ कङ्कगुप्रियङ्गू द्वे-

कगनीके नाम २ ॥ कगु १ प्रियङ्गु २ ॥

-अतसी स्यादुमा क्षुमा ॥

अलसीके नाम ३ ॥ अतसी १ उमा

२ क्षुमा ३ ॥

मातुलानी तु भङ्गायाम्-

भगके नाम २ ॥ मातुलानी १

भगा २ ॥

व्रीहिभेदस्त्वणुः पुमान् ॥ २० ॥

चीनाधान्यका नाम १ ॥ अणु १ ॥ २०

किशारुः सस्यशूकं स्या-

जौ इत्यादिके तीखे अप्रभाग

(सीकुर) के नाम २ ॥ किशारु १

सस्यशूक २ ॥

-त्काणिशं सस्यमञ्जरी ॥

धान्यकी बालके नाम २ ॥ कणिश १

सस्यमञ्जरी २ ॥

धान्यं व्रीहिः स्तम्बकारिः-

धान्यमात्रके नाम ३ ॥ धान्य १

व्रीहि २ स्तम्बकारि ३ ॥

-स्तम्बो गुच्छस्तृणादिनः ॥ २१ ॥

यव आदिकी जबके नाम २ ॥ स्तम्ब

१ गुच्छ २ ॥ २१ ॥

नाडी नालं च काण्डोऽस्य--

नलुआके नाम २ ॥ नाडी १ नाल २ ॥

--पलालोऽस्त्री स निष्फलः ॥

प्यालका नाम १ ॥ पलाल १ ॥

कडङ्गरो बुसं क्लीवे-

मोटे बुसके नाम २ ॥ कडङ्गर १

बुस १ ॥

--धान्यत्वाचि तुषः पुमान् ॥ २२ ॥

भूसीका नाम १ ॥ तुष १ ॥ २२ ॥

-खनिप्रमवदारणे ॥ १२ ॥

खुदाउके नाम २ ॥ खनित्र १
अवदारण २ ॥ १२ ॥

दात्र लविप्र-

खुरपा फाकडा आदिक नाम २ ॥
दात्र १ लवित्र २ ॥

-मायन्धो योत्र योक्र-

मायके नाम ३ ॥ आबन्ध १ योत्र
२ योक्र ३ ॥

-मयो फलम् ॥ निरीश कुटर्क

फालः कृपको-

फाल अर्थात् हलके नीचे छोड़ने
लोहके नाम ५ ॥ फल १ निरीश १
कुटर्क ३ फल ४ कृपक ५ ॥

-लाङ्गुल इलम् ॥ १३ ॥

गोदारण च सीरो-

हलके नाम ४ ॥ लाङ्गुल १ हल
२ ॥ १३ ॥ गोदारण ३ सीर ४ ॥

-ऽय शम्पा स्त्री युगकीलका ॥

शम्पा (सिमल) के नाम २ ॥
शम्पा १ युगकीलका २ ॥

-इषा लाङ्गुलदण्ड स्या-

हलस (हाल) के नाम २ ॥ इषा
१ लाङ्गुलदण्ड २ ॥

-स्तीवा लाङ्गुलपद्मति ॥ १४ ॥

पद्मती रेखा (लूट) के नाम २ ॥
पीता १ लाङ्गुलपद्मति २ ॥ १४ ॥

पुंसि मेघिः खले दाह न्यस्तं

पत्पशुबन्धने ॥

भोधान्यफर्दमफरनके स्थान अर्थात्
पैरमें गाहइय पशु बांधनेके सूत्रे (मंत्र)

क नाम २ ॥ मेघि १ खलदार २ ॥

आशुर्वीहि पाटल स्या-

सही (धान) क नाम ३ ॥

आशु १ व्रीहि २ पाटल ३ ॥

-च्छितशूकयवौ समौ ॥ १५ ॥

जौके नाम २ ॥ शितशूक १ यव २ ॥ १५ ॥

तोकमस्तु तत्र हरिते-

हरे जौका नाम १ ॥ तोकम १ ॥

-कलायस्तु सर्तीनका ॥

इरेणुत्वण्डिकौ घास्मिन्-

मटरके नाम ३ ॥ कलाय १

सर्तीनका २ हरेणु ३ खण्डिक ३ ॥

-कोरदूपस्तु कोद्रवा ॥ १६ ॥

कोद्रोके नाम २ ॥ कोरदूप १

कोद्रवा २ ॥ १६ ॥

मङ्गल्पको मसूरो-

मसूरके नाम २ ॥ मङ्गल्पक १

मसूर २ ॥

-ऽय मकुष्ठकमयुष्टकौ ॥ नन

मुष्टे-

मोठक नाम ३ ॥ मकुष्ठक १

मयुष्टक २ ननमुष्ट ३ ॥

कटकिलिङ्गकौ ॥ २६ ॥

चटाईके नाम २ ॥ कट १ किलि-
जक २ ॥ २६ ॥

समानौ-

यह समान लिंग है ॥

-रसवत्यां तु पाकस्थानमहा-
नसे ॥

रसोईके स्थानके नाम ३ ॥ रसवती
१ पाकस्थान २ महानस ३ ॥

पौरोगवस्तदध्यक्षः-

रसोईके अधिकारीके नाम २ ॥ पौरो-
गव १ तदध्यक्ष (महानसाध्यक्ष) २ ॥

-सूपकारास्तु बलुवाः ॥ २७ ॥

आरालिका आन्धसिकाः सूदा
औदनिका गुणाः ॥

रसोइयेके नाम ७ ॥ सूपकार १
बलुव २ ॥ २७ ॥ आरालिक ३ आन्ध
सिक ४ सूद ५ औदनिक ६ गुण ७ ॥

आपूपिकः कान्दविको भक्ष्य-
कार इमे त्रिषु ॥ २८ ॥

पुआ आदि बनानेवालेके नाम ३ ॥

आपूपिक १ कान्दविक २ भक्ष्यकार ३ ॥

ये शब्द तीनों लिंगोंमें होतेहैं ॥ २८ ॥

अश्मन्तमुद्धानमधिश्रयणीचु-
ल्लिरन्तिका ॥

चूल्हेके नाम ५ ॥ अश्मन्त १ उद्धान

२ अधिश्रयणी ३ चुल्लि ४ अन्तिका ५ ॥

अंगारधानिकाऽङ्गारशकटचपि

हसन्त्यपि ॥ २९ ॥ हसन्त्य-
वरोसी (सिगडीके) नाम ४ ॥

अगारधानिका १ अगारशकटी २ हसन्ती
३ ॥ २९ ॥ हसनी ४ ॥

-प्यय न स्त्री स्यादंगारो-

अगारेका नाम १ ॥ अगार १ ॥

-ऽलातमुल्मुकम् ॥

जलतेड्डु काष्ठके नाम २ ॥ अलात
१ उल्मुक २ ॥

क्लीविऽम्बरीषं भ्राष्ट्रो-

भाष्टके नाम २ ॥ अम्बरीष १ भ्राष्ट्र २ ॥

-ना कन्दुर्वा स्वेदनी स्त्रि-
याम् ॥ ३० ॥

कटाईके नाम १ ॥ कन्दु १
स्वेदनी २ ॥ ३० ॥

अलिञ्जरः स्यान्मणिकः-

माठ (बडा बढके) नाम २ ॥

अलिञ्जर १ मणिक २ ॥

-कर्कर्यालुर्गलन्तिका ॥

कठौतीके नाम ३ ॥ कर्करी १

आलु २ गलन्तिका ३ ॥

पिठरः स्थाल्युखाकुण्डं-

बटलोईके नाम ४ ॥ पिठर १

स्थाली २ उखा ३ कुण्ड ४ ॥

-कलशस्तु त्रिषु द्वयोः ॥ ३१ ॥

शूकोञ्जी छद्मगीह्णाम्ने-
यव आदिके चिकने और तीखे
अप्रमागके नाम २ ॥ शूकश्छद्म
गीह्णाम् २ ॥

-शमी शिम्बा-

मटर आदिकी फलीके नाम २ ॥
शमी १ शिम्बा २ ॥

-त्रिवृत्तरे ॥

भाग कह हुए सब शब्द तीनों
जिह्वोंमें होंगे ॥

-शुद्धमाषसिद्ध धान्य-

तृण दूर करके पैरमें इकट्ठा करने योग्य
धान्यके नाम २ ॥ शुद्धश्छद्म २ ॥

-पृथ तु मङ्गुलीकृतम् ॥ २३ ॥

साफ करके इकट्ठा किए हुए धान्यके
नाम २ ॥ पृथ १ मङ्गुलीकृत २ ॥ २३ ॥

माषादयः क्षमीधान्ये ॥

फलीके भीतर होनेवाले धान्य माष
आदि हैं ॥

-शूकधान्ये यवादयः ॥

यव आदि शूक धान्य अर्थात्
माछसे पैदा होनेवाले हैं ॥

शालय कलमाद्याश्च पण्डिका-
द्याश्च-

यव आदि और शाठी आदि शक्ति
धान्य कहलाते हैं ॥

-पुंस्यमी ॥ २४ ॥

माष आदि शब्द पुंस्यमें होत
हैं ॥ २४ ॥

तृणधान्यानि नीवारा-

पशाई आदि मुनियोंके धान्यका
नाम १ ॥ नीवार १ ॥

-स्त्री गवेष्टुगवेष्टुका ॥

जिसका कौशल्यादशमें कसाब कसा
कहतेहैं उस मुनिभक्तके नाम २ ॥
गवष्टु १ ॥ गवष्टुका २ ॥

अधोम शुतलोञ्जी स्या-

मूतलके नाम १ ॥ अधोम १
मुतल २ ॥

-शुद्धवल्गुल्लवल्गुल्लम् ॥ २५ ॥

बोखलीके नाम २ ॥ शुद्धवल्गु
वल्गुल्ल २५ ॥

प्रस्फोटनं शूर्पमञ्जी-

छानके नाम २ ॥ प्रस्फोटन १ शूर्प २ ॥

-चाळनी तिततः पुमान् ॥

चाळनीके नाम २ ॥ चाळनी १
तितत २ ॥

स्यूतप्रसेवा-

बख सग आदिसे घने हुए येकेके
नाम २ ॥ स्यूत १ प्रसेवा २ ॥

-कण्डोळपिटी-

श्रीकरीक नाम २ ॥ कण्डोळ १ पिटी २ ॥

कारवी २ पृथ्वी ३ पृथु ४ काला ५
उपकुञ्चिका ६ ॥

आर्द्रक शृङ्गवेरं स्या-

अदरखके नाम २ ॥ आर्द्रक १ शृङ्गवेर २ ॥

-दथ च्छत्रा वितुन्नकम् ॥ ३७ ॥

कुस्तुम्बुरु च धान्याक-

धनियेके नाम ४ ॥ छत्रा १ वितुन्नक २

॥ ३७ ॥ कुस्तुम्बुरु ३ धान्याक ४ ॥

-मथ शुण्ठी महौषधम् ॥

स्त्रीनिपुंसकयोर्विश्वं नागरं विश्वमे-
पजम् ॥ ३८ ॥

सोठके नाम ५ ॥ शुण्ठी १ महौषध

२ विश्व ३ नागर ४ विश्वमेपज ५ ॥ ३८ ॥

आरनालकसौवीरकुलमाषाभि-

पुतानि च ॥ अवन्तिसोमधान्या-
म्लञ्जलानि च काञ्चिके ॥ ३९ ॥

काजीके नाम ७ आरनालक १

सौवीर २ कुलमाषामिपुत ३ अवन्तिसोम ४

धान्याम्ल ५ कुञ्जल ६ काञ्चिक ७ ॥ ३९ ॥

सहस्रवेधि जतुकं वाह्लीकं हिगु
रामठम् ॥

हीगके नाम ५ ॥ सहस्रवेधि १ जतुक

२ वाह्लीक ३ हिगु ४ रामठ ५ ॥

तत्पत्री कारवी पृथ्वी वाष्पिका
कवरी पृथुः ॥ ४० ॥

हीगके वृक्षके पत्तेके नाम ५ ॥

कारवी १ पृथ्वी २ वाष्पिका ३ कवरी
४ पृथु ५ ॥ ४० ॥

निशाख्या काञ्चनी पीला

हरिद्रा वरवर्णिनी ॥

हलदीके नाम ५ ॥ निशा १ काचनी
२ पीता ३ हरिद्रा ४ वरवर्णिनी ५ ॥

सामुद्रं यत्तु लवणमक्षीवं
वशिरं च तत् ॥ ४१ ॥

समुद्रझागके नाम २ अक्षीव १
वशिर २ ॥ ४१ ॥

सैन्धवोऽस्त्री शीतशिवं माणि-
मन्थञ्च सिन्धुजे ॥

सैन्धेके नाम ४ ॥ सैन्धव १ शीतशिव
२ माणिमन्थ ३ सिन्धुज ४ ॥

रौमकं वसुकं-

सामरके नाम २ ॥ रौमक १ वसुक २ ॥

-पाक्यं विडं च कृतके द्वयम् ४२
खारीके नाम २ ॥ पाक्य १ विड २ ॥ ४२

सौवर्चलेऽक्षरुचके-

सचलखारके नाम ३ ॥ सौवर्चल १
अक्ष २ रुचक ३ ॥

-तिलकं तत्र मेचके ॥

काले सचलखारके नाम २ ॥ तिलक १
मेचक २ ॥

मत्स्यण्डी फाणितं खण्डवि-
कारे-

घट कुटनिपा-

बोडेके नाम ४ ॥ कलश १ ॥

॥ ३१ ॥ घट २ कुट ३ निप ४ ॥

-बस्त्री शरावो वर्धमानक ॥

सरयेके नाम २ ॥ शराव १ वर्ध

मानक २ ॥

श्रुजीपं पिष्टपचन-

तयके नाम २ ॥ श्रुजीप १ पिष्ट

पचन २ ॥

-कंसोऽश्ली पानभामनम् ॥ ३२ ॥

कटोरीके नाम २ ॥ कंस १ पान

भजन २ ॥ ३२ ॥

कुतूः कृत्वे ओहपात्र-

कुम्बिका नाम १ ॥ कुतू १ ॥

-सैवाल्पा कुतुप पुमान् ॥

कुम्बिका नाम १ ॥ कुतुप १ ॥

सबंभाबपन भाण्ड पात्रामत्र

च भाजनम् ॥ ३३ ॥

घरतनरु नाम १ ॥ आपन्न १

माण्ड २ पात्र ३ अमत्र ४ भाजन ५ ॥ ३३ ॥

दार्ढ्यं कम्बिः खजाका च-

कड्डुलीके नाम ३ ॥ दार्ढ्यं १ कम्बि २

खजाका ३ ॥

स्यात्सर्वदादिहस्तकः ॥

ओईके नाम २ ॥ तर्दू १ दाहस्तक २ ॥

अस्त्री शाक इरितक शिशु-

शाकके नाम ३ ॥ शाक १ इरि
तक २ शिशु ३ ॥

-रस्य तु नाडिका ॥ ३४ ॥

कलम्बश्च कडम्बश्च-

शाककी डडीके नाम ३ ॥ नाडिका

१ ॥ ३४ ॥ कलम्ब २ कडम्ब ३ ॥

-वेसवार उपस्कर ॥

मसालके नाम २ ॥ वेसवार १

उपस्कर २ ॥

तिन्तिडीक च सुक च घृष्ण-

म्ल-

घूस (अमचूरआदि) के नाम ३ ॥

तिन्तिडीक १ सुक २ घृष्णम्ल ३ ॥

-मय वेङ्गजम् ॥ ३५ ॥

मरीच कोलक कृष्णमूषण

वर्मपत्तनम् ॥

मिर्चेके नाम ६ ॥ बट्टम १ ॥ ३५ ॥

मरीच २ कोलक ३ कृष्ण ४ ऊषण ५

घर्मपत्तन ६ ॥

जीरको अरणोऽभाजी कणा-

जीरेके नाम ४ ॥ जीरक १ अण

२ अभाजी ३ कणा ४ ॥

-कृष्णे तु जीरके ॥ ३६ ॥

सुपनी कारवी पृथ्वी पृथुः

कालोपकृषिका ॥

कालजीरके नाम १ ॥ ३६ ॥ सुपनी १

कारवी २ पृथ्वी ३ पृथु ४ काला ५
उपकुञ्चिका ६ ॥

आर्द्रक शृङ्गवेरं स्या-

अदरखके नाम २ ॥ आर्द्रक १ शृङ्गवेर २ ॥

-दथ च्छत्रा वितुन्नकम् ॥ ३७ ॥

कुस्तुम्बुरु च धान्याक-

धनियेके नाम ४ ॥ छत्रा १ वितुन्नक २

॥ ३७ ॥ कुस्तुम्बुरु ३ धान्याक ४ ॥

-मथ शुण्ठी महौषधम् ॥

स्त्रीनपुंसकयोर्विश्वं नागरं विश्वभे-
षजम् ॥ ३८ ॥

सौंठके नाम ५ ॥ शुण्ठी १ महौषध

२ विश्व ३ नागर ४ विश्वभेषज ५ ॥ ३८ ॥

आरनालकसौवीरकुलमापाभि-

पुतानि च ॥ अवन्तिसोमधान्या-

म्लञ्जलानि च काञ्जिके ॥ ३९ ॥

काञ्जिके नाम ७ आरनालक १

सौवीर २ कुलमापाभिपुत ३ अवन्तिसोम ४

धान्याम्ल ५ कुञ्जल ६ काञ्जिक ७ ॥ ३९ ॥

सहस्रवेधि जतुकं बाह्लीकं हिगु

रामठम् ॥

ह्रीगके नाम ५ ॥ सहस्रवेधिन् १ जतुक

२ बाह्लोक ३ हिगु ४ रामठ ५ ॥

तत्पत्री कारवी पृथ्वी वाष्पिका

कवरी पृथुः ॥ ४० ॥

ह्रीगके वृक्षके पत्तेके नाम ५ ॥

कारवी १ पृथ्वी २ वाष्पिका ३ कवरी

४ पृथु ५ ॥ ४० ॥

निशाख्या काञ्चनी पीता

हरिद्रा वरवर्णिनी ॥

हलदीके नाम ५ ॥ निशा १ काञ्चनी

२ पीता ३ हरिद्रा ४ वरवर्णिनी ५ ॥

सामुद्रं यत्तु लवणमक्षीवं

वशिरं च तत् ॥ ४१ ॥

समुद्रभागके नाम २ अक्षीव १

वशिर २ ॥ ४१ ॥

सैन्धवोऽस्त्री शीतशिवं माणि-

मन्थञ्च सिन्धुजे ॥

सैन्धेके नाम ४ ॥ सैन्धव १ शीतशिव

२ माणिमन्थ ३ सिन्धुज ४ ॥

रौमकं वसुकं-

सामरके नाम २ ॥ रौमक १ वसुक २ ॥

-पाक्यं विडं च कृतके द्वयम् ४२

खारीके नाम २ ॥ पाक्य १ विड २ ॥ ४२

सौवर्चलेऽक्षरुचके-

सचलखारके नाम ३ ॥ सौवर्चल १

अक्ष २ रुचक ३ ॥

-तिलकं तत्र मेचके ॥

काले सचलखारके नाम २ ॥ तिलक १

मेचक २ ॥

मत्स्यण्डी फाणितं खण्डवि-

कारे-

रत्नके नाम २ ॥ मात्स्यडी १
फाणित २ ॥

-शर्करा सिता ॥ ४३ ॥

मिश्राके नाम २ ॥ शर्करा १
सिता २ ॥ ४३ ॥

कूर्चिका क्षाणविकृति स्या-

माषके नाम ३ ॥ कूर्चिका १ क्षीर
विकृति २ ॥

-द्रसाळा तु मार्जिता ॥

धीक्ष्ण्डके नाम २ रसाळा १
मार्जिता २ ॥

स्यासेमनं तु निष्ठान-

कर्दाके नाम २ ॥ तेमन १ निष्ठान २ ॥

-त्रिलिङ्गावासिताश्वे ॥ ४४ ॥

मापा-वास्त्रिपर्मन्त शब्द तीनों
लिङ्गोंमें होतेहैं ॥ ४४ ॥

शूलाकृतं मटिर्त्रं च शूल्य-

छोहशळाकासे पकायेहूए मात्स्यनाम
३ ॥ शूलाकृत १ मटिर्त्र २ शूल्य ३ ॥

-मुल्मं तु पेटनम् ॥

यटछोईमें पकाये हूए अन्नादिके नाम
२ ॥ उर्य १ पेटन २ ॥

प्रणीतमुपसंपन्न-

पफीहूई रसाईके नाम २ ॥ प्रणीत १
उपसम्पन्न २ ॥

-प्रयस्त स्यात्सुमस्कृतम् ॥ ४५ ॥

घृततेलादिसे घनीहूई रसाईके नाम २
प्रयस्त १ सुसंस्कृत २ ॥ ४५ ॥

स्या स्पिच्छल तु विमिल-

पर्नलि मोचनके नाम २ ॥ पिच्छल १
विमिल २ ॥

-सम्पृष्ट शोधित समे ॥

धीन हूए अमर्कके नाम २ ॥ सम्पृष्ट १
शोधित २ ॥

चिक्वण मसृण लिग्घ-

चिकनके नाम ३ ॥ चिक्वण १
मसृण २ लिग्घ ३ ॥

-तुल्ये भावितवासिते ॥ ४६ ॥

छोकीहूई वस्तुके नाम २ ॥ भावित १
वासित २ ॥ ४६ ॥

व्यापकं वीलिरभ्यूपो-

घृत आदिमें मूनीहूई वस्तुके नाम ३ ॥
व्यापक १ वीलि २ अभ्यूप ३ ॥

-छाजाः पुंमूत्रि चासता ॥

सीलोंका नाम १ ॥ छाज १ ॥
पृथुकः स्यात्पिटको-

परगळके नाम २ ॥ पृथुक १ पिति-
टक २ ॥

-घाना भृष्टयवे स्त्रिया ॥ ४७ ॥

मुनेहूए जीके नाम २ ॥ घाना १
भृष्टयव २ ॥ ४७ ॥

पूपोऽपूपं पिटकं स्या-

पुण्डनाम ३ ॥ अपूप १ अद्वर २ पिटक ३ ॥

त्कारम्भो दधिसक्तवः ॥

दधियुक्त सत्तुओंके नाम २ ॥

करम्म १ दधिसक्तु २ ॥

भिस्सा स्त्री भक्तमन्धोऽन्नमो

दनोऽस्त्री सदीदिविः ॥ ४८ ॥

भातके नाम ६ ॥ भिस्सा १ भक्त

२ अन्धस् ३ अन्न ४ ओदन ५

दीदिवि ६ ॥ ४८ ॥

भिस्सटा दग्धिक्थ-

जलके अन्नके नाम २ ॥ भिस्सटा

दग्धिका २ ॥

-सर्वरसाग्रे मण्डमस्त्रियाम् ॥

माडका नाम १ ॥ मण्ड १ ॥

मासराचामानिस्त्रवा मण्डे भ-

क्तसमुद्भवे ॥ ४९ ॥

केवल भातके माडके नाम ३ ॥ मासर

१ आचाम २ निस्त्राव ३ ॥ ४९ ॥

यवागूरुष्णिगा श्राणा विलेपी

तरला च सा ॥

पतले भातके नाम ५ ॥ यवागू १

उष्णिगा २ श्राणा ३ विलेपी ४ तरला ५ ॥

गव्यं त्रिषु गवां सर्व-

गायसे उत्पन्न वस्तुका भाग १ ॥ गव्य १ ॥

-गोविद् गोययमस्त्रियाम् ५० ॥

गौके गोबरके नाम २ ॥ गोविश्

१ गोमय २ ॥ ५०

तत्तु शुष्कं करीपोऽस्त्री-

सूखे हुए गोवरका नाम १ ॥ करीष १ ॥

-दुग्धं क्षीरं पयः समम् ॥

दूधके नाम ३ ॥ दुग्ध १ क्षीर २ पयस ३ ॥

पयस्यमाज्यदध्यादि-

घृत दही आदिका नाम १ ॥ पयस्य १ ॥

-द्रप्सं दधि घनेतरत् ॥ ५१ ॥

पतले दहीका नाम १ ॥ द्रप्स १ ॥ ५१ ॥

घृतमाज्यं हविः सर्पि-

वीके नाम ४ ॥ घृत १ आज्य २

हविष् ३ सर्पिष् ४ ॥

-नवनीतं नवोद्धृतम् ॥

मक्खनके नाम २ ॥ नवनीत १

नवोद्धृत ॥

तत्तु हैयङ्गवीनं यद्दयोगोदोहो-

द्भवं घृतम् ॥ ५२ ॥

नीनीधीका नाम १ ॥ हैयङ्गवीन १ ॥ ५२ ॥

दण्डाहतं कालशेयमरिष्टमपि

गोरसः ॥

मडेके नाम ४ ॥ दण्डाहत १

कालशेय २ अरिष्ट ३ गोरस ४ ॥

तक्रं ह्युदश्विन्मथितं पादाम्ब-

धाम्बु निर्जलम् ॥ ५३ ॥

मडेके भेद ३ ॥ तक्र १ उदश्वित

२ मथित ३ ॥ ५३ ॥

मण्डं दधिभवं मस्तु-

रामके नाम २ ॥ मास्यङ्गी १
पाणित २ ॥

—शकरा सिता ॥ ४३ ॥

मिथ्रीके नाम २ ॥ शर्कता १
सिता २ ॥ ४३ ॥

कूर्षिका क्षारविकृति* स्या-
माषके नाम ३ ॥ कूर्षिका १ क्षीर
विहति २ ॥

—द्रसाळा तु मार्जिता ॥

धीक्ष्ण्यके नाम २ रसाळा १
मार्जिता २ ॥

स्यात्तेमर्नं तु निष्ठान-

कर्वीके नाम २ ॥ तमर्न १ निष्ठान २ ॥
—त्रिलिङ्गनावासितावधे* ॥ ४४ ॥

मापा—वाहितपम्पस्त शब्द तीनों
टिगोमें होतहे ॥ ४४ ॥

शूलाकृत भटिभ्रं च शूल्य-

छोहशळाकासे फकाय हुए मांसकनाम
३ ॥ शूलाकृत १ भटिन २ शूल्य ३ ॥

—मुख्यं तु पेटरम् ॥

पेटछोईमें फकाय हुए अन्नादिक नाम
२ ॥ टण्य १ पेट २ ॥

प्रणीतमुपसंपन्न-

पत्नीहृद रम्पके नाम २ ॥ प्रणीत १
उपसम्पन्न २ ॥

—प्रयस्त स्यात्पुससृष्टम् ॥ ४७ ॥

घृततैलादिसे बनी हुई रसोईके नाम २
प्रयस्त १ पुससृष्ट २ ॥ ४७ ॥

स्यात्पिच्छल तु विजिलं-
पर्नाले भोजनके नाम २ ॥ पिच्छल १
विजिल २ ॥

—समृष्ट शोषित समे ॥
बीने हुए अन्नके नाम २ ॥ समृष्ट १
शोषित २ ॥

धिकण मसृण स्निग्धं-
धिकणके नाम ३ ॥ धिकण १
मसृण २ स्निग्ध ३ ॥

—मुख्ये भावितवासिते ॥ ४६ ॥
छोईकी हुई वस्तुके नाम २ ॥ भावित १
वासित २ ॥ ४६ ॥

आपकं पौलिन्भ्यूपो-
घृत आदिमें भूनी हुई वस्तुके नाम ३ ॥
आपक १ पौलि २ अन्भ्यूप ३ ॥

—लाजाः पुंभृन्नि चाक्षता ॥
खीछोका नाम १ ॥ लाज १ ॥

पृथुकः स्यात्पिपिटको-
परमठके नाम २ ॥ पृथुक १ पिपि-
टक २ ॥

—धाना भृष्टपवे स्त्रियः ॥ ४७ ॥
मुने हुए जोक नाम २ ॥ धाना १ ॥
भृष्टप २ ॥ ४७ ॥

पृषोऽपृष* पिटक* स्या-
पृषके नाम ३ ॥ पृष १ अरू २ पिटक ३ ॥

गया हो उस स्थानका नाम १ ॥ आ-

शितगवीन १ ॥

उक्षा भद्रो वलीवर्द ऋषभो
वृषभो वृषः ॥९९ ॥ अनड्वान्सौ
रभेयो गौ-

वैलके नाम ९॥ उक्षन् १ भद्र २
वलीवर्द ३ ऋषभ ४ वृषभ ५ वृष ६ ॥९९ ॥
अनडुह् ७ सौरभेय ८ गो ९ ॥

रुक्षणां संहतिरौक्षकम् ॥

वैलोके समूहका नाम १ ॥ औक्षक १ ॥

गव्या गोत्रा गवाम्-

गार्योके समूहके नाम २ ॥ गव्या १
गोत्रा २ ॥

-वत्सधेन्वोर्वात्सकधैनुके ॥६० ॥

वछडोंके समूहका नाम १ ॥ वात्सक
१ धेनुओंके समूहका नाम १ ॥ धे-
नुक १ ॥ ६० ॥

वृषो महान्महोक्षः स्या-

वडे वैचके नाम १ ॥ महोक्ष ॥

-वृद्धाक्षस्तु जरद्रवः ॥

वृद्धे वैलका नाम २ ॥ वृद्धोक्ष १

जरद्रव २ ॥

उत्पन्न उक्षा जातोक्षः-

जवान वैलका नाम १ ॥ जातोक्ष १

-सद्याजातस्तु तर्णकः ॥ ६१ ॥

छोटे बछरेका नाम १ ॥ तर्णक १ ॥ ६१ ॥

शकृत्कारिस्तु वत्सः स्या-

वछडेमात्रके नाम २ ॥ शकृत्कारि १

वत्स २ ॥

-दम्यवत्सतरौ समौ ॥

थोडे जवान वछडेके नाम २ ॥

दम्य १ वत्सतर २ ॥

आर्षभ्यः पण्डतायोग्यः-

बधिया करने लायकका नाम १ ॥

आर्षभ्य १ ॥

-पण्डो गोपतिरिद्रचरः ॥ ६२ ॥

साढके नाम ३ ॥ पण्ड १ गोपति २
इद्रचर ३ ॥ ६२ ॥

स्कन्धदेशे त्वस्य वहः-

वैलके कन्धेका नाम १ ॥ वह १ ॥

साम्ना तु गलकम्बलः ॥

गैर्योंके गलेमें जो मास लटकता है
उस मासके नाम २ ॥ साम्ना १

गलकम्बल २ ॥

स्यान्नस्तितस्तु नस्योतः-

नाथवाले वैलके नाम २ ॥ नस्तित १
नस्योत २ ॥

-प्रष्ठवाद् युगपार्श्वगः ॥ ६३ ॥

जिससे गाडीमें जांतनेके अर्थ वैल
सघाये जायें उस काष्ठके नाम २ ॥

प्रष्ठवाद् १ युगपार्श्वग २ ॥ ६३ ॥

युगादीनां तु वोढारो युग्य-
प्रासङ्ग्यशाकटाः ॥

दहीके पानीका नाम १ ॥ मसू १ ॥	-केला मुक्तसमुज्जितम् ॥ ५६ ॥
-पीयूषोऽभिनव पयः ॥	मोचन करके त्यागी इ३ वस्तुका
सासका नाम १ ॥ पीयूष १ ॥	नाम १ ॥ केला १ ॥ ५६ ॥
अशनाया बुभुक्षा धु	काम प्रकारं पर्याप्तं निकामेष्ट
मूत्रक नाम १ ॥ अशनाया १	ययेप्सितम् ॥
धुम्ब्या २ धुम् ३ ॥	इच्छाके नाम १ ॥ काम १ प्रकार
-दमोसस्तु कवलं पुमान् ॥ ५४ ॥	पर्याप्त १ निकाम ४ इष्ट ५ ययेप्सित ६ ॥
प्रासके नाम २ ॥ प्रास १	गोपे गोपालगोसंख्यगोपुगा
कवल २ ॥ ५४ ॥	भीरवहृषा ॥ ५७ ॥
सपीति स्त्री तुल्यपान-	अहीरक नाम ६ ॥ गोप १ गोपा
सायपीनेके नाम २ ॥ सपीति १	२ गोसख्य ३ गोदुह ४ आभीर ५
तुल्यपान २ ॥	बहुष ६ ॥ ५७ ॥
-सग्धिं स्त्री सहभोजनम् ॥	गोमहिष्यादिक पादबन्धन-
एकसायभोजन करनेके नाम २ ॥	घरमें बांधने वायक गाय भैंस
सग्धि १ सहभोजन २ ॥	आदिना नाम १ ॥ पादबन्धन १ ॥
उदन्या तु पिपासा कृत् सर्पो-	-द्वी गवीश्वरे ॥ गोमान्गोमा-
प्रासक नाम ४ ॥ उदस्या १	गायकनाडिकके नाम १ ॥ गवीश्वर
पिपासा २ कृत् ३ सर्प ४ ॥	१ गोमत् २ गोमिन् ३ ॥
-जग्धिस्तु भोजनम् ॥ ५५ ॥	-गोकुलं तु गाघन स्याद्गवां
भोजन लेह आहारो निघसो न्याद्	प्रजे ॥ ५८ ॥
इत्यपि ॥	गावोके समूहक नाम २ ॥ गोउत्त
भोजनके नाम ३ ॥ जग्धि १ भोजन	१ गोघन २ ॥ ५८ ॥
२ ॥ ५५ ॥ जग्धि ३ एह ४ आहार	शिव्याशितं गवीनि कृतावो य
५ निघस ६ न्यात् ७ ॥	शशिकां पुरा ॥
गौदित्य तपण कृति -	जदागवां भागिनो पठित्ति रिजपा
गुमिने नाम ३ ॥ गौदित्य १ तपण २ कृति ३ ॥	

गया हो उस स्थानका नाम १ ॥ आ-
शितगवीन १ ॥

उक्षा भद्रो वलीवर्द ऋषभो
वृषभो वृषः ॥९९ ॥ अनड्वान्सौ
रभेयो गौ-

वैलके नाम ९ ॥ उक्षन् १ भद्र २
वलीवर्द ३ ऋषभ ४ वृषभ ५ वृष ६ ॥९९ ॥
अनडुह ७ सौरभेय ८ गो ९ ॥

रुक्षणां संहतिरौक्षकम् ॥

वैलके समूहका नाम १ ॥ औक्षक १ ॥

गव्या गोत्रा गवाम्-

गार्योके समूहके नाम २ ॥ गव्या १

गोत्रा २ ॥

-वत्सधेन्वोर्वात्सकधैनुके ॥६० ॥

वछडोंके समूहका नाम १ ॥ वात्सक
१ धेनुओंके समूहका नाम १ ॥ धे-
नुक १ ॥ ६० ॥

वृषो महान्महोक्षः स्या-

वडे वैरके नाम १ ॥ महोक्ष ॥

-वृद्धाक्षस्तु जरद्रवः ॥

वृढे वैलका नाम १ ॥ २ ॥ वृद्धोक्ष १

जरद्रव २ ॥

उत्पन्न उक्षा जातोक्षः-

जवान वैलका नाम १ ॥ जातोक्ष १

-सद्याजातस्तु तर्णकः ॥ ६१ ॥

छोटे बछरेका नाम १ ॥ तर्णक १ ॥ ६१ ॥

शकृत्कारिस्तु वत्सः स्या-

बछडेमात्रके नाम २ ॥ शकृत्कारि १

वत्स २ ॥

-दम्यवत्सतरौ समौ ॥

थोडे जवान बछडेके नाम २ ॥

दम्य १ वत्सतर २ ॥

आर्षभ्यः षण्डतायोग्यः-

बधिया करने लायकका नाम १ ॥

आर्षभ्य १ ॥

-षण्डो गोपतिरिट्चरः ॥ ६२ ॥

साढके नाम ३ ॥ षण्ड १ गोपति २

इट्चर ३ ॥ ६२ ॥

स्कन्धदेशे त्वस्य वहः-

वैलके कन्धेका नाम १ ॥ वह १ ॥

सास्त्रा तु गलकम्बल ॥

गैयोंके गलेमें जो मास लटकता है

उस मासके नाम २ ॥ सास्त्रा १

गलकम्बल २ ॥

स्यान्नस्तितस्तु नस्योतः-

नाथवाले वैलके नाम २ ॥ नस्तित १

नस्योत २ ॥

-प्रष्टवाड युगपार्श्वगः ॥ ६३ ॥

जिससे गाडीमें जातनेके अर्थ वैल

सघाये जाय उस काष्ठके नाम ॥ २ ॥

प्रष्टवाड १ युगपार्श्वग २ ॥ ६३ ॥

युगादीनां तु वोढारो युग्य-

प्रासङ्गचशाकटाः ॥

शुभके उठानेवालेका नाम १ ॥

युग्य १ ॥ जोडके उठानेवालेका नाम १ ॥

प्रासङ्ग्य १ ॥ अर्थके उठानेवाले केळका नाम १ ॥ शाकट १ ॥

स्वनति तेन सद्योढाऽस्येर्द
हालिकसैरिकौ ॥ ६४ ॥

हम्मं चळनेवाळेके नाम २ ॥ हालिक
१ सैरिक २ ॥ ६४ ॥

पूर्वहे धुयधौरेयधुरीणा'
सधुरधरा' ॥

बोझा डोनेवाळ बेलक नाम १ ॥
धूर्वह १ धुर्म्य २ धौरेय ३ धुरीण ४
धुरन्धर ५ ॥

उमावेकधुरीणैकधुरावेकधु
रावहे ॥ ६५ ॥

एक बाळके डोनेवाळेके नाम ३ ॥ एक-
धुरीण १ एकधुर २ एकधुरावह ३ ॥ ६५ ॥

स तु सर्वधुरीण' स्याद्यो वै
सर्वधुरावह' ॥

जो सत्र बोझा छे चळे उसके नाम
२ ॥ सर्वधुरीण १ सर्वधुरावह २ ॥

माहेयी सौरभेयी गौरुझा
माता च शृगिणी ॥ ६६ ॥

अमुन्यळ्या रोहिणी स्यात्-

गायक नाम ० ॥ माहयी १ सौर
भयी २ गो ३ रमा ४ मातृ ५ शृगिणी

१ ॥ ६६ ॥ अर्जुनी ७ अर्घ्या ८
रोहिणी ९ ॥

-कुचमा गोषु नैचिकी ॥
अष्टीगायका नाम १ ॥ नैचिकी १ ॥
वर्णोदिभेदात्सज्ञा' स्युः श्व
खीघषलादयः ॥ ६७ ॥

वित-रुवरीका नाम १ ॥ श्वखी १ ॥
सनेदका नाम १ ॥ घक्का १ ॥ ६७ ॥

दिहायनी द्विर्षा गौ-
दो बर्षकी गायक नाम २ ॥ दिहा
यनी १ द्विर्षा २ ॥

-रेकाब्दा स्वेकहायनी ॥
एकवर्षकीक नाम २ ॥ एकब्दा १
एकहायनी २ ॥

चतुरब्दा चतुर्हाय-
चार वर्षके नाम २ ॥ चतुरब्दा १
चतुर्हायणी २ ॥

-ष्येर्व ष्यब्दा त्रिहायणी ॥ ६८ ॥
तीन वर्षके नाम २ ॥ ष्यब्दा १
त्रिहायणी २ ॥ ६८ ॥

वशा वन्द्या-
बासके नाम २ ॥ वशा १ वन्द्या २

-ऽवतोका तु श्वद्वभा-
त्रिसहा अफम्मात् गर्भ गिरगया
हा उस गावक नाम ० ॥ अतरता १
मद्वभा २ ॥

-थे सन्धिनी ॥

आक्रान्ता वृषभेणा-

बैलके साथ लगाई हुई गायका नाम

१॥ संधिनी १ ॥

-थ वेहद्रभोपघातिनी ॥६९॥

बैलके सयोगसे गर्भको गिरा देने-
वाली गायके नाम २ ॥ वेहत् १ गर्भो-
पघातिनी २ ॥ ६९ ॥

काल्योपसर्या प्रजने-

जिसको गर्भ धारण करनेका समय
हो उसका नाम १ ॥ उपसर्या १ ॥

-प्रष्टौही बालगर्भिणी ॥

पहलौनका नाम १ ॥ प्रष्टौही १॥

स्यादचण्डी तु सुकरा-

सूधी गौके नाम २ ॥ अचण्डी १
सुकरा २ ॥

-बहुसूतिः परेष्टुकाः ॥ ७० ॥

बहुत दफे व्याई हुईके नाम २ ॥

बहुसूति १ परेष्टुका २ ॥ ७० ॥

चिरप्रसूता वष्कयिणी-

बक्रेन (बहुतदिनोंमें व्यानेवाली)
गायके नाम २ ॥ चिरप्रसूता १ वष्क-
यिणी २ ॥

-धेनुः स्यान्नवसूतिका ॥

नई व्याई हुईके नाम २ ॥ धेनु १
नवसूतिका ॥

सुव्रता सुखसन्दोह्या-

जो सरलतासे दुहोंजाय उस गायके

नाम २ ॥ सुव्रता १ सुखसदोह्या २॥

-पीनोघ्री पीवरस्तनी ॥७१॥

बड़े अयनवालीके नाम २॥ पीनोघ्री

१ पीवरस्तनी २ ॥ ७१ ॥

द्रोणक्षीरा द्रोणदुग्धा-

द्रोण १ २॥ सेरदूध देनेवालीके नाम

२॥ द्रोणक्षीरा १ द्रोणदुग्धा २ ॥

-धेनुष्या बन्धके स्थिता ॥

गिरवी रखी हुईका नाम १ ॥

धेनुष्या १ ॥

समांसमीना सा यैव प्रतिवर्ष

प्रसूयते ॥ ७२ ॥

प्रतिवर्ष व्यानेवाली गौका नाम १॥

समासमीना १ ॥ ७२॥

ऊधस्तु क्लीवमापान-

अयन (औहडी) के नाम २॥ ऊधस्

१ आपान २ ॥

--समौ शिवककीलकौ ॥

खूटके नाम २॥ शिवक १ कीलक २॥

न पुंसि दाम सन्दानं-

दुहनेके समय पाषवाधनेकी रस्तीके

नाम २ ॥ दामन् १ सदान २ ॥

पशुरज्जुस्तु दामनी ॥७३॥

पशु बाधनेकी रस्तीके नाम २॥ पशु-

रज्जु १ दामनी २ ७३ ॥

वैशाखमन्यमन्यामन्यानो
मन्यदण्डके ॥

मयनेका ददा अर्थात् रईके नाम १ ॥

वैशाख १ मन्य २ मन्याम ३ मयिन्
४ मन्यदण्डके १ ॥

कुठरो दण्डविष्कम्भो-

जिसमें रई बांधी जाय उस फाष्टके

नाम २ ॥ कुठर १ ॥ दण्डविष्कम्भ २ ॥

मयनी गर्गरी समे ॥ ७४ ॥

मयनेके पात्रके नाम २ मयनी १

गर्गरी २ ॥ ७४ ॥

उष्ट्रे क्रमेल्कमयमहाङ्गाः-

उष्ट्रे नाम ४ ॥ उष्ट्र १ क्रमेल्कर

मय २ महांग ४ ॥

-करम' शिशु' ॥

उष्ट्रे बंधेके नाम २ ॥ करम १

शिशु २ ॥

करमा स्यु' शंखलका वार्षे

पादबन्धने ॥ ७२ ॥

बाटम पेरयध हूर बबका नाम १ ॥

गृहस्थ १ ॥ ७५ ॥

अजा छागी-

अरुग' नाम २ ॥ अजा १ छागी २ ॥

गृहस्थागपस्तच्छगलका अजे

रुग' नाम ॥ अजा १ छागी २

अजा ३

३

अजा ३ ॥

मेढोरभ्रोरणोर्णायुमेववृष्णय ए
डके ॥ ७६ ॥

मेढ्रेक नाम ७ ॥ मद् १ उरम २

उरण ३ ऊर्णायु ४ मय ५ वृष्णि ६

एडक ७ ॥ ७६ ॥

उष्ट्रोरभ्राजवृन्दे स्यादीष्टकौर
भ्रकाजकम् ॥

उष्ट्रेके समूहका नाम १ ॥ औष्ट्रक १ ॥

मेढ्रेके समूहका नाम १ ॥ भ्रैभ्रक

१ ॥ भ्रैभ्रै (वक्रुके) समूहका नाम १ ॥

भ्रानक १ ॥

चक्रावन्तस्तु घालेया रासमा
गदमा खराः ॥७७ ॥

गधेरु नाम ५ ॥ चक्रावत् १ रासम

२ रासम ३ गर्दम ४ खर ५ ॥७७ ॥

विदेहक' साधवाहो नैगमो वाणि

जो वाणिक ॥ पण्पाजीवो ह्याप

णिक क्रयविक्रयिकश्च स ॥७८ ॥

ध्यापारीक नाम ८ ॥ विदेहरु १ साध

वाह २ नैगम निगम ३ वाणिज ४

पणिक ५ ॥ पण्पाजीव ६ वाणिजिक ७

क्रयविक्रयिक ८ ॥ ७८ ॥

विमेता स्याद्विक्रयिकः-

वागेरा उक नाम २ ॥ विद्वृ १

विक्रयिक २ ॥

-क्रायिकक्रयिको समौ ॥

मोल लेनेवालेके नाम २ ॥ क्रायिक
१ क्रयिक २ ॥

वाणिज्यं तु वणिज्या स्या-
व्यापारके नाम २ ॥ वाणिज्य १
वणिज्या २ ॥

-न्मूल्यं वस्त्रोऽप्यवक्रयः ॥७९॥

मोलके नाम ३ ॥ मूल्य १ वस्त्र २
अवक्रय ३ ॥ ७९ ॥

नीवी परिपणो मूलधनं-

मूलधनके नाम ३ ॥ नीवी १ परि-
पण २ मूलधन ३ ॥

-लभोऽधिकं फलम् ॥

नफेके नाम ३ ॥ लभ १ अधिक २ फल ३
परिदानं परीवर्तो नैमेयनिम-
यावपि ॥ ८० ॥

अदले बदलेके नाम ४ ॥ परिदान १
परीवर्त २ नैमेय ३ निमय ४ ॥ ८० ॥

पुमानुपनिधिर्न्यासः-

धरोहरके नाम २ ॥ उपनिधि १ न्यास २ ॥

-प्रतिदानं तदर्पणम् ॥

धरोहर लौटा देनेके नाम २ ॥ प्रति-
दान १ तदर्पण २ ॥

क्रये प्रसारितं क्रयं-

बेचनेके अर्थ दुकानमें रक्खी हुई
वस्तुका नाम १ ॥ क्रय १ ॥

क्रयं क्रेतव्यमात्रके ॥ ८१ ॥

दुकानपर रखने योग्य वस्तुका नाम
१ ॥ क्रय १ ॥ ८१ ॥

विक्रेयं पणितव्यं च पण्यं-

बेचनेयोग्य वस्तुके नाम ३ ॥ विक्रेय
१ पणितव्य २ पण्य ३ ॥

-क्रय्यादयस्त्रिषु ॥

भाषा-क्रय आदि शब्द तीनो
लिंगोंमें होते हैं ॥

कृत्रि सत्यापनं सत्यङ्कारः स-
त्याकृतिः स्त्रियाम् ॥ ८२ ॥

साई अर्थात् बयानेके नाम ३ ॥ सत्या-
पन १ सत्यङ्कार २ सत्याकृति ३ ॥ ८२ ॥

विपणो विक्रयः-

बेचनेके नाम २ ॥ विपण १ विक्रय २ ॥

-संख्याः संख्येये ह्यादश त्रिषु ॥

एकसे अष्टादश पर्यंत संख्या गिनने
योग्य वस्तुमें रहती है और वह संख्याशब्द
संख्येय शब्दवत् तीनो लिंगोंमें होते हैं ॥

विंशत्याद्याः सदैकत्वे सर्वाः

संख्येयसंख्ययोः ॥ ८३ ॥

विंशति (बीस) आदि सपूर्ण संख्या
(गिनती) और संख्येय अर्थात् गिनने-
योग्य वस्तुमें रहती है और विंशति आदि
शब्द सदा एकवचन होते हैं ॥ ८३ ॥

संख्यार्थं द्विवहुत्वे स्त-

कः क्ल िनती मर्षाशले विंशति आदि
शब्द शिष्यचन और बहुवचनमें होत है ॥

—स्वासु चानवते स्त्रिय ॥

विंशति आदि नवतिपर्यंत शब्द
स्त्रीलिंग होत है ॥

पके शतसहस्रादि क्रमाद्
शमुणोत्तरम् ॥ ८४ ॥

दश संख्याका क्रमसे उचरोत्तर दश
गुण शत सहस्र आदि संख्याएँ होती
हैं ॥ ८४ ॥

यौतवं तुवय पाठ्यमिति
मानार्थकं त्रयम् ॥

तोच्छके नाम ३ ॥ यौतव १ तुवय
२ पाठ्य ३ ॥

मानं तुलांशुलिप्रस्यै—

(तोळ तीन प्रकारकी है) तुलामान
१ अंगुलिमान २ प्रस्यमान ३ ॥

—गुंक्षाः पञ्चायमायक ॥ ८५ ॥

पाँच रत्तीका शाबरोक मापा
मासा होता है ॥ ८५ ॥

ते योद्धशासः कर्पोऽस्त्री—

सोद्धमासका एक अक्ष होता है
उसको ही कर्प कहते हैं ॥

—पलं कर्पचतुष्टयम् ॥

चार कर्पका एक पल होता है ॥

सुवणभिस्ती हेमोऽश्ले—

कपमर सुवर्णके नाम २ ॥ सुवर्ण १
भिस्त २ ॥

—कुशविस्वस्तु सत्पले ॥ ८६ ॥

पठमर सुवर्णका नाम १ ॥ कुश-
भिस्त १ ॥ ८६ ॥

तुला स्त्रियां पञ्चशत—

सौ पञ्जा नाम १ ॥ तुला १ ॥

—भार स्याद्विंशतिस्तुला ॥

धीस तुलाका नाम १ ॥ भार १ ॥

आचितो दश माराः स्युः—

दशमारका नाम १ ॥ आक्षित १ ॥

—क्षाकणो भार आचित ॥ ८७ ॥

शकटमर मारका नाम १ ॥ आक्षित
१ ॥ ८७ ॥

कापापणं कार्पिकं स्या—

चादीक ह्ययके नाम २ ॥ कार्पा-
पण १ कार्पिक २ ॥

—त्कार्पिके ताम्रिके पणः ॥

तामेका कर्पापण अर्थात् पैठैका
माम पण १ ॥

अस्त्रियामाढकद्रोणौ खारी

वाहो निकुञ्चकः ॥ ८८ ॥

कुडबं प्रस्य इत्याद्याः परि—

माणार्थकं पृथक् ॥

(चार सैरका नाम) भाटक १

(भाट आढकका नाम) द्रोण १ ॥

(तीन द्रोणका नाम) खारी १ ॥ (आठ द्रोणका नाम) बाह १ ॥ (मुट्टीभरका नाम) निकुचक १ ॥ ८८ ॥ (पावभरका नाम) कुडव १ ॥ (सेरभरका नाम) प्रस्य १ ॥ इत्यादि अलग २ तोलके नाम हैं ॥

पादस्तुरीयो भागः स्या-

चौथे भागका नाम १ ॥ पाद १ ॥

-दंशभागौ तु षण्टके ॥ ८९ ॥

बाट अर्थात् भागके नाम ३ ॥ अश १ भाग २ षटक ३ ॥ ८९ ॥

द्रव्यं वित्तं स्वापतेयं रिक्थमृक्थं धनं वसु ॥ हिरण्यं द्रविणं द्युम्नमर्थैरैविभवा अपि ॥ ९० ॥

धनके नाम १३ ॥ द्रव्य १ वित्त २ स्वापतेय ३ रिक्थ ४ ऋक्थ ५ धन ६ वसु ७ हिरण्य ८ द्रविण ९ द्युम्न १० अर्थ ११ रै १२ विभव १३ ॥ ९० ॥

स्यात्कोषश्च हिरण्यं च हेमरूप्ये कृताकृते ॥

गढे वा नहीं गढे हुए सोने वा चांदीके नाम २ ॥ हिरण्य १ कोष २ ॥

ताभ्यां यदन्यत्तत्कुप्यं-

सोने चांदीसे अन्य ताम्रादि धातुका नाम १ ॥ कुप्य १ ॥

-रूप्य तद्व्यमाहतम् ॥ ९१ ॥

ताव्रा और चांदीके मिलाये हुएका नाम १ ॥ रूप्य १ ॥ ९१ ॥

गारुत्मतं मरकतमश्मगर्भो हरिन्मणिः ॥

मरकतमणिके नाम ४ ॥ गारुत्मत १ मरकत २ अश्मगर्भ ३ हरिन्मणि ४ ॥

शोणरत्नं लोहितकः पद्मरागो-

पद्मरागमणिके नाम ३ ॥ शोणरत्न १ लोहितक २ पद्मराग ३ ॥

-ऽथ मौक्तिकम् ॥ ९२ ॥

मुक्ता-

मोतीके नाम २ ॥ मौक्तिक १ ॥ ९२ ॥ मुक्ता २ ॥

-ऽथ विद्रुमः पुंसि प्रवालं पुंनपुंसकम् ॥

मूंगेके नाम २ ॥ विद्रुम १ प्रवाल २ ॥

रत्नं मणिर्द्वयोरश्मजातौ मुक्तादिकेपि च ॥ ९३ ॥

पद्मराग आदि पापाण जाति और मुक्ताफल आदिके नाम २ ॥ रत्न १ मणि २ ॥ ९३ ॥

स्वर्णं सुवर्णं कनकं हिरण्यं हेमहाटकम् ॥ तपनीयं शातकुम्भं गांगेयं भर्म कर्षुरम् ॥ ९४ ॥ चामीकरं जातरूपं महारजतकाञ्चने ॥ रुक्मं कार्तरवरं जा-

मूनदमष्टापदोऽस्त्रियाम् ॥ ९५ ॥

सुवर्णक नाम १ २ ॥ स्वर्ण १ सुवर्ण २

कनक ३ हिरण्य ४ इमन् ५ हाटक ६ तप

नीय ७ शातकुम्भ ८ गागेय ९ मर्मन् १०

कर्तुर ११ ॥ ९४ ॥ चामीकर १२

जातरूप १३ महारजत १४ काचन १५

रुक्म १६ कार्धस्वर १७ जानूनद १८

भष्टापद १९ ॥ ९९ ॥

अलकारसुवर्ण यच्चहृद्गीकनक-
मित्यद् ॥

सुवर्णने गहनेका नाम १ ॥ अङ्गीकनक १ ॥

दुर्वर्ण रजस रूप्य खर्चुरं श्वेतमि

त्यपि ॥ ९६ ॥

घादीक नाम १ ॥ दुर्वर्ण १ रजत २

रूप्य ३ खर्चुर ४ रूप्य ५ ॥ ९६ ॥

रीति स्त्रियामारकूणे न स्त्रि

या-

पीतलके नाम २ ॥ रीति १ आरकूट २ ॥

-मरु ताम्रकम् ॥ शुल्ब म्ले

च्छमुखव्यष्टवरिष्टोदुम्बराणि

घ ॥ ९७ ॥

तावक नाम १ ॥ ताम्रक १ तुल्य २

उच्छमुख १ उच्छ २ वरिष्ट ३ उदुम्बर ४

॥ ९७ ॥

लोहोष्ठी शखकं सीष्ण

पिण्डं कात्यायनायत्री ॥

अशमगागे-

लोहके नाम ७ ॥ लोह १ शखकर

सीष्ण ३ पिण्ड ४ कात्यायन ५ मयत् ६

अस्मसार ७ ॥

-ऽथ मण्डूर सिंहाणमपि

तन्मले ॥ ९८ ॥

लोहके म्ल अर्थात् मण्डूरके नाम २ ॥

मण्डूर १ सिंहाण २ ॥ ९८ ॥

सर्व च तेजसं लोह-

घादी सोना लोहादि सर्ववातुभोका

नाम १ ॥ लोह १ ॥

-विकारस्तनयसं कुशी ॥

लोहके फाल्का नाम १ ॥ कुशी १ ॥

क्षारः काचो-

काचक नाम २ ॥ क्षार १ काच २ ॥

-ऽथ चपलो रसं सूक्ष्म

पारदे ॥ ९९ ॥

पारक नाम ४ ॥ चपल १ रस २

सूत ३ पारद ४ ॥ ९९ ॥

गवलं माहिप शृग-

मसेक सीगका नाम १ ॥ गण्ड १ ॥

-मन्त्रक गिरिजामल ॥

अनरसके नाम ३ ॥ मन्त्रक १ गिरिज २

अमउ ३ ॥

सोतोध्नं तु सौवीर कापा

साञ्जनयामुने ॥ १०० ॥

मुर्गाके नाम ३ ॥ सोतो १ सौवीर

रकापोतावन ३ यामुन ४ ॥ १० ॥

तुत्याञ्जनं शिखिप्रीव वितुन्न-
कमयूरके ॥

तूतिया (नीलायोथा) के नाम ४ ॥

तुत्याञ्जन १ शिखिप्रीव २ वितुन्नक ३
मयूरक ४ ॥

कर्परी दाविका काथोद्भवं तुत्थं-
तूतियाके भेद ३ ॥ कर्परी १ दाविका

२ तुत्थ ३ ॥

-रसाञ्जनम् ॥ १०१ ॥

रसगर्भं तार्क्ष्यशैलं-

रसोत्के नाम ३ ॥ रसाञ्जन १ ॥ १०१ ॥

रसगर्भ २ तार्क्ष्यशैल ३ ॥

-गन्धाश्मनि तु गान्धिक. ॥

सौगान्धिकश्च-

गन्धिकके नाम ३ ॥ गन्धाश्मन् १
गन्धिक २ सौगान्धिक ३ ॥

-चक्षुष्याकुलाल्यौ तु कुल-
त्थिका ॥ १०२ ॥

काले सुर्मेके नाम ३ ॥ चक्षुष्या १
कुलाली २ कुलत्थिका ३ ॥ १०२ ॥

रीतिपुष्पं पुष्पकेतु पौष्पकं

कुसुमाञ्जनम् ॥

पीतलको तपाके विसनेसे जो अजन
वने उसके नाम ४ ॥ रीतिपुष्प १ पुष्प
केतु २ पौष्पक ३ कुसुमाञ्जन ४ ॥

पिञ्जरं पतिनं तालमालं च-

-हरितालके ॥ १०३ ॥

हरितालके नाम ५ ॥ पिञ्जर १

पीतन २ ताल ३ आल ४ हरिता-
लक ५ ॥ १०३ ॥

गैरेयमथ्यं गिरिजमश्मजं च
शिलाजतु ॥

शिलाजीतके नाम ५ ॥ गैरेय १ अथ्य
२ गिरिज ३ अश्मज ४ शिलाजतु ५ ॥

बोलगन्धरसप्राणपिण्डगोप-
रसाः समाः १०४ ॥

गन्धरसके नाम ५ ॥ बोल १ गन्धरस
२ प्राण ३ पिण्ड ४ गोपरस ५ ॥ १०४ ॥

डिण्डीरोऽब्धिकफः फेनः-

समुद्रझागके नाम ३ ॥ डिंडीर १
अब्धिकफ २ फेन ३ ॥

-सिन्दूरं नागसंभवम् ॥

सिन्दूरके नाम २ ॥ सिदूर १ नाग
संभव २ ॥

नागसीसकयोगेष्टवप्राणि-

सीसेके नाम ४ ॥ नाग १ सीसक २
योगेष्ट ३ वप्र ४ ॥

-त्रपु पिच्चटम् ॥ १०५ ॥

रङ्गवङ्गे-

रागके नाम ४ ॥ त्रपु १ पिच्चट २
॥ १०५ ॥ रग ३ वग ४ ॥

-अथ पिचुस्तूलो-

रुईके नाम २ ॥ पिचु १ तूल २ ॥

-ऽथ कमलोत्तरम् ॥ स्यात्कुसु-
म्म षड्विंशतिव महारजनमि-
त्यापि ॥ १०६ ॥

कुसुम्भके नाम ४ कमलोत्तर १ कुसुम्भ

२ षड्विंशतिव ३ महारजन ४ ॥ १०६ ॥

मेपकम्बल ऊर्णायुः-

ऊनी कम्बलके नाम २ ॥ मेपकम्बल

१ ऊर्णायु ० ॥

-शशोर्ण अशलोमानि ॥

शरगोसकी ऊनके नाम २ ॥ शशोर्ण १

शशलोमान २ ॥

मधु शौद्र माक्षिकादि-

शहदक नाम २ ॥ मधु १ शौद्र २

माक्षिक ३ ॥

मधुच्छिष्ट तु सिन्धुकम् ॥ १०७ ॥

मोमके नाम २ ॥ मधुच्छिष्ट १ सिन्धुक

२ ॥ १ ० ॥

मनशिला मनोगुप्ता मनोहा

नागजिह्विका ॥ नैपाली कुन्ती

गोला-

मनशिलक नाम ७ ॥ मनशिला १

मनोगुप्ता २ मनोहा ३ नागजिह्विका

४ नैपाली ५ कुन्ती ६ गोला ७ ॥

-यवस्यारो यवाम्रजाः ॥ १०८ ॥

पाक्यो-

यथास्वारक नाम ३ ॥ यक्शार १

यवाम्रज २ ॥ १०८ ॥ पाक्य ३ ॥

-ऽथ सर्जिकाक्षारः कापोतः

मुखवचक ॥ सौवर्चल स्या-

द्वुचक-

सर्जिके नाम ५ ॥ सर्जिकाक्षार १ कापोत

२ मुखवचक ३ सौवर्चल ४ द्वुचक ५ ॥

-त्वक्क्षीरी वशरोचना ॥ १०९ ॥

यशलोचनक नाम २ ॥ त्वक्क्षीरी

१ वशरोचना २ ॥ १०९ ॥

शिम्रज श्वेतमरिच-

सफेदमिर्चके नाम २ ॥ शिम्रज १

श्वेतमरिच २ ॥

-मोरटं मूलमैश्वरम् ॥

ईलकी जडका नाम १ ॥ मोरट १ ॥

ग्रन्थिक पिप्पलीमूलं चटका

शिर इत्यपि ॥ ११० ॥

पीपलामूलके नाम ३ ॥ ग्रन्थिक १

पिप्पलीमूल २ चटकाशिरस ३ ॥ ११० ॥

गोलोमी भूतकेशो ना-

जटामांसीके नाम २ ॥ गोलोमी १

भूतकेश २ ॥

-पत्राङ्ग रक्तचन्दनम् ॥

पत्राङ्गके नाम २ ॥ पत्राङ्ग १

रक्तचन्दन २ ॥

त्रिकटु त्र्यूपणं ध्योषं-

सोठ पीपल मिर्च इन तीनोंके समूहके
नाम ३॥ त्रिकटु १ त्र्यूपण २ व्योष ३॥

-त्रिफला तु फलत्रिकम् ॥१११॥

आत्रला हरड - वहेढा इन तीनोंके
समूहके नाम २ ॥ त्रिफला १ फलत्रिक
२ ॥ १११ ॥

इति वैश्यवर्गः ॥ ९ ॥

अथ शूद्रवर्गः १०.

शूद्राश्चावरवर्णाश्च वृषलाश्च
जघन्यजाः ॥

शूद्रके नाम ४ ॥ शूद्र १ अवरवर्ण २
वृषल ३ जघन्यज ४ ॥

आचण्डालात्तु सङ्कीर्णा अम्बष्ठ
करणादयः ॥ १ ॥

(ब्राह्मणीमें शूद्रसे उत्पन्न हो उसका
नाम) चण्डाल १॥ चण्डालसे ले अम्बष्ठ
करण आदिकोंका नाम १॥सर्कीर्ण १॥१॥

शूद्राविशोस्तु करणो-

शूद्रामें वैश्यसे उत्पन्नहुएका नाम १॥
करण १ ॥

-ऽम्बष्ठो वैश्याद्विजन्मनोः ॥

वनैनीमें ब्राह्मणसे उत्पन्न हो तो
उसका नाम १ ॥ अम्बष्ठ १ ॥

शूद्राक्षत्रिययोरुयो-

शूद्रामें क्षत्रियसे उत्पन्नहुएका नाम
१ ॥ उग्र १ ॥

-मागधः क्षत्रियाविशोः ॥२॥

क्षत्रियाणीमें वैश्यसे उत्पन्नहुएका
नाम १ ॥ मागध १ ॥ २ ॥

माहिष्योर्याक्षत्रिययोः-

वनैनीमें क्षत्रियसे उत्पन्नहुएका
नाम १ ॥ माहिष्य १ ॥

-क्षत्ताऽर्याशूद्रयोः सुतः ॥

वनैनीमें शूद्रसे उत्पन्नहुएका नाम
१ ॥ क्षत्तृ १ ॥

ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्सूत-

ब्राह्मणीमें क्षत्रियसे उत्पन्न हुएका
नाम १ ॥ सूत १ ॥

-स्तस्यां वैदेहको विशः ॥ ३॥

ब्राह्मणीमें वैश्यसे उत्पन्नहुएका नाम
१ ॥ वैदेहक १ ॥ ३ ॥

रथकारस्तु महिष्यात्करण्यां
यस्य संभवः ॥

करणीमें माहिष्यसे उत्पन्न हुएका
नाम १ ॥ रथकार १ ॥

स्याच्चण्डालस्तु जनितो ब्राह्म-
ण्यां वृषलेन यः ॥ ४ ॥

ब्राह्मणीमें शूद्रसे उत्पन्न हुएका
नाम १ ॥ चण्डाल १ ॥ ४ ॥

कारुः शिल्पी-

कारीगरीके नाम २ ॥ कारु १
शिल्पिन् २ ॥

—सहस्रैस्त्वैर्द्वयोः श्रेणिं सजा
विभिः ॥

कारीगरोंके समूहका नाम १ ॥ श्रेणि १ ॥

कुलकं स्यात्कुलश्रेष्ठी—

कारीगरोंके अफसर अर्थात् मिस्त्र-
रोंके नाम २ ॥ कुलक १ कुलश्रेष्ठी २ ॥

—माळाकारस्तु मालिकं ॥ ५ ॥

माळीके नाम २ ॥ माळाकार १
मालिक २ ॥ ५ ॥

कुम्भकार कुलालं स्या—

कुम्भारके नाम २ ॥ कुम्भकार १
कुलाल २ ॥

—त्पलगण्डस्तु लेपकं ॥

कनगरक नाम २ ॥ पलगण्ड १
लेपक २ ॥

तन्तुवापं कुविन्दः स्या—

शुलाहके नाम २ ॥ तन्तुवाप १
कुविन्द २ ॥

—तुन्नवायस्तु सौधिकं ॥ ६ ॥

दरजीक नाम २ ॥ तुन्नवाय १
कुविन्द २ ॥ ६ ॥

रङ्गामीवश्चित्रकर—

चित्रकारके नाम २ ॥ रङ्गामी १
चित्रकर २ ॥

—शस्त्रमार्जोऽसिधावकं ॥

शिक्षिणीगरके नाम २ ॥ शस्त्रमार्ज
१ असिधावक २ ॥

पादुफुच्चर्मकार स्या—

घमारके नाम २ ॥ पादुफुच्चर्मकार २ ॥

—दधोकारो लोहकारकः ॥ ७ ॥

लोहारके नाम २ ॥ ७ ॥ लोहकारक २ ॥ ७ ॥

नाडिघमं स्वर्णकार कलादो

रुक्मकारकं ॥

सुनारके नाम ४ ॥ नाडिघम १
स्वर्णकार २ कलाद ३ रुक्मकारक ४ ॥

स्याच्छास्त्रस्विकं काम्यविक—

मन्त्रिकारके नाम २ ॥ शास्त्रिक १
काम्यविक २ ॥

—शौल्पिकस्ताम्रकुट्टकं ॥ ८ ॥

खेरेके नाम २ ॥ शौल्पिक १
ताम्रकुट्टक २ ॥ ८ ॥

तक्षा तु वर्षकिस्त्वष्टा रथका

रस्तु काष्ठतद ॥

कट्टके नाम ९ ॥ तक्षन् १ वर्षकि
२ त्वष्ट ३ रथकार ४ काष्ठतद ५ ॥

आमाधीनो आमतक्ष—

गौबके कट्टके नाम २ ॥ आमा
धीन १ आमतक्ष २ ॥

—कौटवसोऽनधीनकः ॥ ९ ॥

स्वतन्त्रकट्टिका नाम १ ॥ कौटवस
१ ॥ ९ ॥

धुरी मुण्डी दिवाकीर्तिनापि

तान्त्वानसायिनः ॥

नाईके नाम ५ ॥ क्षुरिन् १ मुडिन् २
दिवाकीर्ति ३ नापित ४ अन्तावसायिन् ५ ॥

निर्णेजकः स्याद्रजकः—

धोवीके नाम २ ॥ निर्णेजक १
रजक २ ॥

—शौण्डिको मण्डहारकः ॥ १० ॥
कलालके नाम २ ॥ शौण्डिक १
मण्डहारक २ ॥ १० ॥

जावालः स्यादजाजीवो—

गहारियेके नाम २ ॥ जावाल १
अजाजीव २ ॥

देवाजीवस्तु देवलः ॥

पण्डाके नाम २ ॥ देवाजीव १ ॥
देवल २ ॥

स्यान्माया शाम्बरी—

इन्द्रजालके नाम २ ॥ माया १
शावरी २ ॥

मायाकारस्तु प्रतिहारकः ॥ ११ ॥

इन्द्रजाली अर्थात् बार्जागरके नाम २
मायाकार १ प्रतिहारक २ ॥ ११ ॥

शैलालिनस्तु शैलूषा जाया
जीवाः कृशाश्विनः ॥ भरता इत्यपि
नटा—

नटके नाम ६ ॥ शैलालिन् १ शै-
लूप २ जायाजीव ३ कृशाश्विन् ४
भरत ५ नट ६ ॥

श्रारणास्तु कुशीलवाः ॥ १२ ॥

कत्थकके नाम २ ॥ चारण १ कुशी-
लव २ ॥ १२ ॥

मार्दङ्गिका मौरजिकाः—

मृदगके वजानेवालेके नाम २ ॥
मार्दङ्गिक १ मौरजिक २ ॥

—पाणिवादास्तु पाणिवाः ॥

ताली वजानेवालेके नाम २ ॥ पा-
णिवाद १ पाणिघ २ ॥

वेणुधमाः स्युर्वैणविका—

वांसुरी वजानेवालेके नाम ॥ २ ॥
वेणुधमा १ वैणविक २ ॥

वे —वीणावादास्तु वैणिकाः १३ ॥
वीणा वजानेवालेके नाम २ ॥ वीणा-

वाद १ वैणिक २ ॥ १३ ॥

जीवान्तकः शाकुनिको—

चिडीमारके नाम २ ॥ जीवान्तक
१ शाकुनिक २ ॥

—द्वौ वागुरिकजालिकौ ॥

व्याधके नाम २ ॥ वागुरिक १
जालिक २ ॥

वैतंसिकः कौटिकश्च मांसि-
कश्च समं त्रयम् ॥ १४ ॥

कसाईके नाम ३ ॥ वैतंसिक १
कौटिक २ मांसिक ३ ॥ १४ ॥

भृतको भृतिभुक्कर्मकरो वैत-
निकोऽपि सः ॥

मन्दूके नाम ४ ॥ मृतक १ मृतिमु
ञ् २ कर्मकर ३ भैतनिक ४ ॥

वार्ताघहो वैवाधिको-

दूतके नाम २ ॥ वार्ताबह १ वै-
धिक २ ॥

-भारवाइस्तु भारिका ॥ १५ ॥

घोषा उखनेवालेके नाम २ ॥

मारवाह १ मारिक २ ॥ १५ ॥

घिबर्ण पामरो नीच प्राकृ
पृषग्जन ॥ निहीनोऽ-

पसदो जाल्मः कुष्ठकश्चेतर
श्च मः ॥ १६ ॥

नीचके नाम १० ॥ भिबर्ण १ पामर २
नीच ३ प्राकृत ४ पृषग्जन ५ नि
हीन ६ अपसद ७ जाल्म ८ कुष्ठक ९
इतर १० ॥ १६ ॥

भृत्ये दासेरदासेयदासगो
प्यकचेटकाः ॥ निपोज्य

किंकरमैष्यमुञ्जिष्यपरिचारका १७

दास वा टहल्लुके नाम १ ॥ मृत्य १
दासेर २ दासेय ३ दास ४ गोप्यक ५
चेटक ६ निपोज्य ७ किंकर ८ मैष्य ९
मुञ्जिष्य १ परिचारक ११ ॥ १७ ॥

पराधितपरिस्कन्दपरमातपरै
यिता ॥

जो दूसरेसे पालाजाय उसके अयात्
रुग्णार्फे नाम ४ ॥ पराधित १ परिस्कन्द
२ परजात ३ परैधित ४ ॥

-मन्दस्तुन्दपरिमृज आलस्यः
शीतकोऽलसोऽनुष्ण ॥ १८ ॥

आलसीके नाम ६ ॥ मंद १ तुन्दप
रिमृज २ आलस्य ३ शीतक ४ अलस ५
अनुष्ण ६ ॥ १८ ॥

दक्षे तु चतुरपेशलपटव स
त्पान उष्णश्च ॥

चतुरके नाम ६ ॥ दक्ष १ चतुर २
पेशल ३ पटु ४ सत्पान ५ उष्ण ६ ॥

चण्डालद्वेषमातङ्गदिवाकीर्ति
जनंगमा ॥ १९ ॥ निषाद

श्वपसावन्तेवासिचाण्डालपुङ्गवा ॥

चाण्डालके नाम १० ॥ चण्डाल १
द्वेष २ मातङ्ग ३ दिवाकीर्ति ४ जनंगम
५ ॥ १९ ॥ निषाद ६ श्वपस ७ अन्त

वासिन् ८ चाण्डाल ९ पुङ्गव १० ॥

भेदाः किरातशयरपुलिन्दा म्ले
च्छजातय ॥ २० ॥

म्लेच्छजातिके भेद जगदी गोमांस
जानेवाळ हेनुदभादिके नाम ३ ॥ किरात
१ शबर २ पुन्दि ३ ॥ २० ॥

भ्याधा मृगवधामीवो मृग
युंष्टयकाऽपि स ॥

मृग पकडनेवालेके नाम ४ ॥ व्याध १
 मृगवधाजीव २ मृगयु ३ लुब्धक ४ ॥
 कौलेयकः सारमेयः कुक्कुरो
 मृगदशकः ॥ २१ ॥ शुनको
 भषकः श्वा स्या-
 कुत्तेके नाम ७ ॥ कौलेयक १
 सारमेय २ कुक्कुर ३ मृगदशक ४ ॥ २१ ॥
 शुनक ५ भषक ६ श्वन् ७ ॥
 दलर्कस्तु स योगितः ॥
 प्रयोगसे उन्मत्त हूप कुत्तेका नाम
 १ ॥ अलर्क १ ॥
 श्वा विश्वकटुर्मृगयाकुशलः-
 शिकारी कुत्तेका नाम १ ॥ विश्व-
 कटु १ ॥
 -सरमा शुनी ॥ २२ ॥
 कुतियाके नाम २ ॥ सरमा १ शुनी २ ॥ २२ ॥
 विट्चरः सूकरो ग्राभ्यो-
 गावके सूकरका नाम १ ॥ विट्चर १ ॥
 -वर्करस्तरुणः पशुः ॥
 तरुणपशुका नाम १ ॥ वर्कर १ ॥
 आच्छोदनं मृगव्यं स्यादाखेटो
 मृगया स्त्रियाम् ॥ २३ ॥
 शिकारके नाम ४ ॥ आच्छोदन १
 मृगव्य २ आखेट ३ मृगया ४ ॥ २३ ॥
 दक्षिणारुर्लब्धयोगाद्दक्षिणेर्मा
 कुरङ्गकः ॥

व्याधने जिस मृगके दहिने अंगमे
 मारा हो उसका नाम १ ॥ दक्षिणेर्मन् १ ॥
 चौरैकागारिकस्तेनदस्युतस्कर-
 मोपकाः ॥ २४ ॥ प्रतिरोधि-
 परास्कन्दिपाटञ्चरमलिम्लुचाः ॥
 चोरके नाम १० ॥ चोर १ ऐका-
 गारिक २ स्तेन ३ दस्यु ४ तस्कर ५
 मोपक ६ ॥ २४ ॥ प्रतिरोधिन् ७ परा-
 स्कन्दिन् ८ पाटञ्चर ९ मलिम्लुच १० ॥
 चौरिका स्तैन्यचौर्ये च स्तेयं-
 चोरीके नाम ४ ॥ चौरिका १
 स्तैन्य २ चौर्य ३ स्तेय ४ ॥
 लोप्त्रं तु तद्धने ॥ २५ ॥
 चोरीके मालका नाम १ ॥ लोप्त्र १ ॥ २५ ॥
 वीतंसस्तूपकरणं बन्धने मृग-
 पाक्षिणाम् ॥
 पक्षी वा मृगोंके पकडनेकी सामग्री
 अर्थात् जालादिका नाम १ ॥ वीतंस १ ॥
 उन्माथः कूटयन्त्रं स्या-
 कावकपीजरे आदिके नाम २ ॥
 उन्माथ १ कूटयन्त्र २ ॥
 -द्वागुरा मृगबन्धनी ॥ २६ ॥
 जालके नाम २ ॥ वागुरा १
 मृगबन्धनी २ ॥ २६ ॥
 शुर्व्वं वराटकं स्त्री तु रज्जु-
 स्त्रिषु वती गुणः ॥

रस्तीके नाम १ ॥ झुल्य १ वरा
 टक २ रञ्जु ३ घटी ४ गुण ५ ॥
 उट्टाटन घटीयन्त्र सलिलो
 द्राह्न महेः ॥ २७ ॥
 भरहटके नाम २ ॥ उट्टाटन १
 घटीयन्त्र २ ॥ २७ ॥

पुसि वेमा वायदण्ड-
 शुलाहेके कपडा धुननेके औजारके
 नाम २ ॥ वेमन् १ वायदण्ड २ ॥

-सूत्राणि नरि सन्तवा-
 सूत्रके नाम २ ॥ सूत्र १ सन्तु २ ॥
 -वाणिर्यति स्त्रियौ तुल्ये
 कपडे आदिके धुननेके नाम २ ॥
 वाणि १ व्युति २ ॥

-पुस्त लेप्यादिकर्मणि ॥ २८ ॥
 मिट्टी आदिसे छीपने पोतनेका
 नाम १ ॥ पुस्त १ ॥ २८ ॥

पाञ्चालिका पुत्रिका स्याद्
 खदन्तादिभिः कृता ॥

गुहियाँ अर्थात् बखरकी पन्तई
 हुई पुतलीक नाम २ ॥ पाञ्चालिका
 १ पुत्रिका २ ॥

जतुप्रपुत्रिकारे तु जातुर्पं
 प्रापुर्पं त्रिपु ॥

छाएक मित्राणा नाम १ ॥ जातुप १
 पंगक मित्राणा नाम १ ॥ प्रापुप १ ॥

पिटक पेटक' पेटा मञ्जूषा-
 पिटारेके नाम ४ ॥ पिटक १
 पेटक २ पेटा ३ मञ्जूषा ४ ॥

5-य विश्विका ॥ २९ ॥
 -भारयाष्टि-

बहमी (खैनी) के नाम २ ॥ मिह
 गिका १ ॥ २९ ॥ भारयाष्टि २ ॥

स्तदालम्बि शिख्य काचो-
 बंधीके छीकेके नाम २ ॥ शिख्य
 १ काच २ ॥

-श्र्य पादुका ॥ पावूठपानत्त्री-
 जलक नाम १ ॥ पादुका १ पादू
 उपानत् ३ ॥

-सैवानुपदीना पदायता ॥ ३० ॥
 मोजेके नाम १ ॥ अनुपदीना २ ॥ ३० ॥

नधी बधी वरत्रा स्या
 चमडकी रस्तीके नाम ३ ॥ नधी १
 बधी २ वरत्रा ३ ॥

-दधादेस्ताडनी कशा ॥
 कोडका नाम १ ॥ कशा १ ॥

घाण्डालिका तु कण्डोलबी-
 णा घण्डालयहकी ॥ ३१ ॥

किंनारीबाजोंके नाम ३ ॥ घाण्डा
 ठिका १ कण्डोलबीणा २ घण्डा
 बन्की ३ ॥ ३१ ॥

नाराची स्यादेषणिका-

काटा अर्थात् सोना आदि तोलनेकी तराजूके नाम २॥ नाराची १ एषणिका २॥

-शाणस्तु निकषः कषः ॥

कसौटीके नाम ३ ॥ शाण १
१ निकष २ कष ३ ॥

ब्रश्चना पत्रपरशु-

रेतीके नाम २॥ ब्रश्चन १ पत्रपरशु २॥

-रीषिका तूलिका समे ॥ ३२॥

सलाईके नाम २ ॥ ईषिका १
तूलिका २ ॥ ३२ ॥

तैजसा वर्तनी मृषा-

सुवर्ण इत्यादि धातु गलानेकी धरियाके नाम ३॥ तैजसा १ वर्तनी २ मृषा ३॥

-भस्त्रा चर्मप्रसेविका ॥

फूकनीके नाम २ ॥ भस्त्रा १ चर्म-
प्रसेविका २ ॥

आस्फोटनी वेधनिका-

वर्मेके नाम २ ॥ आस्फोटनी १
वेधनिका २ ॥

-कृपाणी कर्तरी समे ॥ ३३॥

एक प्रकारकी कैंचीके नाम २ ॥
कृपाणी १ कर्तरी २ ॥ ३३ ॥

वृक्षादनी वृक्षभेदी-

वसूले आदिके नाम २ ॥ वृक्षादनी
१ वृक्षभेदी २ ॥

-टंकः पाषाणदारणः ॥

टाकी अर्थात् पत्थरफोडनेके हथि-
यारके नाम २॥ टङ्क १ पाषाणदारण २॥
क्रकचोऽस्त्री करपत्र-

आरेके नाम २॥ क्रकच १ करपत्र २॥

-मारा चर्मप्रभेदिका ॥ ३४ ॥

आरीके नाम २॥ आरा १ चर्मप्र-
भेदिका २ ॥ ३४ ॥

सूर्मी स्थूणाऽयःप्रतिमा-

लोहेकी मूर्तिके नाम ३॥ सूर्मी १

स्थूणा २ अयःप्रतिमा ३ ॥

-शिल्पं कर्म कलादिकम् ॥

कारीगरीका नाम १ ॥ शिल्प १ ॥

प्रतिमानं प्रतिविम्बं प्रति-

माप्रतियातना प्रतिच्छाया

॥ ३५ ॥ प्रतिकृतिरर्चा पुंसि

प्रतिनिधि-

प्रतिमा अर्थात् तसवीरके नाम ८॥

प्रतिमान १ प्रतिविम्ब २ प्रतिमा ३

प्रतियातना ४ प्रतिच्छाया ५ ॥ ३५ ॥

प्रतिकृति ६ अर्चा ७ प्रतिनिधि ८ ॥

-रूपमोपमानं स्यात् ॥

मिसाल और जिसकी मिसाल दी

जाय उसके नाम २॥ उपमा १ उपमान २॥

वाच्यलिङ्गाः समस्तुल्यः स-

दृक्षः सदृशः सदृक् ॥ ३६ ॥

साधारणः समानश्च-

बराबरके नाम ७ ॥ सम १ तुल्य २

सदृश ३ सदृश ४ सदृश ५ ॥ ३६ ॥

साधारण ३ समान ७ ॥

—स्युरुत्तरपदे स्वमी ॥ निभस
काशनीकाशप्रतीकाशोपमाद
य ॥ ३७ ॥

समानक नाम ५ ॥ निभ १ सकाश २
नीकाश ३ प्रतीकाश ४ उपमा ५ ॥ ३७ ॥

कर्मण्या सु विद्या मृत्या मृतयो
भर्म वेतनम् ॥ भरष्य भरण मूल्य
निर्वेशः पण इत्यपि ॥ ३८ ॥

ममूरीक नाम ११ ॥ कर्मण्या १
किना २ मृत्या ३ मृति ४ मर्मन् ५ कतन
६ भरष्य ७ भरण ८ मूल्य ९ निर्वेश
१० पण ११ ॥ ३८ ॥

सुरा इलिमिया हाळा परिस्तु
इरुणात्मजा ॥ गन्धोत्तमाप्रसन्ने
राकादम्बर्य परिस्तुता ॥ ३९ ॥
मदिरा कश्यमघे चा—

मदिरा अघात् शरावक नाम १३ ॥
सुरा १ इलिमिया २ हाळा ३ परिस्तु ४
यरुणात्मजा ५ गन्धोत्तमा ६ प्रसन्ना ७
इरा ८ कादम्बरी ९ परिस्तुता १ ॥ ३९ ॥
मदिरा ११ कश्य १२ मघ १३ ॥

—प्यवदगस्तु भक्षणम् ॥

मघपानकी रुचि उत्पन्न फरनके
उत्रि भूजा अना इत्यादिक खानक नाम
१ ॥ अघ १२ ॥

शुण्डापान मदस्थानं—

मदिरा पीनेके स्थानके नाम २ ॥

शुण्डापान १ मदस्थान २ ॥

—मधुबारा मधुक्रमा ॥ ४० ॥

मदिरा पीनेक सम्पक नाम २ ॥ मधु
वार १ मधुक्रम २ ॥ ४० ॥

मध्वासवो माघवको मधु
माध्वीकमद्रयो ॥

मध्वासे उत्पन्न मदिराके नाम ३ ॥
मध्वासव १ माघवक २ मधु ३ माध्वीक ४ ॥

मैरेयमासव सीधु—

गुडसीराकी मदिराके नाम ३ ॥ मैरेय
१ आसव २ सीधु ३ ॥

—मैदको जगल समौ ॥ ४१ ॥

मदिराकी फोकसके नाम २ ॥ मैदको
जगल २ ॥ ४१ ॥

सधान स्मादभिषव —

मदिराकत्तनेक नाम २ ॥ सधान १
अभिषव २ ॥

—किष्वं पुंसि तु नमह ॥

तंशुकादि द्रव्यस बनादृष्ट मयके
नाम २ ॥ किष्व १ नमह २ ॥

कारोत्तरः सुरामण्ड—

मदिराक मण्डके नाम २ ॥ कारोत्तर
१ सुरामण्ड २ ॥

—आपान पानगोष्ठिका ॥ ४२ ॥

दाहपीनकी समाक नाम २ ॥ आपान
१ पानगोष्ठिका २ ॥ ४२ ॥

चषकोऽस्त्री पानपात्रं—

दारू पीनेके बर्तन (प्याले)के नाम

२ ॥ चपक १ पानपात्र २ ॥

—सरकोऽस्थनुतर्षणम् ॥

मदिरा पीनेके नाम २ ॥ सरक १

अनुतर्षण २ ॥

धूर्तोऽक्षदेवी कितवोऽक्षधूर्तो

द्यूतकृत्समाः ॥ ४३ ॥

जुवारीके नाम ५ ॥ धूर्त १ अक्ष-
देविन् २ कितव ३ अक्षधूर्त ४ द्यूतकृत् ५
॥ ४३ ॥

स्युर्लभकाः प्रतिभुवः—

जामिनके नाम २ ॥ लभक १ प्रतिभूर ॥

—सभिका द्यूतकारकाः ॥

जुआ खिलानेत्रा ठेके नाम २ ॥ सभिक
१ द्यूतकारक २ ॥

द्यूतोऽस्त्रियामक्षवती कैतवं पण
इत्यपि ॥ ४४ ॥

जूएके नाम ४ ॥ द्यूत १ अक्षवती
२ कैतव ३ पण ४ ॥ ४४ ॥

पणोऽक्षेषु ग्लहो—

वार्जा लगानेके नाम २ ॥ पण १ ग्लह २ ॥

—ऽशास्तु देवनाः पाशकाश्च ते ।

पासेके नाम ३ ॥ अक्ष १ देवन २
पाशक ३ ॥

परिणायस्तु शारीणां समन्ता-
न्नयनेऽस्त्रियाम् ॥ ४५ ॥

सारक डधर उधर फेरनेका नाम १ ॥

परिणाय १ ॥ ४५ ॥

अष्टापदं शारिफलं—

विसायती (चौपड) के नाम २ ॥

अष्टापद १ शारिफल २ ॥

—प्राणिद्यूतं समाह्वयः ॥

मुरगा आदि जीवोंकी लडाईरूप द्यूतके
नाम २ ॥ प्राणिद्यूत १ समाह्वय २ ॥

उक्ता भूरिप्रयोगत्वादेकस्मि-

न्येव यौगिकाः ॥ ४६ ॥ ताद्ध-
र्म्यादन्यतो वृत्तावूह्या लिङ्गा-
न्तरेऽपि ते ॥

भाषा—इसवर्गमें जो यौगिक मालाका-
रमार्दङ्गिक वैणविक आदि शब्द कान्या-
दिकोंके अधिक प्रयोगके अनुसार केवल
पुंलिङ्गहीमे कहें हैं वह शब्द व्याकरणके
नियमानुसार स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्गमेंभी
होते हैं जैसे मालाकारकी स्त्री मालाकारी
और मालाकारका कुल मालाकार इसी
प्रकार सर्वत्र जानना ॥ ४६ ॥

इत्यमरसिंहकृतौ नामलिङ्गानु-

शासने ॥ भूम्यादिकाण्डो द्वितीयः
सांग एव समर्थितः ॥ ४७ ॥

इति श्रीमदमरसिंहविरचितामरकोशे

ज्वालाप्रसादकृतभाषाटीकाया

द्वितीयः काण्डः समाप्तः ॥ २ ॥

इति द्वितीयः काण्डः ॥ २ ॥

॥ श्री ॥

अथ तृतीयकाण्डः ३

अथ विशेष्यनिघ्नवर्गः १

विशेष्यनिघ्नैः सर्कीर्णानाना
धरुष्यपैरापि ॥ लिंगादिसंम
हैर्बर्गा सामान्ये वर्गसश्रया ॥१॥

भाषा—इस सामान्य तृतीयकाण्डमें
स्वर्गादि बर्गोंके आश्रित शब्द विशेष्य-
निघ्नवर्ग सर्कीर्णवर्ग मानार्थवर्ग अर्थवर्ग
और स्त्रीलिंगादिसंमहर्गक द्वारा कहेंगे १

स्त्रीदाराद्यैर्पद्विशेष्यं यादृशी
प्रस्तुत पदैः ॥ गुणद्रव्यक्रियाश
ब्दास्तथा स्युस्तस्य भेदका ॥२॥

भाषा—स्त्री दार आदि विशेष्यभूत
पदोंमें जो लिङ्ग और सख्या हो बहो लिङ्ग
और संख्या गण और द्रव्य तथा क्रिया
वाचकशब्दोंमें दोमेस तार स्त्री आदि
शब्दोंके गुण द्रव्य क्रिया वाचक शब्द
विशयग हा सक है जैसे 'सुहृदिनी स्त्री,
सुहृदिनी तारा सुहृदि कर्मम् ।
दण्डिनी स्त्री दण्डिनो दारा दण्डि
कर्ममाश्रिता स्त्री वाचका दारा
वाचक कर्मम् ॥ ॥

सुकृती पुण्यवान् धन्यो-
माग्यवान् पुरुषके नाम १ ॥

सुकृतिन् १ पुण्यवत् २ धन्य ३ ॥

-महेच्छस्तु महाशय ॥

उदारचित्तपुरुषके नाम १ ॥ महच्छ

१ महाशय २ ॥

इदयाल्लः सुहृदयो-

सुहृदचित्तपुरुषके नाम २ ॥ इदयाल्ल

१ सुहृदय २ ॥

-महात्साहो महोद्यम ॥ ३ ॥

बहुत उद्यम करनेवाले पुरुषके नाम

॥ २ महोत्साह १ महाद्यम २ ॥ ३ ॥

प्रवीणे निपुणाभिज्ञविज्ञानि

पणातशिक्षिता ॥ वैज्ञानिक

कृतमुख १ कृती कुशल

इत्यपि ॥ ४ ॥

सगुरुपुरुषके नाम १ ॥ प्रवीण १

निपुण २ अभिज्ञ ३ निज्ञ ४ निष्णात ५

शिक्षित ६ वैज्ञानिक ७ कृतमुख ८ ॥

कृतिन् ९ कुशल १० ॥ ४ ॥

पूज्यं प्रतीक्ष्यं-

माग्यपुरुषके नाम १ ॥ पूज्य १ प्रतीक्ष्य २ ॥

सांशयिकः संशयापन्नमानसः॥

सशय करानेवाली वस्तुके नाम २ ॥

साशयिक १ सशयापन्नमानस २ ॥

दक्षिणीयो दक्षिणार्हस्तत्र दक्षि-
ण्य इत्यपि ॥ ५ ॥

दक्षिणाके योग्यपुरुषके नाम ३ ॥ द-
क्षिणीय १ दक्षिणार्ह २ दक्षिण्य ३ ॥ ५ ॥

स्युर्वदान्यस्थूललक्ष्यदानशौण्डा
बहुप्रदे ॥

अतिदानी पुरुषके नाम ४ ॥ वदान्य
१ स्थूललक्ष्य २ दानशौण्ड ३ बहुप्रद ४ ॥

जैवातृकः स्यादायुष्मा-

दीर्घायु पुरुषके नाम २ ॥ जैवातृक
१ आयुष्मत् २ ॥

-नन्तर्वाणिस्तु शास्त्रवित् ॥ ६ ॥

शास्त्रीके नाम २ ॥ अन्तर्वाणि १
शास्त्रविद् २ ॥ ६ ॥

परीक्षकः कारणिको-

परीक्षकके नाम २ ॥ परीक्षक १ कारणिक २

-वरदस्तु समर्थकः ॥

वरदान देनेवालेके नाम २ ॥ वरद १
सर्थक २ ॥

हर्षमाणो विकुर्वाणः प्रमना
दृष्टमानसः ॥ ७ ॥

प्रसन्नके नाम ४ ॥ हर्षमाण १ विकुर्वा-
ण २ प्रमनस् ३ दृष्टमानस ४ ॥ ७ ॥

दुर्मना विमवा अन्तर्मनाः-

उदास पुरुषके नाम ३ ॥ दुर्मनस् १

विमनस् २ अन्तर्मनस् ३ ॥

-स्याद्दुत्क उन्मनाः ॥

उत्कण्ठायुक्त पुरुषके नाम २ ॥

उत्क १ उन्मनस् २ ॥

दक्षिणे सरलोदारौ-

सीधे पुरुषके नाम ३ ॥ दक्षिण १
सरल २ उदार ३ ॥

-सुकलो दातृभोक्तारि ॥ ८ ॥

दानी और भोगीपुरुषका नाम १
सुकल १ ॥ ८ ॥

तत्परे प्रसितासक्ता-

कार्यविशेषमें चित्त लगानेवाले पुरुष-
के नाम ३ ॥ तत्पर १ प्रसित २ आसक्त ३ ॥

-विष्टार्थोद्युक्त उत्सुकः ॥

अभीष्टवस्तुके प्राप्त करनेमें तत्पर
पुरुषके नाम २ ॥ इष्टार्थोद्युक्त १ उत्सुक २ ॥

प्रतीते प्रथितख्यातवित्तविज्ञा-
तविश्रुताः ॥ ९ ॥

प्रसिद्ध पुरुषके नाम ६ ॥ प्रतीत १
प्रथित २ ख्यात ३ वित्त ४ विज्ञात ५
विश्रुत ६ ॥ ९ ॥

गुणैः प्रतीते तु कृतलक्षणाहि-
तलक्षणौ ॥

गुणोंसे प्रसिद्ध पुरुषके नाम २ ॥ कृत-
लक्षण १ आहितलक्षण २ ॥

इभ्य आढथो घनी-
घनी पुरुषके नाम ३ ॥ इभ्य १
आढथ २ घनिन् ३ ॥

-स्वामी त्वीश्वर पतिरीशिता
॥१०॥ अधिभूनायको नेवा प्रमु
परिवृढोऽधिपः ॥

स्वामीके नाम १० ॥ स्वामिन् १
इश्वर २ पति ३ ईशित् ४ ॥ १ ॥
अधिभू ५ नायक ६ नेव ७ प्रमु ८ परि
वृढ ९ अधिप १ ॥

अधिकर्षि समृद्ध स्या-
सम्पत्तिमान् पुरुषके नाम २ ॥
अधिकर्षि १ समृद्ध २ ॥

-कुट्टुम्बध्यापृतस्तु य ॥११॥
स्माद्भ्यागारिकत्वस्मिन्नुपा
धिष्व पुमानसम् ॥

कुट्टुम्बके पालनकरनेमें तरपरपुरुषके
नाम ३ ॥ कुट्टुम्बध्यापृत १ ॥ ११ ॥
भ्यागारिक २ उपाधि ३ ॥

वराङ्गरूपोपेतो य सिहसं
हननो हि स ॥ १२ ॥

भंग भोर रूपसे अतिश्रेष्ठ पुरुषका
नाम १ ॥ सिहसहनन १ ॥ १२ ॥

निर्वार्य कायकर्ता य स
म्पत्तः सत्त्वसम्पदा ॥

जो द्वे-सर्भेमी प्रसन्नताके साथ काय
किया करताहै उस पुरुषका नाम १ ॥
निर्वार्य १ ॥

अवाचि मूको-
गुणे पुरुषके नाम २ ॥ मवाच् १ मूक २ ॥
-ऽथ मनोजवस पितृस
न्निमः ॥ १३ ॥

जो पुरुष पिताके समान माना जाय
उस पुरुषके नाम २ ॥ मनोजवस १ पितृ
सन्निम २ ॥ १३ ॥

सत्कृत्याल्लुक्तां कन्यां यो
ददाति स कुकुद् ॥
जो बरको आदरपूर्वक कत्रमूल्या
सहित कन्यादान द उस पुरुषका नाम
१ ॥ कुकुद् १ ॥

लक्ष्मीर्वाँल्लक्ष्मणः श्रील
श्रीमा-

शोमावान्के नाम ४ ॥ लक्ष्मीवत् १
लक्ष्मण २ श्रील ३ श्रीमत् ४ ॥

न्स्निग्धस्तु वत्सल ॥ १४ ॥
स्नेही पुरुषके नाम २ ॥ स्निग्ध १
वत्सल २ ॥ १४ ॥

स्यादयालुः कारुणिक कृ
पाङ्ग सूरत्त समा ॥

दयाशीलपुरुषके नाम ४ ॥ दयालु १
कारुणिक २ कृपाङ्ग ३ सूरत्त ४ ॥

स्वतन्त्रोऽपावृतः स्वैरी स्व-
च्छन्दो निरवग्रहः ॥ १५ ॥

स्वतन्त्र पुरुषके नाम ५ ॥ स्वतन्त्र १
अपावृत २ स्वैरिन् ३ स्वच्छन्द ४
निरवग्रह ५ ॥ १५ ॥

परतन्त्रः पराधीनः परवान्ना-
थवानापि ॥

पराधीनपुरुषके नाम ४ ॥ परातन्त्र १
पराधीन २ परवत् ३ नाथवत् ४ ॥
अधीनो निघ्न आयत्तोऽस्वच्छन्दो
गृह्यकोऽप्यसौ ॥ १६ ॥

अधीनके नाम ५ ॥ अधीन १ निघ्न २
आयत्त ३ अस्वच्छन्द ४ गृह्यक ५ ॥ १६ ॥

खलपूः स्याद्बहुकरो-
बुहारने झारनेवाले मनुष्यके नाम २ ॥

खलपू १ बहुकर २ ॥
-दीर्घसूत्रश्चिरक्रियः ॥

दीर्घसूत्र (थोड़ी देरके कामको
बहुत देरमे करनेवालों) के नाम २ ॥
दीर्घसूत्र १ चिरक्रिय २ ॥

-जाल्मोऽसमीक्ष्यकारी स्या-
विना विचारे कार्यकरनेवाले पुरुषके
नाम २ ॥ जाल्म १ असमीक्ष्यकारिन् २

-कुण्ठो मन्दः क्रियासु यः ॥ १७ ॥
आलसी वा मूढ पुरुषका नाम १ ॥
कुण्ठ १ ॥ १७ ॥

कर्मक्षमोऽलं कर्मीणः-

कार्यकरनेमें समर्थपुरुषके नाम २ ॥
कर्मक्षम १ अलं कर्मीण २ ॥

-क्रियावान्कर्मसूद्यतः ॥

कार्यकरनेमें तत्पर पुरुषका नाम १ ॥
क्रियावत् १ ॥

स कर्मः कर्मशीलो यः-

जो नित्यकाममें लगारहै उस पुरुषके
नाम २ ॥ कर्म १ कर्मशील २ ॥

-कर्मशूरस्तु कर्मठः ॥ १८ ॥
प्रयत्नपूर्वक जो कार्यको समाप्त

करै उस पुरुषके नाम २ ॥ कर्मशूर १
कर्मठ २ ॥ १८ ॥

भरण्यभुक्कर्मकरः-

मजदूरके नाम २ ॥ भरण्यभुज् १
कर्मकर २ ॥

-कर्मकारस्तु तात्क्रियः ॥

बिना मजदूरीके भी जो कार्य करदेय
उस पुरुषका नाम १ ॥ कर्मकार १ ॥

अपस्नातो मृतस्नात-

किसीके मरनेके अनन्तर स्नान किये
हुये पुरुषके नाम २ ॥ अपस्नात १
मृतस्नात २ ॥

-आमिषाशी तु शौष्कुलः १९ ॥
मास खानेवाले पुरुषके नाम २ ॥

आमिषाशिन् १ शौष्कुल २ ॥ १९ ॥

धुमुक्षित' स्यात्धुधिसो जि
घत्तुरशनायितः ॥

मूखे पुरुषके नाम ४ ॥ धुमुक्षित १
धुधित २ जिक्स्तु ३ अशनायित ४ ॥

पराश्र' परापिण्डादो-

जो पराय ही अक्षसे जीता हो उस
पुरुषके नाम २ ॥ पराश्र १ परपिण्डाद २ ॥

-भक्षको घस्मरोऽश्र' ॥ २० ॥

खानेवालेके नाम ३ ॥ भक्षक १ घस्मर
२ अश्र ३ ॥ २० ॥

आशून' स्यादौदरिको वि
जिगीषाविवर्जिते ॥

असम्पत्ही मूखे पुरुषके नाम २ ॥
आशून १ औदरिक २ ॥

उभौ त्वात्मभरि' कुक्षिभरि'
स्वोदरपूरके ॥ २१ ॥

पेटको ही मरनेवाले पुरुषके नाम २ ॥
आत्मभरि १ कुक्षिभरि २ ॥ २१ ॥

सर्वाक्षीनस्तु सर्वाभमोजी-

जो सब बर्णोंका अन्न मोजन करलेता
हो उस पुरुषके नाम २ ॥ सर्वाक्षीन १
सर्वाभमोजिन् २ ॥

-गृध्रस्तु गर्धन' ॥

हृन्धोऽभिलापुकस्तृष्णाक-

छोमी पुरुषके नाम १ ॥ गृध्र १
गर्धन २ हृन्ध ३ अभिलापुक ४ तृष्णाक ५ ॥

-समो लोहपलोद्भू ॥ २२ ॥

असिलोमीके नाम २ ॥ लोहप १
लोद्भू २ ॥ २२ ॥

सोन्मादस्तून्मादिप्यु' स्या-

उम्भत्तपुरुषके नाम २ ॥ उम्माद १

उमदिप्यु २ ॥

-दविनीत समुद्धतः ॥
अभ्यायी पुरुषके नाम २ ॥ अविनीत १
समुद्धत २ ॥

मत्ते शीण्डोत्कटक्षीवा'-

मत्तवालेके नाम ४ ॥ मत्त १ शीण्ड
२ उत्कट ३ क्षीव ४ ॥

-कामुके कामिताऽनुकः ॥ २३ ॥
कम्त्र' कामयिताऽमीक' कमन

कामनोऽमिकः ॥

कामीके नाम १ ॥ कामुक १ कमित २
कनुक ३ ॥ २३ ॥ कम्त्र ४ कामयित

१ अमीक २ कमन ३ कामन ४ अमिक ५
विधेयो विनयप्राही बचने

स्थित आश्रय' ॥ २४ ॥

बचनप्रदण करनेवाले पुरुषके नाम ४
विधेय १ विनयप्राहिन् २ बचनस्थित ३
आश्रय ४ ॥ २४ ॥

वश्य' प्रणयो-

वशीभूतके नाम २ ॥ वश्य १ प्रणय २ ॥

-निमृतविनीतप्रश्रिताः समाः ॥

नम्रपुरुषके नाम ३ ॥ निमृत १

विनीत २ प्रश्रित ३ ॥

धृष्टे धृष्णग्वियातश्च-

धीठ पुरुषके नाम ३ ॥ धृष्ट १

धृष्णञ् २ वियात ३ ॥

-प्रगल्भः प्रतिभान्विते ॥२५॥

अतिधीठ निर्भय पुरुषके नाम २ ॥

प्रगल्भ १ प्रतिभान्वित २ ॥ २५ ॥

स्यादधृष्टे तु शालीनो-

लज्जावान् पुरुषके नाम २ ॥ अधृष्ट
१ शालीन २ ॥

-विलक्षो विस्मयान्विते ॥

अचम्भेमें पडेहुए पुरुषके नाम २ ॥

विलक्ष १ विस्मयान्वित २ ॥

अधीरे कातर-

व्याकुलहुए पुरुषके नाम २ ॥ अधीर
१ कातर २ ॥

-ह्रस्ते भीरुभीरुकभीलकाः ॥२६॥

हरपोकके नाम ४ ॥ त्रस्त १ भीरु
भीरुक ३ भीलुक ४ ॥ २६ ॥

आशंसुराशंसितरि-

इष्ट अर्थप्राप्तिकी इच्छावाले पुरुषके
नाम २ ॥ आशसु १ आशसितृ २ ॥

-गृह्यालुर्ग्रहीतरि ॥

लेनेके स्वभाववाले पुरुषके नाम २ ॥

गृह्यालु १ ग्रहीतृ २ ॥

श्रद्धालुः श्रद्धया युक्ते-

श्रद्धायुक्त स्वभाववाले पुरुषका नाम

१ ॥ श्रद्धालु १ ॥

-पतयालुस्तु पातुके ॥ २७ ॥

गिरनेके स्वभाववाले पुरुषके नाम २ ॥

पतयालु १ पातुक २ ॥ २७ ॥

लज्जाशीलेऽपत्रपिष्णु-

लज्जाशील पुरुषके नाम २ ॥ लज्जा-

शील १ अपत्रपिष्णु २ ॥

-वन्दारुरभिवादके ॥

वन्दना करनेके स्वभाववाले पुरुषके
नाम २ ॥ वन्दारु १ अभिवादक २ ॥

शरारुर्घातुको हिंसः-

हिंसा करनेके स्वभाववाले पुरुषके
नाम ३ ॥ शरारु १ घातुक २ हिंस ३ ॥

-स्याद्वर्द्धिष्णुस्तु वर्धनः ॥२८॥

बढनेके स्वभाववाले पुरुषके नाम २ ॥

वर्द्धिष्णु १ वर्धन २ ॥ २८ ॥

उत्पतिष्णुस्तुत्पतिता-

कूदनेके स्वभाववालेके नाम २ ॥ उत्प-
तिष्णु १ उत्पतितृ २ ॥

-ऽलंकारिष्णुस्तु मण्डनः ॥

भूषण आदि पहरनेके स्वभाववालेके
नाम २ ॥ अलंकारिष्णु १ मण्डन २ ॥

भूष्णुर्भविष्णुर्भविता-

होनेके स्वभाववालेके नाम ३ ॥
भूष्णु १ भविष्णु २ भवितृ ३ ॥

—वर्तिष्युर्वर्तनः समौ ॥ २९ ॥	क्रोधके स्वभाववालेके नाम १ ॥
वर्त्ताव करनेके स्वभाववालेके नाम	क्रोधन १ अमर्षण २ क्रोधिन् १ ॥
२ ॥ वर्तिष्यु १ वर्त्तन २ ॥ २९ ॥	—चण्डस्त्वत्यन्तकोपन* ॥
निराकरिष्युः क्षिप्नुः स्या-	अत्यन्त क्रोधक स्वभाववालेके नाम
तिरस्कार करनेके स्वभाववालेके	२ ॥ चण्ड १ अत्यन्तकोपन २ ॥
नाम २ ॥ निराकरिष्यु १ क्षिप्नु २ ॥	जागरूको जागरिता-
—त्सान्द्रस्त्रिग्वस्तु मेदुर* ॥	जागनेके स्वभाववालेके नाम २ ॥
सपन और चिकनेका नाम १ ॥	जागरूक १ जागरितृ २ ॥
मेदुर ॥ १ ॥	—घूर्णित* प्रचलायित* ॥ ३२ ॥
शाठा तु विदुरो विन्दु-	घूर्नेवालेके नाम २ ॥ घूर्णित १
जाननेके स्वभाववालेके नाम ३ ॥	प्रचलायित २ ॥ ३२ ॥
शातृ १ विदुर २ विन्दु ३ ॥	स्वप्नकथयाहार्निद्राह-
—बिकासी तु विकस्वर* ॥ ३० ॥	निद्राहके नाम ३ ॥ स्वप्न १
खिलनेके स्वभाववालेके नाम २ ॥	शयाह २ निद्राह ३ ॥
बिकासिन् १ विकस्वर २ ॥ ३ ॥	—निद्राणशयित्री समी ॥
बिसृस्वरो बिसृमर* प्रसारी च	शयन करनेवालेके नाम २ ॥ निद्राण
विसारिणि ॥	१ शयित २ ॥
फेडनेके स्वभाववालेके नाम ४ ॥	पराङ्मुख* पराचीन*-
बिसृमर १ बिसृमर २ प्रसारिन् ३	बिमुखके नाम २ ॥ पराङ्मुख १
विमारिन् ४ ॥	पराचीन २ ॥
सहिष्यु सदन* क्षन्ता तितिक्षुः	—स्पादवाहृप्पधोमुख* ॥ ३३ ॥
क्षमिता क्षर्मा ॥ ३१ ॥	नीधिका मुख करनेवालेके नाम २ ॥
सदनशक्तिवालेके नाम १ ॥ सहिष्यु १	अवाह १ अधोमुख २ ॥ ३३ ॥
सदन २ क्षन्त ३ तितिक्षु ४ क्षमिता ५	देवान्धाति देवदह-
क्षमिन् ६ ॥ ३१ ॥	देवताओंके पूजा करनेवाला
प्रोषनाऽम्पण कार्षी-	नाम १ ॥ देवदह ॥ १ ॥

—विष्वद्यद् विष्वगञ्चति ॥

सब ओर जानेवालेका नाम १ ॥

विष्वद्यच् १ ॥

यः सहाञ्चति सध्यद् सः—

साथ रहनेवालेका नाम १ ॥ सध्यच् १ ॥

—स तिर्यङ् य स्तिरोऽञ्चति ॥ ३४ ॥

ढेढे चलनेवालेका नाम १ ॥ तिर्यच्

१ ॥ ३४ ॥

वदो वदावदो वक्ता—

वक्ताके नाम ३ ॥ वद १ वदावद २ वक्तृ ३ ॥

—वागीशो वाक्पतिः समौ ॥

चातुर्ययुक्त बोलनेवालेके नाम २ ॥

वागीश १ वाक्पति २ ॥

वाचोयुक्तिपटुर्वाग्मी वाव-

दूकोऽतिवक्तारि ॥ ३५ ॥

शास्त्रानुसार अत्यन्त बोलनेवालेके

नाम ४ ॥ वाचोयुक्तिपटु १ वाग्मिन् २

वावदूक २ अतिवक्तृ ४ ॥ ३५ ॥

स्याज्जल्पाकस्तु वाचालो

वाचाटो बहुगर्हवाक् ॥

अतिनिन्दित माषण करनेवालेके

नाम ४ ॥ जल्पाक ६ वाचाल २ वाचाट ३

बहुगर्हवाच् ॥ ४ ॥

दुर्मुखे मुखरावद्धमुखौ—

अप्रियबोलनेवालेके नाम ३ ॥

दुर्मुख १ मुखर २ अवद्धमुख ३ ॥

—शक्नुः प्रियंवदे ॥ ३६ ॥

प्रिय बोलनेवालेके नाम २ ॥ शक्नु १

प्रियवट २ ॥ ३६ ॥

लोहलः स्यादस्फुटवा—

जो स्फुट न बोलता हो उस पुरुषके

नाम २ ॥ लोहल १ अस्फुटवाच् २ ॥

—गर्हवादी तु कद्वदः ॥

निन्दितवाक्य बोलनेवाले पुरुषके

नाम २ ॥ गर्हवादिन् १ कद्वद २ ॥

समौ कुवादकुचरौ—

बुराईकहनेवालेके नाम २ कुवाद १

कुचर २ ॥

स्यादसौम्यस्वरोऽस्वरः ॥ ३७ ॥

रूखे स्वरवालेके नाम २ असौम्य-

स्वर १ अस्वर २ ॥ ३७ ॥

रवणः शब्दनो—

चिह्नानेवालेके नाम २ ॥ रवण १

शब्दन २ ॥

—नान्दीवादी नान्दीकरः समौ ॥

नान्दीवादी अर्थात् नाटकके आर-

भमे स्तुतिविशेष करनेवालेके नाम २ ॥

नान्दीवादिन् १ नान्दीकर २ ॥

जडोऽज्ञ—

महामूर्खके नाम २ ॥ जड १ अज्ञ २ ॥

—एडमूकस्तु वक्तुं श्रोतुम-

शिक्षिते ॥ ३८ ॥

जो गूंगा बहिरा दोनों हो उसका
नाम १ ॥ एषमूक १ ॥ ३८ ॥

तूष्णीशीलस्तु तूष्णीको-
मौनरहनेवाला पुरुषके नाम २ ॥ तू-
ष्णीशील १ तूष्णीक २ ॥

-नमोऽवासा दिगम्बरे ॥
नमपुरुषके नाम ३ ॥ नम १ अवास्त
२ दिगम्बर ३ ॥

निष्कासितोऽवकृष्ट स्या-
निकासेहुएके नाम २ ॥ निष्कास्ति
१ अवकृष्ट २ ॥

-दपध्वस्तस्तु धिक्कृत* ॥ ३९ ॥
विष्कार दियेहुये पुरुषके नाम २ ॥
अपध्वस्त १ धिक्कृत २ ॥ ३९ ॥

आत्तगर्वोऽभिभूत* स्या-
तिरस्कारको प्राप्तहुय पुरुषके नाम २
आत्तगर्व १ अभिमूल २ ॥

-हापितः साधित* समौ ॥
घनादि दिवाकर बरामे कियेहुए पुरु-
षके नाम २ ॥ हापित १ साधित २ ॥

प्रत्यादिष्टो निरस्त स्यात्प्र
त्याख्यातो निराकृतः ॥ ४० ॥
निरादरका प्राप्तहुए पुरुषके नाम ३ ॥
प्रत्यादिष्ट १ निरस्त २ प्रत्याख्यात ३
निराकृत ४ ॥ ४ ॥

निहृत* स्याद्विप्रकृतो-

बुरेरूपभालेके नाम २ ॥ निहृत १
विप्रकृत २ ॥

-विप्रलम्बस्तु वञ्चित* ॥
जोहुये पुरुषके नाम २ ॥ विप्रलम्ब १
वञ्चित २ ॥

मनोहत* प्रतिहत* प्रतिक्रो-
हतश्च स* ॥ ४१ ॥

मनोहतपुरुषके नाम ३ ॥ मनोहत १
प्रतिहत २ प्रतिक्रो ३ हत ४ ॥ ४१ ॥

अधिक्षित* प्रतिक्रितो-
जिसके ऊपर आक्षेप किया गया
हो उस पुरुषके नाम २ ॥ अधिक्षित १
प्रतिक्रित २ ॥

-वद्रे कीलितसंयतौ ॥
बाधेहुएके नाम ३ ॥ वद्रे १ कीलित २
संयत ३ ॥

आपन्न आपत्प्राप्त* स्या-
आपत्तिको प्राप्तहुए पुरुषके नाम २
आपन्न १ आपत्प्राप्त २ ॥

स्कांदिर्शाको मयद्भुत* ॥ ४२ ॥
मयस मागेहुयेके नाम २ ॥ स्कांदि
शीक १ मयद्भुत २ ॥ ४२ ॥

आक्षारित क्षारितोऽभिज्ञस्ते-
मैयुनके निमित्त कृपा दोष उगाय हुए
पुरुषके नाम ३ ॥ आक्षारित १ क्षारित
२ अभिज्ञस्त ३ ॥

—संकसुकोऽस्थिरे ॥
 चचलस्वभाववाले पुरुषके नाम २ ॥
 सकसुक १ अस्थिर २ ॥
 व्यसनार्तोपरक्तौ द्वौ—
 देवी और मानुषी पीडासे युक्त पुरुषके
 नाम २ ॥ व्यसनार्त्त १ उपरक्त २ ॥
 —विहस्तव्याकुलौ समौ ॥४३॥
 शोकादिसे व्याकुलपुरुषके नाम २ ॥
 विहस्त १ व्याकुल २ ॥ ४३ ॥
 —विक्लवो विह्वलः—
 विकलपुरुषके नाम २ ॥ विक्लव १
 विह्वल २ ॥
 —स्यात्तु विवशोऽरिष्टदुष्टधीः ॥
 मरणके समीप आनेसे जिसकी
 बुद्धि विपरीत होजाय उस पुरुषके नाम
 २ ॥ विवश १ अरिष्टदुष्टधी २ ॥
 कश्यः कशार्हे—
 बेतमारने योग्यके नाम २ ॥ कश्य
 १ कशार्ह २ ॥
 —सन्नद्धे त्वाततायी वधोद्यते ॥४४॥
 मारनेयोग्यका नाम १ ॥ आत-
 तायिन् १ ॥ ४४ ॥
 द्वेष्ये त्वक्षिगतो—
 द्वेष करने लायकके नाम २ ॥
 द्वेष्य १ अक्षिगत २ ॥
 —वध्यः शीर्षिच्छेद्य इमौ समौ ॥

शिरकाटने योग्यके नाम २ ॥ वध्य १
 शीर्षिच्छेद्य २ ॥
 विष्यो विषेण यो वध्यो—
 विपकरके मारने योग्यका नाम १ ॥
 विष्य १ ॥
 —मुसल्यो मुसलेन यः ॥४५॥
 मुसलसे मारने योग्यका नाम १ ॥
 मुसल्य १ ॥ ४५ ॥
 शिश्विदानोऽकृष्णकर्मा—
 पापकर्म न करनेवाले पुरुषके नाम
 २ ॥ शिश्विदान १ अकृष्णकर्मन् २ ॥
 —चपलश्चिकुरः समौ ॥
 विना दोष विचारे मारनेवालेके नाम
 २ ॥ चपल १ चिकुर २ ॥
 दोषैकदृक्पुरोभागी—
 केवल दोषकी ही दृष्टि करनेवालेके
 नाम २ ॥ दोषैकदृक् १ पुरोभागिन् २ ॥
 —निकृत्तस्त्वनृजुः शठः ॥४६॥
 कुटिलहृदयके नाम ३ ॥ निकृत्त १
 अनृजु २ शठ ३ ॥ ४६ ॥
 कर्णेजपः सूचकः स्या—
 चुगलखोरके नाम २ ॥ कर्णेजप १
 सूचक २ ॥
 —त्पिशुनो दुर्जनः खलः ॥
 आपसमें भेट करानेवालेके नाम ३ ॥
 पिशुन १ दुर्जन २ खल ३ ॥

जो गूगा बहिरा दोनों हो उसका
नाम १ ॥ एषमूक १ ॥ ३८ ॥

तूष्णीशीलस्तु तूष्णीको-

मौनरहनाथ पुरुषके नाम २ ॥ तू-

ष्णीशील १ तूष्णीक २ ॥ /

-नम्रोश्वासा दिगम्बरे ॥

नमपुरुषके नाम ३ ॥ नम १ अवास्त

२ दिगम्बर ३ ॥

निष्कासितोऽश्वकृष्ट स्या-

निकाष्टेष्टके नाम २ ॥ निष्कासित

१ अश्वकृष्ट २ ॥

-दपध्यस्तस्तु विकृत ॥ ३९ ॥

विचार दियहुय पुरुषके नाम २ ॥

अप्यस्त १ विकृत २ ॥ ३९ ॥

आप्तगर्भोऽभिमूत स्या-

तिरस्कारको प्राप्तहुय पुरुषके नाम २

आप्तगर्भ १ अभिमूत २ ॥

-हापितः साधित समौ ॥

धनादि दिवाकर वशमें कियेहुए पुरु-

षके नाम २ ॥ दासित १ साधित २ ॥

प्रत्यादिष्टो निरस्तः स्यात्प्र

त्याख्यातो निगकृत ॥ ४० ॥

निरादरका प्राप्तहुए पुरुषके नाम ३ ॥

प्रत्यादिष्ट १ निरस्त २ प्रत्याख्यात ३

निरादर ४ ॥ ४ ॥

निकृत स्याद्विमूतो-

धुरेरुपवालेके नाम २ ॥ निरस्त १
विप्रकृत २ ॥

-विप्रलब्धस्तु वञ्चित ॥

उद्योग पुरुषके नाम २ ॥ विप्रलम्ब १
वञ्चित २ ॥

मनोहत प्रतिहत प्रतिवद्धो
हतश्च स ॥ ४१ ॥

मनोहतपुरुषके नाम ४ ॥ मनोहत १
प्रतिहत २ प्रतिवद्ध ३ हत ४ ॥ ४१ ॥

अधिकृत प्रतिक्षितो-

जिसके ऊपर आक्षेप किया गया
हो उस पुरुषके नाम २ ॥ अधिकृत १
प्रतिक्षित २ ॥

-बद्धे कीलितसंयतो ॥

बांधहुएके नाम ३ ॥ बद्ध १ कीलित २
संयत ३ ॥

आपन्न आपत्प्राप्त स्या-

आपत्तिको प्राप्तहुए पुरुषके नाम २
आपन्न १ आपत्प्राप्त २ ॥

त्कांदिशीको मयद्भुत ॥ ४० ॥

मयसे मागेहुयेके नाम २ ॥ कादि
शीक १ मयद्भुत २ ॥ ४० ॥

आक्षारितः क्षारितोऽभिज्ञस्ते-

मैथुनके निमित्त कृया दोष ख्यायेहुए
पुरुषके नाम ३ ॥ आक्षारित १ क्षारित
२ अभिज्ञस्त ३ ॥

—संकसुकोऽस्थिरे ॥

चचलस्वभाववाले पुरुषके नाम २॥

सकसुक १ अस्थिर २ ॥

व्यसनार्तोपरक्तौ द्वौ—

दैवी और मानुषी पीडासे युक्त पुरुषके

नाम २ ॥ व्यसनार्त्त १ उपरक्त २ ॥

—विहस्तव्याकुलौ समौ ॥४३॥

शोकादिसे व्याकुलपुरुषके नाम २॥

विहस्त १ व्याकुल २ ॥ ४३ ॥

—विक्लवो विह्वलः—

विकलपुरुषके नाम २ ॥ विक्लव १

विह्वल २ ॥

—स्यात्तु विवशोऽरिष्टदुष्टधीः ॥

मरणके समीप आनेसे जिसकी

बुद्धि विपरीत होजाय उस पुरुषके नाम

२ ॥ विवश १ अरिष्टदुष्टधी २ ॥

कश्यः कशार्हे—

बेतमारने योग्यके नाम २ ॥ कश्य १ कशार्हे २ ॥

—सन्नद्धे त्वाततायी वधोद्यते ॥४४॥

मारनेयोग्यका नाम १ ॥ आत-
तायिन् १ ॥ ४४ ॥

द्वेष्ये त्वक्षिगतौ—

द्वेष करने लायकके नाम २ ॥

द्वेष्य १ अक्षिगत २ ॥

—वध्यः शीर्षच्छेद्य इमौ समौ ॥

शिरकाटने योग्यके नाम २॥ वध्य १

शीर्षच्छेद्य २ ॥

विष्यो विषेण यो वध्यो—

विषकरके मारने योग्यका नाम १॥

विष्य १ ॥

—मुसल्यो मुसलेन यः ॥४५॥

मुसलसे मारने योग्यका नाम १ ॥

मुसल्य १ ॥ ४५ ॥

शिश्विदानोऽकृष्णकर्मा—

पापकर्म न करनेवाले पुरुषके नाम

२ ॥ शिश्विदान १ अकृष्णकर्मन् २ ॥

—चपलश्चिकुरः समौ ॥

विना दोष विचारे मारनेवालेके नाम

२ ॥ चपल १ चिकुर २ ॥

दोषैकदृक्पुरोभागी—

केवल दोषका ही दृष्टि करनेवालेके

नाम २॥ दोषैकदृक् १ पुरोभागिन् २ ॥

—निकृतस्वनृजुः शठः ॥४६॥

कुटिलहृदयके नाम ३ ॥ निकृत १

अनृजु २ शठ ३ ॥ ४६ ॥

कर्णेजपः सूचकः स्या—

चुगलखोरके नाम २ ॥ कर्णेजप १

सूचक २ ॥

—त्पिशुनो दुर्जनः खलः ॥

आपसमें भेद करानेवालेके नाम ३॥

पिशुन १ दुर्जन २ खल ३ ॥

नृशंसो घातुक' शूर' पापो-
 घातक अथवा कठोरपुरुषके नाम ४
 नृशंस १ घातुक २ शूर ३ पाप ४ ॥
 -पूर्वस्तु वञ्चक' ॥ ४७ ॥
 व्यक्तके नाम २ ॥ वृत् १ वञ्चक २ ॥ ४७ ॥
 अज्ञे मूढयथाजातभूर्खर्वधेयवा
 लिशा' ॥
 मूर्खके नाम १ ॥ अज्ञ १ मूढ २
 यथाजात ३ मूर्ख ४ वैधेय ५ वालिशा ६ ॥
 कर्म्ये कृपणस्तु क्विपचानमित
 पचाः ॥ ४८ ॥
 कृपणके नाम १ ॥ कर्म्ये १ कृपण २
 क्षुद्र ३ क्विपचान ४ मितप्यञ्च ५ ॥ ४८ ॥
 निःस्वस्तु दुर्विधो दीनो वरि
 धो दुर्गतोऽपि सः ॥
 दरिद्रपुरुषके नाम १ ॥ निःस्व १ दुर्विध
 २ दीन ३ दरिद्र ४ दुर्गत ५ ॥
 वनीयको याचनको मागणी
 याचकार्यिनौ ॥ ४९ ॥
 मागनेगणके नाम १ ॥ वनीयक १
 याचनक २ मागण ३ याचक ४ अर्थिन्
 ५ ॥ ४९ ॥
 अहकारवानहयु'-
 अहकारयुक्त पुरुषके नाम २ ॥ अहं-
 कारवान् १ अहयु २ ॥
 -शुभयुस्तु शुभान्वित' ॥

शुभयुक्त पुरुषके नाम २ ॥ शुभ्यु १
 शुभान्वित २ ॥
 दिव्योपपादुका देवा-
 देवताभोक्ता नाम १ ॥ दिव्योपपा
 दुक १ ॥
 -नृगवाद्या जरायुजाः ॥ ५० ॥
 मनुष्य, गौ आदि 'जरायुज' कहला
 ते हैं ॥ ५० ॥
 स्वेदजाः कृमिर्वशाद्याः-
 श्रीवा और बांस आदि 'स्वेदज'
 कहलाते हैं ॥
 -पक्षिसर्पादयोऽण्डजा ॥
 पक्षी, सर्प आदि 'अण्डज' कहलाते
 हैं ॥
 (इति प्राणिवर्ग)
 उद्भिद्वस्तकयुत्समाद्या-
 वृक्ष, बेल, घास आदि 'उद्भिद'
 कहलाते हैं ॥
 -उद्भिदुद्भिज्जमुद्भिदम् ॥ ५१ ॥
 उद्भिदके नाम ३ ॥ उद्भिद १
 उद्भिज २ उद्भिद ३ ॥ ५१ ॥
 सुन्दरं रुचिरं चारु मुपम सा
 धु शीमनम् ॥ कान्तं मनीरम
 रुच्य मनोज्ञ मञ्जु मञ्जुलम् ॥
 ॥ ५२ ॥
 सुन्दरके नाम १ ॥ सुन्दर १ रुचिर २

चारु ३ सुपम ४ साधु ५ शोभन ६
कान्त ७ मनोरम ८ रुच्य ९ मनोज्ञ १०
मञ्जु ११ मञ्जुल १२ ॥ ५२ ॥

तदासेचनकं तृप्तेर्नास्त्यन्तो
यस्य दर्शनात् ॥

जिसके देखनेसे तृप्तिके अन्तको प्राप्त न
हो उसका नाम १ ॥ आसेचनक १ ॥

अभीष्टेऽभीप्सितं ह्यं दयितं
वल्गुभं प्रियम् ॥ ५३ ॥

प्रियके नाम ६ ॥ अभीष्ट १ अभी-
प्सित २ ह्यं ३ दयित ४ वल्गुभ ५
प्रिय ६ ॥ ५३ ॥

निकृष्टप्रतिकृष्टावरेफयाप्याव-
माधमाः ॥ कुपूयकुत्सिताव-
द्यखेटगर्हाणकाः समाः ॥ ५४ ॥

अधमके नाम १३ ॥ निकृष्ट १ प्रति-
कृष्ट २ अवेन् ३ रेफ ४ याप्य ५ अवम
६ अधम ७ कुपूय ८ कुत्सित ९ अवद्य
१० खेट ११ गर्ह १२ अणक १३
॥ ५४ ॥

मलीमसं तु मलिनं कञ्चरं मल-
दूषितम् ॥

मलिनके नाम ४ ॥ मलीमस १ मलि-
न २ कञ्चर ३ मलदूषित ४

पूतं पवित्रं मेध्यं च-

पवित्रके नाम ३ ॥ पूत १ पवित्र २ मेध्य ३ ॥

—वीध्रं तु विमलार्थकम् ॥ ५५ ॥
स्वभावसे निर्मलके नाम २ ॥ वीध्र १
विमलार्थक २ ॥ ५५ ॥

निर्णिक्तं शोधितं मृष्टं निःशो-
ध्यमनवस्करम् ॥

शुद्ध कियेहुएके नाम ५ ॥ निर्णिक्त १
शोधित २ मृष्ट ३ निःशोध्य ४ अन
वस्कर ५ ॥

असारं फल्गु-

असारवस्तुके नाम २ ॥ असार १ फल्गु २ ॥

—शून्यं तु वशिकं तुच्छरिक्त-
के ॥ ५६ ॥

शून्यके नाम ४ ॥ शून्य १ वशिक २
तुच्छ ३ रिक्तक ४ ॥ ५६ ॥

क्लीबे प्रधानं प्रमुखप्रवेकानुत्त-
मोत्तमाः ॥ मुख्यवर्यवरेण्याश्च
प्रवर्होऽनवराध्ववत् ॥ ५७ ॥

पराध्व्याप्रप्राग्रहरप्राग्र्याग्र्या-
प्रीयमग्रियम् ॥

प्रधानके नाम १७ ॥ प्रधान १ प्रमुख २
प्रवेक ३ अनुत्तम ४ उत्तम ५ मुख्य ६
वर्य ७ वरेण्य ८ प्रवर्ह ९ अनवरार्ध १०

॥ ५७ ॥ परार्ध १ १ अग्र १ २ प्राग्रहर १ ३
प्राग्र्य १ ४ अग्र्य १ ५ अग्रिय १ ६ अग्रिय १ ७

श्रेयान् श्रेष्ठः पुष्कलः स्यात्सत्त
मश्चातिशोभने ॥ ५८ ॥

अत्तिस्तुदरके नाम १ ॥ श्रेयस १
श्रेष्ठ २ पुष्कल ३ सत्तम ४ अतिशोभन
१ ॥ १८ ॥

स्युरुत्तरपदे व्याघ्रपुंगवपभक्तु
धरा ॥ सिंहशादूलनागाद्या
पुसि श्रेष्ठाथगोधरा ॥ १९ ॥

व्याघ्र, पुंगव, ऋषय, कुन्जर,
सिंह, शादूल, नागादि शब्दोंके उत्तर
जानेसे श्रेष्ठ अर्थके वाचक होते हैं जैसे
पुरुषम्याघ्र, शिवपुङ्गव इत्यादि ॥ १९ ॥

अप्राप्यं द्रयहीनि द्वे अप्र
धानोपसर्जने ॥

अप्रधानक नाम ३ ॥ अप्राप्य १ अप्र-
धान २ उपसर्जन ३ ॥

विशङ्कटं पृथु शृङ्गदिशाल पृथुल
महत् ॥ ६० ॥ बहोरुविपुलं-

श्रीरेके नाम ९ ॥ विशङ्कट १ पृथु
२ शृङ्ग ३ विशाल ४ पृथुल ५ महत् ६
॥ ६० ॥ बहू ७ उरु ८ विपुल ९ ॥

-पीनपीयी तु स्थूलपीवरे ॥

मोटेके नाम ४ ॥ पीम १ पीवन् २
स्थूल ३ पीवर ४ ॥

स्तोकाल्पसुल्लका सूक्ष्मं कृष्ण
दर्भं कृशं तनु ॥ ६१ ॥ त्रिमा
मात्राश्रुतिं पुमि लबलंशक
णाणष ॥

थोटेके नाम १४ ॥ स्तोफ १ अत्य २
सुल्लक ३ सूक्ष्म ४ कृष्ण ५ दम्भ ६ कृश
७ तनु ८ ॥ ६१ ॥ मात्राश्रुति १०

ल्य ११ लेश १२ कण १३ अणु १४ ॥
अत्यल्पेऽल्पिष्ठमल्पीय कनी
योगीय इत्यपि ॥ ६२ ॥

अतिअल्पके नाम ४ ॥ अल्पिष्ठ १
अल्पीयस् २ कनीयस् ३ अणीयस् ४ ॥ ६२ ॥
प्रभूत प्रचुर प्राज्यमदर्भं बहुल
बहु ॥ पुरुहूः पुरु भूमिष्ठं स्फारं
भूयस् मूरि च ॥ ६३ ॥

बहुतके नाम १२ ॥ प्रभूत १ प्रचुर २
प्राज्य ३ अदर्भ ४ बहुल ५ बहु ६ पुरुहू ७
पुरु ८ भूमिष्ठ ९ स्फार १ भूयस् ११
मूरि १२ ॥ ६३ ॥

परःशताद्यास्ते येपा परा सं
ख्या शतादिकात् ॥

जिनकी संख्या शतस अर्थात् सहास
दिसे अधिक हो वह पर शत भाषि
कहाते ह ॥

गणनीये तु गणेर्य-

गिननयोग्य वस्तुके नाम २ ॥ गण
नीय १ गणय २ ॥

-संख्याते गणित-

गिनकरने नाम २ ॥ अयान १
गणित २ ॥

अथ समं सर्वम् ॥ ६४ ॥

विश्वमशेषं कृत्स्नं समस्तानि-

खिलाखिलानि निःशेषम् ॥

समग्रं सकलं पूर्णमखण्डं स्याद-
नूनके ॥ ६५ ॥

सम्पूर्णके नाम १४ ॥ सम १ सर्व २

॥ ६४ ॥ विश्व ३ अशेष ४ कृत्स्न ५

समस्त ६ निखिल ७ अखिल ८ निःशेष

९ समग्र १० सकल ११ पूर्ण १२

अखण्ड १३ अनूनक १४ ॥ ६५ ॥

घनं निरन्तरं सान्द्रं-

घनेके नाम ३ ॥ घन १ निरन्तर २ साद्र ३ ॥

-पेलवं विरलं तनु ॥

छितरे (छीदे) के नाम ३ ॥ पेलव

१ विरल २ तनु ३ ॥

समीपे निकटासन्नसन्निकृष्टस-

नीडवत् ॥ ६६ ॥ सदेशाभ्या-

शसविधसमर्यादसवेशवत् ॥

उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णाभ्यग्राअ

प्यभितोऽव्ययम् ॥ ६७ ॥

समीपके नाम १५ ॥ समीप १

निकट २ आसन्न ३ सन्निकृष्ट ४ सनीड

५ ॥ ६६ ॥ सदेश ६ अभ्याश ७ सविध

८ समर्याद ९ सवेश १० उपकण्ठ ११

अन्तिक १२ अभ्यर्ण १३ अभ्यग्रा १५

अभितः १५ ॥ ६७ ॥

संसक्ते त्वव्यवहितमपदान्तर-

मित्यपि ॥

मिलेद्वएके नाम ३ ॥ संसक्त १ अव्य

वहित २ अपदान्तर ३ ॥

नेदिष्ठमन्तिकतमं-

अतिसमीपके नाम २ ॥ नेदिष्ठ १

अन्तिकतम २ ॥

-स्यादूरं विप्रकृष्टकम् ॥ ६८ ॥

दूरके नाम २ ॥ दूर १ विप्रकृष्ट २ ॥ ६८

दवीयश्च दविष्ठं च सुदूरे-

अत्यन्तदूरिके नाम ३ ॥ दवीयसू १

दविष्ठ २ सुदूर ३ ॥

-दीर्घमायतम् ॥

लम्बेके नाम २ ॥ दीर्घ १ आयत २ ॥

वर्तुलं निस्तलं वृत्तं-

गोलके नाम ३ ॥ वर्तुल १ निस्तल २

वृत्त ॥

-बन्धुरं तून्नतानतम् ॥ ६९ ॥

ऊंचेनीचेके नाम २ ॥ बन्धुर १ उन्न

तानत २ ॥ ६९ ॥

उच्चप्रांशून्नतोदग्रोच्छितास्तुङ्गे-

ऊंचके नाम ६ ॥ उच्च १ प्राशु २

उन्नत ३ उदग्र ४ उच्छित ५ तुङ्ग ६ ॥

--ऽथ वामने ॥

न्यङ्नीचखर्वहस्वाः स्यु-

वौने पुरुषके नाम ५ ॥ वामन १

न्यक् २ नीच ३ खर्व ४ हस्व ५ ॥

—रवामेज्वनतानसम् ॥ ७० ॥

नमेष्टके नाम ३॥ अशाम १ अश-
नस २ आनस ३ ॥ ७० ॥

अराल वृजिनं जिह्वमूर्धिमत्कु-

म्भित नतम् । आविद्धं कुटिलं

मुम वेष्टित वक्रमित्यपि ७१

टेटक नाम ११ अराल १ वृजिन २

जिह्व ३ ऊर्मिमत् ४ कुम्भित ५ नत ६

आविद्ध ७ कुटिल ८ मुम ९ वक्रित

१ वक्र ११ ॥ ७१ ॥

ऋभावाजिह्वप्रगुणौ-

सीधेके नाम ३॥ ऋजु १ अजिह्व

२ प्रगुण ३ ॥

—म्यस्ते त्वप्रगुणाकुलौ ॥

म्याकुलके नाम ३॥ म्यस्त १ अप्र

गुण २ आकुल ३॥

शाश्वतसु ध्रुवो नित्यसदातनस

नातनाः ॥ ७२ ॥

नित्यके नाम ५॥ शाश्वत १ ध्रुव २

नित्य ३ सदातन ४ सनातन ५ ॥ ७२ ॥

स्यास्तु स्थिरतरं स्थेया

अगिम्यारके नाम ३॥ स्यास्तु १

स्थिरतर २ स्थेय ३ ॥

—नेकरूपतया तु यं ॥

कान्तव्यापी स कृतस्य

निधत एनेवात्का माग १॥ कृतस्य

—स्यावरो जङ्गमेतर ॥ ७३ ॥

वृक्षादिके नाम २ स्यावर १ जङ्ग-

मेतर २ ॥ ७३ ॥

घरिष्यु जङ्गमचरं व्रसमिर्द्ध-

चराचरम् ॥

घलनेवाढेके नाम ६ ॥ घरिष्यु १

व्रसम २ चर ३ व्रस ४ इग ५ वा

चर ६ ॥

चलन कम्पनं कम्प चल लोल

चलाचलम् ॥ ७४ ॥ चञ्चल

तरलं चैव पारिप्लवपरिप्लवे ॥

कापनेके नामे १० ॥ चलन कम्प

२ कम्प ३ चल ४ लोल ५ चला

चल ६ ॥ ७४ ॥ चञ्चल ७ तरल ८

पारिप्लव ९ परिप्लव १० ॥

अतिरिक्तं समाधिको-

अधिकरे नाम २॥ अतिरिक्त १ सम्-

पिक २ ॥

—दन्संधिस्तु संहस ॥ ७५ ॥

मिजापक नाम २॥ दन्संधि १ संहस २

२ ॥ ७५ ॥

ककर्ज कठिनं मूर्धं कटोर निष्टुरं

दृढम् ॥ जठर मूर्धमन्मूर्ध-

कठिनं नाम १॥ कर्कश १ कठिन २

मूर्ध ३ कटोर ४ निष्टुर ५ दृढ ६

जठर ७ मूर्धमन् ८ मूर्ध ९ ॥

-प्रवृद्धं प्रौढमेधितम् ॥ ७६ ॥

बढेहुएके नाम ३ ॥ प्रवृद्ध १ प्रौढ, २
एधित ३ ॥ ७६ ॥

पुराणे प्रतनप्रत्नपुरातनचि-
रंतनाः ॥

पुरानेके नाम ९ ॥ पुराण १ प्रतन
२ प्रत्न ३ पुरातन, ४ चिरन्तन ५ ॥

प्रत्यग्रोऽभिनवो नव्यो नवीनो
नूतनो नवः ॥ ७७ ॥ नूतनश्च-

नयेके नाम ७ ॥ प्रत्यग्र १ अभिनव
२ नव्य ३ ॥ नवीन ४ नूतन ५ नव ६
॥ ७७ ॥ नूतन ७ ॥

-सुकुमारं तु कोमलं मृदुलं मृदु ॥

सुकुमारके नाम ४ ॥ सुकुमार १ कोमल
२ मृदुल ३ मृदु ४ ॥

अन्वगन्वक्षमनुगेऽनुपदं क्ली-
वमव्ययम् ॥ ७८ ॥

पीछेके नाम २ ॥ अन्वच् १ अन्वक्ष २
अनुग ३ अनुपद ४ ॥ ७८ ॥

प्रत्यक्षं स्यादैन्द्रियक-

प्रत्यक्षके नाम २ ॥ प्रत्यक्ष १ ऐन्द्रियक २ ॥

-मप्रत्यक्षमतीन्द्रियम् ॥

जो न दीखे उसके नाम २ ॥ अप्रत्यक्ष
१ अतीन्द्रिय २ ॥
एकतानोऽनन्यवृत्तिरेकाग्रै-
कायनावपि ॥ ७९ ॥ अप्ये-

कसर्गएकाग्रयोऽप्येकायनग-
तोऽपि सः ॥

एकाग्रके नाम ७ ॥ एकतान १
अनन्यवृत्ति २ एकाग्र ३ एकायन ४ ॥ ७९ ॥

एकसर्ग ५ एकाग्र्य ६ एकायनगत ७ ॥

पुंस्यादिः पूर्वपौरस्त्यप्रथ-
माद्या-

पहिलेके नाम ९ ॥ आदि १ पूर्व २
पौरस्त्य ३ प्रथम ४ आद्य ५ ॥

-अथास्त्रियाम् ॥ ८० ॥
अन्तो जघन्यं चरममन्त्यपाश्चा-
त्यपश्चिमाः ॥

पिछलेके नाम ६ ॥ ८० ॥ अन्त १
जघन्य २ चरम ३ अन्त्य ४ पाश्चात्य ५
पश्चिम ६ ॥

मोघं निरर्थकं-

व्यर्थके नाम २ ॥ मोघ १ निरर्थक २ ॥

-स्पष्टं स्फुटं प्रव्यक्तमुल्ब-
णम् ॥ ८१ ॥

स्पष्टके नाम ४ ॥ स्पष्ट १ स्फुट २
प्रव्यक्त ३ उल्बण ४ ॥ ८१ ॥

साधारणं तु सामान्य-

सामान्यके नाम २ ॥ साधारण १
सामान्य २ ॥

-मेकाकी त्वेक एककः ॥
अकेलेके नाम ३ ॥ एकाकिन १ एक
२ एकक ३ ॥

मिन्नायका अन्यतर एकस्त्वोऽ-
न्यतरावपि ॥ ८२ ॥

अन्यके नाम १ ॥ मिन्ना १ अन्यतर २
एक ३ त्व ४ अन्य ५ इतर ६ ॥ ८२ ॥

उच्चावच नैकमेद-

अनरुप्रकारके नाम २ ॥ उच्चावच १
नैकमेद २ ॥

-सुषुण्डमविलम्बितम् ॥

शीघ्रके नाम २ ॥ उष्ण १ अवि-
लम्बित २ ॥

अरुणवस्तु ममस्पृ-

मर्ममेदकक नाम २ ॥ अरुण १
ममस्पृश २ ॥

गवार्ध तु निरगलम् ॥ ८३ ॥

जिस्के काई बाधा न हो उससे नाम
२ ॥ गवार्ध १ निरगल २ ॥ ८३ ॥

प्रसर्ध्वं प्रतिकूलं स्यादपसंध्यम
पण्डु च ॥

विपरीतके नाम ४ ॥ प्रसर्ध्व १ प्रति-
कूल २ अपसंध्य ३ अण्डु ४ ॥

वाम शरीर सध्वं स्या-
बाय अगका नाम १ ॥ सध्व १ ॥

-द्वपसध्य तु दक्षिणम् ॥ ८४ ॥

दक्षिण भगका नाम १ ॥ अपसध्य
१ ॥ ८४ ॥

सकट ना तु सबाध -

सकट (भीड़ भागआदि)के नाम २
सकट १ सबाध २ ॥

-कलिलं गहनं समे ॥

जो बड़ी दुःखसे प्राप्त होनेके घोस्य
हा उसके नाम २ ॥ कलिल १ गहन २ ॥

सकीर्णं संकुलाकीर्ण-

नाना जातिके लोगोंके एकत्र बैठनेके
नाम ३ ॥ सकीर्ण १ संकुल २ आकीर्ण ३ ॥

-मुण्डितं परिवापितम् ॥ ८५ ॥

मुण्डे हुएके नाम २ ॥ मुण्डित १ परि-
वापित २ ॥ ८५ ॥

प्रन्थितं सन्धितं हर्ष-

गण्टे हुएके नाम ३ ॥ प्रन्थित १
सन्धित २ हर्ष ३ ॥

-विस्मृत विस्मृत तसम् ॥

किस हृदयेके नाम ३ ॥ विस्मृत १
विस्मृत २ तस ३ ॥

अन्तर्गतं विस्मृत स्या-

भूले हुएके नाम २ ॥ अन्तर्गत १
विस्मृत २ ॥

-प्राप्तप्रणिहिते समे ॥ ८६ ॥

रक्षे हुएके नाम २ ॥ प्राप्त १ प्रणि-
हित २ ॥ ८६ ॥

बोद्धवमं रिवापृतचलिताव

म्पितापुत ॥
घोडा कापत हुएके नाम ६ ॥ रिवा १

प्रेखित २ आधूत ३ चलित ४ आक-
पित ५ धुत ६ ॥

नुत्तनुन्नास्तनिष्ठचूताविद्धक्षि-
त्तेरिताः समाः ॥ ८७ ॥

प्रेरितके नाम ७ ॥ नुत्त १ नुन्न २
अस्त ३ निष्ठचूत ४ आविद्ध ५ क्षित ६
ईरित ७ ॥ ८७ ॥

परिक्षिप्तं तु निवृत्तं-

धेरेहुएके नाम २ ॥ परिक्षिप्त १
निवृत्त २ ॥

-मूपितं मुषितार्थकम् ॥

चुरायेहुयेके नाम २ ॥ मूपित १
मुषित २ ॥

प्रवृद्धप्रसृते-

फैलनेके नाम २ ॥ प्रवृद्ध १ प्रसृत २ ॥

-न्यस्तानिसृष्टे-

फेंकेहुएके नाम २ ॥ न्यस्त १
निसृष्ट २ ॥

-गुणिताहते ॥ ८८ ॥

गुणेहुएके नाम २ ॥ गुणित १ आहत
२ ॥ ८८ ॥

निदिग्धोपचिते-

बढेहुएके नाम २ ॥ निदिग्ध १
उपचित २ ॥

-गूढगुप्ते-

छिपेहुएके नाम २ ॥ गूढ १ गुप्त २ ॥

-गुण्ठितरूपिते ॥

धूलिसे सनेहुएके नाम २ ॥ गुण्ठित
१ रूपित २ ॥

द्रुतावदीर्णे-

द्रवीभूतके नाम २ ॥ द्रुत १ अव-
दीर्ण २ ॥

-उदूर्णोद्यते-

मारनेको उठायेहुए शस्त्रादिके नाम
२ ॥ उदूर्ण १ उद्यत २ ॥

-काचितशिक्षियते ॥ ८९ ॥

छीकेपै धरी हुई वस्तुके नाम २ ॥
काचित १ ॥ शिक्षियत २ ॥ ८९ ॥

घ्राणघ्राते-

सूघेहुएके नाम २ ॥ घ्राण १ घ्रात २

-दिग्धलिप्ते-

लीपेहुएके नाम २ ॥ दिग्ध १ लिप्त २ ॥

-समुदक्तोद्धृते-

कपादिसे निकालेहुए जलादिके नाम
२ ॥ समुदक्त १ उद्धृत २ ॥

-समे ॥

उपरोक्तशब्द समानलिङ्ग होते हैं ॥

वेष्टितं स्याद्वलयितं संवीतं रु-
द्धमावृतम् ॥ ९० ॥

नदी आदिसे धेरेहुएके नाम ६ ॥
वेष्टित १ वलयित २ संवीत ३ रुद्ध ४
आवृत ५ ॥ ९० ॥

रुग्णं मुग्धे-
 दृष्टेद्वयेके नाम २ ॥ रुग्ण १ मुग्ध २ ॥
 -ऽय निश्चितदृष्टुतशात्तानि ते
 जिते ॥
 तेन किये दृष्टेके नाम ४ ॥ निश्चित १
 दृष्टुत २ शात ३ तेजित ४ ॥
 स्मादिनाशोन्मुखं पक्क-
 पकडूप भरनेवा काटनेके योग्य वस्तु
 क नाम २ ॥ निमाशो मुख १ पक २ ॥
 -हीणहीतौ तु छजिते ॥ ९१ ॥
 छज्यायुक्तके नाम ३ ॥ हीण १ हीत २
 छजित ३ ॥ ९१ ॥
 घृष्टे तु घृष्टव्याघृष्टौ-
 वरण कियेदृष्टेके नाम ३ ॥ घृष्ट १ घृष्ट २
 व्याघृष्ट ३ ॥
 -संयोजित उपाहित ॥
 मित्राये हुणके नाम २ ॥ संयोजित
 १ उपाहित २ ॥
 प्राप्य गम्य समासाद्य-
 प्राप्तफरनेक योग्यके नाम ३ ॥ प्राप्य
 १ गम्य २ समासाद्य ३ ॥
 -स्पन्न रीण स्तुत सुतम् ॥ ९२ ॥
 यहते दृष्टेके नाम ४ ॥ स्पन्न १ रीण
 २ स्तुत ३ सुत ४ ॥ ९२ ॥
 गगुर्दं स्मात्सकलितौ-
 गोडदृष्ट अकलित नाम ॥ स्पन्द
 १ सकलित २ ॥

-ऽवगीतं स्व्यातगर्हणं ॥
 निन्दितके नाम २ ॥ अवगीत १
 स्व्यातगर्हण २ ॥
 विविधं स्याद्बहुविधो नाना
 रूपः पृथग्विधं ॥ ९३ ॥
 विविधप्रकारके नाम ४ ॥ विविध १ यद्
 विध २ नानारूप ३ पृथग्विध ४ ॥ ९३ ॥
 अवरीणो धिक्कृतश्चा-
 धिक्कार दृष्टेके नाम २ ॥ अवरीण १
 धिक्कृत २ ॥
 -प्यवध्यस्तोऽवचूर्णितः ॥
 चूर्ण किय गयेके नाम ३ ॥ अवध्यस्त
 १ अवचूर्णित २ ॥
 अनायासकृतं पाण्ट-
 अनयासस किये कथयका नाम १ ॥
 पाण्ट १ ॥
 -स्वनित ध्वनित समे ॥ ९४ ॥
 जिसने शब्द किया हो उसके नाम २ ॥
 स्वनित १ ध्वनित २ ॥ ९४ ॥
 यद्दे सदानितं मूतमुहितं सदि
 र्थं सितम् ॥
 नैधेदृष्टके नाम ६ ॥ यद्दे १ सदानित
 २ मूत ३ ॥ मुरित ४ संदित ५ सित ६ ॥
 निष्पके कथित
 अङ्गी तरह पकायदृष्ट कान् आदिये
 नाम २ ॥ निष्प १ कथित २ ॥

पाके क्षीराज्यहविषां गृतम्
॥ ९५ ॥

पकेहुये घृत दुग्धादिका नाम १ ॥

शृत १ ॥ ९५ ॥

निर्वाणोमुनिवह्वादाँ-

मुनि अग्नि आदिके मुक्तहोनेकानाम

१ ॥ निर्वाण १ ॥

-निर्वातस्तु गतेऽनिले ॥

जब वायु न चलता होउस समयका
नाम १ ॥ निर्वात १ ॥

पक्वं परिणते-

पकेहुयेके नाम २ ॥ पक्क १ परि-
गत २ ॥

-गूनं हन्ने-

हगेहुयेके नाम २ ॥ गून १ हन्न २ ॥

-मीढं तु मूत्रिते ॥ ९६ ॥

मूतेहुयेकेनाम २ ॥ मीढ १ मूत्रित ॥ ९६ ॥

पुष्टे तु पुषितं-

पोषणकियेके नाम २ ॥ पुष्ट १
पुषित २ ॥

-सोढे क्षान्त-

सहेहुयेके नाम २ ॥ सोढ १ क्षान्त २

मुद्धान्तमुद्गते ॥

डाके हुये अन्नादिकेनाम २ ॥ उद्धान्त
१ उद्गत २ ॥

दान्तस्तु दमिते-

दमनकिये वृषम आदिके नाम २ ॥

दान्त १ दमित ॥ २ ॥

शान्तः शमिते-

शमनको प्राप्त हुयेके नाम २ ॥ शान्त
१ शमित २ १

-प्रार्थितेऽर्दितः ॥ ९७ ॥

मागेहुयेके नाम २ ॥ प्रार्थित १
अर्दित २ ॥ ९७ ॥

ज्ञप्तस्तु ज्ञापिते-

जानेहुयेके नाम २ ॥ ज्ञप्त १ ज्ञापित २ ॥

-छन्नश्छादिते-

छायेके नाम २ ॥ छन्न १ छादित २ ॥

पूजितेऽञ्चितः ॥

पूजाकियेगयेके नाम २ ॥ पूजित १
अञ्चित २ ॥

पूर्णस्तु पूरिते-

पूरेके नाम २ ॥ पूर्ण १ पूरित २ ॥

-क्लिष्टः क्लिशिते-

क्लेशितकेनाम २ ॥ क्लिष्ट १ क्लिशित २ ॥

-वसिते सितः ॥ ९८ ॥

समाप्तके नाम २ ॥ अवसित १ सित
२ ॥ ९८ ॥

मुष्टप्लुष्टोषिता दग्धे-

जलेहुयेके नाम ४ ॥ मुष्ट १ प्लुष्ट २
उषित ३ दग्ध ४

तष्टत्वष्टौ तनूकृते ॥

सूक्ष्मकिये गयेक नाम ३ ॥ तट १
 तट २ तनुकृत ३ ॥
 वेधितच्छिद्रितौ विद्धे—
 छेदयेके नाम ३ ॥ वधित १ छिद्रित
 २ विद्ध ३ ॥
 -विभ्रविशौ विचारिते ॥ ९९ ॥
 विचारेके नाम ३ ॥ विभ्र १ विच
 २ विचारित ३ ॥ ९९ ॥
 निष्प्रमे विगतारोको—
 सेनरहितके नाम ३ ॥ निष्प्रम १
 विगत २ अरोक ३ ॥
 -विलीने विद्रुतद्रुतौ ॥
 पिषड जानक नाम ३ ॥ विलीन १
 विद्रुत २ द्रुत ३ ॥
 सिद्धे निवृत्तनिष्प्रभौ—
 सिद्धके नाम ३ ॥ सिद्ध १ निवृत्त २
 निष्प्रभ ३ ॥
 -दारित्ते विभ्रभेष्टितौ ॥ १०० ॥
 धीरेष्टयेक नाम ३ ॥ दारिद्र १ विभ्र
 २ भेष्टित ३ ॥ १०० ॥
 ऊर्वं स्यूतमूर्तं चेति त्रितय
 तन्तुसतते ॥
 तनु निसारण नाम ३ ॥ ऊर् १
 स्यूत २ उत ३ ॥
 स्यादादिते नमस्यितं नम
 गितमपचायितार्धितापऽ
 धितम् ॥ १०१ ॥

पूजितके नाम ३ ॥ अर्धित १ नम
 स्यित २ नमस्मित ३ अपचायित ४ अर्धित
 ५ अपधित ६ ॥ १०१ ॥
 वरिवसिते वरिवस्थितमुपासि
 तं चोपचरितं च ॥
 सेवाकियेगयेके नाम ४ ॥ वरिवस्थित १
 वरिवस्थित २ उपासित ३ उपचरित ४ ॥
 सतापितसततौ घूपितघूपामि
 तौ च दूनश्च ॥ १०२ ॥
 तपायके नाम ९ ॥ सतापित १
 सन्तत २ घूपित ३ घूपायित ४ दूम ५ १०२
 हृष्टे मत्तस्वप्नं प्रहृष्टं प्रमुदितं
 प्रीतं ॥
 हर्षितके नाम ३ ॥ हृष्ट १ मत्त २
 तृप्त ३ प्रहृष्ट ४ प्रमुदित ५ प्रीत ६ ॥
 छिन्नं छातं सूतं कृत्तदातं दित
 छित्तं वृक्कणम् ॥ १०३ ॥
 काठयेके नाम ८ ॥ छिन्न १ छात २
 सूत ३ कृत्त ४ दात ५ दित ६ छित्त
 ७ वृक्कण ८ ॥ १०३ ॥
 सस्य ध्वस्तं भ्रष्टं स्वस्य पस्य
 ध्युतं गालितम् ॥
 धुपटके नाम ७ ॥ सस्य १ ध्वस्त २
 भ्रष्ट ३ स्वस्य ४ पस्य ५ ध्युत ६ गालित ७ ॥
 एव्यं प्राप्तं विभ्रं भावितमा-
 सादितं च मृतं च ॥ १०४ ॥

पायेहुएके नाम ६ ॥ लब्ध १ प्राप्त

२ विन्न ३ भावित ४ आसादित ५ भूत
६ ॥ १०४ ॥

अन्वेषितं गवेषितमन्विष्टं मा-
र्गितं मृगितम् ॥

ढूढेहुएके नाम ५ ॥ अन्वेषित १ गवे-
षित २ अन्विष्ट ३ मार्गित ४ मृगित ५ ॥

आर्द्रं सार्द्रं क्लिन्नं तिमितं स्ति-
मितं समुन्नमुत्तं च ॥ १०५ ॥

भीजेहुएके नाम ७ ॥ आर्द्र १ सार्द्र
२ क्लिन्न ३ तिमित ४ स्तिमित ५ समुन्न
६ उक्त ७ ॥ १०५ ॥

त्रातं त्राणं रक्षितमविद्र गोपा-
यितं च गुप्तं च ॥

रक्षाकिये गयेके नाम ६ ॥ त्राण १
त्रात २ रक्षित ३ अविद्र ४ गोपायित ५
गुप्त ॥ ६ ॥

अवगणितमवमतावज्ञातेऽवमा-
नितं परिभूते ॥ १०६ ॥

अपमानकिये गयेके नाम ५ ॥ अवग-
णित १ अवमत २ अवज्ञात ३ अव-
मानित ४ परिभूत ५ ॥ १०६ ॥

त्यक्तं हीनं विधुतं समुज्झितं
धृतमुत्सृष्टे ॥

त्यागेहुयेके नाम ६ ॥ त्यक्त १ हीन २
विधुत ३ समुज्झित ४ धृत ५ उत्सृष्ट ६ ॥

उक्तं भाषितमुदितं जल्पितमा-
ख्यातमभिहितं लपितम् १०७

कहेहुयेके नाम ७ ॥ उक्त १ भाषित

२ उदित ३ जल्पित ४ आख्यात ५
अभिहित ६ लपित ७ ॥ १०७ ॥

बुद्धं बुधितं मनितं विदितं प्र-
तिपन्नमवसित्तावगते ॥

जानेगयेके नाम ७ ॥ बुद्ध १ बुधित
२ मनित ३ विदित ४ प्रतिपन्न ५ अव-
सित ६ अवगत ७ ॥

ऊरीकृतमुररीकृतमंगीकृतमा-
श्रुतं प्रतिज्ञातम् ॥ १०८ ॥

संगीर्णविदितसंश्रुतसमाहितो
पश्रुतोपगतम् ॥

अगीकारकिये गयेके नाम १ ॥ ऊरी-
कृत १ उररीकृत २ अगीकृत ३
आश्रुत ४ प्रतिज्ञात ५ ॥ १०८ ॥
संगीर्ण ६ विदित ७ संश्रुत ८ समाहित
९ उपश्रुत १० उपगत ११ ॥

ईलितशस्तपणायितपनायित-
प्रणुतपणितपनितानि ॥ १०९
अवगीर्णवर्णिताभिष्टुतेडिता-
नि स्तुतार्थानि ॥

स्तुति किये गयेके नाम १ ॥ ईलित

१ शस्त २ पणायित ३ पनायित ४
प्रणुत ५ पणित ६ पनित ७ ॥ १०९ ॥
अवगीर्ण ८ वर्णित ९ अभिष्टुत १०
ईडित ११ स्तुत १२ ॥

भक्षितचर्वितलीढप्रत्यवसित-
गिलितखादितप्सातम् ११० ॥
अभ्यवहृताभजग्धप्रस्तग्लस्ता
शित मुक्ते ॥

खायगयेके नाम १४ ॥ भक्षित १
चर्वित २ लीढ ३ प्रत्यवसित ४ गिलित
५ खादित ६ प्सात ७ ॥ ११० ॥
अभ्यवहृत ८ अभ ९ जग्ध १० प्रस्त
११ ग्लस्त १२ अशित १३ मुक्त १४

क्षेपिष्ठसोदिष्ठमेष्ठपरिष्ठस्यवि
ष्ठबंधिष्ठा ॥ १११ ॥ क्षिप्रधुव्रा
मीप्सितपृथुपीवरषडुलप्रकर्षा-
या ॥

भाषा—(अतिशय क्लृप्ते त्वरितका
नाम) क्षेपिष्ठ १ ॥ (अतिशय क्षुद्रका
नाम) सोदिष्ठ १ ॥ (अतिशय अभी
रिक्तका नाम) मेष्ठ १ ॥ अतिशय
पृथुका नाम) परिष्ठ १ ॥ (अतिशय
स्यूका नाम) स्यविष्ठ १ ॥ अतिशय
बहुका नाम) बहिष्ठ १ ॥ १११ ॥

साधिष्ठव्राधिष्ठस्फेष्ठगरिष्ठहसि
ष्ठवृन्दिष्ठाः ॥ ११२ ॥
बाढव्यायतभडुगुरुबामन
वृन्दारिकातिक्षये ॥

भाषा—(अतिशय बाढका नाम)
साधिष्ठ १ ॥ (अतिशय दीर्घका नाम)

व्राधिष्ठ १ ॥ अतिशय स्फिरका नाम)
स्फेष्ठ १ ॥ (अतिशयका गुरूका नाम)
गरीष्ठ १ ॥ (अतिशय हृत्स्वका नाम) हृसिष्ठ
१ ॥ (अतिशय वृन्दारका नाम)
वृन्दिष्ठ ॥ ११२ ॥

इति विशेष्यनिष्ठावर्गः ॥ १ ॥

अथ संकीर्णवर्गः २

प्रकृतिप्रत्यायांती सकीर्णे
लिङ्गमुभयेत् ॥

भाषा—प्रकृतिप्रत्यय आदिके अर्थके
द्वारा संकीर्णवर्गमें लिङ्ग जानने ॥

कर्म क्रिया-

क्रियाके नाम २ ॥ कर्मन् १ क्रिमा २ ॥

-सत्सातत्ये गम्ये स्युरपर-
स्परा ॥ १ ॥

अपरस्परोंके निरन्तर चञ्चनेका नाम
१ ॥ अपरस्पर १ ॥ १ ॥

साकस्मात्प्रगवधने पारायणप-
रायणे ॥

साकस्म्यके बधनका नाम १ ॥ पारा
यण १ ॥ आसंगके बधनका नाम १ ॥
परायण १ ॥

यदृच्छा स्वैरिता-

स्तन्त्रताके नाम २ ॥ यदृच्छा १

स्वैरिता ॥ २ ॥

-देतुशून्या त्वास्या विल-

क्षणम् ॥ २ ॥

बिना कारणकी स्थितिका नाम १ ॥
विलक्षण १ ॥ २ ॥

शमथस्तु शमः शान्ति-
शातिके नाम ३ ॥ शमथ १ शम २
शान्ति ३ ॥

-दान्तिस्तु दमथो दमः ॥
इन्द्रियोंके रोकनेके नाम ३ ॥ दाति
१ दमथ २ दम ३ ॥

अवदानं कर्मवृत्तं-
अच्छेकर्मके नाम २ ॥ अवदान १
कर्मवृत्त २ ॥

-काम्यदानं प्रवारणम् ॥ ३ ॥
कामनाकरके दान देनेके नाम २ ॥
काम्यदान १ प्रवारण २ ॥ ३ ॥

वशक्रिया संवननं-
वशीकरणके नाम २ ॥ वशक्रिया १
सवनन २ ॥

-मूलकर्म तु कार्मणम् ॥
औषधीकी जड़ आदिसे उच्चाटनके
नाम २ ॥ मूलकर्म १ कार्मण २ ॥

विधूननं विधुवनं-
कांपनेके नाम २ ॥ विधूनन १
विधुवन २ ॥

-तर्पणं प्रीणनावनम् ॥ ४ ॥
तृप्तिके नाम ३ ॥ तर्पण १ प्रीणन २
अवन ३ ॥ ४ ॥

पर्याप्तिः स्यात्परित्राणं हस्त-
धारणमित्यापि ॥

कोई किसीको मारता हो उसके रोक
लेनेके अर्थ हाथ पकड़ लेनेके नाम ३ ॥
पर्याप्ति १ परित्राण २ हस्तधारण ३ ॥

सेवनं सीवनं स्यूति-
सीनेके नाम ३ ॥ सेवन १ सीवन २
स्यूति ३ ॥

-विदरः स्फुटनं भिदा ॥ ५ ॥
फूटनेके नाम ३ ॥ विदर १ स्फुटन २
भिदा ३ ॥ ५ ॥

आक्रोशनमभीषङ्गः-
गरियानेके नाम २ ॥ आक्रोशन १
अभीषङ्ग २ ॥

-संवेदो वेदना न ना ॥
अनुभवज्ञानके नाम २ ॥ संवेद १
वेदना २ ॥

संमूर्च्छनमभिव्याप्ति-
सत्र ओरसे व्याप्तिके नाम २ ॥ संमू-
च्छन १ अभिव्याप्ति २ ॥

-र्याच्चा भिक्षार्थनार्दना ॥ ६ ॥
भीखके नाम ४ ॥ याच्चा १ भिक्षा २
अर्थना ३ अर्दना ४ ॥ ६ ॥

वर्धनं छेदने-
काटनेके नाम २ ॥ वर्धन १ छेदन २ ॥
-5थ द्वे ध्यानन्दनसम्भोजने ॥

भक्षितचर्कितलीढप्रत्यवसित-
गिलितखादितप्सातम् ११० ॥
अभ्यवहृसाभजग्घप्रस्वग्लस्ता
शिव मुक्ते ॥

खायेगयेके नाम १४॥ भक्षित १
चर्कित २ लीढ ३ प्रत्यवसित ४ गिलित
५ खादित ६ प्सात ७ ॥ ११० ॥
अभ्यवहृसा ८ अभ ९ जग्घ १० मस्त
११ ग्लस्ता १२ अशित १३ मुक्ते १४

क्षोपिष्ठक्षोदिष्ठप्रेष्ठवरिष्ठस्यवि
ष्ठर्षहिष्ठा ॥ १११ ॥ सिमधुद्रा
भोप्सितपृथुपीवरबहुलप्रकर्पा-
था ॥

भाषा—(अतिशय करक स्वरितका
नाम) क्षोपिष्ठ १ ॥ (अतिशय क्षुद्रका
नाम) क्षोदिष्ठ १ ॥ (अतिशय अमी
प्लितका नाम) प्रेष्ठ १ ॥ अतिशय
पृथुका नाम) वरिष्ठ १ ॥ (अतिशय
स्थूटका नाम) स्पनिष्ठ १ ॥ अतिशय
बहुलका नाम) बहिष्ठ १ ॥ १११ ॥

साधिष्ठद्राधिष्ठस्केष्ठगरिष्ठहसि
ष्ठवृन्दिष्ठा ॥ ११२ ॥
षाडध्यापववदुगुरुबामन
घृन्दारिकातिशये ॥

भाषा—(अतिशय षाडका नाम)
साधिष्ठ १ ॥ (अतिशय दीर्घका नाम)

द्राधिष्ठ १ ॥ अतिशय स्फिरका नाम)
स्केष्ठ १ ॥ (अतिशयका गुल्का नाम)
गरिष्ठ १ ॥ (अतिशय ह्रस्वका नाम) इष्ठिष्ठ
१ ॥ (अतिशय घृन्दारका नाम)
इन्दिष्ठ ॥ ११२ ॥

इति विशेष्यनिबर्गः ॥ १ ॥

अथ संकीर्णवर्गः २
प्रकृतिप्रत्यार्यादी संकीर्णे
लिङ्गभ्रूयते ॥

भाषा—प्रकृतिप्रत्यय आदिके अर्थके
द्वारा संकीर्णवर्गमें लिङ्ग जानने ॥

कर्म क्रिया—

क्रियाके नाम २ ॥ कर्मन् १ क्रिया २ ॥

—तत्सावत्ये गम्ये स्युरपर-
स्परा ॥ १ ॥

अपरस्परके निरन्तर चञ्चनका नाम
१ ॥ अपरस्पर १ ॥ १ ॥

साकस्पासगबचने पारायणप-
रायणे ॥

साकस्वके वचनका नाम १ ॥ पारा
यण १ ॥ आसुगके वचनका नाम १ ॥
परायण १ ॥

यहच्छा स्वैरिता—

एतन्त्रताके नाम २ ॥ यच्छा १

स्वैरिता ॥ २ ॥

—हेतुशून्या त्वास्या विष्ठ-
क्षणम् ॥ २ ॥

विना कारणकी स्थितिका नाम १ ॥
विलक्षण १ ॥ २ ॥

शमथस्तु शमः शान्ति-

शातिके नाम ३ ॥ शमथ १ शम २
शान्ति ३ ॥

-दान्तिस्तु दमथो दमः ॥

इद्रियोंके रोकनेके नाम ३ ॥ दाति
१ दमथ २ दम ३ ॥

अवदानं कर्मवृत्तं-

अच्छेकर्मके नाम २ ॥ अवदान १
कर्मवृत्त २ ॥

-काम्यदानं प्रवारणम् ॥ ३ ॥

कामनाकरके दान देनेके नाम २ ॥
काम्यदान १ प्रवारण २ ॥ ३ ॥

वशक्रिया संवननं-

वशीकरणके नाम २ ॥ वशक्रिया १
सवनन २ ॥

-मूलकर्म तु कार्मणम् ॥

औपधीकी जड आदिसे उच्चाटनके
नाम २ ॥ मूलकर्म १ कार्मण २ ॥

विधूननं विधुवनं-

कापनेके नाम २ ॥ विधूनन १
विधुवन २ ॥

-तर्पणं प्रीणनावनम् ॥ ४ ॥

तृप्तिके नाम ३ ॥ तर्पण १ प्रीणन २
अवन ३ ॥ ४ ॥

पर्याप्तिः स्यात्परित्राणं हस्त-
धारणमित्यापि ॥

कोई किसीको मारता हो उसके रोक
लेनेके अर्थ हाथ पकड लेनेके नाम ३ ॥
पर्याप्ति १ परित्राण २ हस्तधारण ३ ॥

सेवनं सीवनं स्यूति-

सीनेके नाम ३ ॥ सेवन १ सीवन २
स्यूति ३ ॥

-विदरः स्फुटनं भिदा ॥ ५ ॥

फूटनेके नाम ३ ॥ विदर १ स्फुटन २
भिदा ३ ॥ ५ ॥

आक्रोशनमभीषद्गः-

गरियानेके नाम २ ॥ आक्रोशन १
अभीषद्ग २ ॥

-संवेदो वेदना न ना ॥

अनुभवज्ञानके नाम २ ॥ संवेद १
वेदना २ ॥

संमूर्च्छनमभिव्याप्ति-

सत्र ओरसे व्याप्तिके नाम २ ॥ संमू-
च्छन १ अभिव्याप्ति २ ॥

-र्याच्चा भिक्षार्थनार्दना ॥ ६ ॥

भीखके नाम ४ ॥ र्याच्चा १ भिक्षा २
अर्थना ३ अर्दना ४ ॥ ६ ॥

वर्धनं छेदनं-

काटनेके नाम २ ॥ वर्धन १ छेदन २ ॥

-ऽय द्वे श्रानन्दनसम्भोजने ॥

आप्रच्छन्न-	बरदानके नाम २॥ बर १ इति २॥ ८
कुशाल प्रश्न सूत्रन्त्ये उत्पन्न ह्यु आन	ओष' ध्रुये-
न्दक नाम १ ॥ आनन्दन १ समाञ्जन	जञानके नाम २॥ ओष १ ष्योपर २॥
२ आप्रच्छन्न १ ॥	-नयो नाये-
-मयाम्नाय' समदाय'-	मीतिक नाम २ ॥ मय १ नाय २॥
गुरुके उत्तम परम्परा उपदेश कर	-उपानिर्जीर्णो-
नेक नाम २॥ आम्नाय १ सम्प्रदाय २ ॥	जीर्णताके नाम २ ॥ आति १
-क्षये क्षिया ॥ ७ ॥	जीर्णि २ ॥
क्षय होन्के नाम २ ॥ क्षय १	भ्रमो भ्रमौ ॥
क्षिया २ ॥ ७ ॥	भ्रमके नाम २ ॥ भ्रम १ भ्रमि २ ॥
मद्दे माहो-	स्फातिर्वृद्धौ-
छेनेके नाम २॥ मद्द १ माह २ ॥	वृद्धताके नाम १॥ स्फाति १ इति २ ॥
-वश' फान्धौ-	-प्रया रूप्यतौ-
इच्छाके नाम २॥ वश १ काति २ ॥	प्रसिद्धताके नाम २ ॥ प्रया १
-रक्षणस्त्राणे -	इयाति २ ॥
रक्षाक नाम २॥ रक्षण १ त्राण २॥	सृष्टि' पृक्तौ-
-रण' कणे ॥	छनेके नाम २ ॥ सृष्टि १ श्रुति २ ॥
शब्दकारके नाम १॥ रण १ कण २॥	स्नवः स्वये ॥ ९ ॥
व्यघो वेधे-	शरत्ताके नाम २ ॥ सव १ सव २॥ ९
छेदनेके नाम २ ॥ व्यध १ कथ २ ॥	एधा समृद्धौ-
-पघा पाके-	इदिके नाम २ ॥ एधा १ समृद्धि १ ॥
अन्नादि पचानेक नाम २॥ पघा १	-स्फुरणे स्फुरणा-
पाप २ ॥	कटकभके नाम २॥ स्फुरण १ स्फुरण २ ॥
-इवो इवी-	-प्रमिती प्रमा ॥
पुत्रानक नाम २ ॥ इव १ इति २ ॥	प्रयापञ्चानक नाम २ ॥ प्रमिति १
वगे पूर्त्ता ५ ८ ॥	प्रमा २ ॥

प्रसूतिः प्रसवे-

जन्महोनेके नाम २ ॥ प्रसूति १

प्रसव २ ॥

-च्योते प्राधारः-

घृतादिके चुअनेके नाम २ ॥ च्योत १

प्राधार २ ॥

-क्लमथः कलमे ॥ १० ॥

ग्लानिके नाम २ ॥ क्लमथ १ क्लम
२ ॥ १० ॥

उत्कर्षोऽतिशये-

प्रकर्षके नाम २ ॥ उत्कर्ष १ अति-
शय २ ॥

-संधिः श्लेषे-

मिलापके नाम २ ॥ संधि १ श्लेष २

-विषय आश्रये ॥

आश्रयके नाम २ ॥ विषय १
आश्रय २ ॥

क्षिपायां क्षेपणं-

फेंकने (प्रेरणे) के नाम २ ॥ क्षिपा
१ क्षेपण २ ॥

-गीर्णिर्गिरौ

लीलने (निगलने) के नाम २ ॥
गीर्ण १ गिरि २ ॥

-गुरणमुद्यमे ॥ ११ ॥

उद्यमके नाम २ ॥ गुरण १ उद्यम २
॥ ११ ॥

उन्नाय उन्नये-

ऊपरको लेजानेके नाम २ ॥ उन्नाय
१ उन्नय २ ॥

-श्रायः श्रयणे-

सेवाके नाम २ ॥ श्राय १ श्रयण २ ॥
जयने जयः ॥

जीतके नाम २ ॥ जयन १ जय २ ॥

निगादो निगदे-

कहनेके नाम २ ॥ निगाद १ निगद २ ॥

-मादो मद-

हर्षके नाम २ ॥ माद १ मद २ ॥

-उद्देग उद्दमे ॥ १२ ॥

घबरानेके नाम २ ॥ उद्देग १ उद्दम
२ ॥ १२ ॥

विमर्दनं परिमले-

कुकुमआदि मर्दनके नाम २ ॥ विमर्दन
१ परिमल २ ॥

-ऽभ्युपपत्तिरनुग्रहः ॥

हितकरने अनहितहटानेकी प्रवृत्तिके
नाम २ ॥ अभ्युपपत्ति १ अनुग्रह २ ॥

निग्रहस्ताद्विरुद्धः स्या-

अनुग्रहसे विपरीतका नाम १ ॥
निग्रह १ ॥

-दभियोगस्त्वभिग्रहः ॥ १३ ॥

लडाईमें ललकारके नाम २ ॥ अभि
योग १ अभिग्रह ॥ १३ ॥

मुष्टियन्वस्तु संप्रादौ—
 मूठीकेद्वयकबनेकेनाम २ ॥ मुष्टियन्व
 १ संप्राद २ ॥
 -द्विम्बे डमरनिष्ठयो ॥
 मनुष्योके छत्नेके नाम १ ॥ द्विम्ब १
 डमर २ स्थित ३ ॥
 धन्वन प्रसितिभारः—
 बाधनेके नाम १ ॥ धन्वम १ प्रसिति
 २ भार ३ ॥
 -स्पर्शे स्पष्टोपसप्तार ॥ १४ ॥
 स्पर्शको प्राप्तद्वये पुरुषकेनाम १ ॥
 स्पर्श १ स्पष्ट २ उपस ३ ॥ १४ ॥
 निकारो विप्रकारः स्या—
 अपकारके नाम २ ॥ निकार १ विप्र
 कार २ ॥
 -दाकारस्त्विङ्ग इङ्गितम् ॥
 अङ्गिप्रायक अनुसार घेष्टाकेनाम ३ ॥
 आकार १ इङ्ग २ इङ्गित ३ ॥
 परिणामो विकारो द्वे समे वि
 क्रांताविक्रिये ॥ १५ ॥
 प्रकृष्टीयदखजानेके नाम ४ ॥ परि
 णाम १ विकार २ विक्रिति ३ विक्रिय ४
 ॥ १५ ॥
 अपहारस्त्वपचय—
 अचयके नाम २ ॥ अपहार १
 अपचय २ ॥

समाहार* समुच्चयः ॥
 बटोरनकनाम २ ॥ समाहार १ समुच्चय २ ॥
 प्रत्याहार उपादान—
 इद्रियोके स्त्रीचनेके नाम २ ॥ प्रत्या
 हार १ उपादान २ ॥
 -विहारस्तु परिक्रम ॥ १६ ॥
 खेचनमें पैदख खचनेके नाम २ ॥
 विहार १ परिक्रम २ ॥ १६ ॥
 अमिहारोऽमिमिहण—
 घोरीकरनेके नाम २ ॥ अमिहार १
 अमिमिहण २ ॥
 निहारोऽभ्यवकर्षणम् ॥
 पुक्तिपूर्वक खआदि निष्कासनेकेनाम
 ० ॥ निहार १ अभ्यवकर्षण २ ॥
 अनुहारोऽनुकार* स्या—
 बिदम्बना अर्थात् नकखचनेकेनाम
 २ ॥ अनुहार १ अनुकार २ ॥
 वृष्यस्यावगमे व्ययः ॥ १७ ॥
 कर्षकरनेका नाम १ ॥ व्यय १ ॥ १७ ॥
 प्रवाहस्तु प्रवृत्तिः स्या—
 जलभादिकी निरन्तरगतिके नाम २ ॥
 प्रवाह १ प्रवृत्ति २ ॥
 -स्पर्शो गमनं वाहि ॥
 बाहर जानेका नाम १ ॥ स्पर्श १ ॥
 विषामो विषमो यामो यम
 सयामसयमौ ॥ १८ ॥

सयमके नाम ६ ॥ वियाम १ वियम २
याम ३ यम ४ सयाम ५ सयम ६ ॥ १८ ॥

हिसाकर्माभिचारः स्या-

मारडालनेके नाम २ ॥ हिसाकर्म १
अभिचार २ ॥

-जागर्या जागरा द्वयोः ॥

जागनेके नाम २ ॥ जागर्या १ जागरा २ ॥

विघ्नोऽन्तरायः प्रत्यूहः-

विघ्नके नाम ३ ॥ विघ्न १ अन्तराय २
प्रत्यूह ३ ॥

-स्यादुपघ्नोऽन्तिकाश्रये ॥ १९ ॥

समीपके आश्रयके नाम २ ॥ उपघ्न १
अन्तिकाश्रय २ ॥ १९ ॥

निर्वेश उपभोगः स्या-

उपभोगके नाम २ ॥ निर्वेश १ उप-
भोग २ ॥

-त्परिसर्पः परिक्रिया ॥

परिवारके घेरनेके नाम २ ॥ परिसर्प
१ परिक्रिया २ ॥

विधुरं तु प्रविश्लेषो-

अत्यन्तवियोगके नाम २ ॥ विधुर १
प्रविश्लेष २ ॥

-ऽभिप्रायश्छन्द आशयः ॥ २० ॥

अभिप्राय अर्थात् मनकी बातके नाम
३ ॥ अभिप्राय १ छन्द २ आशय ३ ॥ २० ॥

संक्षेपणं समसनं-

सक्षेपके नाम २ ॥ संक्षेपण
समसन २ ॥

-पर्यवस्था विरोधनम् ॥

विरोधके नाम २ ॥ पर्यवस्था १
विरोधन २ ॥

परिसर्या परीसारः-

सत्र ओर गमनकरनेके नाम २ ॥ परि-
सर्या १ परीसार २ ॥

स्यादास्या त्वासना स्थितिः

॥ २१ ॥

आसनस्थितिके नाम ३ ॥ आस्या

१ आसना २ स्थिति ३ ॥ २१ ॥

विस्तारो विग्रहो व्यासः-

विस्तारके नाम ३ ॥ विस्तार १ विग्रह
२ व्यास ३ ॥

स च शब्दस्य विस्तरः ॥

शब्दके विस्तारका नाम १ ॥ विस्तर १

संवाहनं मर्दनं-

पौवआदिके दावनेके नाम २ ॥ संवा-
हन १ मर्दन २ ॥

-स्याद्विनाशः स्याददर्शनम् ॥ २२ ॥

न देख पढनेके नाम २ ॥ विनाश १
अदर्शन २ ॥ २२ ॥

संस्तवः स्यात्परिचयः-

जानपहिचानके नाम २ ॥ संस्तव १
परिचय २ ॥

-प्रसरस्तु विसर्पणम् ॥

फैलनके नाम २ ॥ प्रसर १ विस-
र्पण २ ॥

मीवाकस्तु प्रयाम' स्या-

धन धान्यादिके षटोरनेके नाम २ ॥

नीमाक १ प्रयाम २ ॥

-त्सनिधिः सनिकर्षणम् ॥ २३ ॥

पडोस (निकट)के नाम २ ॥ त्सनिधि १
सनिकर्षण २ ॥ २३ ॥

लघोऽभिलावो लवने-

काटनेके नाम ३ ॥ लव १ भमि-

लाव २ लवन ३ ॥

-निष्पावः पवने पव' ॥

भस्मादि पडोरने (धरसान) आदिके
नाम ३ ॥ निष्पाव १ पवन २ पव ३ ॥

प्रस्ताव स्यादवसर-

प्रसंगक नाम २ ॥ प्रस्ताव १ अवसर २ ॥

-स्रसर' सूत्रवेष्टनम् ॥ २४ ॥

जुलाहे छोग भिस तरह सूत्रको छप
टतहे टस क्रिपाके नाम २ ॥ स्रसर १
सूत्रवेष्टन २ ॥ २४ ॥

प्रजनः स्यादुपसरः-

गर्भिणी होनेके नाम २ ॥ प्रजन १
उपसर २ ॥

-प्रग्रयप्रणयो समौ ॥

प्रमके नाम २ ॥ प्रग्रय १ प्रणय २ ॥

धीशक्तिर्निष्क्रमा-

धी (बुद्धि) शक्तिके नाम २ ॥

धीशक्ति १ निष्क्रम २ ॥

-ऽखी तु सक्रमो दुर्गसं-

चरः ॥ २५ ॥

कठिन रस्तेके नाम २ ॥ संक्रम १

दुर्गसंचा २ ॥ २५ ॥

प्रत्युत्क्रम' प्रयोगार्थ'-

पुत्रके अर्थ तैयारी करनेके नाम २ ॥

प्रत्युत्क्रम १ प्रयोगार्थ २ ॥

-प्रक्रम' स्यादुपक्रम ॥

स्यादभ्यादानमुद्रात् आरम्भ'

आरम्भमात्रके नाम १ ॥ प्रक्रम १

उपक्रम २ अभ्यादान ३ उद्रात् ४
आरम्भ १ ॥

-संभ्रमस्त्वेरा ॥ २६ ॥

वेगके नाम २ ॥ संभ्रम १ स्वयं

२ ॥ २६ ॥

प्रतिबन्ध' प्रतिष्टम्भो-

कार्य एक ज्ञानके नाम २ ॥ प्रतिबन्ध

१ प्रतिष्टम्भ २ ॥

-ऽवनायस्तु निपासनम् ॥

गिरनेके नाम २ ॥ अवनाय १ निपासन २ ॥

उपलम्भस्त्वनुभव'-

सादृश्यकरनेके नाम २ ॥ उपलम्भ १

अनुभव २ ॥

-समालम्भो विलेपनम् ॥ २७ ॥

चन्दनादिके लेपनके नाम २ ॥ समा-
लम्भ १ विलेपन २ ॥ २७ ॥

विप्रलम्भो विप्रयोगो-

वियोगके नाम २ ॥ विप्रलम्भ १
विप्रयोग ॥ २

-विलम्भस्त्वतिसर्जनम् ॥

दानकेनाम २ ॥ विलम्भ १ अतिसर्जन ॥

विश्रावस्तु प्रतिख्याति-

अतिप्रसिद्धिके नाम २ ॥ विश्राव १
प्रतिख्याति ॥ २

-रवेक्षा प्रतिजागरः ॥ २८ ॥

वस्तुओंके देखनेके नाम २ ॥ अवेक्षा
१ प्रतिजागर २ ॥ २८ ॥

निपाठनिपठौ पाठे-

पढनेके नाम ३ ॥ निपाठ १ निपठ २
पाठ ३ ॥

-तेमस्तेमौ समुन्दने ॥

गीलाहोनेके नाम ३ ॥ तेम १ स्तेम
२ समुन्दन ३ ॥

आदीनवास्रवौ क्लेशे-

क्लेशके नाम ३ ॥ आदीनव १ आस्रव
२ क्लेश ३ ॥

-मेलके सङ्गसंगमौ ॥ २९ ॥

मेलके नाम ३ ॥ मेलक १ संग २
गम ३ ॥ २९ ॥

संवीक्षणं विचयनं मार्गणं

मृगणा मृगः ॥

अच्छे प्रकार दूढनेके नाम ५ ॥ संवी-
क्षण १ विचयन २ मार्गण ३ मृगणा ४
मृग ५ ॥

परिरम्भः परिष्वंगः संश्लेषः-
पगूहनम् ॥ ३० ॥

प्रेमपूर्वक लिपटजानेके नाम ४ ॥
परिरम्भ १ परिष्वग २ संश्लेश ३ उप-
गूहन ४ ॥ ३० ॥

निर्वर्णनं तु निध्यानं दर्श-

नालोकनेक्षणम् ॥

देखनेके नाम ५ ॥ निर्वर्णन १ निध्यान
२ दर्शन ३-आलोकन ४ ईक्षण ५ ॥

प्रत्याख्यानं निरसनं प्रत्या-
देशो निराकृतिः ॥ ३१ ॥

निराकरणके नाम ४ ॥ प्रत्याख्यान १
निरसन २ प्रत्यादेश ३ निराकृति ४ ॥ ३१ ॥

उपशायो विशायश्च पर्या-

यशयनार्थकौ ॥

अनुक्रमसे पहरेपर जागने सोनेवा-
लेके नाम २ ॥ उपशाय १ विशाय २

अर्तनं च ऋतीया च हृणीया च
घृणार्थकाः ॥ ३२ ॥

करुणा वा घिनानेके नाम ४ ॥ अर्तन
१ ऋतीया २ हृणीया ३ घृणा ४ ॥ ३२ ॥

स्याद्यत्पासो विपर्यासो

व्यत्ययश्च विपर्यये ॥

विपरीतके नाम ४ ॥ व्यत्यास १

विपर्यास २ व्यत्यय ३ विपर्यय ४ ॥

पर्ययोऽतिक्रमस्तस्मिन्नाति-

पात्त उपात्ययः ॥ ३३ ॥

किञ्चित् विपरीतके नाम ४ ॥ पर्यय १

अतिक्रम २ अतिपात्त ३ उपात्यय ४ ॥ ३३ ॥

प्रेषण यत्समाहूय तत्र स्या-

त्प्रतिशासनम् ॥

टह्छ् आदिको गुलाकर भञ्जनेका

नाम १ ॥ प्रतिशासन १ ॥

स सस्वाव' क्रतुषु या स्तुति-

भूमिर्दिजन्मनाम् ॥ ३४ ॥

पङ्क्तं ब्राह्मणोक्तं स्तवन भूमिका

नाम १ ॥ संस्ताव १ ॥ ३४ ॥

निधाय तक्षयते यत्र काष्ठे

फार्त्तं स उद्वन' ॥

वह्न्यन वटिद्या (तिस्रकउपरफाष्ट

धरा जाता हे) का नाम १ ॥ उद्वन १ ॥

स्तम्भस्तु स्तम्भघनः स्तम्भो

येन निहन्यते ॥ ३५ ॥

गुरपाभारिक नाम २ ॥ स्तम्भ १

स्तम्भघन २ ॥ ३५ ॥

आग्निधा विध्यते यन ॥

ब्रमका नाम १ ॥ आग्निध १ ॥

-तत्र विष्वक्समे निघ' ॥

बरावर जमद्वये वृक्षादिकोक्ता नाम

१ ॥ निघ १ ॥

उत्कारश्च निकारश्च द्वौ घान्मे

क्षेपणार्थकौ ॥ ३६ ॥

अनाज आदि निष्काळनेके नाम २ ॥

उत्कार १ निकार २ ॥ ३६ ॥

निगारोद्गारविक्षाबोद्ग्राहास्तु

गरणादिषु ॥

(खानेका नाम) निगार १ ॥

(उच्छटी करनेका नाम) उद्गार १ ॥

(छींकेका नाम) विक्षाय १ ॥

(उकारनेका नाम) उद्ग्राह १ ॥

आरत्यवरतिविरतय उपरामे-

उपरामके नाम ४ ॥ आरति १ अर

ति २ निरति ३ उपराम ४ ॥

ऽथास्त्रियां तु निष्ठेव' ॥ ३७ ॥

निष्ठपतिर्निष्ठिवनं निष्ठीवनमित्य

भिन्नानि ॥

धूकनके नाम ४ ॥ निष्ठप १ ॥ ३७ ॥

निष्ठपति २ निष्ठवन ३ निष्ठीवन ४ ॥

जवने जूति'-

फाके नाम २ ॥ जवन १ जति २ ॥

-साविस्वरसाने रया-

अन्वके नाम २ ॥ सावि १ अस्वान २ ॥

-द्वय ऊपर जूति ॥ ३८ ॥

ज्वरके नाम २ ॥ ज्वर १ जूर्ति २ ॥

॥ ३८ ॥

उदजस्तु पशुप्रेरण-

पशुओंके हाकनेका नाम १ ॥ उदज १ ॥

-मकरणिरित्यादयः शापे ॥

शापका नाम १ ॥ अकरणि १ ॥ इत्यादि

गोत्रान्तेभ्यस्तस्य वृन्दमित्यौ-

पगवकादिकम् ॥ ३९ ॥

जिसके समीप गायेँ हों उसके समूहका

नाम १ ॥ औपगवक १ ॥ ३९ ॥

आपूपिकं शाष्कुलिकमेव-
वाद्यमचेतसाम् ॥

(पूओंके समूहका नाम) आपू-
पिक १ ॥ (पूरियोंके समूहका नाम)
शाष्कुलिक १ आदि ॥

माणवानां तु माणव्यं-

लडकोंके समूहका नाम १ ॥ माणव्य १ ॥

-सहायानां सहायता ॥ ४० ॥

मित्रोंके समूहका नाम १ ॥ सहा-
यता १ ॥ ४० ॥

हल्या हलानां-

हलोंके समूहका नाम १ ॥ हल्या १ ॥

-ब्राह्मण्यवाडव्ये तु द्विज-
न्मनाम् ॥

ब्राह्मणोंके समूहके नाम २ ॥ ब्राह्मण्य
१ वाडव्य २ ॥

द्वे पशुकानां पृष्ठानां पार्श्वे
पृष्ठयमनुक्रमात् ॥ ४१ ॥

पासलियोंके समूहका नाम १ ॥ पार्श्वे

१ ॥ पीठके समूहकानाम १ ॥ पृष्ठय १ ॥ ४१

खलानां खलिनी खल्याऽ-

खलोंके समूहके नाम २ ॥ खलिनी १

खल्या २ ॥

-प्यथ मानुष्यकं नृणाम् ॥

मनुष्योंके समूहका नाम १ ॥ मानु-
ष्यक १ ॥

-ग्रामता जनता धूम्या पाश्या
गल्या पृथक्पृथक् ॥ ४२ ॥

(ग्रामोंके समूहका नाम) ग्रामता १ ॥

(जनोंके समूहका नाम) जनता १ ॥

(धूमके समूहका नाम) धूम्या १ ॥ (फा-
सियोंके समूहका नाम) पाश्या १ ॥ (व-

डे काशोंके समूहका नाम) गल्या १ ॥ ४२

अपि साहस्रकारीपवार्मणा-
थर्वणादिकम् ॥

भाषा-(सहस्रके समूहका नाम)

साहस्र १ ॥ (करसीके समूहका नाम)

कारीप १ ॥ (कवचोंके समूहका नाम)

वार्मण १ ॥ (चमडोंके समूहका नाम)

चार्मण १ ॥ (अथर्वणोंके समूहका नाम)

आथर्वण १

॥ इति ईकीर्णवर्गः ॥ २ ॥

अथ नानार्थवर्गः ३

नानार्थाः केऽपि कान्तादिवर्गे
ध्वेवात्र कीर्तिषां ॥ मूरिप्रयोगा
ये येषु पर्यायेष्वपि तेषु ते ॥ १ ॥

माया—कोई ककारान्तादि नानार्थके
शब्द पूर्वोक्तवर्गमें कहनुके है, परन्तु
उमका पूर्वोक्तवर्गमें जो प्रयोग किया है
सो जिस अर्थमें जो शब्द अधिक आता
है उस एकही अर्थमें कहा है, अब उनही
पूर्वोक्त वर्गमें कहे हुए शब्दोंके यहां अनेक
अर्थ वर्णन करते हैं ॥ १ ॥

आकाशे त्रिविधे नाको-

नाक—आकाश तथा स्वर्ग ॥

—लोकस्तु भुवने जने ॥

लोक—स्वर्गादि लोक तथा जन ॥

पद्ये यशसि च हल्लोकः-

ल्लोक—अनुष्टुमादि पद्य तथा कीर्ति

—शरे खड्गे च सायक ॥ २ ॥

सायक—तीर तथा लठभारा २ ॥

जम्बुकौ क्रोष्ट्वरुणौ-

जम्बुक—शृगाळ तथा बख्य ॥

—पथुकौ धिविटाभकौ ॥

पथुक—चिउडा तथा माछक ॥

आलोकौ दशनघोषी-

आलोक—दशर तथा प्रकाश ॥

भरि पण्डमानकी ॥ ३ ॥

भामक—मेरी तथा नगाडा ॥ १ ॥

उत्सङ्गचिह्नपोरुङ्ग-

अक—गोदी तथा चिह्न ॥

—कल्लंकाश्रकापवादयो ॥

कल्लक—चिह्न तथा छाञ्छन ॥

सप्तको नागवर्षकयो-

तप्तक—सर्प तथा बढइ ॥

—श्रकाः स्फटिकसूर्ययो ॥ ४ ॥

अर्क—स्फटिक मणि तथा सूर्य ॥ ४ ॥

मारुते वेधसि ब्रध्ने पुंसि क-

क शिरोऽम्बुनोः ॥

क—(पुंस्त्रिंश्र) वायु, ब्रह्मा, सूर्य ॥

क—(नपुंसक) शिर तथा बळ ॥

स्यात्पुलाकस्तुच्छघान्धे सक्षिपे

भक्तासिक्थके ॥ ५ ॥

पुलाक—धानकी मूसी, स्क्षिप तथा

मातका रीति ॥ ५ ॥

उल्लुके करिण पुच्छमूलो

पान्धे च पेचक ॥

पचक—उल्लुपक्षी तथा हाथीके

पुरीपशरका आच्छादक मांस ॥

कमण्डली च करक-

करक—मनोरी(ओला)जो कमी, कर्मा

पानी क सग बरसतीहै तथा अनारफण ॥

—सुगते च विनायका ॥ ६ ॥

विनायक—सुद, गगश, तथा गरुड ॥ ६ ॥

किष्कुर्हस्ते वितस्तौ च-
 किष्कु-हाय तथा वितस्ति ॥
 -शूककीटे च वृश्चिकः ॥
 वृश्चिक-विच्छ्र तथा आठवीं राशि ॥
 प्रतिकूले प्रतीकास्त्रिष्वेकदेशे
 तु पुंस्ययम् ॥ ७ ॥

प्रतीक-प्रतिकूल ॥ ७
 स्याद्भूतिकं तु भूनिम्बे कचृणे
 भूस्त्वृणोऽपि च ॥

भूतिक-चिरायता-औषधी और
 गध तृणविशेष ॥

ज्योत्स्निकायां च घोषे च
 कोशात-

कोशातकी-एक प्रकारका फल, पर-
 वर, तरकारी तथा चिचिडा वृक्ष ॥

-क्यथ कद्रफले ॥ ८ ॥

सिते च खदिरे सोमवलकः

स्या-

सोमवलक-सपेद खैर तथा कायफल
 औषधी ॥ ८ ॥

-दय सिंहके ॥

तिलकल्के च पिण्याको-

पिण्याक-सिंहक तथा तिलकीखरी ॥

-बाह्लीकं रामठोऽपि च ॥ ९ ॥

बाह्लीक-रामठहींग तथावाह्लीक-

देशमे होनेवाला अश्व ॥ ९ ॥

महेन्द्रगुग्गुलूलूकव्यालया-
 हिषु कौशिकः ॥

कौशिक-इन्द्र, गुग्गुलु, उल्लपक्षी,
 तथा सापका पकडनेवाला ॥

रुक्तापशङ्कास्वातंकः-

आतक-रोग, ताप तथा शका ॥

-स्वल्पेऽपि क्षुल्लकस्त्रिषु ॥ १० ॥

क्षुल्लक-छोटा तथा बीच, कनिष्ठ

और दरिद्र ॥ १० ॥

जैवातृकः शशांकेऽपि-

जैवातृक-चन्द्रमा तथा दीर्वायुपुरुष

-खुरेऽप्यश्वस्य वर्तकः ॥

वर्तक-घोडेके खुर तथा पक्षी ॥

व्याघ्रेऽपि पुण्डरीको ना-

पुण्डरीक-व्याघ्र दिग्गज तथा श्वेत

कमल ॥

-यवान्यामपि दीपकः ॥ ११ ॥

दीपक-दीया तथा मोरकी चोटी ॥ ११ ॥

शालावृकाः कपिक्रोष्टुश्वानः-

शालावृक-कुत्ता, बन्दर तथा सियार

स्वर्णेऽपि गैरिकम् ॥

गैरिक-गेरुधातु तथा सोना ॥

पीडार्येऽपि व्यलीकं स्या-

व्यलीक-पीडा तथा झूठ ॥

-दलीकं त्वप्रियेऽनृते ॥ १२ ॥

अलीक-अप्रिय तथा झूठा ॥ १२ ॥

शीलान्वयावमूके-

अनूक-स्वभाव तथा बंध ॥

-द्वे शूलके शकलवल्कले ॥

शकल-दुकटा तथा छुक्टा ॥

साष्टे शते सुषर्णानां हेमन्यु

रोमूपणे पले ॥ १३ ॥ दीना-

रेडपि च निष्कोखी-

निष्क-सोमा एक प्रकारका गछेका

भूषण तथा असर्षी ॥ १३ ॥

-कस्कोऽखी क्षमलैनसो ॥

धूम्ये-

कल्क-मखिन तथा पाप और

पासण्ड ॥

-प्यय पिनाकोऽखीशूलश्च

करघन्वनो ॥ १४ ॥

पिनाक-शूल तथा महादेवका

धनुष ॥ १४ ॥

धेनुका तु करेष्वां च-

धेनुका-हयिमी तथा गर्धम्याईईगी

-मेघजाले च काष्ठिका ॥

काष्ठिका-मेघका समूह तथा देवी ॥

कारिका यातनाघृतयो-

कारिका-नरकपीडा तथा करना ॥

कार्णिका कर्णभूपणे ॥ १५ ॥

करिहस्तेऽङ्गुली पद्मधीज

कोश्यां-

कार्णिका कानका भूषण, ॥ १५ ॥

हापीकी सृङ्काभ्रममाग तथा कम्बके

बीज रहनेका कम्बका माग ॥

-त्रिपुत्रे ॥

भागे जो शब्द कहे आर्येगे वे तीनों

छिगोंमें होत हैं ॥

धृन्दारकौ रूपमुख्या-

धृन्दाकर-देवता, सुन्दर तथा मुख्य ॥

-वेके मुख्यान्वयकेबला ॥ १६ ॥

एक-मुख्य, अन्य तथाकेबला ॥ १६ ॥

स्याहाम्मिका कौकुटिके

यश्चावुरोरिवेक्षणः ॥

कौकुटिक-मायाकरनेवाला तथा

धोरसे ही देखनेवाला ॥

लालाटिकः प्रभोर्भास्पर्शी

कार्याक्षमश्च यः ॥ १७ ॥

लालाटिक-जो कार्य करनेमेंअसमर्थ

हो औरस्वामीका मुखदेखे ॥ १७ ॥

इति कान्ताः ॥

मयूखस्त्वट्करज्वाला-

मयूख-कान्ति किरण तथा ज्वाला ॥

स्वलिषाणी शिर्षामुखी ॥

शिर्षामुख-अमर तथा बाण ॥

शंखो निधौ सखाटास्थिन

कर्म्यौ न स्त्री-

शंख-एकनिधि, छठाठकी हड्डी

और शंख ॥

-न्द्रियेऽपि खम् ॥ १८ ॥

ख-शून्य तथा इन्द्रिय ॥ १८ ॥

घृणिज्वाले अपि शिखे-

शिखा-किरण, ज्वाला तथा चोटी ॥

॥ इति खान्ता ॥

शैलवृक्षौ नगावगौ ॥

नग-अग पर्वत और वृक्ष ॥

आशुगौ वायुविशिखौ-

आशुग-वायु तथा वाण ॥

-शरार्कविहगाः खगाः ॥ १९ ॥

खग-वाण, सूर्यादि ग्रह तथा पक्षी १९ ॥

-पतङ्गौ पक्षिसूर्यौ च-

पतग-सूर्य तथा पक्षी ॥

-पूगः क्रमुकवृन्दयोः ॥

पूग-सुपारी तथा समूह ॥

पशवोऽपि मृगा-

मृग-हरिण, दूढना, पशु ॥

-वेगः प्रवाहजवयोरपि ॥ २० ॥

वेग-प्रवाह तथा जोरसे चलना ॥ २० ॥

परागः कौसुमे रेणौ स्नानी-

यादौ रजस्यपि ॥

पराग-पुष्पधूलि स्नानकरनेके योग्य

मसाला तथा धूलि ॥

गजेपि नागमातङ्गा-

नाग-मातङ्ग-हाथी तथा चण्डाल

वा डोम ॥

-वपाङ्गस्तिलकेऽपि च ॥ २१ ॥

अपाग-नेत्रोंके कोने, अगहीन तथा

तिलक ॥ २१ ॥

सर्गः स्वभावनिर्मोक्षनिश्चया-

ध्यायसृष्टिषु ॥

-सर्ग-स्वभाव, त्याग, निश्चय तथा

प्रथका अध्याय, सृष्टि ॥

योगः संनहनोपायध्यानसंग-

तियुक्तिषु ॥ २२ ॥

योग-कवच सामदानादि, ध्यान

तथा मेल और युक्ति ॥ २२ ॥

भोगः सुखे रुयादिभृतावहेश्व

फणकाययोः ॥

भोग-सुखदेनेवाला तथा सुख,वेश्या

आदिको पालन करना वा मोल लेना

सर्पका फन और शरीर ॥

चातले हरिणे पुंसि सारङ्गः

शवले त्रिषु ॥ २३ ॥

सारग-चितकवरा रङ्गवाला, चित-

कवरा रङ्ग, मृगपशु, पक्षी, पपीहा पक्षी

तथा मृगी ॥ २३ ॥

कपौ च प्लवगः-

प्लवग-ब्रन्दर, मेढक तथा सारथि ॥

-शापे त्वभिषङ्गः पराभवे ॥

अभिषङ्ग-शाप तथा अनादर ॥

यानाद्यङ्गे युगः पुंसि युगं

युगमे कृतादिषु ॥ २४ ॥

युग (पुंलिङ्ग)—जुषा, युग—नपुं
सक जोडा (दो), सत्ययुगादि तथा
चार हाप ॥ २४ ॥

स्वर्गेषुपशुवाग्वअदिद्वनेत्रघृणी
मूजले ॥ लक्ष्यष्टया स्त्रियां पुंसि
गौ—

गौ—(पुंलिङ्ग—स्त्रीलिङ्ग) स्वर्ग,
माण, पशु, (गाय—यैक,) वाणी, वज्र,
दिशा, नेत्र, किरण, भूमि, तथा जड
—लिङ्गं चिह्नशेषसो ॥ २५ ॥

लिङ्ग—चिह्न तथा शिभ इन्द्रिया ॥ २५ ॥

शृङ्गं प्राधान्यसान्त्वोद्य—
शृङ्ग—प्रभुता अर्थात् प्रधानता
तथा कंगूरा ॥

—बराङ्ग मूधगुह्ययो ॥

कराङ्ग—माया तथा श्रीका मून्दा रा
मर्गं श्रीकाममाहात्म्यवीर्यं
यत्नार्ककीर्तिषु ॥ २६ ॥

भग—स्वामी, इच्छा, एश्वर्य, वीर्य,
उपाय, सूर्य, बडाई ॥ २६ ॥

॥ इति गास्ताः ॥

परिधः परिधातेऽस्त्रेऽ—
परिध—चारों ओरसे मारना तथा
अस्त्र ॥

—प्योघो घृन्देऽम्मसां रमे ॥

ओघ—सभूह तथा जडका भग ॥

—मूल्ये पूजाविधावर्षा—

अर्घ—मूल्य तथा पूजार्थे जड दना ॥

—ऽहो दुःखद्वयसनेष्वधम् ॥ २७ ॥

अध—पाप, दुःख, शिकार, दुःखा
खेडना आदि ॥ २७ ॥

शिविष्टेऽल्पे लघु—

लघु—इष्ट और थोडा ॥

॥ इति चास्ता ॥

—काचाः शिष्यमृद्देवद्वयजः ॥

काच—छीका, काचका मेद तथा
नेत्ररोग ॥

विपर्याप्ते विस्तरे च प्रपञ्च—

प्रपञ्च—विपरीत तथा शब्दका
विस्तार और जगत् तथा ज्ञाना ॥

—पावके शुचिः ॥ २८ ॥

मास्यमात्ये चात्युपये पुंसि मेघ्ये
सिधे त्रिषु ॥

शुचि—(पु०) अग्नि ॥ २८ ॥

आपाढमास, राजाका मन्त्री, निष्कपट
(दि०) पक्कि तथा श्वेत वस्तु ॥

अभिस्वङ्गे स्पृहायां च गभस्ती
च रुचिः स्त्रियाम् ॥ २९ ॥

रुचि—आर्किगत करना, इच्छा तथा
किरण ॥ २९ ॥

॥ इति चास्ता ॥

केकिताक्ष्यावहिमुनी—

अहिभुक्-मोर और गरुड ॥

-दन्तविप्राण्डजा द्विजाः ॥

द्विज-दात, पक्षी तथा ब्राह्मण ॥

अजा विष्णुहरच्छागा-

अज-विष्णु, शिव तथा वकरा ॥

-गोष्ठाध्वनिवहा व्रजाः ३० ॥

व्रज-गोशाला, मार्ग और समूह ३०

धर्मराजौ जिनयमौ-

धर्मराज-जिन (बुद्ध) और धमराज

-कुञ्जो दन्तेऽपि न स्त्रियाम् ॥

कुञ्ज-हाथीका दात और सघन वन

वलजे क्षेत्रपूर्द्धारे वलजा

वलगुदर्शना ॥ ३१ ॥

वलज-(न०) खत, नगरका दर

वाजा (स्त्री) सुन्दर स्त्री ॥ ३१ ॥

समे क्षमांशे रणेऽप्याजिः ॥

आजि-पृथ्वीकासमानभागऔरसग्राम

-प्रजा स्यात्संततौ जने ॥

प्रजा-सतान और जनसमूह ॥

अब्जौ शंखशशांकौ च-

अब्ज-शख और चन्द्रमा ॥

-स्वके नित्ये निजं त्रिषु ॥ ३२ ॥

निज-(त्रि०)अपनातथा नित्य॥३२॥

॥ इति जान्ताः॥

पुंस्यात्मनि प्रवीणे च क्षेत्रज्ञो

वाच्यलिङ्गकः ॥

क्षेत्रज्ञ-आत्मा और चतुर ॥

संज्ञा स्याच्चैतना नाम हस्ताद्यै-

श्रार्थसूचना ॥ ३३ ॥

संज्ञा-चेतनशक्ति, नाम और हस्त

आदिसे-अभिप्रायकाप्रगटकरना॥३३॥

॥ इति जान्ताः ॥

काकेभगण्डौ करटौ-

करट-काक और हस्तीका गण्डस्थल

गजगण्डकटी कटौ ॥

कटि-हस्तीका गण्डस्थल और कमर ॥

शिपिविष्टस्तु खलतौ दुश्चर्मणि

महेश्वरे ॥ ३४ ॥

शिपिविष्ट-गञ्जा, खुदरी हुई खाल

और शिवजी ॥ ३४ ॥

देवशिलिपिन्यपि त्वष्टा-

त्वष्टा-विश्वकर्मा, सूर्य और बढई ॥

-दिष्टं देवेऽपि न द्वयोः ॥

दिष्ट-प्रारब्ध और समय ॥

रसे कटुः कटुकार्ये त्रिषु मत्स-

रतीक्षणयोः ॥ ३५ ॥

कटु-(पु०) रसविशेष, (न०)

अकार्य, (त्रि०) अहकारऔर तीक्ष्ण ३५

रिष्ट क्षेमाशुभाभावे-

रिष्ट-क्षेम, अशुभ और अभाव ॥

-ष्वारिष्टं तु शुभाशुभे ॥

आरिष्ट-शुभ और अशुभ ॥

युग (पुँल्लिङ्ग)—कुँआ, युग—न्यु
सक जोडा (दो), सस्ययुगादि तथा
धार हाप ॥ २४ ॥

स्वर्गेषुपशुवाग्वश्चदिह्नेत्रघृणि
मूमले ॥ लक्ष्यष्टधा स्त्रियां पुंसि
गौ—

गौ—(पुँल्लिङ्ग—स्त्रील्लिङ्ग) स्वर्ग,
बाण, पशु, (गाय—बैड,) बाणी, वज्र,
दिसा, नेत्र, किरण, भूमि, तथा जङ्ग
—लिङ्गं चिह्नशेषसोः ॥ २५ ॥
लिङ्ग—चिह्न तथा शिभ इन्द्रिया ॥ २५ ॥

शृङ्गं प्राधान्यसान्त्वोश्च—
शृङ्ग—प्रमुता अर्थात् प्रधानता
तथा कँगूरा ॥

—धराङ्गं मूवयुह्ययो' ॥
कराङ्ग—माया तथा श्रीका मूत्रशरा
भग श्रीकाममाहात्म्यवीर्यं
यत्नार्ककीर्तिषु ॥ २६ ॥
भग—कृष्णी, इच्छा, ऐश्वर्य, वीर्य,
उपाय, सूर्य, बडाई ॥ २६ ॥

॥ इति शास्ताः ॥
परिधः परिधातेऽस्त्रेऽ—
परिध—चारों ओरसे मारना तथा
जङ्ग ॥

—प्योधो मृन्देऽम्भसां रये ॥
भोष—सनुह तथा जङ्गला वना ॥

—मूल्ये पूजाविधावर्षो—
वर्ष—मूल्य तथा पूजामें जङ्ग दना ॥
—इहो दुःखव्यसनेष्वधम् ॥ २७ ॥

अव—पाप, दुःख, शिंकार, कुआ
खेज्जमा आदि ॥ २७ ॥

त्रिष्विष्टेऽस्त्ये लघु—
अधु—इष्ट और योडा ॥
॥ इति शास्ता' ॥

—काधाः क्षिप्यमृद्देतदग्रमः ॥
काध—छीका, काचका मेद तथा
नेत्ररोग ॥

विपर्यासे विस्तरे च प्रपञ्च—
प्रपञ्च—विपरीत तथा शब्दका
विस्तार और जगत् तथा ज्ञाना ॥

—पावके शुचि ॥ २८ ॥
मास्यमात्ये चास्त्युपधे पुंसि मेध्ये
सिते त्रिषु ॥

शुचि—(पु०) अग्नि ॥ २८ ॥
आपाठमास, राजाका मन्त्री, निष्कमठ
(त्रि०) पक्किर तथा श्वेत वस्तु ॥

अभिस्वङ्गे स्पृहायां ध गभस्ती
ध रुचिः स्त्रियाम् ॥ २९ ॥
रुचि—आर्त्तिगन करना, इच्छा तथा
किरण ॥ २९ ॥

॥ इति शास्ता ॥
केकिताह्यावदिमुजी—

गुह-गुह तथा मिट्टी आदिकागोला

सर्पमांसात्पशू व्याडौ-

व्याड-सर्प तथा मांसखानेवाला पशु
व्याघ्र आदि ॥

-गोभूवाचस्त्रिषु हडाइला ॥४२॥

इडा-गैया तथा पृथ्वी, वाणी और
नाडी ॥ ४२ ॥

क्ष्वेडा वंशशलाकाऽपि-

क्ष्वेडा-विप सिंहनाद, तथा वांसको
खपची ॥

-नाडी नालेऽपि षट्क्षणे ॥

नाडी-नाडी अर्थात् वात पित्तकफ
इत्यादिके विकारको जनानेवाली नस
तथा छः क्षण ॥

काण्डोऽस्त्री दण्डवाणावर्व-
गावसरवारिषु ॥ ४३ ॥

काण्ड-दडा वा लाठी, वाण, खराव
घोडा, परिच्छेद जैसे कि प्रथम काण्ड,
सर तथा जल ॥ ४३ ॥

स्याद्गाण्डमश्वभरणेऽर्धत्रे मूल
गणधने ॥

ण्ड-पात्र वा बरतन, घोडोंका गह
नेयेंका मूल धन वा पूँजी ॥

इति ढान्ताः ॥

प्रतिज्ञयोर्वाहं-

ह-अत्यर्थ तथा प्रतिज्ञा ॥

-प्रगाढं भृषकृच्छ्रयोः ॥४४॥

प्रगाढ-मजबूत तथा दुःख ॥४४॥

शक्तस्थूलौ त्रिषु हडौ-

हड-समर्थ तथा मोटा ॥

-व्यूढौ विन्यस्तसंहतौ ॥

व्यूढ-विन्यस्त तथा सहत और
पृथुल ॥

इति ढान्ताः ॥

भ्रूणोऽर्धके स्त्रैणगर्भे-

भ्रूण-बालक तथा स्त्रीका गर्भ ॥

-वाणो बलिमुते शरे ॥४५॥

वाण-वाणासुर तथा तीर ॥४५॥

कणोत्तिसूक्ष्मे धान्यांशे-

कण-अत्यन्तसूक्ष्म तथा धान्यकण ॥

-संघाते प्रमथे गणः ॥

गण-समूह तथा शिवके अनुचर ॥

पणोद्युतादिषूत्सृष्टे भृतौ मूल्ये
धनेपि च ॥ ४६ ॥

पण-जुआ आदिमें लगायाहुआधन
पैसा तथा मजूरी वा तलब ॥ ४६ ॥

मौर्व्यां द्रव्याश्रिते सत्त्वशार्थ्यं
संध्यादिके गुणः ॥

गुण-प्रत्यञ्चारूपआदि चौबीसतत्व
आदि शुक्ल आदि, सन्धि आदि ॥

निर्व्यापारस्थितौ कालविशेषो-
त्सवयोः क्षणः ॥ ४७ ॥

मायानिश्चलयन्त्रेषु केतवानृष
राशिषु ॥ ३६ ॥ अयोधने शैल
शङ्ख सीराङ्गे कूटमखियाम् ॥

कूट—माया, निश्चल, यन्त्र, (भृगुर्क-
सानेका जाल) रूपान्, शूठ, राशि ॥ ३६ ॥
छोहेका घन, पर्वतका कैलूरा तथा हलना
अप्रमाण ॥

सूक्ष्मैलायां श्रुतिः स्त्री स्या
त्कालेऽल्पे सञ्चयेऽपि सा ॥ ३७ ॥

श्रुति—छोटी इलायची, काल, [अक्ष-
रका रहजाना] अल्प तथा सञ्चय ॥ ३७ ॥

आर्तुत्कर्पाश्रयं कोटयो-
कोटि—घनुष्ठी टोक, प्रकर्ष, कोना
तथा कठोदसंख्या ॥

—मूले अग्रकचे जटा ॥
जटा—शृङ्गकी जड तथा केशोंकी जटा ॥

द्व्युष्टिं फले समृद्धौ च-
म्युष्टि—फल तथा सम्पदा ॥

—दृष्टिर्ज्ञानिऽक्षिणं दर्शने ॥ ३८ ॥
दृष्टि—ज्ञान नेत्र तथा दखना ॥ ३८ ॥

श्रुतियगिच्छयो-
श्रुति—यज्ञ तथा इच्छा ॥

—सृष्ट निश्चिते बहुनि त्रिषु ।
सृष्ट—बहुत तथा निश्चय, कित्यागया ।

कटे सु कृष्णशङ्खने-
कट—दुःख तथा गहन ॥

—दक्षामन्दागदेषु च ॥ ३९ ॥
पट्ट-

पट्ट—दक्ष तीक्ष्ण तथा रोगहीना ॥ ३९ ॥
द्वौ वाच्यलिङ्गौ च-

पट्ट शीर कष्ट शब्द वाच्यलिङ्गौ द्वौ ॥
इति टान्ताः ॥

—नीलकण्ठं शिवेऽपि च ॥
मीलकण्ठ—मयूर तथा शिब ॥

पुंसि कोष्ठोऽन्तर्जटंरं कुसुलोऽ-
न्तर्युर्हं सया ॥ ४ ॥

काष्ठ—पेटका मध्य भाग, धान्यका
स्थान, गृहके भीतरका भाग ॥ ४० ॥

निष्ठा—निष्पत्तिनाशान्ताः-
निष्ठा—निष्पादन, नाश तथा अन्त्य ॥

—काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि ॥
काष्ठा—उत्कर्ष, स्थिति, दिशा तथा
काष्ठविशेष ॥

त्रिषु ज्येष्ठोऽतिश्रुस्तेऽपि-
ज्येष्ठ—अत्युत्तम, अतिश्रुत, बडा भाग
तथा बेशासके उत्तरका भाग ॥

—कनिष्ठोऽतिश्रुवाल्पयोः ॥ ४१ ॥
कनिष्ठ—अतिछोटा तथा छोटा भाग ॥ ४१ ॥

इति टान्ताः ॥

वृण्णोऽस्त्री लघुदेऽपि स्या-
दन्—दंष्ट्रा तथा सत्रा आदि ॥

—दृढो गोलेषुपाकयो ॥

गुह—गुह तथा मिट्टी आदिकागोला
सर्पमांसात्पशू व्याडो—

व्याड—सर्प तथा मासखानेवाला पशु
व्याघ्र आदि ॥

—गोभूवाचस्तिवडाइलाः॥४२॥

इडा—गैया तथा पृथ्वी, वाणी और
नाडी ॥ ४२ ॥

क्ष्वेडा वंशशलाकाऽपि—

क्ष्वेडा—विप सिंहनाद, तथा वासकी
खपची ॥

—नाडी नालेऽपि षट्क्षणे ॥

नाडी—नाडी अर्थात् वात पित्तकफ
इत्यादिके विकारको जनानेवाली नस
तथा छः क्षण ॥

काण्डोऽस्त्री दण्डवाणावर्व-
र्गावसरवारिपु ॥ ४३ ॥

काण्ड—दडा वा लाठी, वाण, खराव
घोडा, परिच्छेद जैसे कि प्रथम काड,
अवसर तथा जल ॥ ४३ ॥

स्याद्गाण्डमश्वामरणेऽमत्रे मूल
वाणिग्धने ॥

माण्ड—पात्र वा बरतन, घोडोंका गह
ना, बनियेंका मूल धन वा पूँजी ॥

इति ढान्ताः॥

भृशप्रतिज्ञयोर्वाढं—

वाढ—अत्यर्थ तथा प्रतिज्ञा ॥

—प्रगाढं भृषकृच्छ्रयोः ॥४४॥

प्रगाढ—मजबूत तथा दुःख ॥४४॥

शक्तस्थूलौ त्रिपु दृढौ—

दृढ—समर्थ तथा मोटा ॥

—व्यूढौ विन्यस्तसंहतौ ॥

व्यूढ—विन्यस्त तथा सहत और
पृथुल ॥

इति ढान्ताः ॥

भ्रूणोऽर्भके स्त्रेण गर्भे—

भ्रूण—बालक तथा स्त्रीका गर्भ ॥

—वाणो बालिसुते शरे ॥४५॥

वाण—वाणासुर तथा तीर ॥४५॥

कणोत्तिसूक्ष्मे धान्यांशे—

कण—अत्यन्तसूक्ष्म तथा धान्यकण ॥

—संघाते प्रमथे गणः ॥

गण—समूह तथा शिवके अनुचर ॥

पणोऽ्यूतादिषुत्सृष्टे भृतौ मूल्ये

धनेपि च ॥ ४६ ॥

पण—जुआ आदिमें लगायाहुआधन

पैसा तथा मजूरी वा तलब ॥ ४६ ॥

मौर्व्यां द्रव्याश्रिते सत्त्वशौर्ये

संध्यादिके गुणः ॥

गुण—प्रत्यञ्चारूपआदि चौबीससत्व

आदि शुक्ल आदि, सन्धि आदि ॥

निर्व्यापारस्थितौ कालविशेषो-

त्सवयोः क्षणः ॥ ४७ ॥

क्षण-तीसकलासमय, उत्सव तथा
वेकाम बैठना तथा विग्राम करना ॥ ४७ ॥

वर्णो द्विजादौ शुक्लादौ स्तुतौ
वर्णं तु वाक्ये ॥

वर्ण-शुक्ल पीतादिरंगतयावर्ण(पु०

म०) अक्षर ब्राह्मणादे, स्तुति ॥

अरुणो भास्करेऽपि स्याद्
वर्णमेते पि च त्रिपु ॥ ४८ ॥

अरुण-सूर्य, सूर्यका सारथि, वर्ण

मेद ॥ ४८ ॥

स्थाणुः शर्वोऽप्यथ-

स्थाणु-दृढाशु तथा अत्यन्त स्थिर
और म्हादेय, सम्मा, वृष्ट पर्वत ॥

-द्रोणः काके-

द्रोण-काक तथा द्रोणाचार्य ॥

-ऽप्याभौ रवेरणः ॥

रण-समाम तथा शब्द ॥

ग्रामणीनापिते पुंसि श्रेष्ठे
ग्रामाधिपे त्रिपु ॥ ४९ ॥

ग्रामणी-नाई, मुख्यग्रामाधिप ॥ ४९ ॥

ऊर्णा भेषादिलोत्त्रि स्यादा
वर्षे चान्तरा सुवो ॥

उर्णा-मेढका बाळ तथा दोनोभौके

बीघकी मारि ॥

हरिणी स्यान्मृगी हेमप्र
तिमा हरिता च मा ॥ ५० ॥

हरिणी-मृगी, सोनेकी मूर्ति तथा
हरे रंगकी मूर्ति ॥ ५० ॥

त्रिपु पाण्डौ च हरिण-

हरिण-मृग तथा पाण्डुर बण ॥

-स्थूणा स्तम्भेऽपि वैश्मनः ॥

स्थूणा-स्तम्भा तथा लोहेकी मूर्ति ॥

तृष्णे स्पृहापिपासे द्वे-

तृष्णा-इच्छा (वाञ्छ) तथा व्यस

-शुशुप्साकरुणे घृणे ॥ ५१ ॥

घृणा-शुशुप्सा वा निन्दा तथा

करुणा ॥ ५१ ॥

वणिकपथे च विपाणि -

विपाणि-बाजारकी गली तथा

बुकान ॥

-सुरामत्यक् च वारुणी ॥

वारुणी-मदिरा तथा पश्चिमकी दिशा

करेशुरिम्या स्त्री नेमे-

करेण-हाथी तथा हथिनी ॥

-द्रविणं तु षड् घनम् ॥ ५२ ॥

द्रविण-बड तथा घन ॥ ५२ ॥

शरण गृहरक्षिभ्रोः-

शरण-गृह तथा रक्षा करन्वाला ॥

-श्रीपर्णं कमलेऽपि च ॥

श्रीपर्णं कमल तथा अग्निमन्य ॥

विपाभिमरलोहेषु तीर्णं

कलीवे स्वरं त्रिपु ॥ ५३ ॥

तीक्ष्ण-अत्यन्त गरम वस्तु, अत्यन्त तीर्खा, विष शुद्ध तथा लोहा ॥ ५३ ॥

प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रयत्ता-
प्रमातृषु ॥

प्रमाण-हेतु, मर्यादा, शास्त्रपरि-
च्छेद तथा ज्ञाता ॥

करणं साधकतमं क्षेत्रगात्रेन्द्रि-
येष्वपि ॥ ५४ ॥

करण-खेत, करण कारक, शरीर
इन्द्रिय तथा वैश्य शूद्रा स्त्रीसे उत्पन्न
॥ ५४ ॥

प्राण्युत्पादे संसरणमसंवाधच-
भृगतौ ॥ घण्टापथे-

ससरण-राजमार्ग, प्राणीका जन्म
तथा वेरोक सेनाकी यात्रा ॥

-ऽथ वान्तान्ने समुद्रिरणमु-
न्नये ॥ ५५ ॥

समुद्रिरण-व्रमन कियाहुआ अन्न तथा
उखाडना तथा जलादिका निकालना ५५

अतस्त्रिषु-

यहासे भागे कहे हुए णकारान्त
शब्द तीनों लिंगोमें होंगे ॥

-विषाणं स्यात्पशुशृङ्गेभद-
न्तयोः ॥

विषाण-पशुओंके सींग तथा हाथी-
का दात ॥

प्रवणं क्रमानिम्नोर्व्यां प्रद्वे ना
तु चतुष्पथे ॥ ५६ ॥

प्रवण-नम्र, तत्पर, ढाल वा क्रमसे
नीचा स्थान तथा चौराहा ॥ ५६ ॥

संकीर्णो निचिताशुद्धा-

सकीर्ण-अशुद्ध तथा वर्णसङ्कर ॥

-वीरिणं शून्यमूपरम् ॥

ईरिण-शून्य और ऊपर ॥

॥ इति णान्ता. ॥

देवसूर्यौ विवस्वन्तौ-

विवस्वत्-देव तथा सूर्य ॥

-सरस्वन्तौ नदार्णवौ ॥ ५७ ॥

सरस्वत्-नद तथा समुद्र ॥ ५७ ॥

पक्षिताक्षर्यौ गरुत्मन्तौ-

गरुत्मत्-गरुड तथा पक्षी ॥

-शकुन्तौ भासपक्षिणौ ॥

शकुन्त-गृध्र और पक्षिमात्र ॥

अग्न्युत्पातौ धूमकेतू-

धूमकेतु-अग्नि ओर धूममयी तारा ॥

-जीमूतौ मेघपर्वतौ ॥ ५८ ॥

जीमूत-मेघ और पर्वत ॥ ५८ ॥

हस्तौ तु पाणिनक्षत्रे-

हस्त-हाथ तेरहवां नक्षत्र ॥

-मरुतौ पवनामरौ ॥

मरुत्-वायु तथा देवता ॥

यन्ता हस्तिपके सूते-

यस्तु-हार्यावान् तथा सूत ॥

-भर्ता घातरि पोष्टरि ॥ ५९ ॥

मर्तु-प्रज्ञा और पाउन करनेवाला

॥ ५९ ॥

यानपात्रे क्षिप्तौ पोतः-

पोत-नौका तथा छप्पा ॥

-प्रेतं प्राप्यन्तरे मृते ॥

प्रेत-परेत तथा मृतक ॥

महमेदे ध्वजे केतुः-

केतु-भ्रजा तथा एकमहका नामा ॥

-पार्थिवे तनये सुतः ॥ ६० ॥

सुत-राजा तथा पुत्र ॥ ६० ॥

स्यपतिः कारुमेदेऽपि-

स्यपति-कजुफरी तथा कारुमेद,

काष्ठ चीरनेवाला ॥

-भूमृद्भूमिधरे नृपे ॥

भूमृद्-पर्कत भीर राजा ॥

मूर्धामिपिको मूपेपि-

मूर्धामिपिक-राजा और मन्त्री ॥

-ऋतु खीकृत्सुमेऽपि च ॥ ६१ ॥

ऋतु-खीका मासिक धर्म और कस-

न्तादि ऋतु ॥ ६१ ॥

विष्णावप्यभिताव्यक्तौ-

विष्ण-अप्यक्त, विष्णु और महादेवा ॥

-सूतस्त्वष्टरि सारथी ॥

सूत-सारथी तथा पाराधातु, लघुटा ॥

व्यक्त प्राज्ञेऽपि-

व्यक्त-वंदित तथा सुष्ठ ॥

-दृष्टान्त्वाद्युभौ शास्त्रनिद-

र्शने ॥ ६२ ॥

दृष्टान्त-तर्कादि शास्त्र तथा उदाह-

रण ॥ ६२ ॥

क्षत्ता स्यात्सारथी दास्ये क्षत्रि-

यायां च शुद्रजे ॥

क्षत्रु-सारथि, शुद्र और क्षत्रिवाधे

उत्पन्न तथा द्वारपाल ॥

वृत्तान्त स्यात्प्रकरणे प्रका-

रे कात्स्न्यवार्तयोः ॥ ६३ ॥

वृत्तान्त-प्रकरण प्रकार, सम्पूर्णा

तथा वार्ता ॥ ६३ ॥

आनर्तं समरे वृत्त्यस्यान्ती

वृत्तिशेषयोः ॥

आनर्त-आनर्त देश, संग्राम तथा

वृत्त्या स्यात् ॥

कृतान्तो यमसिद्धान्तदेवा

कुशुलकर्मसु ॥ ६४ ॥

कृतान्त-यमराज, सिद्धान्त, माय,

तथा पाप ॥ ६४ ॥

श्लेषमादि रसरक्तादि मह-

मूलानि तद्वृणा ॥ इन्द्रि-

याण्यश्मभिकृतिः क्षम्यो

निश्च घातयः ॥ ६५ ॥

धातु—त्रात, पित्त, कफ, पेटमें अन्न-
जायकर जो रस बनता है वह और रक्त
इत्यादि, पचमहाभूत(पृथ्वी जल इत्या-
दि) पांचोमहाभूतोंके गुण, (रूप रस
गन्ध इत्यादि) इन्द्रिय, पत्यरका विकार,
(शिलाजीत इत्यादि) वर्णात्मक शब्दों-
के कारण, (भू, इत्यादि) ॥६५ ॥
कक्षान्तरेऽपि शुद्धान्तो नृप-
स्यासर्वगोचरे ॥

शुद्धान्त—राजधानी तथा राजाओंका
जनाना ॥

कासुसामर्थ्ययोः शक्ति-

शक्ति—ब्रह्मी तथा सामर्थ्य ॥

-मूर्तिः काठिन्यकाययोः ॥ ६६ ॥

मूर्ति—कठिनता तथा शरीर ॥ ६६ ॥

विस्तारवल्लचोर्व्रतति-

व्रतति—विस्तार तथा बह्नी ॥

-वसती रात्रिवेश्मनोः ॥

वसति—रात्रि तथा घर ॥

क्षयार्चयोरपचितिः-

अपचिति—क्षय तथा पूजा ॥

-सातिर्दानावसानयोः ॥ ६७ ॥

साति—दान तथा अन्त ॥ ६७ ॥

अर्तिः पीडाधनुष्कोटयो-

अर्ति—पीडा तथा धनुषकी कोटि ॥

-जातिः सामान्यजन्मनोः ॥

जाति—सामान्यजाति तथा जन्म ॥

प्रचारस्यन्दयो रीति-

रीति—लोकाचार तथा पीतळ और

लोहेका मळ ॥

-रीतिर्दिग्मप्रवासयोः ॥ ६८ ॥

ईति—(ईति सात प्रकारकी होती है

अतिवृष्टि, सूखापडना, खेतोमें मूसोंका

लगना, टीडियोंका उपद्रव, सुगोंसे

हानि, और राजाओंसे वैर, इन ७ को

ईति कहतेहैं,) तथा परदेशमें वासा ॥ ६८ ॥

उदयेऽधिगमे प्राप्ति-

प्राप्ति—लाभ तथा उत्पत्ति ॥

-व्रेता त्वग्नित्रये युगे ॥

व्रेता—एकयुग तथा अग्नित्रय ॥

वीणाभेदेऽपि महती-

महती—नारदकी वीणा तथा महस्त्र
करके युक्त भार्यादि ॥

-भूतिर्भस्मानि संपदि ॥ ६९ ॥

भूति—अणिमा महिमादि आठ ऐश्वर्य,
भस्म तथा सम्पत्ति ॥ ६९ ॥

नदीनगर्योर्नागानां भोगवत्य-

भोगवती—सर्पोंकी नदी तथा नगरी ॥

-थ संगरे ॥

सङ्गे सभायां समितिः-

समिति—सग तथा सभा तथा सप्राम ॥

-अयत्रासावपि क्षिती ॥ ७० ॥

यन्तु-हाथीवान् तथा सूत ॥

-मर्ता घातरि पोष्टरि ॥ ५९ ॥

मर्तु-प्रसा और पाछन करनेवाला

॥ ५९ ॥

यानपात्रे शिञ्जौ पोतः-

पोत-नौका तथा छडका ॥

-प्रेतः प्राण्यन्तरे मृते ॥

प्रेत-परेत तथा मृतक ॥

ग्रहभेदे घ्वजे केतुः-

केतु-ध्वजा तथा एकग्रहका नामा ॥

-पार्थिवे सनये सुतः ॥ ६० ॥

सुत-सना तथा पुत्र ॥ ६ ॥

स्यपतिः कारुमेवेऽपि-

स्यपति-कंचुकी तथा कारुभेद,

काष्ठ खिरनेवाला ॥

-भूमृद्भूमिधरे चूपे ॥

भूमृत-पर्वत और राजा ॥

भूर्धामिषिको भूपेपि-

भूर्धामिषिक-राजा और मन्त्री ॥

-ऋतुः स्त्रीकुसुमेऽपि च ॥ ६१ ॥

ऋतु-स्त्रीका मास्तिक घर्म और बस-

न्तादि ऋतु ॥ ६१ ॥

विष्णावप्यमिताव्यक्ती-

विष्ण-अम्यक्त, विष्णु और महादेवा ॥

-सूतस्त्वष्टरि सारथी ॥

सूत-सारथी तथा पाराधातु, लष्टा ॥

व्यक्त प्राज्ञेऽपि-

व्यक्त-वदित तथा स्फुट ॥

-दृष्टान्ताद्युभौ शास्त्रनिद-

र्शने ॥ ६२ ॥

दृष्टान्त-तर्कादि शास्त्र तथा उदाह-

रण ॥ ६२ ॥

क्षया स्मात्सारथौ द्रास्ये क्षत्रि-

यायां च शूद्रजे ॥

क्षत्रु-सारथि, शूद्र और क्षत्रियासे

उत्पन्न तथा द्वारपाल ॥

वृत्तान्तः स्मात्प्रकरणे प्रका-

रे कात्स्न्यवार्तयो ॥ ६३ ॥

वृत्तान्त-प्रकरण प्रकार, सम्पूर्णा

तथा वार्ता ॥ ६३ ॥

भानर्तः समरे वृत्पस्यान्ती

वृद्धिसेषयोः ॥

भानर्त-भानर्त देश, संग्राम तथा

वृत्तका स्यान् ॥

कृतान्तो यमसिद्धान्तवैवा

कुशलकर्मसु ॥ ६४ ॥

कृतान्त-यमराज, सिद्धान्त, मन्थ,

तथा पाप ॥ ६४ ॥

श्लेषमादि रसरक्तादि महा-

भूतानि तद्वृणा ॥ इन्द्रि-

याण्यश्मविकृतिः शुब्दयो

निश्च घातवः ॥ ६५ ॥

धातु—त्रात, पित्त, कफ, पेटमें अन्न-
जायकर जो रस बनता है वह और रक्त
इत्यादि, पचमहाभूत(पृथ्वी जल इत्या-
दि) पाचोमहाभूतोंके गुण, (रूप रस
गन्ध इत्यादि) इन्द्रिय, पत्यरका विकार,
(शिलाजीत इत्यादि) वर्णात्मक शब्दों-
के कारण, (भू, इत्यादि) ॥६५॥

कक्षान्तरेऽपि शुद्धान्तो नृप-
स्यासर्वगोचरे ॥

शुद्धान्त—राजधानी तथा राजाओंका
जनाना ॥

कामसामर्थ्ययोः शक्ति-

शक्ति—ब्रह्मी तथा सामर्थ्य ॥

-मूर्तिः काठिन्यकाययोः ॥ ६६॥

मूर्ति—कठिनता तथा शरीर ॥ ६६ ॥

विस्तारबल्योर्व्रतति-

व्रतति—विस्तार तथा बल्यी ॥

-वसती रात्रिवेश्मनोः ॥

वसति—रात्रि तथा वर ॥

क्षयार्चयोरपचितिः-

अपचिति—क्षय तथा पूजा ॥

-सातिर्दानावसानयोः ॥ ६७ ॥

साति—दान तथा अन्त ॥ ६७ ॥

अर्तिः पीडाधनुष्कोट्यो-

अर्ति—पीडा तथा धनुषकी कोटि ॥

-जातिः सामान्यजन्मनोः ॥

जाति—सामान्यजाति तथा जन्म ॥

प्रचारस्यन्दयो रीति-

रीति—लोकाचार तथा पीतल और

लोहेका मल ॥

-रीतिर्दिम्बप्रवासयोः ॥ ६८ ॥

ईति—(ईति सात प्रकारकी होती है

अतिवृष्टि, सूखापडना, खेतोंमें मूसोंका

लगना, टीडियोंका उपद्रव, सुगोसे

हानि, और राजाओंसे वैर, इन ७ को

ईति कहतेहैं,) तथा परदेशमे वासा ॥६८॥

उदयेऽधिगमे प्राप्ति-

प्राप्ति—लभ तथा उत्पत्ति ॥

-त्रेता त्वग्नित्रये युगे ॥

त्रेता—एकयुग तथा अग्नित्रय ॥

वीणाभेदेऽपि महती-

महती—नारदकी वीणा तथा महत्त्व

करके युक्त भार्यादि ॥

-भूतिर्भस्मानि संपादि ॥६९॥

भूति—अणिमा महिमादि आठ ऐश्वर्य,

मस्म तथा सम्पत्ति ॥ ६९ ॥

नदीनगर्योर्नागानां भोगवत्य-

भोगवती—सर्पोंकी नदी तथा नगरी ॥

-थ संगरे ॥

सङ्गे सभायां समितिः-

समिति—सग तथा सभा तथा सग्राम ॥

-अथवासावपि क्षिती ॥ ७० ॥

क्षिति-निवास, क्षय तथा पृथ्वी ॥७०॥

खेरधिष्ण्य शर्त्तं च वद्विज्वाला
च हेतय ॥

हृत्ति-सूर्यकी प्रभा तथा शस्त्र और
भागकी आछा ॥

जगती जगति च्छन्दोविशे
पेऽपि सितावपि ॥ ७१ ॥

जगती-शोक, एकप्रकारका छन्द
तथा पृथ्वी ॥ ७१ ॥

पक्षिश्छन्दोऽपि दशम-
पक्षि-पौती तथा दश अक्षरक पा

दका छन्द ॥

-स्यात्प्रभावेऽपि घायतिः ॥
आयति-मानेबाला समय प्रमाय

तथा अम्बाई ॥
पक्षिर्गौरी च-

पक्षि-पैदर तथा चञ्चना ॥
-मूले तु पक्षति' पक्षभे

दयो ॥ ७२ ॥
पक्षति-प्रतिपदा रूतिपि तथा पक्षकी

जड ॥ ७२ ॥
प्रकृष्टियौनिष्ठिणे च-

प्रकृष्टि-स्वभाव तथा योनिष्ठि ॥
-कैशिक्याद्याश्च घृत्तयाः ॥

घृत्ति-नीलिका, सूत्रोका अर्थ तथा
कशिकी ॥

सिक्ता' स्युर्बोद्धकापि-

सिक्ता-बाह्य और सिक्ती ॥

-वेदे भवति च सृति ॥७३ ॥

सृति-शब्द, कान तथा मुनना ॥ ७३ ॥

बनिता अनितात्यर्थानुरा
गायां च योपिति ॥

बनिता-स्त्री तथा अत्यन्त प्यारी स्त्री ॥
ग्राप्तिः सिद्धिपुदासेऽपि-

गुप्ति-रक्षा, भूमिका गहवा तथा
अच्छाना ॥

घृतिर्धारणधैययोः ॥ ७४ ॥
घृति-धारण और धैर्य ॥ ७४ ॥

घृष्टी क्षुद्रवार्ताकी छन्दो
भेदो महत्स्यपि ॥

घृष्टी-क्षुद्रवार्ताकी, छन्दविशेष स्त्री ॥
वासिवा स्त्रीकरिष्योश्च-

वासिवा-स्त्री तथा हथिनी ॥
-वार्ता घृत्ता जनघृत्तौ ॥ ७५ ॥

वार्ता-नीलिका समाचार ॥ ७५ ॥
वार्तं फल्गुन्यरोगे च त्रि-

वार्तं-नीरोग, समाचार, जनघृत्ति
नीलनापाय तथा कुशल ॥

ष्यप्सु च घृत्तामृते ॥
घृत-घी, जड ॥

अघृत-जड, मोक्ष तथा बिना
मांगी मीठ ॥

कलधौतं रूप्यहेम्नो-

कलधौत-चादी तथा सोना ॥

-निमित्तं हेतुलक्षमणोः॥७६॥

निमित्त-हेतु तथा चिह्न ॥ ७६ ॥

श्रुतं शास्त्रावधृतयो-

श्रुत-शास्त्र तथा सुनागया ॥

-युगपर्याप्तयोः कृतम् ॥

कृत-सत्ययुगपर्याप्ति, तथा कियाहुआ ॥

अत्याहित महाभीतिः कर्म

जीवानपेक्षि च ॥ ७७ ॥

अत्याहित-महामय तथा साहस ॥७७॥

युक्ते क्षमादावृतेभूतं प्राण्यतीति

समे त्रिषु ॥

भूत-प्रेत, पृथिवी आदि पाच, देवयो-
नि तथा न्याययुक्त कार्य और सत्य तथा
प्राणी ॥

वृत्तं पद्ये चरित्रे त्रिष्वतीति दृढ-

निस्तले ॥ ७८ ॥

वृत्त-पद्य, श्लोक, चरित्र, अतीत,
भूतकाल, दृढ तथा गोल ॥ ७८ ॥

महद्राज्यं चा-

महत्-राज्य तथा बृहत्

-वगीतं जन्ये स्याद्गर्हितं

त्रिषु ॥

अवगीत-लोकापवाद तथा जिसकी

निंदा की गई ॥

श्वेतं रूप्येऽपि-

श्वेत-सफेद रंग तथा चादी और

रूपया ॥

-रजतं हेम्नि रूप्ये सिते

त्रिषु ॥ ७९ ॥

रजत-सोना चादी तथा उज्ज्वल ७९ ॥

त्रिष्वती

यहासे लेकर तकारान्त सम्पूर्ण शब्द

तीनों लिंगोंमें होते हैं ॥

जगदिङ्गेषु-

जगत्-लोक तथा प्राणी ॥

-रक्तं नील्यादिरागि च ॥

रक्त-नीलादि रंग तथा रुधिर ॥

अवदातः सिते पीते शुद्धे-

अवदात-शुद्ध, श्वेत पदार्थ तथा

पीला पदार्थ ॥

-बद्धार्जुनौ सितौ ॥:८० ॥

सित बंधाहुआ तथा श्वेत ॥८०॥

युक्तेऽपिसंस्कृते मर्षिण्याभि-

नीतो-

अभिनीत-युक्त, अत्यन्त, प्रशस्त.

तथा भूषित और शान्त ॥

-ऽथ संस्कृतम् ॥

कृत्रिमे लक्षणोपेतेऽप्य-

संस्कृत-संस्कारयुक्त, लक्षणयुक्त तथा

कृत्रिम ॥

-नन्तोऽनवधावपि ॥ ८१ ॥

अनन्त-अनवधि, (बिसकी मर्यादा न हो) विष्णु तथा शेष नाग ॥ ८१ ॥

रूपोत्त इष्टे प्रतीतो-

प्रतीत-प्रसन्न तथा हार्णित ॥

-अभिजातस्तु कुलजे ध्रुवे ॥

अभिजात-कुलीन और पण्डित ॥

विविक्तौ पृथावेजनौ-

विविक्त-पवित्र और विभक्त, वा एकान्त ॥

-मूर्च्छितौ मूढसोच्छ्रयौ ॥ ८२ ॥

मूर्च्छित-मोहित तथा बढा ॥ ८२ ॥

द्वौ चाम्लपरुषौ शुक्तौ-

शुक्त-जुक्त तथा कठोर ॥

शित्नी घषलमेचकौ ॥

शिति-प्रबल (शुक्ल) मेचक तथा कृष्णवर्ण ॥

सत्ये साधौ विद्यमानेप्रज्ञ-

स्तेऽप्योहते च सत् ॥ ८३ ॥

सत्-सत्य, साधु, विद्यमान, प्रशस्त तथा अन्वर्हित ॥ ८३ ॥

पुरस्कृतं पूजितेऽरात्यभि
युक्तोऽपत कृते ॥

पुरस्कृत-पूजित, शत्रुस पीडित और भाग किये हुये ॥

निवातानाश्रयावातौ क्षया

भेद्यं च बभूवत् ॥ ८४ ॥

निवात-निवास, वायुरहित स्थान

तथा शस्त्रोसे अभेद्य कवच ॥ ८४ ॥

जातोऽनन्तमृच्छास्युरुच्छ्रिता-

उच्छ्रित-उत्पन्न, ऊचा, उच्छ्रित,

अहंकायुक्त तथा अत्यन्त बढा ॥

-उत्थितास्त्वमी ॥ बुद्धिमत्प्रो

द्यतोत्पन्ना-

उत्थित-बुद्धिको प्राप्त होनेवाला,

तथा उदयको प्राप्त होनेवाला और उत्पन्न होनेवाला ॥

-आह्वतौ सादरार्चितौ ॥ ८५ ॥

आह्वत-आदर किया हुआ तथा पूजित ॥ ८५ ॥

इति तान्ता ।

अर्थोभिधेयैरेवस्तुप्रयोजन

निवृत्तिषु ॥

अर्थ-शब्दका अर्थ, धन, यथार्थ, निवृत्ति ॥

निपानागमयोस्तीर्थमृषि

जुष्टे जले गुरौ ॥ ८६ ॥

तीर्थ-निशान अर्थात् कूपके पासका हौद वा जलाशय, शास्त्र, ऋषितैर्निहत

जल तथा गुरु ॥ ८६ ॥

समयस्त्रिषु शक्तिस्ये संभ

द्धार्ये हितेऽपि च ॥

समर्थ-समर्थ वा बलवान् तथा सम्प्रत्ययुक्त पण्डित तथा दिन ॥

दशमीस्थौ क्षीणरागवृद्धौ-

दशमीस्थ-रसरहित और अतिवृद्ध ॥

-वीथी पदव्यपि ॥ ८७ ॥

वीथी-मार्ग तथा पक्ति ॥ ८७ ॥

आस्थानीयतनयोरस्था-

आस्था-समा तथा उपाय ॥

-प्रस्थोऽस्त्री सानुमानयोः ॥

प्रस्थ-पर्वतकी चोटी तथा तोल-

नेका सेर ॥

॥ इति श्रान्ताः ॥

अभिप्रायवशौ छन्दा-

छन्द-अभिप्राय तथा अधीन ॥

-वब्दौ जीमूतवत्सरौ ॥ ८८ ॥

वब्द-मेघ तथा वर्ष ॥ ८८ ॥

अपवादौ तु निन्दाज्ञे-

अपवाद-निन्दा तथा आज्ञा ॥

-दायादौ सुतबान्धवौ ॥

दायाद-पुत्र तथा ज्ञाति वा विरादरी ॥

पादा रश्म्यंग्रितुर्याशा-

पाद-किरण, चरण तथा चौथाई ॥

-श्रन्द्रागन्धर्कास्तमोनुदः ॥ ८९ ॥

तमोनुद-चन्द्र, सूर्य तथा अग्नि ॥ ८९ ॥

निर्वादो जनवादेऽपि-

निर्वाद-लोकापवाद और निश्चित

वाद ॥

-शादो जम्बालशष्पयोः ॥

शाद-वास और कीचड ॥

आरावे रुदिते त्रातर्यक्रिन्दो

दारुणे रणे ॥ ९० ॥

आक्रन्द-आर्तशब्द, रोदन, रक्षक,

भयकर तथा युद्ध ॥ ९० ॥

स्यात्प्रसादोऽनुरागेऽपि-

प्रसाद-अनुग्रह, (प्रसन्नता) और

काव्यके गुण ॥

-सूदः स्याद्व्यञ्जनेऽपि च ॥

सूद-व्यञ्जन और रसोईवरदारका

नाम ॥

गोष्ठाध्यक्षेऽपि गोविन्दो-

गोविन्द-कृष्ण तथा विष्णु और

गोष्ठका स्वामी ॥

-हर्षेऽप्यामोदवन्मदः ॥ ९१ ॥

आमोद-हर्ष तथा निर्हारि गन्ध ॥ ९१ ॥

प्राधान्ये राजलिङ्गे च वृषाङ्गे

ककुदोऽस्त्रियाम् ॥

ककुद-प्रधान, राजचिह्न तथा

वैलका कन्धा ॥

स्त्री संविज्ञानसंभाषाक्रियाका-

राजिनामसु ॥ ९२ ॥

सविद्-ज्ञान, सम्भाषण, कर्म, नियम,

युद्ध और नाम ॥ ९२ ॥

धर्मे रहस्युपनिष-

उपनिषद्-धर्म, एकान्त और वेदान्त

—स्स्याद्वतौ वत्सरे शरत् ॥

शरत्—कारकाधिकता समय और वर्ष ॥

पद ध्ववसितत्राणस्थानल
क्ष्माद्घ्रिवस्तुषु ॥ ९३ ॥

पद—ध्ववसाय, रक्षास्थान, विह्व,
चरण तथा वस्तु ॥ ९३ ॥

गोष्पदं सेविते माने—

गोष्पद—सेवित दश तथा भूमिपर
गायके सुरसे इमा गच्छा ॥

—प्रतिष्ठा कृत्यमास्पदम् ॥

आस्पद—प्रतिष्ठा स्थानतया काय ॥

—त्रिष्विष्टमधुरौ स्वादू—

स्वादू—इष्ट और मधुर ॥

—मृदू चावीक्ष्णकोमली ॥ ९४ ॥

मृदू—अस्तीक्ष्ण तथा कामल ॥ ९४ ॥

मूढाल्यापद्गुनिर्भाग्या मदा
स्यु—

मद—मूढ, आलसी अप्रवीण,
अस्य तथा निर्भाग्य ॥

—द्वौ तु शारदौ ॥

प्रत्यमाप्रतिमौ—

शारद—इरपोक अतिठन (शृष्ठ)

अरुपीपर औपची ॥

—विद्वत्सुमगल्मौ विशार

दौ ॥ ९५ ॥

विशारद—विद्वान् तथा चतुर और
वीठ पुरुष ॥ ९५ ॥

इति वान्ता ॥

व्यामो वटश्च न्यप्रोधा—
न्यप्रोधा—वटवृक्ष तथा अङ्गुष्ठार ॥

—मुत्सेधः काय उभाति ॥

उत्सेध—वेह तथा उँवाई ॥

पर्याहारश्च मार्गश्च विवधी
वीवधी च तौ ॥ ९६ ॥

विवध वीवध—पर्याहार (प्यानादि)
तथा मार्ग ॥ ९६ ॥

परिधिर्पत्नियतरो* शाखायामु
पसूर्यके ॥

परिधि—वृत्तकी परिधि वा गोलाई,
सूर्य वा चन्द्रके चारों ओरका मण्डल,
पलाश इत्यादि यज्ञके वृक्षोकी शाखा ॥

धन्वकं ध्यसन चेत* पीडा
धिष्ठानमाधय* ॥ ९७ ॥

आधि—धन्वक, आपधि, मनकी
पीडा तथा बीटना ॥ ९७ ॥

स्यु* समर्पननीवाकनियमाश्च
समाधय* ॥

समाधि—विचके व्यापारका रोकना
अङ्गीकार सुप रचना, नियम तथा प्याना ॥

दोषोत्पादेऽमुव ध* स्यात्प्रकृ
त्यादिबिन्धरे म ९८ ॥

मुख्यानुयायिनि शिशौ प्रकृ-
तस्यानुवर्तने ॥

अनुबन्ध—दोपका उत्पन्न करना, प्रकृति
प्रत्यय आगम आदेश इत्यादिमें जिसका
नाश हो गया हो वह ॥९८॥ पिता इत्यादि
वडोंका अनुसरण करनेवाला बालक, प्रा-
रम्भ किया वस्तुका पगपरासे चलना ॥

विधुर्विष्णौ चन्द्रमसि—

विधु—विष्णु, चन्द्रमा, कपूर, तथा
राक्षस ॥

—परिच्छेदे विलेऽवधिः ॥९९॥

अवधि—सीमा वा हद, गड्ढा और
काल ॥ ९९ ॥

विधिर्विधाने देवेऽपि—

विधि—करना, माग्य धर्मशास्त्र तथा
आज्ञादेना ॥

—प्रणिधिः प्रार्थने चरे ॥

प्रणिधि—प्रार्थन तथा चलनेवाला ॥

बुधबृद्धौ पण्डितेऽपि—

बुध—पण्डित तथा एक ग्रह ॥ बृद्ध-
पण्डित तथा बृद्धपुरुष ॥

—स्कन्धः समुदयेऽपि च ॥१००॥

स्कन्ध—समुदय, समूह, काण्ड, राजा
तथा कन्धा ॥ १०० ॥

देशे नदविशेषेऽन्धौ सिन्धुर्ना
सारिति त्रियाम् ॥

सिन्धु—समुद्र, एक नद, सिन्धुदेश
तथा नदी ॥

विधा विधौ प्रकारे च—

विधा—विधान प्रकार तथा बढाई ॥

—साधू रम्येऽपि च त्रिषु ॥१०१॥

साधु—साधु, कुलीन, सुन्दर, रोजगारी
तथा सज्जन ॥ १०१ ॥

वधूर्जाया स्तुषा स्त्री च—

वधू—स्त्री, (विवाहिता स्त्री) पुत्रकी
बहू, सवरग ओपधी ॥

—सुधा लेपोऽमृतं स्तुही ॥

सुधा—अमृत, चूना, विजुली, भोजन,
अबरा, सेहुड ॥

सन्धा प्रतिज्ञा मर्यादा—

सधा—प्रतिज्ञा, अंगीकार, मर्यादा ॥

—श्रद्धा संप्रत्ययः स्पृहा ॥१०२॥

श्रद्धा—आदर, आकाक्षा तथा विश्वास
॥ १०२ ॥

मधु मद्ये पुष्परसे क्षौद्रे—

मधु—मद्य, पुष्परस, शहद, चैत्र तथा
महुआ ॥

—प्यन्धं तमस्यपि ॥

अन्ध—अन्धा तथा अधियारा ॥

अतस्त्रिषु—

यहांसे लेकर धातवर्ग पर्यंत शब्द
तीनों लिंगोंमें होते हैं ॥

—त्स्यादतौ वत्सरे शरत् ॥

शरद्—कारफार्सिफका समय और वर्ष ॥

पद व्यवसितत्राणस्थानल
ह्माद्घ्रिवस्तुषु ॥ ९३ ॥

पद—व्यवसाय, रक्षास्थान, विह, चरण तथा यस्तु ॥ ९३ ॥

गोष्पद् सेवित्ते माने—

गोष्पद्—सेवित् देश तथा भूमिपर गायके सुरसे हुआ गच्छा ॥

—प्रतिष्ठा कृत्पमास्पदम् ॥

आस्पद—प्रतिष्ठा, स्थान तथा कार्य ॥

—त्रिष्विष्टमधुरौ स्वादू—

स्वादु—इष्ट और मधुर ॥

—मृदू घातीक्ष्णकोमली ॥ ९४ ॥

मृदू—मृतीक्ष्ण तथा कामल ॥ ९४ ॥

मूढालपापदुर्निर्भाग्या मदाः

स्यु—

मद—मूढ आछसी अप्रवीण, अस्य तथा निर्भाग्य ॥

—द्वौ तु क्षारद्वौ ॥

प्रत्यमाप्रतिमौ—

क्षारद—इरपोक क्लिष्टितन (वृक्ष) अक्षपीपर औषधी ॥

—विद्वत्सुप्रगल्भौ विशार

दौ ॥ ९५ ॥

विशारद—विद्वान् तथा चतुर और दीठ पुरय ॥ ९५ ॥

इति दान्ता ॥

ध्यामो वटश्च न्यम्रोघा—

न्यम्रोघ—वटवृक्ष तथा अङ्गभार ॥

—ध्रुत्सेघं काय उन्नतिः ॥

उत्सेघ—देह तथा उन्नति ॥

पर्याहारश्च मार्गश्च विषयी
वीषयी च तौ ॥ ९६ ॥

विषय वीषय—पर्याहार (ध्यानादि) तथा मार्ग ॥ ९६ ॥

परिधिर्यज्ञियतरोः शाखायामु
पसूर्यके ॥

परिधि—वृत्तकी परिधि वा गोठार्ध, सूर्य वा अश्वके चारों ओरका मण्डल,

पञ्चाश इत्यादि पङ्के वृक्षोकी शाखा ॥ अन्धक ध्यसन चेत पीडा

विष्ठानमाधयः ॥ ९७ ॥

आधि—अन्धक, आपत्ति, मन्की पीडा तथा बैटना ॥ ९७ ॥

स्युं समर्पननीवाकनियमाश्च
समाधय ॥

समाधि—चित्तके ध्यापारका रोकना अङ्गीकार पुन रहना, नियम तथा ध्याना

दोषोत्पादेऽमुषन्धाः स्यात्प्रकृ-
त्यादिविन्धरे म ९८ ॥

मुख्यानुयायिनि शिशौ प्रकृ-
तस्यानुवर्तने ॥

अनुबन्ध—दोपका उत्पन्न करना, प्रकृति
प्रत्यय आगम आदेश इत्यादिमें जिसका
नाश हो गया हो वह ॥९८॥ पिता इत्यादि
बडोका अनुसरण करनेवाला बाळक, प्रा-
रम्भ किया वस्तुका परंपरासे चलना ॥

विधुर्विष्णौ चन्द्रमसि—

विधु—विष्णु, चन्द्रमा, कपूर, तथा
राक्षस ॥

—परिच्छेदे विलेऽवधिः ॥९९॥

अवधि—सीमा वा हद्, गड्ढा और
काल ॥ ९९ ॥

विधिर्विधाने देवेऽपि—

विधि—करना, भाग्य धर्मशास्त्र तथा
आज्ञादेना ॥

—प्रणिधिः प्रार्थने चरे ॥

प्रणिधि—प्रार्थन तथा चलनेवाला ॥

बुधवृद्धौ पण्डितेऽपि—

बुध—पण्डित तथा एक ग्रह ॥ वृद्ध-
पण्डित तथा वृद्धपुरुष ॥

—स्कन्धः समुदयेऽपि च ॥१००॥

स्कन्ध—समुदय, समूह. काण्ड, राजा
तथा कन्धा ॥ १०० ॥

देशे नदविशेषेऽथौ सिन्धुर्ना
सारिति स्त्रियाम् ॥

सिन्धु—समुद्र, एक नद, सिन्धुदेश
तथा नदी ॥

विधा विधौ प्रकारे च—

विधा—विधान प्रकार तथा बडाई ॥

—साधू रम्येऽपि च त्रिषु ॥१०१॥

साधु—साधु, कुलीन, सुन्दर, रोजगारी
तथा सज्जन ॥ १०१ ॥

वधूर्जाया स्नुषा स्त्री च—

वधू—स्त्री, (विवाहिता स्त्री) पुत्रकी
बहू, सवरग ओपधी ॥

—सुधा लेपोऽमृतं स्नुही ॥

सुधा—अमृत, चूना, विजुली, भोजन,
अवरा, सेहुड ॥

सन्धा प्रतिज्ञा मर्यादा—

सधा—प्रतिज्ञा, अंगीकार, मर्यादा ॥

—श्रद्धा संप्रत्ययः स्पृहा ॥१०२॥

श्रद्धा—आदर, आकाक्षा तथा विश्वास
॥ १०२ ॥

मधु मद्ये पुष्परसे क्षौद्रे—

मधु—मद्य, पुष्परस, शहद, चैत्र तथा
महुआ ॥

—प्यन्धं तमस्यपि ॥

अन्ध—अन्धा तथा अधियारा ॥

अतस्त्रिषु—

यहासे लेकर वातवर्ग पर्यंत शब्द
तीनों लिंगोंमें होते हैं ॥

—समुद्रद्वी पण्डितमन्यगर्वि
सी ॥ १०३ ॥

समुद्रद्वी—अपनेको पंडित माननेवाला
वा गर्वयुक्त ॥ १ ३ ॥

ब्रह्मवधुगधिक्षेपे निर्देश—
ब्रह्मवधु—अधिक्षेप, निन्दा योग्य
ब्राह्मण ॥

—ऽथ विलम्बित ॥ अविदूरो-
प्यवष्टब्धः—

अवष्टम्ब—आधित, पासनाला तथा
बैवा हुआ ॥

—प्रसिद्धौ ख्यातमूपितौ ॥ १०४ ॥

प्रसिद्ध—प्रसिद्ध वा ख्यात तथा
मूपित ॥ १ ४ ॥

॥ इति धाम्नाः ॥

सूर्यबह्वी चित्रमानु-
चित्रमानु—सूर्य और अग्नि ॥

—भानू रश्मिदिवाकरौ
भानु—किरण और सूर्य ॥
मूलात्मानौ घातुदेहौ—

मूलात्मानु—भ्रूवा तथा दह ॥
—सूर्खनीचौ पृथग्जनौ ॥ १०५ ॥

पृथग्जन—मूर्ख और नीच ॥ १०५ ॥
भावाणी क्षौलपापाणौ—
भाबन्—पर्वत तथा फयर ॥

—पत्रिणी शरपाणिणी ॥

पत्रिन्—पक्षी, घाज पक्षी तथा बाण ।
वरुशैलौ शिखरिणौ—

शिखरिन्—वृक्ष तथा शैल ॥
शिखिनी वह्निवर्हिणी ॥ १०६ ॥

शिखिन्—अग्नि तथा मोर ॥ १०६ ॥
—प्रतिपत्नाशुभौ लिप्सोपमहा-

प्रतिपत्न—छामको इच्छा तथा स-
स्कार ॥

—वथ सादिनी ॥ द्वी सारधि-
हयारोहौ—

सादिन्—सारधि और घोड़ेका सवार ॥
—वाजिनोऽश्वेषु पक्षिण ॥ १०७ ॥

वाजिन्—घोडा और पक्षी ॥ १ ७ ॥
कुलेऽप्यभिजनो जन्मभूम्या

म—
अभिजन—कुल तथा जन्मभूमि ॥
—व्यथ हायना ॥ वर्षाधिर्वा

हिमेदाश्र-
हायन—वर्ष, आँध तथा एक तर

हका पान ॥
घन्त्राग्न्यर्का विरोचना ॥ १०८ ॥

विरोचन—घन्त्रमा अग्नि, सूर्य ॥ १ ८ ॥
क्षेत्रोऽपि घृजिनो—

घृजिन—स्केत कुटिल तथा पाप ॥
—विश्वकर्माकेसुरशिखिनो ॥

विश्वकर्मान्—सूर्य तथा विश्वकर्मा ॥

आत्मा यतो धृतिर्बुद्धिः
स्वभावो ब्रह्मवर्ष्म च ॥ १०९ ॥

आत्मन्-आत्मा, देह स्वभाव, बुद्धि.
ब्रह्म, उपाय तथा धीरता वा त्रैयी ॥ १०९ ॥

शक्तो घातुकमत्तेभो वरुंका-
ब्दो घनाघनः ॥

घनाघन-बरसनेवाला मेघ, इन्द्र तथा
खूनी मतवाला हाथी ॥

अभिमानोऽर्थादिदपे ज्ञाने
प्रणयहिंसयोः ॥ ११० ॥

अभिमान-धनादिका घमड, ज्ञान,
प्रणय नम्रता तथा हिंसा ॥ ११० ॥

घनो मेघे मूर्तिगुणे त्रिषु मूर्ते
निरन्तरे ॥

घन-कठोरवस्तु, मेघ, मूर्तिका गुण
मुद्गर कौसीका वनाहुआ घटा इत्यादि
बाजा मध्यनृत्य गीतवाद्य ॥

इनः सूर्ये प्रभौ-

इन-सूर्य, प्रभु ॥

-राजा मृगांके क्षत्रिये नृपे १११

राजन्-चन्द्रमा, क्षत्रिय तथा नृप ॥

॥ १११ ॥

वाणिन्यौ नर्तकीदूत्यौ-

वाणिनी-नाचनेवाली स्त्री तथा दूती
वा कुटनी ॥

-स्रवन्त्यामपि वाहिनी ॥

वाहिनी-सेना, नदी, वाहिनीपति,
समुद्र तथा सेनापति ॥

हादिन्यौ वज्रतडितौ-

हादिना-वज्र और विजली ॥

-वन्दायामपि कामिनी ॥ ११२ ॥

कामिनी-बहुन कामगली या कामको
इच्छा करनेवाली स्त्री, वन्दा-एकवृक्षका
रोग तथा स्त्री ॥ ११२ ॥

त्वग्देहयोरपि तनुः-

तनु-खाल, शरीर, थोडा और दुर्बल

सूनाऽधोजिह्विकापि च ॥

सूना-जिह्वके तलेका स्थान और
मारनेक स्थान ॥

ऋतुविस्तारयोरस्त्री वितानं

त्रिषु तुच्छके ॥ ११३ ॥ मन्दे-

वितान-ऋतु, विस्तार, तुच्छ ॥ ११३ ॥

तथा मन् ॥

-ऽथ केतनं कृत्ये केतावुपानि-

मन्त्रणे ॥

केतन-ध्वजा, घर, कार्य तथा उपनि
मन्त्रण ।

वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा

विप्रः प्रजापतिः ॥ ११४ ॥

ब्रह्मन्-वेद, चैतन्य, तप ब्रह्मा तया
ब्राह्मण और प्रजापति ॥ ११४ ॥

उत्साहने च हिंसायां सूचने
चापि गन्धनम् ॥

-समुद्रद्वी पण्डितमन्यगर्वि
सौ ॥ १०३ ॥

समुन्द्र-अपनेको पंडित माननेवाला
वा गर्भव्युक्त ॥ १०३ ॥

ब्रह्मवधु-धुग्धिभेदे निर्देश-
ब्रह्मवधु-अधिक्षप, निन्दा योग्य
ब्राह्मण ॥

-ऽय विलम्बितः ॥ अविदूरोऽ-
प्यवष्टब्ध-

अवष्टब्ध-आश्रित, पासवाला तथा
दया हुआ ॥

-प्रसिद्धौ ख्यातमूपिसौ ॥ १०४ ॥

प्रसिद्ध-प्रसिद्ध वा ख्यात तथा
भूषित ॥ १ ४ ॥

॥ इति धान्ता* ॥

सूपवह्नी चित्रमानु-
चित्रमानु-सूर्य और अग्नि ॥

-भानु रश्मिदिवाकरी
मानु-भिरण और सूर्य ॥

भूतात्मानो घातदेहौ-
भूतात्मन्-प्रज्ञा तथा दह ॥

-मूर्यनीचो पृथग्जनी ॥ १०५ ॥

पृथग्जन-मूर्ख और नीच ॥ १०५ ॥
प्रावाणो झेलपापाणो-
पाक्न्-पान तथा पपर ॥
-पत्रिणौ तरपात्रिणौ ॥

पत्रिन्-पक्षी, बाज पक्षी तथा बाण
तरुशीलौ शिखरिणौ-

शिखरिन्-वृक्ष तथा शूड ॥

शिखिनौ बह्विचरिणी ॥ १०६ ॥

शिखिन्-अग्नि तथा मोर ॥ १०६ ॥
प्रतियत्नासुभौ लिप्सोपमहा-
प्रतियत्न-कामकी इच्छा तथा स-

स्कार ॥

-वथ सादिनौ ॥ द्वौ सारथि
हयारोहौ-

सादिन्-सारथि और घोड़ेका सवार ॥
-वाजिनोऽश्वेषु पक्षिण* ॥ १०७ ॥

वाजिन्-घोडा और पक्षी ॥ १०७ ॥
कुलेऽप्यभिजनो जन्मभूम्या
म-

अभिजन-कुल तथा जन्मभूमि ॥
-व्यथ हायना ॥ वर्षाचिर्षो
हिभेदाश्च-

हायन-वर्ष, ऑष तथा एक तर
दक्ष धान ॥

घन्द्राग्न्यर्को विरोधना* ॥ १०८ ॥

विरोधन-चन्द्रमा, अग्नि, सूर्य ॥ १०८ ॥
ह्येनेऽपि पृथिना-

पृथिम-स्नेह कुटिल तथा पार ॥
-विश्वकर्मासुरशिलिपिनो* ॥
विश्वकर्म्-सूय तथा विश्वकर्मा ॥

पक्ष्मन्-नेत्रोके पलक, केसर,
सूतका टुकड़ा, अतिअल्प ॥

तिथिभेदे क्षणे पर्व-

पर्वन्-अष्टमी दर्श आदि तिथि,
उत्सव ॥

-वर्त्मनेत्रच्छदेऽध्वनि ॥ १२१ ॥

वर्त्मन्-मार्ग वा रास्ता तथा
आँखके पलक ॥ १२१ ॥

-अकार्यगुह्ये कौपीन-

कौपीन-अकार्य और गुह्य तथा
कौपीन ॥

-मैथुनं संगतौ रते ॥

मैथुन-स्त्री पुरुषका संयोग तथा
रति ॥

प्रधानं परमात्मा धीः-

प्रधान-प्रधान वा मुख्य तथा राजा-
का मुख्य सहाय, परमात्मा, बुद्धि ॥

-प्रज्ञानं बुद्धिचिह्नयोः ॥ १२२ ॥

प्रज्ञान-बुद्धि और चिह्न ॥ १२२ ॥

प्रसूनं पुष्पफलयो-

प्रसून-फूल तथा फल ॥

-निधनं कुलनाशयोः ॥

निधन-कुल और नाश ॥

क्रन्दने रोदनाह्वाने-

क्रन्दन-रोना, पुकारना तथा योद्धा-

ओंका धमकीसे ललकारना ॥

वर्ष्मं देहप्रमाणयोः ॥ १२३ ॥

वर्ष्मन्-शरीर वा देह तथा प्रमाण
वा नाप ॥ १२३ ॥

गृहदेहत्विट्प्रभावा धामा-

धामन्-घर, देह, प्रभा वा प्रकाश
तथा प्रभाव ॥

-न्यथ चतुष्पथे ॥ संनिवेशे

च संस्थानं-

संस्थान-किसी वस्तुके अवयवोका
विभाग तथा चौरहा और मरना वा नाश।

लक्ष्म चिह्नप्रधानयोः ॥ १२४ ॥

लक्ष्मन्-चिह्न तथा प्रधान वा
मुख्य ॥ १२४ ॥

आच्छादने संपिधानमपवारण-
मित्युभे ॥

आच्छादन-ढाकना, छिपना, बख
इत्यादिसे बेटन, बख तथा गुप्त होना ॥

आराधनं साधने स्यादवाप्तौ
तोषणेऽपि च ॥ १२५ ॥

आराधन-सन्तुष्ट करना, सिद्ध
करना तथा लाभ ॥ १२५ ॥

अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्या-
सनेष्वपि ॥

अधिष्ठान-पहियोँ, नगर, आक्रमण
वा धमलमें कर लेना ॥

रत्नं स्वजातिश्रेष्ठेऽपि-

गन्धन-सूचनकरना वा चुगडीखाना
हिंसा तथा उस्ताह देना वा मरोसादेना ॥

आतञ्जनं प्रतीवापञ्जवनाप्याय
नार्थकम् ॥ ११५ ॥

आतञ्जन-वग, तपकरना तथा दूधमें
मट्टा बाधना ॥ ११५ ॥

व्यञ्जनं लाञ्छनं स्मश्रुनिष्ठाना
वयवेष्वपि ॥

व्यञ्जन-बिह, दाढीमूछनिष्ठान तथा
भंग ॥

स्यात्कौलीनं लोकवादे युद्धे
पश्चहिपक्षिणाम् ॥ ११६ ॥

कौलीन-लोकवापवाद वा लोकनिंदा
तथा पक्ष सर्प पक्षीका युद्ध ॥ ११६ ॥

स्याद्दुद्यानं निम्तरणे वनमेदे
प्रयोजने ॥

दुद्यान-कगीचा, निरुद्धता तथा
प्रयोजन ॥

अबकाशे स्थितौ स्यानं-
स्यान-अबकाश और स्थिति ॥

-क्रीडावावपि देवनम् ॥ ११७ ॥

देवन-क्रीडा स्पन्दहार तथा जीतनेकी
इच्छा ॥ ११७ ॥

उत्थानं पौरुषे सन्ध्रे सनिवि-
ष्टोत्तमेऽपि च ॥
उत्थान-उत्थान व सदा रोमा,

उद्योग, कुट्टुम्बकार्य, सिद्धान्त तथा
उत्तम औपव ॥

व्युत्थानं प्रक्षिरोधे च विगोषा
चरणोऽपि च ॥ ११८ ॥

व्युत्थान-तिरस्कार या अनावर
विरोध करना तथा स्वतन्त्रतासे काम
करना ॥ ११८ ॥

मारणे मृतसंस्कारे गतौ द्रव्ये
ऽप्यदापने ॥ निर्वर्तनौपकरणानु
प्रज्यासु च साधनम् ॥ ११९ ॥

साधन-पारा इत्यादि रसायनका
वनाना, चखना, पृथ्वी खल इत्यादि
द्रव्य धन दौलत दिखाना, धन इत्यादि
का पैदा करना, उपाय, पीछे पीछे
चलना पुरुषका मूत्रेऽत्रिय, तथा मृतक
वा अग्निसंस्कार ॥ ११९ ॥

निर्यातनं वेरशुद्धौ दाने न्या
सार्पणेऽपि च ॥

निर्यातन-वेरशोधन, दान तथा
घरोहट दाना ॥

व्यसनं विपदि भ्रंशे दोषे
कामजकोपजे ॥ १२० ॥

व्यसन-विपत्ति, भ्रंश नाश वा पतन,
कामज दोष तथा कोपद्रोषा ॥ १२ ॥

पक्ष्मासिलोन्नि किंमल्के व
स्वाद्यशोऽप्यणीमसि ॥

पद्मन्-नेत्रोके पलक, केसर,
सूतका टुकड़ा, अतिअल्प ॥

तिथिभेदे क्षणे पर्व-

पर्वन्-अष्टमी दर्श आदि तिथि,
उत्सव ॥

-वर्त्मनेत्रच्छदेऽध्वनि ॥ १२१ ॥

वर्त्मन्-मार्ग वा रास्ता तथा
आँखके पलक ॥ १२१ ॥

-अकार्यगुह्ये कौपीन-

कौपीन-अकार्य और गुह्य तथा
कौपीन ॥

-मैथुनं संगतौ रते ॥

मैथुन-स्त्री पुरुषका संयोग तथा
रति ॥

प्रधानं परमात्मा धीः-

प्रधान-प्रधान वा मुख्य तथा राजा-
का मुख्य सहाय, परमात्मा, बुद्धि ॥

-प्रज्ञानं बुद्धिचिद्वयोः ॥ १२२ ॥

प्रज्ञान-बुद्धि और चिह्न ॥ १२२ ॥

प्रसूनं पुष्पफलयो-

प्रसून-फूल तथा फल ॥

-निधनं कुलनाशयोः ॥

निधन-कुल और नाश ॥

क्रन्दने रोदनाह्वाने-

क्रन्दन-रोना, पुकारना तथा योद्धा-

ओंका धमकीसे ललकारना ॥

वर्ष्मं देहप्रमाणयोः ॥ १२३ ॥

वर्ष्मन्-शरीर वा देह तथा प्रमाण
वा नाप ॥ १२३ ॥

गृहदेहत्विद्प्रभावा धामा-

धामन्-घर, देह, प्रभा वा प्रकाश
तथा प्रभाव ॥

-न्यथ चतुष्पथे ॥ संनिवेशे

च संस्थानं-

संस्थान-किसी वस्तुके अवयवोंका
विभाग तथा चौरहा और मरना वा नाश।

लक्ष्म चिद्वप्रधानयोः ॥ १२४ ॥

लक्ष्मन्-चिह्न तथा प्रधान वा
मुख्य ॥ १२४ ॥

आच्छादने संपिधानमपवारण-
मित्युभे ॥

आच्छादन-ढाकना, छिपना, वस्त्र
इत्यादिसे ढेपना, घस्र तथा गुप्त होना ॥

आराधनं साधने स्यादवाप्तौ
तोषणेऽपि च ॥ १२५ ॥

आराधन-सन्तुष्ट करना, सिद्ध
करना तथा लाभ ॥ १२५ ॥

अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्या-
सनेष्वपि ॥

अधिष्ठान-पहियों, नगर, आक्रमण
वा धमलमें कर लेना ॥

रत्नं स्वजातिश्रेष्ठेऽपि-

रत्न—जवाहिर तथा स्वजातिमें श्रेष्ठ
वा उत्तम ॥

—बने सलिलकानने ॥ १२६ ॥

वन—पानी और वन ॥ १२६ ॥

सलिन विरले स्तोके—

तलिन—विरल तथा थोडा ॥

—वाच्यल्लिङ्ग तयोत्तरे ॥

यहाँसे नातबर्गकी समाप्ति पर्यन्त
संपूर्ण शब्द वाच्यल्लिङ्ग होत हैं ॥

समाना सत्समैके स्युः—

समान—संबन्धित, सम और एक ॥

—पिशुनौ खलसूचकौ ॥ १२७ ॥

पिशुन—सूचक वा चुगल्लोर तथा
सूच ॥ १२७ ॥

हीनन्यूनानावूनगर्षो—

हीन न्यून, थोडा त्याग किया
गया तथा निन्दा करनेके योग्य और

किस्ती वस्तुसे रहित ॥

—वेगिशूरी सरस्विनी ॥

सरस्वि—वगवाला तथा शूर ॥

अभिपन्नोऽपरादोऽभिग्रस्त

व्यापद्रसावपि ॥ १२८ ॥

अभिपन्न—अपराधी, बीता गया

तथा रिपविका प्राप्त मया ॥ १२८ ॥

॥ इति नाम्ता ॥

कलापो भूपणे यहे सूर्णारे

सहतावपि ॥

कलाप—समूह, मोरकी फूँठ छी
कमरकी पचीस लडकी फौजनी तथा
गहना और तरकस ॥

परिच्छदे परीषापः पर्युत्ती
सलिलस्वितौ ॥ १२९ ॥

परीषाप—तंबू कनास इत्यादि सामग्री
तथा बीजका बोना और धाबा ॥ १२९ ॥

गोधुग्गोष्ठपती गौपी—

गोप—अहीर, गन्वरस, अनेकका-
मोंको करनेवाला वा कामदार ॥

—हरविष्णु वृषाकमी ॥

वृषाकपि—महादेव तथा विष्णु ॥

वाच्यमूष्माशु—

वाच्य—माफ अर्थात् गरम वस्तुपर
पानी डालनेसे घूमकि सश ऊपर
उठती हुई वस्तु, भासू, गरमी ॥

—कशिपु त्वन्नमाच्छादन
द्वयम् ॥ १३० ॥

कशिपु—भोजन, भक्ष वस्तु तथा
तकिया ॥ १३० ॥

सल्पं क्षय्याद्वारेषु—

सल्प—छाट, अटारी तथा दारा ॥

—स्तम्भेऽपि बिटपोऽस्त्रियाम् ॥

स्त्रिय—शास्त्र पत्रा इत्यादिका
समूह, पास तृण इत्यादिका गुच्छा,
बुध वा पेड ॥

प्राप्तरूपस्वरूपाभिरूपा बुध
मनोज्ञयोः ॥ १३१ ॥ भेद्यलिङ्गा
अमी-

प्राप्तरूप-स्वरूप, अभिरूप, पठित
तथा सुन्दर ॥ १३१ ॥

-कूर्मी वीणाभेदश्च कच्छपी ॥

कच्छपी-कछुही और सारस्वती
वीणा ॥

इति पाताः ॥

खर्गे पुंसि रेफः स्यात्कुत्सिते
वाच्यलिङ्गकः ॥ १३२ ॥

रेफ-अधम वा नीच तथा रेफ वा
हल रकार एक वर्ण ॥ १३२ ॥

इति पाताः ॥

अन्तराभावसत्त्वेऽश्वे गन्धर्वो
दिव्यगायने ॥

गधर्व-विश्रावसु इत्यादि स्वर्गके
गधैये, घोडा, एक प्रकारका गधयुक्त
मृग, मनुष्यादि प्राणी ॥

कम्बुर्ना वलये शंखे-

कम्बु-शख, ककण वा कगन ॥

-द्विजिह्वौ सर्पसूचकौ ॥ १३३ ॥

द्विजिह्व-सर्प तथा जुगलखोरा ॥ १३३ ॥

पूर्वोऽन्यलिङ्गः प्रागाह पुंवहुत्वे-
ऽपि पूर्वजान् ॥

पूर्व-पहिला-ली, पूर्वपुरुष, अर्थात्

गुरुखा, ब्रह्मा, पूर्वदिशा तथा पहिले ॥
इति वान्ताः ॥

कुम्भौ घटेभमूर्धाशौ-

कुम्भ-गूगलका वृक्ष, घटा, हाथीका
मस्तक, अश, कुम्भराशि ॥

-डिम्भौ तु शिशुवालिशौ ॥ १३४ ॥

डिम्भ-वालक तथा मूर्ख ॥ १३४ ॥

स्तम्भो स्थूणाजडीभावौ-

स्तम्भ-खम, ठगसुरी ॥

शम्भू ब्रह्मत्रिलोचनौ ॥

शम्भू-ब्रह्मा और शिव ॥

कुक्षिभ्रणार्भका गर्भा-

गर्भ-स्त्रीके पेटका गर्भ पेट, बालक,
नाट्यका तीसरी सधि ॥

-विस्त्रम्भः प्रणयेऽपि च ॥ १३५ ॥

विस्त्रम्भ-शृगारकी प्रार्थना और
विश्वास ॥ १३५ ॥

स्याद्देर्या दुन्दुभिः पुंसि स्या-
दक्षे दुन्दुभिः स्त्रियाम् ॥

दुन्दुभि-नगाढा तथा लडकोंका
एक प्रकारका खिलौना ॥

स्यान्महारजने क्लीवं कुसुम्भं
करके पुमान् ॥ १३६ ॥

कुसुम्भ-कमण्डल, कुसुमका फूल
॥ १३६ ॥

क्षत्रियेऽपि च नाभिर्ना-

नामि-दूडी, क्षत्रिय, सुम्पराजा,
रथके चक्रका मध्यभाग और फस्तूरी ॥

-सुरभिर्गवि च स्त्रियाम् ॥

सुरभि-सुन्दर वा मनोहर, सुगन्धयुक्त,
प्रसिद्ध, चम्पा (पुष्पवृक्ष,) पम्पन्तकत,
जायफल, कामधेनु, सडार्द्रवृक्ष, सुवर्ण
वा सोना तथा कमल (पुष्पवृक्ष) ॥

समा ससदि सम्ये च-

समा-समा तथा घर ॥

-त्रिष्वध्वशेषि वल्लभ' ॥ १३७ ॥

वल्लभ-प्यारा-री, स्त्रीका पति, अग्न्यक्ष
वा मालिक तथा कुलीन बोगा ॥ १३७ ॥

इति माता ॥

किरणप्रमदी रश्मी-

रश्मि-किरण वा प्रकाश तथा छगाम ॥

कपिमैकौ ध्रुवङ्गमौ ॥

प्रङ्गम-गानर तथा मङ्गल ॥

इच्छामनोमवौ कामौ-

काम-इच्छा और काम ॥

-शौर्यौद्योगौ पराक्रमौ ॥ १३८ ॥

पराक्रम-शूरता तथा उद्योग ॥ १३८ ॥

धर्मा पुण्ययमन्यायस्वभा
वाचारसोमपाः ॥

धर्म-पुण्य यमराज, न्याय, स्वभाव,
वाचार तथा सोमपत्र करके सोमव
स्त्रीका रस पीनेवाला ॥

उपायपूर्व धारम्भ उपा
चाप्युपक्रम ॥ १३९ ॥

उपक्रम-उपायपूर्वक प्रारम्भ, प्रारम्भ
तथा रिसम्भ ॥ १३९ ॥

वणिकपयः पुर वेदो निगमो-
निगम-व्यापार, शहर तथा वेद ॥

-नागरो वणिक् ॥ नैगमौ
द्वौ-

नैगम-वेदसम्बन्धि वस्तु, नगरका रहन
वाला तथा बनियाँ और उपनिषद् ॥

-यले रामो नीलचारुसिते'
त्रिषु ॥ १४० ॥

राम-सुन्दर वा मनोहर, नीली वस्तु,
श्वेत वस्तु, तथा परछुराम रामचन्द्र,
कसराम ॥ १४० ॥

शब्दादिपूर्वो धृन्वेडापि माम'-
माम-ई पु । गां, (इस शब्दक

पूर्वमे जव' शब्द' इत्यादि शब्द रहते
तब यह सम्झनाची होताहै जैसा शब्द
माम स्वरमाम, यह शब्द कहीं स्वरवा
भीमी है) ।

-क्रान्तौ च विक्रम' ॥

विक्रम-विक्रमण तथा पराक्रम ॥
स्तोम' स्तोत्रेश्चरे धृन्वे-

स्तोम-सम्पूत तथा स्तोत्र ॥
-जिसस्तु कुटिलेखसे ॥ १४१ ॥

जिह्व-कुटिल तथा आलसी और

वक्र ॥ १४१ ॥

गुल्मा रुक्स्तम्बसेनाश्च-

गुल्म-पिलही रोग, बिना ढालीका

वृक्ष तथा एक प्रकारकी सेना ॥

जामिः स्वसृकुलस्त्रियोः ॥

जामि-ब्रह्मिन, तथाकुलस्त्री ॥

क्षितिक्षान्त्योः क्षमा युक्ते क्षमं

शक्ते हिते त्रिषु ॥ १४२ ॥

क्षमा-पृथ्वी तथा क्षमा वा सहना

॥ १४२ ॥

त्रिषु श्यामौ हरितकृष्णौ

श्यामा स्याच्छारिवा निशाः ॥

श्याम-श्यामा-हरा, कृष्ण, जतावरी

और रात्रि ॥

ललामं पुच्छपुंडाश्वभूषापा-

धान्यकेतुषु ॥ १४३ ॥

ललाम-पूछ, घोडा, घोडेके माथेका

एकचिह्न, घोडेका गहना, प्रधान वा

मुख्य, मनोहर, प्रभाव, पुरुष तथा भूषण

और अश्वलिगी ॥ १४३ ॥

सूक्ष्ममध्यात्मम-

सूक्ष्म-छूछ तथा अन्यात्म ॥

-प्यादौ प्रधाने प्रथम-

प्रथम-पहिला-ली, तथा प्रधान वा

मुख्य ॥

-स्त्रिषु ॥

यहासे लेकर मान्तपर्यन्त सम्पूर्णशब्द

तीनों लिंगोंमे होते हैं ॥

वामौ वल्गुप्रतीपौ द्वा-

वाम-शोभित, उलटा तथा टेढा ॥

-वधमौ न्यूनकुत्सितौ ॥ १४४ ॥

अधम-न्यून, तथा निन्दित १४४ ॥

जीर्णं च परिभुक्तं च यात-

याममिदं द्वयम् ॥

यातयाम-पुराना-नी, (बासी अन्न

इत्यादि) और भोजन करके त्याग किया

गया-ई ॥

॥ इति मान्ताः ॥

तुरंगगरुडौ ताक्षर्यौ-

ताक्षर्य-घोडा तथा गरुड ॥

-निलयापचयौ क्षयौ ॥ १४५ ॥

क्षय-नाश, प्रलय, क्षयरोग तथा

व्र ॥ १४५ ॥

श्वशुर्यौ देवरश्यालौ-

श्वशुर्य-देवर तथा साला ॥

भ्रातृव्यौ भ्रातृजद्विषौ ॥

भ्रातृव्य-मतीजा तथा शत्रु ॥

पर्जन्यौ रसदब्देन्द्रौ-

पर्जन्य-शब्दित मेघ तथा इन्द्र ॥

-स्यादर्यः स्वामिवैश्ययोः १४६

अर्य-स्वामि तथा वैश्य ॥ १४६ ॥

तिष्य' पुष्ये कलियुगे-
तिष्य-पुष्य मन्त्र, और फलियुग ॥

-पर्यायोऽवसरे क्रमे ॥

पर्याय-अक्षर तथा क्रम ॥

प्रत्ययोऽर्घानक्षपथज्ञानविश्वा
सहेतुषु ॥ १४७ ॥ रन्त्रे शब्दे-

प्रत्यय-अर्घीन, क्षपथ, ज्ञान, विश्वास
तथा कारण ॥ १४७ ॥ छिद्र और शब्दा

ऽऽद्यानुशयो दीर्घद्वेषानु
तापयो ॥

अनुशय-बड़ा धैर तथा पश्चात्ताप ॥

स्थूलोच्चयस्त्वसाफल्ये गमा
नां मध्यमे गते ॥ १४८ ॥

स्थूलोच्चय-पर्वतकम्र बड़ा ढोंका अस्त
पूर्णता, हाथियोंकी मध्यम गति अर्थात्

न जस्दी न धीरे ॥ १४८ ॥

समयाः शपयाधारकाल
सिद्धान्तसंविदः ॥

समय-काल वा समय, शपय वा
किरिया, आचार वा अपने मतके स्पष्ट

व्यवहार, सिद्धान्त अर्थात् निर्णय क्रिया
हुमा पदार्थ तथा बातचीत करना ॥

ठपसनान्यशुभ देव विपदित्य
नयास्त्रय' ॥ १४९ ॥

अनय-दुर्भ्यस्तन शुभा इत्यादि दुष्ट
मात्र तथा विपत्ति और अनीति ॥ १४९ ॥

अत्ययोऽतिक्रमे कृच्छ्रदोषे
दण्डे-

अत्यय-मरना, उत्खनन, क्लेश दोष
तथा दण्ड और नाश ॥

-ऽप्यथापदि ॥

युद्धायत्योः संपराय'-

सम्पराय-भाषादि, युद्ध तथा उत्तर
काल वा अगाडीका समय ॥

-पूज्यस्तु श्वशुरेऽपि च ॥ १५० ॥

पूज्य-पूजा वा आदरकरनेके योग्य
और स्तुर ॥ १५० ॥

पश्चाद्बस्यापि बलं समवा
यश्च र्त्नयौ ॥

सन्धय-अपश्चात् ग्याय करनेवाला
सेनाके पीछेकी सेना तथा समूह ॥

सघाते र्त्निवेशे च सस्त्यायः-
सस्त्याय-समूह, बैठक तथा बिस्तार

प्रणयास्त्वमी ॥ १५१ ॥

विसम्मयाश्चाप्रेमाणः-
प्रणय-प्रेम वा प्रीति मांगना तथा

विश्वास ॥ १५१ ॥

-विरोधेऽपि समुच्छ्रय' ॥
समुच्छ्रय- उच्चाई तथा शिरोध ॥

विपयो यस्य यो ज्ञातस्वप्र
शब्दादिकेष्वपि ॥ १५२ ॥

त्रियय-जानी हुई वस्तु, रूप,

रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, (ये प्रत्येक विषय कहलाते हैं) देश, स्थान और आश्रय ॥ १५२ ॥

निर्यासेऽपि कषायोऽस्त्री-

कषाय-कपेला रङ्गगाला-ली, कसेला रङ्ग, काढा, विलेपन तथा नया अगराग अर्थात् टटका चन्दनादिक ॥

-सभार्यां च प्रतिश्रयः ॥

प्रतिश्रय-समा, आश्रय वा अवलम्बन तथा अङ्गीकार ॥

प्रायो भून्व्यन्वगमने-

प्राय-सन्यासपूर्वक भोजनका त्याग, मृत्यु वा मरण और तुल्य ॥

-मन्युर्दैन्ये क्रतौ कुधि ॥ १५३ ॥

मन्यु-क्रोध, दीनता वा गरीबी तथा चिन्ता वा शोक ॥ १५३ ॥

रहस्योपस्थयोर्गुह्यं-

गुह्य-छिपानेके योग्य तथा स्त्री वा पुरुषका मूत्रेन्द्रिय ॥

-सत्यं शपथतथ्ययोः ॥

सत्य-सच्चा-स्त्री, सत्यमामा, सत्यता, कसम तथा सत्युग ॥

वीर्यं बले प्रभावे च-

वीर्य-बल और प्रभाव ॥

-द्रव्यं भव्ये गुणाश्रये ॥ १५४ ॥

द्रव्य-धन, भव्य अर्थात् सुन्दर और स्थिर ॥ १५४ ॥

धिष्ण्यं स्थाने गृहे भेषौ-

धिष्ण्य-स्थान, गृह, नक्षत्र तथा अग्नि ॥

-भाग्यं कर्म शुभांशुभम् ॥

भाग्य-भाग्य वा पूर्वजन्मके किये हुए अच्छे वा बुरे कर्म ॥

कशेरुहेऽग्नौर्गाङ्गियं-

गागेय-गंगासम्बन्धी वस्तु, मीषम कौरवके पितामह, सुवर्ण वा सोना, कसे-रुफल वा कन्द ॥

-विशल्या दन्तिकाऽपि

च ॥ १५५ ॥

विशल्या-गुडूची औषधी, इन्द्रपुष्पी औषधी, अग्निकी शिखा वा आगकी लपट तथा दन्तिका औषधी ॥ १५५ ॥

वृषाकपायी श्रीगौर्यो-

वृषाकपायी-लक्ष्मी तथा पार्वती ॥

-रभिरुथा नामशोभयोः ॥

रभिरुथा-नाम तथा शोभा ॥

आरम्भो निष्कृतिः शिक्षा

पूजनं संप्रधारणम् ॥ १५६ ॥

उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा

च नव क्रियाः ॥

क्रिया-क्रिया वा कर्म, आरम्भ, प्राथ-

श्चित्त, शिक्षा, पूजन, विचार, उपाय कर्म चेष्टा तथा दवाईकरना ॥ १५६ ॥

तिष्य* पुष्ये कलियुगे-

तिष्य-पुष्य नक्षत्र, और कलियुग ॥

-पर्यायोऽवसरे क्रमे ॥

पर्याय-अवसर तथा क्रम ॥

प्रत्ययोऽधीनशपयज्ञानविश्वा

सहेतुषु ॥ १४७ ॥ रन्त्रे शब्दे-

प्रत्यय-अधीन, शपय, ज्ञान, विश्वास

तथा कारण ॥ १४७ ॥ छिद्र और शब्दा ॥

ऽऽयानुशयो वीर्षिदेपानु-

चापयो ॥

अनुशय-बडा धैर तथा पक्षाचापी ॥

स्थूलोच्चमस्त्वसाकल्पे गमा

नां मध्यमे गते ॥ १४८ ॥

स्थूलोच्चय-पर्षतका बडा ढाँका असं

पूर्णता, हाथियोंकी मध्यम गति अर्थात्

न जल्दी न धीरे ॥ १४८ ॥

समया* शपयाचारकाल

सिद्धान्तसंनिद्धः ॥

समय-काल वा समय, शपय वा

किरिया, आचार वा अपने मतके सदृश

ग्यरहार, सिद्धान्त अर्थात् निर्णय किया

हुआ पदार्थ तथा बातचीत करना ॥

व्यसनापशुभ दर्व विपदित्य

नयास्त्रय ॥ १४९ ॥

अनय-दुर्व्यसन शुभाशुभादि दुःख

मात्र तथा निर्गत और अनीति ॥ १४९ ॥

अत्ययोऽतिक्रमे कृच्छ्रदोषे

दण्डे-

अत्यय-भरना, उल्लंघन, कृच्छ्रदोष

तथा दण्ड और नाश ॥

-ऽप्यथापदि ॥

युदायत्यो* संपराय-

सम्पराय-आपत्ति, युद्ध तथा उत्तर

काल वा अगाडीका समय ॥

-पृथ्व्यस्तु श्वशुरेऽपि च ॥ १५० ॥

पृथ्व-पूजा वा आदरपरतक योग्य

और स्मुर ॥ १५० ॥

पश्चाद्वस्थाधि बल समवा

यश्च सनयी ॥

सनय-अश्वत्थ ग्याय करनेवाला

सेनाफ पीछेकी सेना तथा समूह ॥

संघाते संनिवेशे च सस्त्याय-

सस्त्याय-समूह, बैठक तथा विस्तार

प्रणयास्त्वमी ॥ १५१ ॥

विस्रम्भयाश्चापेमाणः-

प्रणय-प्रेम वा प्रीति, मांगना तथा

विश्वास ॥ १५१ ॥

-विरोधेऽपि समुच्छ्रय* ॥

समुच्छ्रय-उंचाई तथा विरोध ॥

विषया यस्य या हातस्तत्र

शब्दादिकञ्चपि ॥ १५२ ॥

विषय-जामी हुई बात, रय,

—संस्तरौ प्रस्तराऽध्वरौ ॥ १६१ ॥

सस्तर—कुशका विछौना; विछौना
तथा यज्ञ ॥ १६१ ॥

गुरु गीष्पतिपित्राद्यौ—

गुरु—भारी, बृहस्पति, बडेलोग (पि-
ता इत्यादि) ॥

—द्वापरौ युगसंशयौ ॥

द्वापर—सशय (सन्देह,) 'द्वापर'
युग ॥

प्रकारौ भेदसाहस्ये—

प्रकार—भेद (तरह) तथा तुल्यता ॥

—आकाराविद्धिताकृती ॥ १६२ ॥

आकार—चेष्टा तथा सूत्र ॥ १६२ ॥

किंशारू सस्यशूकेषु—

किंशारू—यव इत्यादिका ढूँडा
(सुईके तुल्य अग्रभाग) तथा वाण
और कक पक्षी ॥

—मरू धन्यधराधरौ ॥

मरू—निर्जलदेश और पर्वत ॥

अद्रयो दुमशैलार्काः—

अद्रि—वृक्ष, पर्वत तथा सूर्य ॥

—स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ ॥ १६३ ॥

पयोधर—स्तन और मेघ ॥ १६३ ॥

ध्वान्तारिदानवा वृत्रा—

वृत्र—वृत्रासुर, (एक दैत्य) अन्धकार
तथा शत्रु ॥

—वलिहस्तांशवः कराः ॥

कर—हाथ, हाथीकी सूड, किरण
तथा महसूल वा कर ॥

प्रदरा भङ्गनारीरुग्वाणा—

प्रदर—छिर्योका एकरोग (जिसके
होनेसे मूत्रद्वारसे लोहू बह जाता है) भग
(भङ्गता) तथा वाण ॥

—अस्त्राः कचा अपि ॥ १६४ ॥

अस्त्र—केश कोना, आसू, तथा
लोहू ॥ १६४ ॥

अजातशृंगो गौः काले-

ऽप्यश्मश्रुर्ना च तवरौ ॥

तवर—समयपर जिसके सींग न
जममें हों ऐसा बैल, समय पर जिसके
मूछें न जमी हों ऐसा पुरुष ॥

स्वर्णेऽपि राः—

रै—धन तथा सुवर्ण (सोना) ॥

—परिकरः पर्यंकपरिवारयोः

॥ १६५ ॥

परिकर—मलंग और कुटुम्बा ॥ १६५ ॥

मुक्ताशुद्धौ च तारः स्या—

तार—ऊचा शब्द, नक्षत्र, आखकी
पुतली, मोती, सफाई, गोल मोती, गोल
और निर्मल मोतीसे बना हार, जलसे
पार उतरना, एक वानरका नाम तथा
चादी धातु ॥

छाया सूर्यप्रिया कान्ति
प्रतिबिम्बमनात्प ॥ १५७ ॥

छाया—छाया, सूर्यकी छाी वा शनै-
शरकी माता तथा शोभा और प्रति-
बिम्ब ॥ १५७ ॥

कक्ष्या प्रकोष्ठे इम्यादि का
ञ्चव्या मध्येमयन्धने ॥

कक्ष्या—रानाकी बेटढी, स्त्रियोंक
कमर का गहना, हाथीके मध्य शरी
रका बन्धन ॥

कृत्या क्रियादेवतयोस्त्रिपु भेद्ये
धनादिभि ॥ १५८ ॥

कृत्या—धन, छाी, भूमि इत्यादि फोड
नके योग्य शत्रुका पुत्र्य इत्यादि, तामसी
दकता जिसको छोग शत्रुपर चलाते हैं
तथा क्रिया वा कर्म ॥ १५८ ॥

जन्म्य स्यान्ननावदेऽपि—
जन्म्य—जी पैदा होता है निन्दित
पचन धरक अर्थात् दामादक पक्षबाछे
मित्र इत्यादि, धानार तथा मुद्र ॥

—जघन्योन्त्येऽघमेऽपि च ॥
जघन्य—सबस पिछला—छी, अधम
वा नीच—तथा मूरेन्द्रिय ॥

गह्वारीनौ च वत्तर्ध्या—
वत्तर्ध्या—बाजनेरु योग्य, निम्दा कर
नके योग्य हीन अर्थात् किसी वस्तुमे
रहित तथा अधीन वा परतन्त्र ॥

—कल्प्यौ सज्जनिरामयौ ॥ १५९ ॥

कल्प्य—कल्प धारण करनेवाला योद्धा
तथा नीरोग ॥ १५९ ॥

व्यात्मवाननपेतोऽर्थादर्थ्यो—
अर्थ्य—अर्थसे च्युत वा दूर न मयार्थ,

मुद्दिमान्—मती, और शिक्षाजीत ॥
—पुण्य तु धार्बपि ॥

पुण्य—पुण्यवान् मनोहर तथा धर्मी
—रूप्य मशस्तरूपेऽपि—

रूप्य—रमणीय वा सुन्दर, रुपया
वा चांदी छापी हुई चांदी वा सोना
अर्थात् चांदी वा सोनेका रुपया ॥

—वदान्या वल्गुवागपि ॥ १६० ॥
वदान्य—दाता वा देनवाला—छी,
मीठा वा छनेवाला—छी ॥ १६० ॥

न्याय्येऽपि मध्य—
मध्य—बिचला—छी वा बीचवाला—
छी, अधम वा नीच, न्याय्युक्त वा

यापर सदृश कमर तथा बीच ॥
—सौम्यं तु सुन्दरे सोमदेवते ॥

सौम्य—सुभा—छी सुन्दर, धर्मर
निकरन करने योग्य वस्तु, सुभ
(एकपद) ॥

॥ इति याता ॥

निबहायसरी बारी—
घार—मोम, मंगळ, मुप इत्यादि ७
साठ बार, अचमर, समर ॥

—संस्तरौ प्रस्तराऽध्वरौ ॥ १६१ ॥

सस्तर—कुशका विछौना, विछौना
तथा यज्ञ ॥ १६१ ॥

गुरु गीष्पतिपित्राद्यौ—

गुरु—भारी, वृहस्पति, वजेलोग (पि-
ता इत्यादि) ॥

—द्वापरौ युगसंशयौ ॥

द्वापर—सशय (सन्देह,) 'द्वापर'
युग ॥

प्रकारौ भेदसादृश्ये—

प्रकार—भेद (तरह) तथा तुल्यता ॥

—आकाराविङ्गिताकृती ॥ १६२ ॥

आकार—चेष्टा तथा सूरत ॥ १६२ ॥

किंशारू सस्यशूकेषु—

किंशारू—यव इत्यादिका टूँडा
(सुईके तुल्य अग्रभाग) तथा वाण
और कक पक्षी ॥

—मरू धन्यधराधरौ ॥

मरू—निर्जलदेश और पर्वत ॥

अद्रयो द्रुमशैलार्काः—

अद्रि—वृक्ष, पर्वत तथा सूर्य ॥

—स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ ॥ १६३ ॥

पयोधर—स्तन और मेघ ॥ १६३ ॥

ध्वान्तारिदानवा वृत्रा—

वृत्र—वृत्रासुर, (एक दैत्य) अन्धकार
तथा शत्रु ॥

—वलिहस्तांशवः कराः ॥

कर—हाथ, हाथीकी सूड, किरण
तथा महसूल वा कर ॥

प्रदरा भङ्गनारीरुग्वाणा—

प्रदर—स्त्रियोंका एक रोग (जिसके
होनेसे मूत्रद्वारसे लोहू बह जाता है) भग
(भग्नता) तथा वाण ॥

—अस्त्राः कचा अपि ॥ १६४ ॥

अस्त्र—केश कोमा, आसू, तथा
लोहू ॥ १६४ ॥

अजातशृंगो गौः काले-

ऽप्यश्मश्रुर्ना च तवरौ ॥

तूवर—समयपर जिसके सींग न
जममें हों ऐसा बैल, समय पर जिसके
मूँलें न जमी हों ऐसा पुरुष ॥

स्वर्णेऽपि राः—

रै—धन तथा सुवर्ण (सोना) ॥

—परिकरः पर्यकपरिवारयोः

॥ १६५ ॥

परिकर—पलंग और कुटुम्बा ॥ १६५ ॥

मुक्ताशुद्धौ च तारः स्या—

तार—ऊचा शब्द, नक्षत्र, आखकी
पुतली, मोती, सफाई, गोल मोती, गोल
और निर्मल मोतीसे बना हार, जलसे
पार उतरना, एक वानरका नाम तथा
चादी धातु ॥

—च्छारो वायो स तु त्रिषु ॥
कक्षुरे—

शाग—किताफबत—री, चौपड इत्यादिके
खड्गकी गुहा, तथा वायु ॥

—ऽय प्रतिज्ञाजिसविदाप
त्सु सगरः ॥ १६६ ॥

संगर—सम्राजका युद्ध प्रतिज्ञा, सहाह
तथा आपत्ति वा विपत्ति ॥ १६६ ॥

बद्धभदे गुप्तबादे मन्त्रो—

मन्त्र—मन्त्र वा सहाह एक केदका
मेद, तथा गुप्त मोचना ॥

—मित्रो रत्नावापि ॥

मित्र—सूर्य, मित्र (दोस्त) तथा अपन
समीपके राजासे सम्बन्धित राजा ॥

मखेषु यूपखण्डेषुपि स्वरु—

स्वरु—इन्द्रका वक्र तथा यज्ञमें
सम्मके छीछनेके समय उसमेंसे गिरा
पहिष्ठा तुकडा ॥

—गुह्योऽप्यवस्कर ॥ १६७ ॥

अवस्कर—विद्या तथा छी वा पुरु-
ष्का मूत्रन्द्रिय (उपस्थ) ॥ १६७ ॥

आहम्बरस्तूपरवे गजेन्द्राणां
च गर्भिते ॥

आहम्बर—तैयारी बाजेका शब्द,
तथा बड हाथियोंका शब्द ॥

अभिहारोऽभियोगे च चौर्धे
सनहनेऽपि च ॥ १६८ ॥

अभिहार—चोराना, कबध इत्यादिका
घारण तथा नाशिका इत्यादि द्रव्य
नाशका उपाय ॥ १६८ ॥

स्माज्जङ्गमे परीवारं खड्गकोषे
पारेच्छदे ॥

परीवार—कुटुम्ब, सरवार इत्यादिका
म्यान तथा छात्र छस्कर ॥

विष्टरो विटपी टर्भमुष्टि
पीठाद्यमासनम् ॥ १६९ ॥

विष्टर—बैठनेका आसन, वृक्ष, दर्भ
मुष्टि (एक प्रकारका परिमाण) वा
ताप ॥ १६९ ॥

द्वारि द्वास्थे प्रतीहारं प्रती
हार्यप्यनन्तरे ॥

प्रतीहार—प्रतीहारि—द्वार तथा द्वारपाल
बिष्ट्रुले नकुले विष्णो बधुनां
पिंगले त्रिषु ॥ १७० ॥

बधु—पीछेरगवाही मत्तु, पीछारंग बग
मौला, विष्णु तथा एक यादवा ॥ १७० ॥

सारो बले स्थिरांशे च न्या
य्ये ह्यीधे वरे त्रिषु ॥

सार—ग्रह वा प्रधान बल, मत्तुका
स्थिरभाग घाहीर, मन्त्रा वा चरबी, पानी,
पन तथा उचित वा म्यायके मत्तुसार ॥

दुरोदरो दृत्तकारे पणो दृते
दुरोदरम् ॥ १७१ ॥

दुरोदर—जुवारी, दाव (जो द्रव्य जुए-
में लगाया जाता है) जुआ ॥ १७१ ॥

महारण्ये दुर्गपथे कान्तारं
पुंनपुंसकम् ॥

कान्तार—दुर्गम वा टेढा मार्ग, वहा
वन एक प्रकारका ऊख ॥

मत्सरोऽन्यशुभद्वेषे तद्वत्कृपणयो-
स्त्रिषु ॥ १७२ ॥

मत्सर—ईर्ष्या वा डाह करनेवाला—ली,
कृपण वा सूम, तथा ईर्ष्या वा डाह १७२ ॥

देवाहृते वरः श्रेष्ठे त्रिषु क्लीबं
मनाक्प्रिये ॥

वर—श्रेष्ठ वा प्रधान वा मुख्य,
देवताने जो प्रसन्न होकर दिया, दूल्ह
वा वर, केशर ॥

वंशांकुरे करीरोऽस्त्री तरुभेदे
घटे च ना ॥ १७३ ॥

करीर—बासका छकडा, करील वा
टेंटी वृक्ष, एक प्रकारका काटेदार वृक्ष वा
कीकर तथा घटना वा मेल—॥ १७३ ॥

ना चमूजघने हस्ते सूत्रे प्रति
सरो स्त्रियाम् ॥

प्रतिसर—सेनाका पिछला हिस्सा, तथा
मन्त्रतन्त्रका डोरा ॥

यमानिलेन्द्रचन्द्रार्कविष्णुसिहां-
शुवाजिषु ॥ १७४ ॥

शुकाहिकापिभेकेषु हरिर्ना
कपिले त्रिषु ॥

हरि—यम, वायु, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य,
विष्णु, सिंह, किरण, घोडा ॥ १७४ ॥
तोता, साप, वन्दर, मेढक और हरा रङ्ग
तथा कपिल रङ्ग और कुल्ल पीली वस्तु ॥

शर्करा कर्परांशोऽपि—

शर्करा—ठिकडी, ककडी, खाड, रेत
तथा बहुत किडियोंकी जमीन ॥

—यात्रा स्याद्यापने गतौ ॥ १७५ ॥

यात्रा गमन वा चलना तथा
चलाना ॥ १७५ ॥

इरा भूवाक्सुराऽप्सु स्या—

इरा—मद्य, भूमि वाणी तथा जल ॥

—तंद्री निद्राप्रमिलयोः ॥

तन्द्री—निद्रा तथा आलस्य ॥

धात्री स्यादुपमाताऽपि क्षिति-
रप्यामलक्यापि ॥ १७६ ॥

धात्री—माता, आमला, पृथ्वी तथा
उपमाता अर्थात् दूध पिलानेवाली
धाय ॥ १७६ ॥

क्षुद्रा व्यङ्गा नटी वेश्या सरघा
कण्टकारिका ॥ त्रिषु क्रूरोऽधमे

ऽऽल्पेऽपि क्षुद्र—

क्षुद्र—क्रूर, अधम, अन्य वा थोडा-
डी, सूम, मधुमाछी, मटकटैया, हीन
अगवाली स्त्री, नटी, वेश्या ॥

-मात्रा परिच्छेदे ॥ १७७ ॥

अल्पे च परिमाणे सा मात्रं
फात्स्न्यैर्ज्ववाग्णे ॥

मात्रा-परिच्छेद वा सामग्री १७७ ॥

परिमाण, सूक्ष्म वा पतला, सम्पूर्णता,
तथा अवधारण वा निभय ॥

आलेख्याश्चययोश्चित्र-

चित्र-विप्रविधिप्र रंगवाला-डी, आ
श्चर्ययुक्त, कश्च एक मिश्रितरंग, एक नक्षत्र,
मूसारुणी भौषधी, एक तरहकी कफबी,
अद्भुतरस, तसबीर तथा आश्चर्य ॥

-कलत्र श्रोणिभामयो ॥ १७८ ॥

कलत्र-कमर तथा खी ॥ १७८ ॥

योग्यभाजनयो पात्रं-

पात्र-आयक तथा वर्तन ॥

-पत्र वाहनपक्षयो ॥

पत्र-सरासी और पत्र ॥

त्रिदेशमन्थयो शास्त्र-

शास्त्र-आहा और मन्थ ॥

-शास्त्रमायुधलोदयो ॥ १७९ ॥

द्वय-इधियार और टाटा ॥ १७९ ॥

स्याल्लगंशुक्यार्नत्रं-

नत्र जत्र और वत्र तथा नत्र ॥

भत्र पत्नीगरीम्यो ॥

भत्र खी तथा गारा मत्त ॥

मुगाप्रे प्रादण्डपा पात्रं-

पोत्र-सूकरके मुखका अग्रभाग

तथा हस्तका अग्रभाग ॥

-गोत्र तु नाम्नि च ॥ १८० ॥

गोत्र-नाम, पृथ्वा, पर्यंत तथा

बुल ॥ १८० ॥

सत्रमाच्छादने यत्ते मदादाने
वनेऽपि च ॥

सत्र-दक्षल, यह, सदागन, (सदा
वत्) बन, बन तथा धूर्तता ॥

अजिर विषये काये-

अजिर-विषय, शरीर, वायु, तथा
औगन ॥

-ऽप्यम्बरं ध्योमि वाससि ॥ १८१ ॥

अम्बर-आकाश तथा वज्रा १८१ ॥

चक्र राष्ट्रं-

चक्र-राज्य, चक्रया पत्नी, समूह,
रथका पहिया, कुम्हारका चाक तथा
जडका ममर ॥

-ऽप्यक्षरं तु मोक्षंऽपि-

अक्षर-मोक्ष, हस्त, प्रम तथा
भोकार ॥

क्षीरमप्यु च ॥

क्षीर-दुग्ध तथा जल ॥

म्वर्णंऽपि भूरिचन्द्रौ द्वौ-

इति-तथा चन्द्र मृत्तलौ मुगा
-दारमात्रंऽपि गोपुरम् ॥ १८२ ॥

गोपुर—नगरका द्वार तथा द्वारमात्र

। १८२ ॥

गुहादम्भौ गह्वरे द्वे—

गह्वर—गुफा और पाखण्ड ॥

—रहोऽन्तिकमुपह्वरे ॥

उपह्वर—एकान्त तथा समीप ॥

पुरोऽधिकमुपर्यग्रा—

अग्र—पुर अधिक तथा ऊपर ॥

—ण्यगारे नगरे पुरम् ॥ १८३ ॥

मन्दिरं चा—

पुर—मन्दिर—स्थान और नगर ॥ १८३ ॥

—ऽथ राष्ट्रोऽस्त्री विषये स्या-

दुपद्रवे ॥

राष्ट्र—देश तथा उपद्रव ॥

दरोऽस्त्रियां भये श्वभ्रे—

दर—भय, गड्ढा तथा थोडा वा सूक्ष्म

—वज्रोऽस्त्री हीरके पवौ ॥ १८४ ॥

वज्र—इन्द्रका वज्र, सेह्नुडवृक्ष तथा

हीरा ॥ १८४ ॥

तन्त्रं प्रधाने सिद्धान्ते सूत्रवाये

परिच्छदे ॥

तत्र—कुटुम्बका कार्य्य, सिद्धान्त,

उत्तम औपध, प्रधान वा मुख्य, जुलाहा,

एकप्रकारका शास्त्र, सामग्री, एकप्रकारकी

वेदकी शाखा, ऐसा हेतु जो पदाथोंको

सिद्ध करता हो ॥

औशारश्चामरे दण्डेऽप्यौशीरं
शयनासने ॥ १८५ ॥

औशीर—चँवरका दण्ड, शयन और
आसन। किसीके मतमें यह शब्द पृथक् २
शयन और आसनका वाचक है ॥ १८५

पुष्करं करिहस्ताग्रे वाद्यभाण्डमुखे
जले ॥ व्योम्नि खड्गफले पद्मे तीर्थौ-
पधिविशेषयोः ॥ १८६ ॥

पुष्कर—तलाव, कमल, आकाश,
जल, पुष्करमूल, हाथीके सूंडका अग्रभाग,
वाजेका मुख ॥ १८६ ॥

अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्त-
र्धिभेदतादर्थ्ये ॥ छिद्रात्मीयविना
बाहिरवसरमध्येऽन्तरात्मानि च ॥
१८७ ॥

अन्तर—पहरनेके वस्त्रादि, आत्मसम्ब-
न्धी वा अपनी वस्तु, बाह्य वस्तु, अदृश्य
वस्तु, अवकाश, अवधि, अदृश्य होना,
भेद, तादर्थ्य, छिद्र, विना अवसर, मध्य,
अन्तरात्मा ॥ १८७ ॥

मुस्तेऽपि पिठरं—

पिठर—मोथा घास तथा मथनदण्ड
वा मथनिया ॥

—राजकशेरुण्यपि नागरम् ॥

नागर—चतुर, नगरवासी, सोंठ
तथा नागरमोथा ॥

शावर त्वन्घतमसे घातुके भेष
लिङ्गकम् ॥ १८८ ॥

शावर-मारनेवाला-छी, घन वा
बडा अङ्कार ॥ १८८ ॥

गौरोऽरुणे सिसे पीते-
गौर-श्वेत वा पीत वा छात्तरगवा

छी वस्तु, श्वतरग, पीला रंग, छात्तरग,
तथा रजोधर्मसे पहिली अम्स्थावालीछी ॥

-अगकार्यप्यरुष्कर ॥
अरुष्कर-ब्राह्मकरनेवाला-छी, मेलावा ॥

जडर कठिनेऽपि स्या-
जडर-कठोरवस्तु, धृद वा बुद्धा

तथा पे ॥
दघस्तादपि चावर ॥ १८९ ॥

अवर-नीचे, नीचेका ओष्ठ, हीन
तथा नीच ॥ १८९ ॥

अनाकुलेऽपि चकामा-
एकाम्र-एकाम्र वा तत्पर तथा स्मृत्य

चित ॥
व्ययो व्यासक्त आकुले ॥

व्यय-व्याकुल वा घनवाया-ई,
दुःखिणा ॥

उपयुदीष्यधेष्ठेष्वुत्तरस्या-
उत्तर-उत्तरदशमे उत्पन्न मया-ई,

धेष्ठ वा मुप्य उत्तरदिशा गिरात्का
पुत्र उत्तर गिरात्की पुत्री तथा उत्तर
वा उत्तर ॥

दनुत्तर ॥ १९० ॥

एषां विपर्यये श्रेष्ठे-

अनुत्तर-श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ ॥ १९० ॥
दूगनात्मोत्तमापराः ॥

पर-पराया-ई (वस्तु) अन्य दूसरा-
री, दूर, उत्तम वा श्रेष्ठ, शत्रु केसा

तथा अनन्तर ॥
स्वाकुप्रियौ तु मधुरौ-

मधुर-स्वादु और प्रिय ॥
-कुरौ कठिननिर्दयौ ॥ १९१ ॥

कुर-कठिन और दयाहीन ॥ १९१ ॥
उदारो दातृमहसो-

उदार-दाता, बडा, सख वा सूवा ॥
-रितरस्त्वन्यनीचयोः ॥

इतर-अन्य तथा नीच ॥
मन्दस्वच्छम्भयो स्वेरः-

स्वेर-मन्द वा ढीला-छी तथा
स्वच्छद अपने मनका काम करनेवाला

-शुभ्रमुदीतशुद्धयो ॥ १९२ ॥
शुभ्र-शुभ्रवर्णकी वस्तु, उदीत वा

प्रकाशमान तथा श्रेतरंग ॥ १९२ ॥
इति शब्ताः ॥

पूडा किरिटं केशाश्च संयत्ता
मौलपखयः ॥

मौलि-मलक, चीनी, मुमुत्,
मधुए वाउ ॥

द्रुमप्रभेदमातंगकाण्डपुष्पाणि

पीलवः ॥ १९३ ॥

पीलु-वृक्षभेद, हस्ती, वाण तथा पुष्प ॥ १९३ ॥

कृतान्तानेहसोः काल-

काल-यमराज, मृत्यु तथा समय ॥

-श्रुतुयैऽपि युगे कलिः ॥

कलि-चौथायुग, पुष्पकी कली, युद्ध तथा कलह ॥

स्यात्कुरंगेऽपि कमलः-

कमल-हिरन, जल, तौबा, कमल तथा आकाश ॥

-प्रावारैऽपि च कम्बलः ॥ १९४ ॥

कम्बल-सर्पराज, गौके गलेका सासना तथा कम्बलबस्त्र ॥ १९४ ॥

करोपहारयोः पुंसि बलिः प्राण्यङ्गजे स्त्रियाम् ॥

बलि-महसूल तथा बुढापेमें पुरुषके शरीरपै पडनेवाली सुकडन ॥

स्थौल्यसामर्थ्यसैन्येषु बलं नाकाकसीरणोः ॥ १९५ ॥

बल-मोटाई, सामर्थ्य, सेना, काक पक्षी तथा बलदेव ॥ १९५ ॥

वातूलः पुंसि वात्यायामपि वातासहे त्रिषु ॥

वातूल-आधी, बावला, तथा वायुको न सहनेवाला ॥

भेर्धलिगः शठे व्यालः पुंसि श्वापदसर्पयोः ॥ १९६ ॥

व्याल-सर्प, दगावाज तथा हिंसक पशु ॥ १९६ ॥

मलोऽस्त्री पापविट्किट्टा-

मल-मेल, पाप तथा ळष्टा ॥

-न्यस्त्री शूलं रुगायुधम् ॥

शूल-शूलरोग (जो पेटमें होताहै) तथा शूल एक शस्त्र ॥

शंकावपि द्वयोः कीलः-

कील-अग्निकी.ज्वाला वा लपट तथा लोहे आदिकी कील ॥

-पालिः स्वयस्वयंकर्पंक्तिषु ॥ १९७ ॥

पालि-खड्ग इत्यादिका टोंका 'कोना' धारा, चिह्न तथा पक्ति ॥ १९७ ॥

कला शिल्पे कालभेदे-

कला-तीस काष्ठा, एकसमय, कारी-गरी, मूलधन, वृद्धि, टुकडा तथा चन्द्रका सोलहवाँ भाग ॥

-ऽध्याली सरख्यावली अपि ॥ आलि-सखी तथा पक्ति ॥

अब्ध्यम्बुविकृतौ वेला काल-मर्यादयोरपि ॥ १९८ ॥

वेला-समुद्रका तीर, काल वा समय तथा मर्यादा वा हद्द ॥ १९८ ॥

बहुलाः कृत्तिका गावी बहुलोऽश्रौऽशितौ त्रिषु ॥

शावर त्वन्धतमसे घातुके भेद्य-
लिङ्गकम् ॥ १८८ ॥

शार्कर-मारनेवाला-छी, घन वा
बडा अहङ्कार ॥ १८८ ॥

गौरोऽरुणे सिते पीते-

गौर-श्वेत वा पीत वा लालरंगया
छी वस्तु, श्वेतरंग, पीला रंग, लालरंग,
तथा रजोधर्मसे पहिली अदस्पावालीछी ॥

-अकार्यप्यरुष्कर ॥
अरु-अ-धाककरनेवाला-छी, मेलपा ॥

जठरः कठिनेऽपि स्या-

जठर-कठोरवस्तु, दृढ वा मुर्खा
तथा पेठ ॥

दघस्तादपि घाघर ॥ १८९ ॥
अधर-नीचे, नीचेका ओष्ठ, हीन
तथा नीच ॥ १८९ ॥

अनाकुलेऽपि शैकामो-

एकाम-एकाम वा तत्पर तथा स्वस्य
चित्त ॥

व्यमो व्यासक्त आकुले ॥

व्यम-व्याकुल वा घबडाया-ई,
दुषिष्ठा ॥

उपर्युदीच्यश्रेष्ठेष्वप्युत्तरस्या-

उत्तर-उत्तर दशमे उत्पन्न मया-ई
श्रेष्ठ वा मुख्य, उत्तरदिशा, विराटका
पुत्र ऊपर विराटकी पुत्री, तथा उत्तर
वा जगत् ॥

वनुत्तर ॥ १९० ॥

एषां विपर्यये श्रेष्ठे-

अनुत्तर-श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ ॥ १९० ॥
दृगनात्मोत्तमापरा ॥

पर-पराया-ई (वस्तु) अन्य दूसरा-
री, दूर, उत्तम वा श्रेष्ठ, शत्रु केक
तथा अनन्तर ॥

स्वादुप्रियौ तु मधुरौ-

मधुर-स्वादु और प्रिय ॥

-कुरौ कठिननिदयौ ॥ १९१ ॥

कुर-कठिन और दयाहीन ॥ १९१ ॥

उदारो दातृमहतो-

उदार-दाता, बडा, सरल वा सृष्टा ॥
-रितरस्त्वन्यनीचमोः ॥

इतर-अन्य तथा नीच ॥

मन्दस्वच्छन्वयो स्वैरः-

स्वैर-मन्द वा-छीला-छी तथा
स्वच्छद अपने मनका काम कर-वावा ॥

-शुभ्रमुदीतशुक्लयोः ॥ १९२ ॥

शुभ्र-शुभ्रवर्णकी वस्तु, उदीत वा
प्रकाशमान तथा श्वेतरंग ॥ १९२ ॥

इति रन्ताः ॥

दूडा किरिट केशाश्च संयता
मौलपत्रय ॥

मौलि-मस्तक, चीटी, मुकुट,
दंभद्वय वाक ॥

द्रुमप्रभेदमातंगकाण्डपुष्पाणि

पीलवः ॥ १९३ ॥

पीलु-वृक्षभेद, हस्ती, वाण तथा
पुष्प ॥ १९३ ॥

कृतान्तानेहसोः काल-

काल-यमराज, मृत्यु तथा समय ॥

-श्रुतयेऽपि युगे कलिः ॥

कलि-चौथायुग, पुष्पकी कली,
युद्ध तथा कलह ॥

स्यात्कुरंगेऽपि कमलः-

कमल-हिरन, जल, तौवा, कमल
तथा आकाश ॥

-प्राद्वारेऽपि च कम्बलः ॥ १९४ ॥

कबल-सर्पराज, गौके गलेका सासना
तथा कम्बलयस्त्र ॥ १९४ ॥

करोपहारयोः पुंसि वलिः
प्राण्यङ्गजे स्त्रियाम् ॥

वलि-महसूल तथा बुढापेमें पुरुषके
शरीरपे पडनेवाली सुकडन ॥

स्थौल्यसामर्थ्यसैन्येषु बलं
नाकाकसीरिणोः ॥ १९५ ॥

बल-मोटाई, सामर्थ्य, सेना, काक
पक्षी तथा बलदेव ॥ १९५ ॥

वातूलः पुंसि वात्यायामपि
वातासहे त्रिषु ॥

वातूल-आधी, वावला, तथा
वायुको न सहनेवाला ॥

भेर्घालिगः शठे व्यालः पुंसि

श्वापदसर्पयोः ॥ १९६ ॥

व्याल-सर्प, दगावाज तथा हिंसक
पशु ॥ १९६ ॥

मलोऽस्त्री पापविशुकिट्टा-

मल-मल, पाप तथा षष्ठा ॥

-न्यस्त्री शूलं रुगायुधम् ॥

शूल-शूलरोग (जो पेटमें होताहै)
तथा शूल एक शस्त्र ॥

शंकावपि द्वयोः कीलः-

कील-अग्निकी-ज्वाला वा लपट
तथा लोहे आदिकी कील ॥

-पालिः ह्ययंकपंक्तिषु ॥ १९७ ॥

पालि-खड्ग इत्यादिका टोंका 'कोना'
धारा, चिह्न तथा पक्ति ॥ १९७ ॥

कला शिल्पे कालभेदे-

कला-तीस काष्ठा, एकसमय, कारी-
गरी, मूलधन, वृद्धि, टुकडा तथा
चन्द्रका सोलहवाँ भाग ॥

-ऽप्याली सख्यावली अपि ॥
आलि-सखी तथा पक्ति ॥

अब्ध्यम्बुविकृतौ वेला काल-
मर्यादयोरपि ॥ १९८ ॥

वेला-समुद्रका तीर, काल वा समय
तथा मर्यादा वा हद्द ॥ १९८ ॥

बहुलाः कृत्तिका गावी बहुलो-
ऽग्नौऽशितौ त्रिषु ॥

बहुल—बहुत, काठेरगवाजा—खी, अग्नि
वा आग, कृष्णपक्ष, काठारग, नेवारंपुष्प,
गेया, खी, बड़ीइलायची, और आकाश ।

लीला विलासक्रिययो—

लीला—खिलास वा म्नीला, क्रिया तथा
खेलना ॥

—रुपला शर्करापि च ॥ १९९ ॥

रुपला—पर्यर, रान तथा सिटकी
॥ १९९ ॥

शोणितेऽम्भसि कीलाल—

कीलाल—कल तथा दधिर ॥

—मूलमाद्ये शिफामयोः ॥

मूल—जड़, पहिना, वृक्षकी जटा तथा
आमा और आदिकारण ॥

जालं समूह आनापगवाक्ष
क्षारकेष्वपि ॥ २०० ॥

जाल—मात्स्यादि पकडनेका जाल,
समूह धरोखा तथा न फूली हुई कली
॥ २०० ॥

शीलं स्वभावे सद्भूते—

शील—शुद्धकर्म्म वा पवित्र काम तथा
स्वभाव ॥

८ —सस्ये हेतुकृते फलम् ॥

फल—वृक्ष इत्यादिका फल, जायफल
वाक हडके मीचेका कण्ठ जिसका अन्न
भाग छोड़ेसे बना रहता है हेतुसिद्ध क्रिया

गया भाणका अप्रमाग, त्रिफला, परि
णाम तथा छाम वा नफा ॥

छदिर्नेत्ररजो क्लीवं समूहे प
ल न ना ॥ २०१ ॥

पल—समूह, खपडा तथा एक
मन्त्ररोग ॥ २०१ ॥

अधस्वरूपयोरस्त्री तल—

तल—किस्ती वस्तुके नीचेका भाग
तथा स्वल्प ॥

स्याञ्चामिपे पलम् ॥

पल—एकदण्ड (२ ३ मिसर काठ)
का आठवां हिस्सा, १४ मासा, मांस,
तथा टचाईका नाप ॥

और्बानलेऽपि पातालं—

पाताल—पाताल तथा बडवानल ॥
—चैलं वसोऽधने त्रिषु ॥ २०२ ॥

चैल—नीच वा अधम तथा बल
॥ २०२ ॥

कुक्कुल शकुभिः कीर्णे श्वश्रे
ना तु तुपानले ॥

कुक्कुल—करसीकी भाग, कील वा
सूत्रियोसे भराहुआ गड्ढा ॥

निर्णीते केवलमिति त्रिर्लिङ्गं
त्वेककृत्स्नयोः ॥ २०३ ॥

केकल—निर्णय कियागया, 'एक
सख्या तथा सूर्य ॥ २ ३ ॥

पर्याप्तिक्षेमपुण्येषु कुशलं शिक्षिते
त्रिषु ॥

कुशल—चतुर, सामर्थ्ययुक्त, कल्याण-
भाला—ली, सामर्थ्य, क्षेम, पुण्य तथा
कल्याण ॥

प्रवालमंकुरेऽप्यस्त्री-

प्रवाल—मूगा, नया पत्ता, अङ्कुर तथा
घीणाका दण्ड ॥

—त्रिषु स्थूलं जडेऽपि च ॥२०४॥
स्थूल—मोटा—टी, निर्वृद्धि वा बुद्धि-
रहित तथा समूह ॥ २०४ ॥

करालो दन्तुरे तुङ्गे-

कराल—भयकर, ऊचे दाँतवाला—ली
तथा ऊँची—चा ॥

—चारौ दक्षे च पेशलः ॥

पेशल—चतुर तथा मनोहर ॥

मूर्खेऽर्भकेऽपि बालः स्या-

बाल—लडका, केश, बाल, मूर्ख तथा

नेत्रवाला औषधी ॥

—लोलश्चलसतृष्णयोः ॥ २०५ ॥

लोल—चञ्चल तथा लालची ॥२०५॥

॥ इति लान्ताः ॥

दवदावौ वनारण्यवह्नी-

दव—दाव—वन तथा यनकी आग ॥

—जन्महरौ भवौ ॥

भव—ससार, जन्म, शकर ॥

मन्त्री सहायसन्धिवौ-

मन्त्रिन्—राजाका मन्त्री वा राजाको

सलाह देनेवाला तथा सहायक ॥

—पतिशाखिनरा धवाः ॥ २०६ ॥

धव—छीका पति एक वृक्ष तथा

पुरुष ॥ २०६ ॥

अवयः शैलमेषार्का-

अवि—मेंढा, पर्वत, सूर्य तथा रज-

स्वला स्त्री ॥

—आज्ञाह्वानाध्वरा हवाः ॥

हव—पुकारना, आज्ञा वा हुक्म तथा
यज्ञ वा याग ॥

भावः सत्तास्वभावाभिप्रायचे-
ष्टात्मजन्मसु ॥ २०७ ॥

भाव—अभिप्राय वा तात्पर्य, विद्वान्
वा पंडित, सत्ता वा रहनेवालेका धर्म,
स्वभाव, आत्मा, जन्म वा उत्पत्ति, चेष्टा
तथा मनका विकार ॥ २०७ ॥

स्यादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो

गर्भमोचने ॥

प्रवस—जनना, उत्पत्ति, फल तथा
पुष्प वा फूल ॥

आविश्वासेऽपह्वेऽपि निकृतावापि

निह्वः ॥ २०८ ॥

निह्व—अविश्वास, झूठ बोलना
तथा धूर्तपन ॥ २०८ ॥

उत्सेकामर्षयोरिच्छाप्रसवे मह
उत्सवः ॥

उत्सव—उत्सव वा मङ्गलकार्य, औ
दत्य वा गर्व वा बहाई कोप, इच्छका
बेग तथा आनन्दका समय ॥

अनुभावः प्रभावे च सत्ता च
मतिनिश्चये ॥ २०९ ॥

अनुभाव—प्रभाव उत्पुटयोर्की बुद्धिका
निश्चय ॥ २०९ ॥

स्याज्जन्महेतुः प्रभवः स्थानं
चाधोपलब्धये ॥

प्रभव—उत्पत्तिका स्थान, कारण,
परक्रम तथा ज्ञानका प्रथमस्थान ॥

शूद्रार्या विप्रतनयं शस्त्रे पार
शयो मतः ॥ २१० ॥

पारशय—शूद्रकी स्त्रीमें ब्राह्मणस
द्वारा पुत्र तथा शस्त्र ॥ २१० ॥

ध्रुवो भमेदे क्लीबं तु निश्चिते
शान्धते त्रिपु ॥

ध्रुव—स्विर, मङ्गलप्रविशेष निश्चय
तथा शास्त्रत ॥

स्वो ज्ञातावात्मनि स्थं त्रिष्व्वात्मीये
स्वोऽस्त्रियां घने ॥ २११ ॥

स्व—जातिके पुरुष आत्मा अपमा
तथा घन ॥ २११ ॥

स्त्रीक्रीबस्त्रवन्धेऽपि नीवी परिपणे
पि च ॥

नीवी—स्त्रीके बस्त्रका बन्धन जो
नामिके समीप बाँधा जाता है तथा
मूळधन ॥

शिवा गौरीफेरवयो—

शिवा—पार्वती, सियार, शमीका
वृक्ष हैं तथा आम्ला ॥

—ईर्न्दं कलहयुग्मयो ॥ २१२ ॥

ईर्न्द—कलह तथा स्त्री पुरुष
जोषा ॥ २१२ ॥

द्रव्यासुख्यवसायेषु सस्वमस्त्री
तु जन्तुषु ॥

सस्व—द्रव्य, प्राण, अस्यन्त उद्योग
जन्तु, सस्वगुण तथा बल ॥

स्त्रीग नपुंसके षण्डे वाच्यस्त्रिं
मविक्रमे ॥ २१३ ॥

स्त्रीग—नपुंसकस्त्रिं, नपुंसक पुरुष
तथा पराक्रमहीन ॥ २१३ ॥

इति वास्त

—द्वौ विशौ वैश्यमनुजौ—
म्हिर—वैश्य, मनुष्य तथा प्रवेश ॥

द्वौ चराभिमरी स्पष्टौ ॥
स्पष्ट—बूत तथा संग्राम ॥

द्वौ राशी पञ्चमेपाद्यौ—
राशि—समूह तथा मयदृष्यादि राशि ॥

—द्वौ वशी कुलमस्करौ ॥ २१४ ॥
वश—बुद्धि तथा बाँस ॥ २१४ ॥

रहःप्रकाशौ वीकाशौ-

वीकाश-एकान्त तथा प्रकाश ॥

-निर्वेशो भृतिभोगयोः ॥

निर्वेश-नौकरी, भोग तथा मूर्च्छा ॥

कृतान्ते पुंसि कीनाशः-

-क्षुद्रकर्षकयोस्त्रिषु ॥ २१५ ॥

कीनाश-यमराज तथा किसान २१५

पदे लक्ष्ये निमित्तेऽपदेशः

स्या-

अपदेश-बहाना, निशाना वा

लक्ष्य तथा निमित्त वा हेतु ॥

-कुशमप्सु च ॥

कुश-कुश एकतरहकी घास तथा जल ॥

दशाऽवस्थानेकविधा-

दशा-अवस्था (लडकई जवानी इत्यादि) ॥

-प्याशा तृष्णापि चायता २१६

आशा-बडी तृष्णा तथा दिशा ॥

॥ २१६ ॥

वशा स्त्री करिणी च स्या-

वशा-स्त्री, बाझ, गाय तथा हथिनी और बेटी ॥

-दृह्ज्ञाने ज्ञातरि त्रिषु ॥

स्यात्कर्कशः साहसिकः कठो-

रामसृणावपि ॥ २१७ ॥

कर्कश-कठोर, दुःस्पर्श, साहसी

तथा जगद्बाल स्त्री और कवीला औषधि ॥ २१७ ॥

प्रकाशोऽतिप्रसिद्धेपि-

प्रकाश-अतिप्रसिद्ध, धूप, उजाला ॥

-शिशवज्ञे च बालिशः ॥

बालिश-बालक तथा मूर्ख ॥

॥ इति शान्ताः ॥

सुरमत्स्यावनिमिषौ-

अनिमिष-देवता तथा मत्स्य वा मछली ॥

-पुरुषावात्ममानवौ ॥ २१८ ॥

पुरुष-पुरुष वा नर, आत्मा, नागके-

शर वृक्ष तथा मनुष्य ॥ २१८ ॥

काकमत्स्यात्खगौ ध्वांक्षौ-

ध्वाङ्क्ष-कौवा तथा मत्स्य पकड-नेवाला पक्षी (बगुला) इत्यादि ॥

-कक्षौ तु तृणवीरुधौ ॥

कक्ष-काख वा बगल तथा तृण वा घासकी गजी और लता ॥

अभीषुः प्रग्रहे रश्मौ-

अभीषु-किरण, डोरी तथा पगहा, लगाम इत्यादि ॥

-प्रेषः प्रेषणमर्दने ॥ २१९ ॥

प्रेष-भेजना, मर्दनकरना तथा

आज्ञा देना ॥ २१९ ॥

पक्षः सहाये-

पक्ष-पक्षियोंका पंख, या भाषा
महीना, सहाय, वैर, घृष्ट, मित्र, घर,
शरीरकी अगलअगलकी पैसुली तथा
बड़ा हाथी और निकट ॥

-ऽप्युष्णीपः शिरोवेष्टकिरी
टयो ॥

उष्णीप-यगड़ी तथा किरीट वा मुकुट ।

शुकले मृपिके श्रेष्ठे मुकृते
वृषभे वृष* ॥ २२० ॥

वृष-मूसा, जन्तु भेष्ट वा मुख्य,
अडूसा एक श्राव, वृषमनामक औषध,
बैल, अण्डकोप, वर्म, मेपमादि १२ राशि
योमैसे दूसरा राशि सिंगिया (एक विप)
तथा एक सुगन्ध घूर्ण ॥ २२० ॥

कोपोऽस्त्री कुङ्कमले खड्गपि
घानेऽर्धौघदिव्ययो* ॥

कोप (घ)-पुष्पकी कली, तख-
बारका घर व स्थान, खजाना तथा
शपथ (सोगन वा कसम) ॥

वृतेऽश्वे क्षारिफलकेऽप्या
कर्पो-

आकप-गूला गुण्डियोंके रखनेके
जिये बख्खादिसे बना घर तथा पासा ॥

-ऽप्याक्षमिन्द्रिये ॥ २२१ ॥

ना वृषाङ्गे कर्पचके व्यवहारे
कलित्वमे ॥

अक्ष-इन्द्रिय ॥ २२१ ॥ पात्र,
सोल्ह मासा, घड़वा, सोचरनोन ॥

कर्पुवार्ता करीपाग्निः कर्पू
कुल्याभिघायिनि ॥ २२२ ॥

कर्पू-पासा, एकप्रकारकी तोड़,
पहिया, बहेवाफल, व्यवहार, करसीकी
भाग, जीविका तथा नदी ॥ २२२ ॥

पुंभवे सत्क्रियायां च पौरुष-
पौरुष-पोरसामर गहिर-री, पौरु
वा पुरुषका धर्म ॥

-विपमप्यु च ॥
विप-विप वा जहर तथा पानी ॥

उपादानेऽप्यामिष स्म्यो-
आमिष-मांस तथा दूध ॥

दपराधेऽपि किल्विषम् २२३ ॥
किल्विष-याप अपराध तथा प्रीति

॥ २२३ ॥
स्यादृष्टौ लोकघातर्वशे वत्सरे
वर्षमस्त्रियाम् ॥

वर्ष-बरस वा देवतोंका एक दिन,
दृष्टि वा वर्षा, जन्मूरीप तथा स्नान ॥

प्रेक्षा नृत्यक्षण प्रज्ञा-
प्रेक्षा-बुद्धि तथा देखना ॥

-मिक्षा सेवार्थना मृष्टिः २२४
मिक्षा-मीस, सेवा, प्रार्थना वा

मन्त्री ॥ २२४ ॥
त्विद् शोभापि-

त्विष्-शोभा तथा वाणी ॥

-त्रिषु परे-

न्यक्ष-अध्वक्ष और रूक्ष यह तीनों शब्द तीनों लिंगोंमें होते हैं ॥

-न्यक्षं कात्स्न्यनिकृष्टयोः ॥

न्यक्ष-निकृष्ट वा नीच तथा संपूर्णता ॥

प्रत्यक्षेऽधिकृतेऽध्यक्षो-

अध्यक्ष-प्रत्यक्ष तथा अधिकारी ॥

-रूक्षस्त्वप्रेम्यचिक्वणे ॥ २२५ ॥

रूक्ष-प्रेम रहित रूखा ॥ २२५ ॥

॥ इति पाताः ॥

रविश्वेतच्छदौ हंसौ-

हस-सूर्य और हसपक्षी ॥

-सूर्यवद्वी विभावसू ॥

विभावसु-सूर्य तथा अग्नि ॥

वत्सौ तर्णकवर्षौ द्वौ-

वत्स-वछा, वच्चा वा लडका छाती तथा वर्ष वा वरिस ॥

-सारंगाश्च दिवोकसः ॥ २२६ ॥

दिवोकस्-देवता तथा पक्षी ॥ २२६ ॥

शृंगारादौ विषे वीर्ये गुणे

रागे द्रवे रसः ॥

रस-खट्टा मीठा इत्यादि रस पारा धातु, गन्धरस, शृङ्गार, वीर, करुणा इत्यादि साहित्यके रस, मीर्य वा धातु,

प्रीति वा प्रेम, जहर, स्वाद, पतलीवस्तु (जैसा पानी शरवत आदि)

पुंस्युत्तंसावतंसौ द्वौ कर्णपूरे च शेखरे ॥ २२७ ॥

अवतस-कर्णफूल वा कानका भूषण तथा शिरपेज ॥ २२७ ॥

देवभेदेऽनले रश्मौ वसू रत्ने धने वसु ॥

वसु-किरण वा प्रकाश, अग्नि वा आग, कुवेर, गुम्माभाजी, पानी, धन, तथा मणि ॥

विष्णौ च वेधाः-

वेधस्-ब्रह्मा, विष्णु तथा पडित ॥

-स्त्री त्वाशीर्हिताशंसाहिदं-ष्ट्रयोः ॥ २२८ ॥

आशिस्-दूसरेके हितका चाहना और सर्पकी दष्टा ॥ २२८ ॥

लालसे प्रार्थनौत्सुक्ये-

लालसा-प्रार्थना तथा उत्कठा वा-वढी चाह ॥

-हिंसा चौर्यादिकर्म च ॥

हिंसा-चोरीआदि बुरा कर्म तथा वध करना ॥

प्रसूरश्वापि-

प्रसू-माता तथा घोड़ी ॥

-भूद्यावौ रोदस्यौ रोदसी च ते ॥ २२९ ॥

पक्ष-पक्षियोंका पंख, वा भाषा
महीना, सहाय, बैर, बख, मित्र, घर,
शरीरकी भगळमगळकी पैसुली तथा
बडा हाथी और निकट ॥

-ऽप्युष्णीपः शिरोवेष्टकिरी
टयोः ॥

उष्णीप-पगडी तथा किरीट वा मुकुट ।

शुकले मृपिके श्रेष्ठे सुकृते
धूपमे धूप ॥ २२० ॥

धूप-मूसा, जन्तु घेष्ट वा मुख्य,
अडूसा एक श्राव, धूपमनामक औषध,
बेड, अण्डकोप, धर्म, मेपळादि १२ राशि
योमेंसे दूसरा राशि सिंगिया (एक विप)
तथा एक सुगन्ध चूर्ण ॥ २२० ॥

कोपोऽस्त्री कुहमले खड्गपि
धानेऽर्थोचदिव्ययो ॥

कोप (छ)-पुष्पकी कडी, तख-
बारका घर व म्यान, खजाना तथा
रापप (सोगन वा कस्तम) ॥

शूतेऽश्वे शारिफलकेऽप्या
कपो-
आकप-शूमा गुहियोंके रखमेके
डिये पत्राणिते बना घर तथा पासा ॥

-ऽयाक्षमिन्द्रिये ॥ २२१ ॥

ना शूताङ्गे कर्पचके ध्यवहारे
कलिधूम ॥

अक्ष-इन्द्रिय ॥ २२१ ॥ पासा,
सोखह मासा, वहडा, सोचरानेन ॥

कर्पुर्धार्ता करीयामिः कवूः
कुल्याभिघायिनि ॥ २२२ ॥

कर्पू-पासा, एकप्रकारकी तोळ,
पहिया, बहेडाफळ, व्यषहार, करसीकी
भाग, जीबिका तथा नदी ॥ २२२ ॥

पुंभावे वत्क्रियायां च पौरुष-
पौरुष-पोरसामर गहिरा-री, पौरुष
वा पुरुषका धर्म ॥

-विपमप्यु च ॥
विप-विप वा जहर तथा पानी ॥

उपादानेऽप्यामिप स्या-
आमिप-मांस तथा दूध ॥

दपराघेऽपि किल्विपम् २२३ ॥
किल्विप-याप अपराघ तथा प्रीति
॥ २२३ ॥

स्यादृष्टौ लोकवात्सले बत्सरे
वपमस्त्रियाम् ॥

वर्ष-बरस वा देक्तोकर एक दिन,
दृष्टि वा बर्ता, जम्भूरीप तथा स्नान ॥

प्रेक्षा नृत्यक्षणं प्रज्ञा-
प्रज्ञा-सुधि तथा दखना ॥

-मिक्षा सेवायना भृतिः २२४
मिक्षा-मीख, सेवा, प्रार्थना वा
मगरी ॥ २२४ ॥

त्विद् शोमापि-

घात करनेवाला, क्रूर वा कठोर तथा
वीभत्स रस ॥

-ऽप्यतिशये त्वमी ॥ २३४ ॥

वृद्धप्रज्ञस्ययोज्यायान्-
ज्यायस्-बहुत बुद्धि-डूढी तथा
अत्यन्त प्रशंसा करनेके योग्य ॥ २३४ ॥

-कर्नायांस्तु युवाल्पयोः ॥

कनीयस्-अत्यन्त, जवान अत्यन्त
छोटा तथा छोटाभाई ॥

वरीयांस्तूरुवरयोः-

वरीयस्-अत्यन्त बड़ा तथा अत्यन्त
श्रेष्ठ ॥

-साधीयान्साधुबाढयोः ॥ २३५ ॥

साधीयस्-अत्यन्त साधु वा भला-
ली तथा अत्यन्त बहुत ॥ २३५ ॥

॥ इति सान्ताः ॥

दलेऽपि वर्ह-

वर्ह-मोरके पख वा पूछ, पत्ता तथा
करोंदा वृक्ष ॥

-निर्वन्धोपरागाकार्दयो ग्रहाः ॥

ग्रह-सूर्य इत्यादिग्रह, ग्रहण करना,
यज्ञके पात्र, ग्रहण जो सूर्य चन्द्रको लग
ताई तथा आग्रह वा हठ ॥

द्वार्यापीडे काथरसे निर्व्यूहो

नागदन्तके ॥ २३६ ॥

निर्व्यूह-खूँटी, शिरोवेष्टन (पगडी

सिरपेच इत्यादि) तथा द्वार और काढा ॥
॥ २३६ ॥

तुलासूत्रेऽश्वादिरश्मौ प्रग्राहः
प्रग्रहोऽपि च ॥

प्रग्राह-प्रग्रह-कैदी जो चोर इत्यादि
अपराधीका दण्ड है, पगहा वा पशुबाधने
की डोरी, तराजू तथा घोडा इत्यादिकी
लगाम ॥

पत्नीपरिजनादानमूलशापाः

परिग्रहाः ॥ २३७ ॥

परिग्रह-पत्नी वा स्त्री, परिवार,
अगीकार तथा वृक्षादिकी जड और
शाप ॥ २३७ ॥

दारेषु च गृहाः-

गृह-पत्नी तथा घर ॥

-श्रोण्यामप्यारोहो वरस्त्रियाः ॥

आरोह-चढना, श्रेष्ठ स्त्रीका कटि-
भाग वा श्रेष्ठ स्त्रीकी कमर तथा वृक्ष-
इत्यादिकी उँचाई ॥

व्यूहो वृन्दे-

व्यूह-समूह तथा एक प्रकारकी सेनाकी
रचना ॥

-ऽप्यहिर्वृत्रो -

अहि-सर्प तथा वृत्रनामा दैत्य ॥

-प्यग्निर्द्वर्कास्तमोऽपहाः ॥ २३८ ॥

रोटसी-द्विचक्रान्त, भूमि । तथा
भाकाश ॥ २२९ ॥

ज्वालाभासी न पुस्यर्चि-

अर्धिस-आळा तथा प्रकाश ॥

-ज्योतिर्भद्योतहृष्टिपु ॥

ज्योतिस्-ज्योतिर्विद्या, ताप, प्रकाश
तथा दृष्टि ॥

पापापराधयोरग-

भागस्-पाप तथा अपराध ॥

-स्वगवास्यादिनोर्वयः ॥ २३० ॥

वयस्-पक्षी और वास्य आदि
अवस्था ॥ २३० ॥

तेजपुरीपयोर्वर्चो-

वर्षस्-तत्र या प्रकाश वा चमक
तथा निष्ठा ॥

-महस्तुत्सवतेजसो ॥

महस्-उत्सव तथा तेज ॥

रजो गुणे च स्त्रीपुण्ये-

रजस्-पूछी न घर, रजोगुण तथा
स्त्रीका हर महीनेका रधिर ॥

-राही ध्वान्ते गुणे तम ॥ २३१ ॥

तमस्-अन्यकार, उट्टमह, तमोगुण,
अज्ञान तथा शोध ॥ २३१ ॥

छन्द पद्येऽभिलाषे च-

छन्दस्-पद्य और अभिलाषा तथा वेद ॥
-तपः कृच्छ्रादिकम् च-

तपस्-कृच्छ्रादिमत तथा छोछ-
तर अर्थात् काई छोक ॥

सहो बलं सहा मार्गो-

सहस्-अगहनमहीना तथा बल वा
सामर्थ्य ॥

-नम खं श्रावणो नमा ॥ २३२ ॥

नमस्-घाकणमहीना तथा आकाश २२
ओकं सन्नाश्रयभौका-

ओकस्-भाधप वा अस्त्ववन तथा घर ।
-पयः क्षीर पमाप्रभु च-

पयस्-पानी तथा दूध ॥
ओजो दीप्तौ बले-

ओजस्-बल तथा प्रकाश ॥
-स्रोत इन्द्रिये निम्नगारये २३३ ॥

स्रोतस्-स्रोत वा आपसे जलका बहना
इन्द्रिय तथा नदीका का ॥ २३३ ॥

तेज प्रभावे दीप्तौ च कमे
शुक्ले-

तेजस्-प्रभाम, प्रकाश, धीर्य तथा काम ॥
-प्यसत्रिपु ॥

यहासे भाग सान्त पर्यकी समातिप
यत सब शब्द तीनों छिगोमें होत हैं ॥

विद्वान्चिदश्च-

विद्वान्-वंदित वा जानकार तथा पत्र ॥
-यी मत्सो हिन्वा-

बीमारस-भिसका देखकर पित्त उत्पन्न हो

घात करनेवाला, क्रूर वा कठोर तथा सिरपेच इत्यादि) तथा द्वार और काढा ॥
वीभत्स रस ॥ ॥ २३६ ॥

-ऽप्यतिशये त्वमी ॥ २३४ ॥

वृद्धप्रशस्ययोज्यायान्-

ज्यायस्-बहुत बुद्धि-इंठी तथा

अत्यन्त प्रशंसा करनेके योग्य ॥ २३४ ॥

-कर्नीयांस्तु युवाल्पयोः ॥

कनीयस्-अत्यन्त, जवान अत्यन्त

छोटा तथा छोटाभाई ॥

वरीयांस्तूरुवरयोः-

वरीयस्-अत्यन्त बड़ा तथा अत्यन्त

श्रेष्ठ ॥

-साधीयान्साधुवाढयोः ॥ २३५ ॥

साधीयस्-अत्यन्त साधु वा भला-

ली तथा अत्यन्त बहुत ॥ २३५ ॥

॥ इति सान्ताः ॥

दलेऽपि बर्ह-

बर्ह-मोरके पख वा पूछ, पत्ता तथा
करौंदा वृक्ष ॥

-निर्वन्धोपरागार्कादयो ग्रहाः ॥

ग्रह-सूर्य इत्यादि ग्रह, ग्रहण करना,
यज्ञके पात्र, ग्रहण जो सूर्य चन्द्रको लग
ताहै तथा आग्रह वा हठ ॥

द्वार्यापीडे क्षाथरसे निर्व्यूहो

नागदन्तके ॥ २३६ ॥

निर्व्यूह-खूटी, शिरोवेष्टन (पगडी

तुलासूत्रेऽश्वादिरश्मौ प्रग्राहः
प्रग्रहोऽपि च ॥

प्रग्राह-प्रग्रह-कौंदी जो चोर इत्यादि
अपराधीका दण्ड है, पगहा वा पशुबाधने
की डोरी, तराजू तथा घोडा इत्यादिकी
लगाम ॥

पत्नीपरिजनादानमूलशापाः

परिग्रहाः ॥ २३७ ॥

परिग्रह-पत्नी वा स्त्री, परिवार,
अगीकार तथा वृक्षादिकी जड और
शाप ॥ २३७ ॥

दारेषु च गृहाः-

गृह-पत्नी तथा घर ॥

-श्रोण्यामप्यारोहो वरस्त्रियाः ॥

आरोह-चढना, श्रेष्ठ स्त्रीका कटि-
भाग वा श्रेष्ठ स्त्रीकी कमर तथा वृक्ष-
इत्यादिकी उँचाई ॥

व्यूहो वृन्दे-

व्यूह-समूह तथा एक प्रकारकी सेनाकी
रचना ॥

-ऽप्यहिर्वृत्रो -

अहि-सर्प तथा वृत्रनामा दैत्य ॥

-प्यग्निद्वर्कास्तमोऽपहाः ॥ २३८ ॥

तमोपह—चन्द्र, सूर्य तथा अग्नि ॥ २३८ ॥

परिच्छदे नृपाहोर्ध्वं परिवहो-

परिवर्ह—राजाका छत्र चमर इत्यादि
विह्व तथा सामग्री ॥

॥ इति हान्ताः ॥

-ऽव्ययाः परे ॥

अव—इसके उपरंत अव्ययोंका बणन
करते हैं जो कि तीनोंलिंग, सातोंविभक्ति
और एकवचन द्विवचन बहुवचनमें स
मान बने रहते हैं और उनमें कुछ विकार
नहीं होता ॥

आङ्गीपदर्थेभिव्याप्तौ सीमार्थे
धातुयोगजे ॥ २३९ ॥

आङ्—ईपत्, अमिव्याप्ति, सीमार्थ
और धातुके योगार्थमें होता है ॥ २३९ ॥

आ—प्रगृह्यः स्मृतौ वाक्ये-

आ—स्मरण, वाक्यपूरणमें ॥

-ऽप्यास्तु स्यात्कोपपीडयोः ॥

आ—कोपमें पीडामें ॥

पापकुस्तेपदर्थे कु-

कु—पाप निन्दा तथा घोड़े अर्थमें ॥

चिह्न निर्भर्त्सननिन्वयो २४०

चिह्न—स्थानि देना वा विचारना तथा
निन्दा ॥ २४ ॥

धान्वाचयसमाहारेत्तरेत्तर-

समुच्चये ॥

च—अन्वाचय समाहार, इतरेत्तर
और समुच्चयमें ॥

स्वस्त्याशी* क्षेमपुण्यादी-

स्वस्ति—आशीर्वाद, कल्याण, पुण्य
और मंगलमें ॥

—प्रकर्षे लघनेप्यति ॥ २४१ ॥

अति—अतिशय, बढाई, प्रकर्ष और
लघन अर्थमें ॥ २४१ ॥

स्वित्प्रश्ने च वितर्के च-

स्वित्—प्रश्न वा पूछना तथा तर्क-
करनेमें ॥

-तु स्याद्देदेज्वधारणे ॥

तु—किंतु, फेर, पादपूरणमें तथा जन-
धारणमें ॥

सकृत्सहैकवारं चा-

सकृत्—साथ वा सग तथा एकवारमें ॥

-प्याराद्दूरसमीपयो ॥ २४२ ॥

आगत—दूर तथा समीपमें ॥ २४२ ॥

प्रतीच्यां चरमे पश्चा-

पश्चात्—पीछे किछा तथा पश्चि-

मशाम ॥

-दुत्वाप्यर्थविकल्पयोः ॥

उत्—समुच्चय और विकल्पमें ॥

पुनः सहाययो* सन्ध-

सन्ध—सदा वा सर्वदा तथा

निरन्तर वा हरदम और फिर ॥

—साक्षात्प्रत्यक्षतुल्ययोः ॥ २४३ ॥

साक्षात्—प्रत्यक्ष और तुल्यमे २४३ ॥

खेदानुकम्पासंतोषविस्मया-
मन्त्रणे वत ॥

वत—खेद, दया, सतोष, आश्चर्य जैसी
इच्छा होय वैसा करो ऐसी आज्ञा देन ॥

हन्त हर्षेऽनुकम्पायां वाक्यार-
म्भविषादयोः ॥ २४४ ॥

हन्त—हर्ष, दया, वाक्यारम्भ तथा
विषाद ॥ २४४ ॥

प्रात प्रतिनिधौ वीप्साल-
क्षणादौ प्रयोगतः ॥

प्रति—मुख्यके समान, व्याप्त करनेकी
इच्छा, चिह्न तथा विपरीत ॥

इति हेतुप्रकरणप्रकाशादिस-
माप्तिषु ॥ २४५ ॥

इति—हेतु, प्रकरण प्रकाशआदि
तथा समाप्ति ॥ २४५ ॥

प्राच्यां पुरस्तात्प्रथमे पुरार्थे
ऽग्रत इत्यपि ॥

पुरस्तात्—पूर्वदिशा, प्रथम, पूर्वकाल
तथा आगे ॥

यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ मा-
नेऽवधारणे ॥ २४६ ॥

यावत्—तावत्—सपूर्णा, हृद, तोल
तथा निश्चय ॥ २४६ ॥

मंगलानन्तरारम्भप्रश्नकात्स्न्ये-
ष्वथो अथ ॥

अथो—अथ—मंगल, अनन्तर, आरम्भ,
प्रश्न तथा सपूर्णता ॥

वृथा निरर्थकाविध्यो-

वृथा—निरर्थक, विधिहीन ॥

—नानानेकोभयार्थयोः ॥ २४७ ॥

नाना—अनेक, तथा उभयार्थक २४७

नु पृच्छायां विकल्पे च-

नु—प्रश्न, तथा विकल्प ॥

पश्चात्सादृश्ययोरनु ॥

अनु—पीछे तथा सदृशता ॥

प्रश्नावधारणानुज्ञानुनयाम-
न्त्रणे ननु ॥ २४८ ॥

ननु—प्रश्न, निश्चय, आज्ञा, शान्त
करना तथा संबोधन ॥ २४८ ॥

गर्हात्समुच्चयप्रश्नशंकासंभावना-
स्वपि ॥

अपि—निन्दा, समुच्चय, प्रश्न, शंका,
तथा संभावना ॥

उपमायां विकल्पे वा-

वा—उपमा तथा विकल्प ॥

—सामि त्वर्धे जुगुप्सिते ॥ २४९ ॥

सामि—आधा तथा निन्दिता २४९ ॥

अमा सह समीपे च-

अमा—साथ तथा समीप ॥

तमोपह-चन्द्र, सूर्य तथा अग्नि ॥ २३८ ॥

परिच्छदे नृपाहर्ष्य परिषहो-

परिषह-राजाका छत्र चमर इत्यादि
विह्व तथा सामग्री ॥

॥ इति हास्या ॥

-श्रव्या परे ॥

अश-इसक उपरांत अल्पयोका वर्णन
करते हैं जो कि सीनोंकिंग, सातोखिमक्ति
और एकचन द्विचन बहुचनमें स-
मान बने रहते हैं और उनमें कुछ विकार
नहीं होता ॥

आकीपदर्थेभिष्यासौ सीमार्ये
घातुयोगजे ॥ २३९ ॥

आइ-ईषत्, अमिष्यासि, सीमार्य
और घातुके योगार्थमें होता है ॥ २३९ ॥

आ-प्रगृह्यः स्मृतौ वाक्ये-

आ-स्मरण नाम्यकरणमें ॥

-ऽप्यास्तु स्यात्कोपपीडयोः ॥

आ-कोपन पीडामें ॥

पापकुत्सेपदर्थे कु-

कु-पाप निन्दा तथा धोड़ अर्थमें ॥

धिक् निर्भर्त्सननिन्दयोः २४०

धिक्-स्थानि देना वा बिभारना तथा
निन्दा ॥ २४ ॥

शान्वाचयसमाहारेतरेतर-

समुच्चये ॥

श-शान्वाचय समाहार, इतरेतर
और समुच्चयमें ॥

स्वस्स्याशीः क्षेमपुण्यादौ-

स्वस्ति-आशीर्वाद, कस्याण, पुष्य
और मगलमें ॥

-प्रकर्षे लघनेप्पति ॥ २४१ ॥

अति-अतिशय, बडाई, प्रकर्ष और
लघन अर्थमें ॥ २४१ ॥

स्विरप्रश्ने च वितर्के च-

स्वित्-प्रश्न वा रूँछना तथा तर्क-
करनेमें ॥

-मु स्याद्देवेश्वधारणे ॥

ट-कि-ट, फेर, पादधारणमें तथा अश्व
धारणमें ॥

सकृत्सहैकवारं चा-

सकृत्-साथ वा सग तथा एकवारमें ॥

-प्याराधूरसमीपयो ॥ २४२ ॥

आरात्-वर तथा समीपमें ॥ २४२ ॥

प्रतीक्ष्यां चामे पश्चा-

पश्चात्-पीछे पिछडा तथा पश्चि-
मदिशामें ॥

-मुताप्यथाविकल्पयोः ॥

उत्-समुच्चय और विकल्पमें ॥

पुनः सहाययोः क्षम्-

क्षम्भ-सदा वा सर्वथा तथा

निस्तार वा हरदम और फिरमें ॥

—साक्षात्प्रत्यक्षतुल्ययोः ॥ २४३ ॥

साक्षात्—प्रत्यक्ष और तुल्यमे २४३ ॥

खेदानुकम्पासंतोषविस्मया-
मन्त्रणे वत ॥

वत—खेद, दया, सतोष, आश्चर्य जैसी
इच्छा होय वैसा करो ऐसी आज्ञा देन ॥

हन्त हर्षेऽनुकम्पायां वाक्यार-
म्भविषादयोः ॥ २४४ ॥

हन्त—हर्ष, दया, वाक्यारम्भ तथा
विषाद ॥ २४४ ॥

प्रात प्रतिनिधौ वीप्साल-
क्षणादौ प्रयोगतः ॥

प्रति—मुख्यके समान, व्याप्त करनेकी
इच्छा, चिह्न तथा विपरीत ॥

इति हेतुप्रकरणप्रकाशादिस-
माप्तिषु ॥ २४५ ॥

इति—हेतु, प्रकरण प्रकाशआदि
तथा समाप्ति ॥ २४५ ॥

प्राच्यां पुरस्तात्प्रथमे पुरार्थे
अग्रत इत्यपि ॥

पुरस्तात्—पूर्वदिशा, प्रथम, पूर्वकाल
तथा आगे ॥

यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ मा-
नेऽवधारणे ॥ २४६ ॥

यावत्—तावत्—संपूर्ण, हृद, तोल
तथा निश्चय ॥ २४६ ॥

संगलानन्तरारम्भप्रश्नकात्स्न्ये-
ष्वथो अथ ॥

अथो—अथ—मगल, अनन्तर, आरम्भ,
प्रश्न तथा संपूर्णता ॥

वृथा निरर्थकाविध्यो-

वृथा—निरर्थक, विधिहीन ॥

—नानानेकोभयार्थयोः ॥ २४७ ॥

नाना—अनेक, तथा उभयार्थक २४७

नु पृच्छायां विकल्पे च-

नु—प्रश्न, तथा विकल्प ॥

पश्चात्सादृश्ययोरनु ॥

अनु—पीछे तथा सदृशता ॥

प्रश्नावधारणानुज्ञानुनयाम-

न्त्रणे ननु ॥ २४८ ॥

ननु—प्रश्न, निश्चय, आज्ञा, शान्त
करना तथा संबोधन ॥ २४८ ॥

गर्हात्समुच्चयप्रश्नशंकासंभावना-
स्वपि ॥

अपि—निन्दा, सयुच्चय, प्रश्न, शंका,
तथा संभावना ॥

उपमायां विकल्पे वा-

वा—उपमा तथा विकल्प ॥

—सामि त्वर्धे जुगुप्सिते ॥ २४९ ॥

सामि—आधा तथा निन्दित ॥ २४९ ॥

अमा सह समीपे च-

अमा—साथ तथा समीप ॥

-कं वारिणि घ मूर्धनि ॥

कम्-अल तथा मस्तक ॥

इवेत्यमर्थयोरेवं-

एषम्-इकार्यक तथा प्रकारार्थक ॥

-नून सर्वैर्यनिश्चये ॥ २५० ॥

नूनम्-तर्कना तथा अर्थनिश्चय ॥

॥ २५० ॥

तृष्णीमयं सुखे जोष-

जोषम्-शुभ होना तथा सुख ॥

-किं पृच्छाया जुगुप्सने ॥

किम्-प्रश्न तथा निन्दा करना ॥

नाम प्राकाश्यसमाख्यक्रोधोप

गमकृत्सने ॥ २५१ ॥

नाम-प्रसिद्धि, संभावना, क्रोध,
सुन्दर वष धारण करना, तथा सञ्ज्ञा
रना ॥ २५१ ॥

अल भूपणपर्यासिष्टाक्तिवारण-
वाचकम् ॥

अलम्-अलंकार, परिपूर्णता, सामर्थ्य
तथा मना करना ॥

हुं वितर्क परिमश्ने-

हुम्-तर्कना करना तथा प्रश्न करना ॥

-समयान्तिकमध्ययो ॥ २५२ ॥

समया-समीप तथा मध्या ॥ २५२ ॥

पुनरप्रथमं भेदे-

पुनर-प्रथमके अन्तर तथा मद ।

-निर्निश्चयनिषेधयो ॥

निर्-निश्चय तथा निषेध ॥

स्यात्प्रबन्धे चिरातीति निष्-

टागामिके पुरा ॥ २५३ ॥

पुरा-प्रबन्ध अर्थात् निरन्तर, प्राचीन,
समीप तथा होनवाला ॥ २५३ ॥

ऊर्युरी चोररी घ विस्तारे
ऽङ्गीकृतौ त्रयम् ॥

ऊररी-ऊरी-उररी-विस्तार तथा
भगीकार करना ॥

स्वर्गं परे घ लोके स्व-

स्वर्-स्वर्ग तथा परलोक ॥

-वार्तासमाख्ययोः क्लृप्ता ॥ २५४ ॥

क्लृप्ता-वार्ता, तथा समाख्यान ॥ २५४ ॥

निषेधवाक्यालंकारभिज्ञा-
सानुनये खल्ल ॥

खल्ल-निषेध, वाक्यालंकार, जिज्ञासा
तथा अनुनय ॥

समीपोभयतः शीघ्रसाकस्या-
भिमुखेप्रमित ॥ २५० ॥

अमित-समीप, दोनों और, शीघ्र
चारोओर, तथा संमुख ॥ २५० ॥

नामप्राकाश्ययोः प्रादु-

प्रादुर्-नाम तथा प्रकट ॥

-मियोऽन्योर्न्य रहस्पि ॥

मियस्-परस्पर तथा एकत्र ॥

तिरोऽन्तर्धौ तिर्यगर्थे-

तिरस्-अन्तर्धान तथा टेढा ॥

-हा विपादशुगतिषु ॥२५६॥

हा-विपाद, शोक तथा पीडा॥२५६॥

अहहेत्यद्भुते खेदे-

अहह-अद्भुत तथा खेद ॥

-हि हेतावधारणे ॥

हि-हेतु तथा विश्रय ॥

इत्यनेकार्थवर्गविवरणम् ॥ ३ ॥

अथाव्ययवर्गः ४.

चिराय चिररात्राय चिरस्या-
द्याश्चिरार्थकाः ॥

बहुत कालवाचक अव्ययशब्द ६॥

चिराय १ चिररात्राय, २ चिरस्य, ३
आदि शब्दसे चिरम्, ४ चिरेण, ५
चिरान्, चिरे ६ ॥

मुहुः पुनः पुनः शश्वदभीक्षण-
मसकृत्समाः ॥ १ ॥

बारम्बार अर्थवाचक अव्ययशब्द ५॥

मुहुः १ पुनःपुनः २ शश्वत् ३
अभीक्षणम् ४ असकृत् ५ ॥ १ ॥

स्नाग्झटित्यञ्जसाहाय द्राङ्
मंशु सपदि द्रुते ॥

शीघ्रतावाचक अव्ययशब्द ८ ॥

स्नाक् १ झटिति २ अजसा ३ अहाय ४

द्राक् ५ मंशु ६ सपदि ७ द्रुतम् ८ ॥

वलवत्सुष्टु किमुत् स्वत्यतीव
च निर्भरे ॥ २ ॥

अतिशयवाचक अव्ययशब्द ६ ॥
वलवत् १ सुष्टु २ किमुत् ३ सु ४ अति
५ अतीव ६ ॥ २ ॥

पृथग्विनान्तरेणर्ते हिरुङ् नाना
च वर्जने ॥

वर्जन वाचक वर्जनेवाले अव्यय
शब्द ६ ॥ पृथक् १ विना २ अन्तरेण
३ ऋते ४ हिरुक् ५ नाना ६ ॥

यत्तद्यतस्ततो हेता-

कारणवाचक अव्ययशब्द ४॥यत् १

तत् २ यत्. ३ ततः ४ ॥

-वसाकल्पे तु चिञ्चन ॥ ३ ॥

अपूर्णतावाचक अव्यय शब्द २ ॥

चित् १ चन २ ॥ ३ ॥

कदाचिज्जातु-

किसी कालवाचक अव्यय शब्द

२ ॥ कदाचित् १ जातु २ ॥

-सार्धं तु साकं सत्रा समं-सह ॥

साथवाचक अव्यय शब्द ५॥साकम्

१ सार्धम् २ सत्रा ३ समम् ४ सह ५ ॥

अनुकूल्यार्थकं प्राध्वं-

अनुकूलतावाचक अव्यय शब्द १॥

प्राध्वम् ॥ १ ॥

-व्यर्थके तु वृथा मुधा ॥४॥

अर्थवाचक अव्यय शब्द २ ॥	सम्बोधनार्थवाचक अव्यय शब्दाः १ ॥
वृषा १ मुषा २ ॥ ४ ॥	प्याद् १ पाद् २ ष्मा ३ हृ ४ हे ५ मो ६ ॥
आहो उताहो किमुत विकल्पे	—समया निकषा हिरुक् ॥
किं किमुत च ॥	समीपवाचक अव्यय शब्द ३ ॥
निकल्पार्थवाचक अव्यय शब्द ६ ॥	समया १ निकषा २ हिरुक् ३ ॥
आहो १ उताहो २ किमुत ३ किम् ४	अथर्किते तु सहसा—
किमु ५ उत ६ ॥	अकस्मात् क अर्थवाचक अव्यय
तु हि च स्म इ वै पादपूरणे—	शब्द १ ॥ सहसा १ ॥
श्लोकश्री पादपूर्णा क्तानेवाळे	—स्यात्पुरं पुरतोऽप्रतः ॥ ७ ॥
अव्यय शब्द ६ ॥ तु १ हि २ च ३	आगेक अर्थवाचक अव्यय शब्द ३ ॥
स्म ४ ह ५ वै ६ ॥	पुर १ पुरत २ अप्रत ३ ॥ ७ ॥
—पूजने स्वती ॥ ५ ॥	स्वाहा देवहविदानि श्रौषद्
पूजावाचक अव्यय शब्द २ ॥ सु १	श्रौषद् वपद् स्वधा ॥
अति २ ॥ ५ ॥	देवताओंके हुम्प देनेके उपयोगी वा-
दिवाङ्गी—	चक अव्यय शब्द ५ ॥ स्वाहा १ श्रौषद्
दिमके अर्थवाचक अव्यय शब्द १ ॥	२ श्रौषद् ३ वपद् ४ स्वधा ५ पित्त-
दिवा १ ॥	रोंके उपयोगी प्रसिद्ध है ॥
—त्यय—दोषा च नक्त च रजना	किंचिदीपन्मनागल्पे—
विति ॥	अल्पके वाचक अव्यय शब्द ३ ॥
रात्रिके अर्थवाचक अव्यय शब्द २ ॥	किंचित् १ ईन्त् २ मनात् ॥ ३ ॥
दोषा १ नक्तम् २ ॥	—प्रेत्यामुश्च भवान्तरे ॥ ८ ॥
विर्मगर्धे साचि तिरोऽ—	जन्मान्तरवाचक अव्यय शब्द २ ॥
ट्ट अर्थवाचक अव्यय शब्द २ ॥	प्रेष १ अमुत्र २ ॥ ८ ॥
साधि १ तिरस् २ ॥	न वा यया तथैव साम्ये—
—प्यय सम्बोधनार्थका* ॥ ६ ॥	समता वाचक अव्यय शब्द ६ ॥ १ ॥
स्यु प्याद् पाडङ्ग इ हे मा*—	वा २ यया ३ तया ४ इव ५ एषम् ६ ॥

-ऽहो ही च विस्मये ॥

विस्मयवाचक अव्ययशब्द २॥ अहो १
ही २ ॥

मौने तु तूष्णीं तूष्णीकां-

मौनार्थवाचक अव्ययशब्द २॥ तूष्णीं-
म् १ तूष्णीकाम् २ ॥

-सद्यः सपदि तत्क्षणे ॥ ९ ॥

तत्कालवाचक अव्ययशब्द २ ॥

सद्यस् १ सपदि २ ॥ ९ ॥

दिष्ट्या समुपजोषं चेत्या-
नन्दे-

आनन्दवाचक अव्ययशब्द २ ॥ दि

ष्ट्या १ समुपजोषम् २ ॥

-ऽथान्तरेऽन्तरा ॥

अन्तरेण च मध्ये स्युः-

मध्यवाचक अव्ययशब्द ३ ॥ अन्तरे
१ अन्तरा २ अन्तरेण ३ ॥

प्रसह्य तु हठार्थकम् ॥ १० ॥

हठार्थवाचक अव्ययशब्द १॥ प्रसह्य १

॥ १० ॥

युक्ते द्वे सांप्रतं स्थाने-

युक्तार्थवाचक अव्ययशब्द २॥ सा-
प्रतम् १ स्थाने २ ॥

-ऽभीक्ष्णं शश्वदनारते ॥

निरतरवाचक अव्ययशब्द २॥ अभी
क्ष्णम् १ शश्वत् २ ॥

अभावे नह्य नो नापि-

अभाववाचक अव्ययशब्द ४॥ नहि १
अ २ नो ३ न ४ ॥

-मास्म मालं च वारणे ॥ ११ ॥

निषेधवाचक अव्ययशब्द ३ ॥

मास्म १ मा २ अलम् ३ ॥ ११ ॥

पक्षान्तरे चेद्यदि च-

पक्षान्तरवाचक अव्ययशब्द २ ॥

चेत् १ यदि २ ॥

-तत्त्वे त्वद्धाञ्जसा द्वयम् ॥

तत्त्वार्थवाचक अव्ययशब्द २ ॥

अद्धा १ अजसा २ ॥

प्राकाश्ये प्रादुराविः स्या-

प्रकटवाचक अव्ययशब्द २ ॥

प्रादुस् १ आविस् २ ॥

-दोमेवं परमं मते ॥ १२ ॥

अङ्गीकारवाचक अव्ययशब्द ३ ॥

ओम् १ एवम् २ परमम् ३ ॥ १२ ॥

समन्ततस्तु परितः सर्वतो

विष्वगित्यापि ॥

सवओरवाचक अव्ययशब्द ४ ॥

समन्तत. १ परितः २ सर्वतः ३

विष्वक् ४ ॥

अकामानुमतौ काम-

विनाइच्छाके सलाहदेनेमें १ ॥

कामम् १ ॥

अर्थवाचक अम्यय शब्द २ ॥

वृषा १ मुषा २ ॥ ४ ॥

आहो उताहो किमुत विकल्पे
किं किमुत च ॥

विकल्पार्थवाचक अम्यय शब्द १ ॥

आहो १ उताहो २ किमुत ३ किम् ४
किमु ५ उत ६ ॥

तु हि च स्म ह वै पादपूरणे-

श्लोककी पादपूर्णाता बतानेवाले

अम्यय शब्द ६ ॥ तु १ हि २ च ३

स्म ४ ह ५ वै ६ ॥

-पूजने स्वती ॥ ५ ॥

पूजावाचक अम्यय शब्द २ ॥ तु १

अति २ ॥ ५ ॥

द्विवाङ्गी-

पिनके अर्थवाचक अम्यय शब्द १ ॥

दिवा १ ॥

-त्यथ-दोषा च नक्त च रजना

विति ॥

रात्रिके अर्थवाचक अम्यय शब्द २ ॥

दोषा १ नक्तम् २ ॥

तिर्यगर्थे साचि तिरोऽ-

ट्ट अथवाचक अम्यय शब्द २ ॥

साचि १ तिरम् २ ॥

-प्यय समाधनायका* ॥ ६ ॥

म्यु प्याद् पाठद् ह हे भा*-

सम्बोधमार्थवाचक अम्यय शब्द १ ॥

प्याद् १ पाद् २ अंग ३ हद् हे ५ मो ६ ॥

-समया निकषा हिरुक् ॥

स्त्रीपवाचक अम्यय शब्द ३ ॥

समया १ निकषा २ हिरुक् ३ ॥

अतर्किते तु सहसा-

अकस्मात् के अर्थवाचक अम्यय

शब्द १ ॥ सहसा १ ॥

-स्यात्पुर* पुरतोऽप्रतः ॥ ७ ॥

भागके अर्थवाचक अम्यय शब्द १ ॥

पुर १ पुरतः २ अप्रत ३ ॥ ७ ॥

स्वाहा देवद्विदिनि श्रीपद्

वौपद् वपद् स्वधा ॥

देवताओंके हृदय देनेके उपयोगी वा-

चक अम्यय शब्द ५ ॥ स्वाहा १ वौपद्

२ वौपद् ३ वपद् ४ स्वधा ५ पित-

रोंके उपयोगी प्रसिद्ध हैं ॥

किंचिदीपन्मनागल्पे-

अस्यके वाचक अम्यय शब्द ३ ॥

किंचित् १ ईत् २ मनाक् ॥ ३ ॥

-प्रेत्पामुग्र भवान्तरे ॥ ८ ॥

जन्मान्तरवाचक अम्यय शब्द २ ॥

प्रेय १ अमुग्र २ ॥ ८ ॥

य वा यथा तयैवं साम्ये-

समता वाचक अम्यय शब्द ६ ॥ १ ॥

वा - यथा ३ तथा ४ इ ५ याम् ६ ॥

अस्ति सत्त्वे-

भावार्यक अव्यय १ ॥ अस्ति १ ॥

-रुषोक्ताबु-

कोपवचनवाचक १ ॥ उ १ ॥

-ऊं प्रश्ने-

प्रश्नवाचक १ ॥ ऊम् ॥ १ ॥

-ऽनुनये त्वायि ॥

शान्तकरनेमें १ ॥ अयि १ ॥

हुं तर्के स्या-

तर्कवाचक १ ॥ हुम् १ ॥

-दुषा रात्रेरवसाने-

प्रातः कालवाचक १ ॥ उपस् १ ॥

-नमो नतौ ॥ १८ ॥

नमस्कारवाचक अव्ययशब्द १ ॥

नमस् १ ॥ १८ ॥

पुनरर्थेऽङ्ग-

पुनर्वाचक १ ॥ अङ्ग १ ॥

-निन्दायां दुष्णु-

निन्दावाचक १ ॥ दुष्णु १ ॥

-सुष्णु प्रशंसने ॥

प्रशंसावाचक १ ॥ सुष्णु १ ॥

सायं साये-

सायकालवाचक १ ॥ सायम् १ ॥

-प्रगे प्रातः-

प्रातःकालवाचक २ ॥ प्रगे १ ॥

प्रातर् १ ॥

-प्रभातेनिकषाऽन्तिके ॥ १९ ॥

समीपवाचक १ ॥ निकषा १ ॥ १९ ॥

परुत्परार्येषमोऽब्दे 'पूर्वे पूर्व-
तरे याति ॥

गतवर्षवाचक १ ॥ परुत् १ ॥ गत-
वर्षसे पहले वर्षका वाचक अव्यय १ ॥
परारि १ ॥ वर्त्तमानवर्षवाचक अव्यय १ ॥
ऐषमस् १ ॥

अद्यात्रा-

इस दिनका वाचक अव्यय १ ॥
अद्य १ ॥

ह्यथ पूर्वेऽद्वीत्यादौ पूर्वो-
त्तरापरात् ॥ २० ॥ तथाधरान्या
न्यतरेतरात्पूर्वेद्युरादयः ॥

'प्रथम दिन' इत्यादि अर्थमें पूर्वआदि
शब्दसे 'पद्युस्' प्रत्यय होकर पूर्व दिनका
वाचक 'पूर्वेद्युः' उत्तर दिनका वाचक
'उत्तरेद्युः' परदिनका वाचक 'परेद्युः'
इत्यादि शब्द बनते हैं. जैसे 'अधरेद्युः'
अन्येद्युः, अन्यतरेद्युः, इतरेद्युः' ॥ २० ॥

उभयद्युश्चोभयेद्युः-

दोनों दिनके वाचक अव्यय २ ॥

उभयद्युः १ उभयेद्युः २ ॥

-परं त्वह्नि परेद्यवि ॥ २१ ॥

परदिनका वाचक १ ॥ परेद्यवि १ ॥ २१ ॥

द्यो गते-

-मसूयोपगमेऽस्तु च ॥ १३ ॥
 ईर्ष्याद्वेषेण अङ्गीकारवाचक १ ॥
 अस्तु १ ॥ १३ ॥
 ननु च स्मादिरोधोक्तौ-
 विरुद्धवृत्तिवाचक १ ॥ ननु १ ॥
 -कश्चित्कामप्रवेदने ॥
 इच्छित प्रस्तुतवाचक १ ॥ कश्चित् १ ॥
 निःपमं दुःपमं गर्ह्ये-
 निन्दितवाचक २ ॥ निःपमम् १
 दुःपमम् २ ॥
 -यथास्वं तु यथायथम् ॥ १४ ॥
 यथायोग्यवाचक २ ॥ यथास्वम् १
 यथायथम् २ ॥ १४ ॥
 मृषा मिथ्या च वितथे-
 मिथ्यावाचक २ ॥ मृषा १ मिथ्या २ ॥
 -यथार्थं तु यथातथम् ॥
 सत्त्वाचक २ ॥ यथार्थम् १
 यथातथम् २ ॥
 -स्युरेष तु पुनर्वै वेत्यवधारण
 वाचका ॥ १५ ॥
 निश्चयवाचक ५ ॥ एषम् १ तु २
 पुनर् ३ वै ४ वा ५ ॥ १५ ॥
 प्रागतीतार्थक-
 मृतकालवाचक १ ॥ प्राक् १ ॥
 -मूनमवश्यं निश्चये द्वयम् ॥
 अवश्यवाचक २ ॥ मूनम् १ अव
 श्यम् २ ॥

सषट्दर्शने-
 पर्यवाचक १ ॥ सषट् १ ॥
 -श्वरे त्वर्था-
 प्रथमवाचक १ ॥ त्वर्थाक् १ ॥
 -गामव-
 निश्चित अङ्गीकारवाचक २ ॥ अत्
 १ एषम् २ ॥
 -स्वयमात्मना ॥ १६ ॥
 आत्मवाचक १ ॥ स्वयम् १ ॥ १६ ॥
 अल्पे नीचै-
 अस्यवाचक अन्ययशब्द १ ॥ नीचैस् १ ॥
 -र्महत्सुषीः-
 ऊचावाचक १ ॥ उचैस् १ ॥
 -प्रायो मू-
 बाहुस्य (अक्षर) वाचक १ ॥
 प्राय १ ॥
 -म्यद्वुते छनैः ॥
 मन्दवाचक अव्ययशब्द १ ॥ छनैस् १ ॥
 सना नित्ये-
 नित्यवाचक १ ॥ सना १ ॥
 -बहिर्बाह्ये-
 बाह्यवाचक १ ॥ बहिस् १ ॥
 -स्मार्तते-
 मूलकालवाचक १ ॥ स्म १ ॥
 -ऽस्तमदर्शने ॥ १७ ॥
 अदर्शनवाचक १ ॥ अस्तम् १ ॥ १७ ॥

अस्ति सत्त्वे-

भावार्यक अव्यय १ ॥ अस्ति १ ॥

-रुषोक्तावु-

कोषवचनवाचक १ ॥ उ १ ॥

-ऊं प्रश्ने-

प्रश्नवाचक १ ॥ ऊम् ॥ १ ॥

-ऽनुनये त्वायि ॥

शान्तकरनेमें १ ॥ अयि १ ॥

हुं तर्के स्या-

तर्कवाचक १ ॥ हुम् १ ॥

-दुषा रात्रेरवसाने-

प्रातः कालवाचक १ ॥ उपस् १ ॥

-नमो नतौ ॥ १८ ॥

नमस्कारवाचक अव्ययशब्द १ ॥

नमस् १ ॥ १८ ॥

पुनरर्थेऽङ्ग-

पुनर्वाचक १ ॥ अङ्ग १ ॥

-निन्दायां दुष्णु-

निन्दावाचक १ ॥ दुष्णु १ ॥

-सुष्णु प्रशंसने ॥

प्रशंसावाचक १ ॥ सुष्णु १ ॥

सायं साये-

सायकालवाचक १ ॥ सायम् १ ॥

-प्रगे प्रातः-

प्रातःकालवाचक २ ॥ प्रगे १ ॥

प्रातर् १ ॥

-प्रभातेनिकषाऽन्तिके ॥ १९ ॥

समीपवाचक १ ॥ निकषा १ ॥ १९ ॥

परुत्परार्येषमोऽब्दे पूर्वे पूर्व-

तरे याति ॥

गतवर्षवाचक १ ॥ परुत् १ ॥ गत-

वर्षसे पहले वर्षका वाचक अव्यय १ ॥

परारि १ ॥ वर्तमानवर्षवाचक अव्यय १ ॥

ऐपमस् १ ॥

अद्यात्रा-

इस दिनका वाचक अव्यय १ ॥

अद्य १ ॥

ह्वयय पूर्वेऽह्नीत्यादौ पूर्वो-

त्तरापरात् ॥ २० ॥ तथाधरान्या

न्यतरेतरात्पूर्वेद्युरादयः ॥

‘प्रथम दिन’ इत्यादि अर्थमें पूर्वआदि

शब्दसे ‘एद्युस्’ प्रत्यय होकर पूर्व दिनका

वाचक ‘पूर्वेद्युः’ उत्तर दिनका वाचक

‘उत्तरेद्युः’ परदिनका वाचक ‘परेद्युः’

इत्यादि शब्द वनते हैं, जैसे ‘अधरेद्युः’

अन्येद्युः, अन्यतरेद्युः, इतरेद्युः’ ॥ २० ॥

उभयद्युश्चोभयेद्युः-

दोनो दिनके वाचक अव्यय २ ॥

उभयद्युः १ उभयेद्युः २ ॥

-परे त्वह्नि परेद्यावि ॥ २१ ॥

परदिनका वाचक १ ॥ परेद्यवि १ ॥ २१ ॥

ह्यो गते-

व्यतीतदिनका वाचक अन्वय	पश्चिमदिशा पश्चिम देश और पश्चिमका
शब्द १ ॥ वसु १ ॥	शब्दका वाचक अन्वय शब्द 'प्रत्यक्'
-ज्नागतेर्दि श्च-	इत्यादि ॥ २३ ॥
कलदिनका १ ॥ शसु १ ॥	इत्यन्वयवर्गः ॥ ४ ॥
-परश्वस्तु परेऽद्भि ॥	लिङ्गादिसमहवर्गः ५
मानेवाळे परसोदिमका वाचक १ ॥	सार्द्धगशास्त्रैः सभादिकृचदि
परत्वा १ ॥	वसमासजैः ॥ अनुक्तैः संग्रहे लि
सदा सदान्नी-	गसंकीर्णवदिहोत्रपेत् ॥ १ ॥
तिस्तकालके वाचक अन्वय २ ॥	पाणिनि के कहेहुए लिङ्गानुशासन-
सदा १ तदानीम् २ ॥	सहित(अर्थात् उमके अनुसार)सन भादि
-युगपदेकदा-	प्रत्ययोसे उत्पन्न विकीर्णा भादि
एकसमयके वाचक अन्वय २ ॥ युग	शब्दोसे कृद्न्तसे उत्पन्न श्वाक भादिका
पत् १ एकदा २ ॥	तद्विद प्रत्यय अण् भादिसे उत्पन्न, "समा
-सर्वदा सदा ॥ २२ ॥	सर्वे 'अदन्तोत्तर पदो द्विगु' इस भादिसे
सदाकाञ्चवाचक अन्वय २ ॥ सर्वदा १	और बाहुत्वसे पहिले अनुक्त शब्दोसे
सदा २ ॥ २२ ॥	संग्रह किये जाते हैं, यहाँ वर्गसंज्ञा
एतर्हि समतीदानीमधुना	लिङ्गका ज्ञान किस प्रकार करें इस पर
सांप्रतं तथा ॥	कहते हैं, सार्द्धगशास्त्रे यह जैसे, संघी
'इसी समय' इस अर्थके वाचक	गर्गमें प्रकृति भादिसेजाने जाते हैं, इसी
अन्वय शब्द १ एतर्हि १ सम्प्रति २	प्रकार यहाँ भी जानन, तिनमें प्रकृत्यर्थसे
इदानीम् ३ अधुना ४ सांप्रतम् ५ ॥	जैसे 'अर्द्धर्चाः पुंसि च' यहाँ प्रत्ययार्थसे
विन्देऽकाले पूर्वादौ प्रागु	जैसे 'जिवां क्तिन्' 'प्रकृतिप्रत्ययार्थसे'
दकप्रत्यगादयः ॥ २३ ॥	इस भाषणादरसे क्रियाविशेषणोंको मनु-
पूर्वदिशा पूर्वदेश और पूर्वकाञ्चमें "प्राक्"	सकत्व और एकत्वजनय होता है, जैसे,
शब्दहै । उत्तर दिशा उत्तरदश और	शोभन पश्चि इत्यादि ॥ १ ॥
उत्तरकाठवाचक अन्वयशब्द" 'उदक्'	

लिङ्गशेषविधिव्यापी विशेषै-
र्यथावाधितः ॥

सनादि-- कृत्-तद्धित-समाससे उत्पन्न विषय पूर्वोक्तशब्दके लिंगसे अन्य-लिंगहोना लिङ्गशेषहै, उसका विधितत्सर्ग होनेसे काण्डत्रयका व्यापक है, जो पूर्वोक्त और यहाके कहे विशेषविधियोंसे वाधित न होवे, तभी व्यापक होता है क्योंकि अपवादविषय छोड़कर उत्सर्ग सर्वत्र प्रवृत्त होता है इस कहनेसे लिंगवि-शेषविधिको जो उत्सर्गभूतका स्वर्ग आदि वर्ग अपवाद है, तिनमें पहिलेके कहे हुए विशेषोंको फिर कहनेके टोप और विस्तारके डरसे फिर यहा विधान नहीं है, स्वर्गपर्याय यहा पुँल्लिङ्ग कहेंगे उसका "द्योदिवी द्वे स्त्रिया क्लीबे त्रिविष्टपम्" यह पूर्वोक्त अपवाद है और नीप्रभृतिकोके तो 'कृतः कर्तारि' इत्यादिसे कहेंगे, यद्यपि पहिले लिंग कहा है, तथापि अप्राप्तके प्राणणार्थकतासे लिगानुशासन यहाभी प्रधान ही है ॥

स्त्रियामीदृद्विरामैकाच् सयो-
निप्राणिनाम च ॥ २ ॥

'स्त्रियाम्' यहां अधिकार 'मसी' [श्लो० १०के] शब्दपर्यन्त जानना चाहिये 'ईदूतौ' ईकार और ऊकार 'विराम' अर्थात् अवसानस्थ हैं जिनके वे ईदूद्विराम

हैं वे और एकाच् ये दोनों ईदूद्विरामैकाच् हैं, ईदन्त ऊदन्त वा जो एकस्वर शब्द-स्वरूप हैं वे स्त्रीलिंग हैं यह अर्थ है, जैसे, धीः, श्रीः, भूः, भूः, नयतीति नीः, इन आदिमें 'कृतः कर्तारि' इसके वाध होनेसे वाच्यलिंगत्व है, योनिः भगहै इसके सहित प्राणियोंके नाम 'स्त्रियाम्' स्त्रीलिंग है जैसे माता-दुहिता-धेनु-आदि दार शब्द आदिमें तौ 'दाराः पुभूमीति' यह वाधक पहिले कह चुके हैं, कलत्रं और गृह शब्दको 'कलत्र श्रोणि-भार्ययोः' यहाका क्लीब पाठ वाधक है, इसी प्रकार अन्यत्र भी विचार करलेना चाहिये ॥ २ ॥

नाम विद्युन्निशावल्लीवीणा-
दिग्भूनदीहियाम् ॥

विद्युत् आदि हीशब्द पर्यन्त ८ आठ शब्दोंके जो नाम अर्थात् सज्ञा हैं, वे स्त्रीलिंग हैं, जैसे, -विद्युत्, -तडित्, निशा, -रात्रिः, रजनिः, वल्ली, -व्रततिः, वीरुध्, वीणा, -विपञ्ची इत्यादि ॥

अदन्तैर्द्विगुरेकार्थो-

अकारान्त आदि शब्दोंसे जो एकार्थ द्विगुसमास है, वह स्त्रीलिंग है, जैसे 'पचाना मूलाना समाहारः पचमूली' इसी प्रकार त्रिलोकी षडध्यायी इत्यादि ॥

न स पात्रयुगादिभिः ॥ ३ ॥

य पुन पात्र, युग आदि उत्तरपद
अदन्तशब्दोंके साथ एकार्थ द्विगु समा
सको स्त्रीलिङ्गत्व नहीं है जैसे पत्रपात्रं,
चतुर्गुणं, त्रिभुवनम् ॥ ३ ॥

तल्ल वृन्दे येनिकटघत्रा वैर
मैथुनिकादिषुन् ॥ स्त्रीभा
वाटाबनिकिष्णुलूणचष्णुच्-
क्यप्युजिजदनिशा ॥ ४ ॥
उणादिषु निरूरीश्चक्याष
ञ्जन्त षल स्थिरम् ॥

मात्र आदि अर्थमें विहित छद् प्रत्यय
स्त्रीलिङ्गमें होता है तथा मात्र अर्थमें जैसे
सुहृता, कर्म अर्थमें ब्राह्मणता, समूह अर्थमें
प्रामता, स्वार्थम देवता, वृन्द समूह अर्थमें
य-इनि-कटपच्-प्र-ये ४ चार प्रत्यय
स्त्रीलिङ्गमें होते हैं जैसे 'पाशादिभ्यो य'
पाशानां समूह पाश्या, बात्या 'खला
दिभ्यः इति' खलिनी पत्निनी, 'रथा
दिभ्यः फटपच्' रथफल्पा, इसी रीतिस
गोत्रा, वैर मैथुन आदि अर्थमें जो कुन्
प्रत्यय है सो स्त्रीलिङ्ग है तिनमें वैर विरो
धार्थमें जैसे अश्वमहिषिका अश्व और
महिषीना यह भेद है इस भाँति पानाद्र-
विद्या मैथुनिक अर्थमें जैसे अत्रिमद्रा
त्रिका अत्रिमद्रात्रिकी यह मैथुनिक

विवाहरूपसम्बन्ध, इसी प्रकार 'कुस्तथ
कुशिकाथ तयोमैथुनिका कुस्तकुशि
म्बिका' कुन् प्रहण पुञ्-पुण् वा-पुच्-अप्
इक आदिका उपलक्षण है, जैसे काशिका
गार्गिक्या स्त्रघते, कहीं तु मी पाठ है,
आदिपदसे वीप्सा आदिमें कुन्का प्रहण है

'त्रियां मावादि' स्त्रीमावादिस्तस्मिन्'
स्त्रियाम् इसका अधिकार कर, मात्र आदि
अर्थमें जो विहित प्रत्यय अनि-क्तिन्-
(ति) आदि हैं वे स्त्रीलिङ्ग अर्थमें हात
हैं, अनि जैसे 'आक्रोशे नश्यति'
इस सूत्रमें 'अनि' प्रत्यय होनेसे
'अक्रुणि', 'अजीवति', 'क्तिन्' स
स्मृति, कृति, गति, 'प्युञ्ज' से,
अत्रिका, प्रच्छदिका, प्रवाहिका, आसि
का, 'णच्' से व्यावक्रोशी, स्वार्थिका,
प्राका, 'प्युष्' से शापिका इभुमक्षिका
'क्यप्' से ब्रह्महरया, ब्रह्मा इभ्या, 'स्त्री
मावादी क्यो कदाभृपोचं, ब्रह्मभूयं, 'यहां
दोष आवेगा, 'युच्' से कारणा आसना,
मदना, 'इत्' से 'वापि' वासि' कांकारि
नकार्पी, 'इत्' यह इण्इक्का उपलक्ष
णार्थक है जिस, आदि; कृपि, 'अ'
से पत्ता, प्रपा, मित्रा 'नि' से स्थानि,
मृगानि, हानि, श' प्रत्यय स क्रिया,
इच्छा ॥ ४ ॥ उणादिकोंमें 'नि'-
ऊ-ई'-य ३ तीन प्रत्यय री

लिंगमें है, तिनमें 'नि' प्रत्ययान्तमे, श्रेणि.
श्रोणिः, द्रोणिः, 'उणादिष्वनिः' इस पाठ
में, अनिः, जैसे अवनिः, धरणिः, घमनिः,
सग्णिः, 'ऊदन्त' जैसे, चमूः, कर्पूः, ईदन्त
जैसे, 'तन्त्रीः' तराीः, लक्ष्मीः, द्यन्तम्
आवन्तम्, (डी आप् वा आड्) ऊदन्त
और जो 'चल' जगम हैं, वा जो 'स्थिर'
स्यावर है वे स्त्रीलिंग हैं, जगम जैसे,
नारी शिवा, ब्रह्मवधूः । स्यावर जैसे,
कदली, नाला, कर्कन्धूः ॥

तत्क्रीडायां प्रहरणं चेन्मौष्टा
पाल्वाणादिक् ॥ ५ ॥

“तत् क्रीडाया” यहांके तत् शब्दसे
यहा मौष्ट्यादिकका निर्देश है, तिससे यह
अर्थ है, वह मुष्ट्यादिक प्रहरण अर्थात्
मारना जो क्रीडा वा खेलमे होय तो उस
अर्थमें विहित 'ण' प्रत्यय स्त्रीलिंगमें है
'दिक्' इस शब्दसे उक्तोदाहरणका अभि-
लाषा है, जिससे दाण्डा, मौसला, ये उदा-
हरणके योग्य हैं, मुष्टिसे प्रहार करना
जिस क्रीडामें है उसे “मौष्टा वा माष्ट्या”
और पल्लव हाथ वा पत्तेसे मारना जिस
क्रीडामें है उसे “पाल्वा” कहते हैं ॥

घञो जः सा क्रियाऽस्यां
चेदाण्डपाता हि फाल्गुनी ॥

श्येनपाता च मृगया तैलं-

पाता स्वधेति दिक् ॥ ६ ॥

वह घञन्तवाच्य दण्डपात आदिके
आदिक्रिया इस फाल्गुनी आदिके अर्थ-
मे घञन्तसे विहित जो ज प्रत्यय है सो
स्त्रीलिंगहीमें है, उदाहरण 'दण्डपातो अस्या
फाल्गुन्या दाण्डपाता फाल्गुनी' इसी प्र-
कार 'श्येनपातोऽस्या, श्येनपाता मृगया'
'तिलपातोऽस्या स्वधा क्रियाया तलपाना'
इति शब्दसे 'मुसलपातोऽस्या मौसलपा-
ता भूमिः' ये इत्यादि सिद्ध हांते हैं दिक्-
शब्दसे किसी देशमें फाल्गुन महीनेको
पूर्णिमाको दण्डसे वा लाठीसे क्रीडा हो-
ती है इस लिये 'दाण्डपाता' आदि उदा-
हरण भी होते हैं ॥ ६ ॥

स्त्री स्यात्काचिन्मृणाल्या-
दिर्विवक्षापचये यदि ॥

यदि 'अपचये' अर्थात् अल्पत्वके
कहनेको इच्छा होय तो मृणाली, आदि
शब्द स्त्रीलिंग हैं जैसे 'अल्प मृणालमृ-
णाली' आदि शब्दसे जैसे, 'ह्रस्वो वशो
वशी' गौरादि मानकर ङीष् प्रत्यय होता
है, इसी भाति कुम्भी-प्रणाली-छत्री-
पटी-मठी-आदि ये भी हैं, 'ह्रस्वायें
कन् प्रत्ययः स्त्रिया' जैसे पेटिका, 'का-
चित्' यह क्यों कहा यहा दोष पढता है
जैसे, 'अल्पो वृक्षो वृक्षक.' इत्यादि
स्त्रीलिंग नहीं हैं ॥

लङ्का शेफालिका टीका धा-
तकी पञ्जिकाऽऽदकी ॥ ७ ॥

अथ ढबायुद्धसं इत्यादिस कह छिगा
 बाळोंमेंसे किसी शब्दके सुखसे छिगाज्ञान
 के हेतु, मित्त कान्तादि क्रमसे कहते हैं
 १ छंका राक्षसपुरे, २ शकाळिका कृष्णका
 मेद वा वृक्षमेद—'निगुडा—निसा यह
 प्रसिद्ध) है ३ टीका—कठिन पदकी
 व्याख्या—४ धातकी—वृक्षमेद—(आबरा
 यह प्रसिद्ध है) ५ पत्रिका (नि-शेप
 पदकी व्याख्या) ६ आठकी—तुरई
 प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥

सिद्धका सारिका द्विका
 प्राचिकोष्का पिपीठिका ॥
 तिन्दुकी कणिका भाङ्गि
 सुरङ्गासूचिमादय ॥ ८ ॥

१ सिद्धका वृक्षमेद २ सारिका
 पत्नीमेद—वा मपना ३ हिम्य स्वरमेद वा
 हिवकी, ४ प्राचिका पाचिका मी वनकी
 मन्दी वा पश्चिमेद इतिस्वामी ५ छंका
 छत्रका समूह, ६ पिपीठिका कीटका
 मेद—(चीटी—वा चीटा मी) 'शनेर्पा
 र्थाति पिपीठिक' यह म्यामीक मतसे
 पुंलिङ्गमी है ७ तिन्दुका वृक्षमेद
 वा तन्दुआ यह प्रसिद्ध है ८ 'कणिका'
 परमाणु ९ मणि 'कुञ्जितारा मेद
 वा टण', १० 'सुरगा विड वा सुरग'
 यह प्रसिद्ध है ११ मूषि सु—वा
 बगानी १२ माँ पठरा सिपा ८ ॥

पिच्छावितण्डाकाकिण्य
 शूर्णी शाणीवृणीदरत् ॥
 सावि कन्था सथाञ्जसन्दी
 नामी राजसभापि च ॥ ९ ॥
 १ 'विच्छा' शेमर यह प्रसिद्ध है २
 'विण्डा' बादमेद, ३ 'ककिण्य वा
 काकिणी' पणका चौया माग वा कौडी,
 ४ 'शूर्णी: वा शूर्णी, शूर्णिका, शाणी
 शण' पदविशेष है 'शूर्णा' कर्णजकौट्ट
 वा फछी दरत् म्छञ्जासि ॥ १ सावि
 दान और अक्सानका कहत हैं २ 'कन्था'
 प्रावरणाश्र—वा दूसरा विछोना ३ 'आ
 सन्दी भासनका मेद—वा रेतका आसन
 वा कुर्ती, ४ 'नामी वा नामि' शरी
 रिका भगनिशप—वा टोंडी, ५ राजसभा,
 राजा समाराजोंकी सभा वा सचरती
 यह प्रसिद्ध है ॥ ९ ॥

सहरो चर्चरी पारी होरा
 छटा च सिद्धमला ॥ छाक्षा
 लिखा च गण्डूपा शुधसी
 चमसी मसी ॥ १ ॥

१ 'सह' वा प्रास मेद—वा सावर
 यह प्रसिद्ध है २ 'चर्चरी' कर्णक
 वा हाथका शण—वा इपरीका, फरिदक
 वात्र पठत है 'चर्चनी' छोटा पत्रा,
 ३ 'पारी वा बारी हाथके पावडी रस्मी,

४ 'होरा' लग्नका आधा वा लग्न, ५ 'लट्टा' ग्रामचटकः, चिडा वा चिडी (वा गवैरया) ६ 'सिध्मला' मत्स्यविकार, ७ 'लाक्षा जतु'--वा लाख--लाह प्रसिद्ध है. ८ 'लिखा यूकांड'--अर्थात् लीख प्रसिद्ध वा परिमाणभेद, ९ 'गड्ढपा' जल आदिसे मुखपूर्ण कुट्टा प्रसिद्ध है, १० 'गृध्रसी' वातरोग भेद, यह ऊरुकी सधिमें होता है ११ 'चमसी' यज्ञपात्रभेद १२ 'मसी' और भी पु--'मसि' 'कज्जल' ॥१०॥

इति स्त्रीलिङ्गसप्रहः ॥

पुंस्त्वे सभेदानुचराः सपर्यायाः सुरासुराः ॥ स्वगयागाद्रिमेधाब्धिद्रुकालासिशारायः ॥-११ ॥

अब पुँलिंग सप्रह करते हैं, 'पुंस्त्वे' इसका [श्लोक ०२१के] 'पतद्ग्रह' शब्द-पर्यन्त अधिकार है, भेदाः 'तुषितसाध्य-आदि' 'अनुचरा' सुनन्द आदि-इनके सहित सुर-असुर-देव-और दैत्यके यह पर्यायके पुँलिंग हैं, सुरपर्याय जैसे-अमरा निर्जरा देवा मरुत. इत्यादयः इनके भेद जैसे, 'तुषिताः--साध्याः' 'इन्द्रो मरुत्वा-न्मघवा-सूरः--सूर्य-अर्यमा-हाहा-ब्रह्म-तुम्बुरुः इत्यादि, 'अनुचराः' जैसे विष्णुके अनुचर, जय-विजय-प्रभृति रुद्रके अनु-

चर, नन्दिकेश्वर आदि, इसी प्रकार--असुरपर्याय दैत्यदानव इत्यादि-इनके भेद-बलि नमुचि आदि, असुरके अनुचर कूष्माण्ड-मुण्ड-आदि, इस भाति सब स्थानमें जानना, इनकेभी 'दैवतानि पुंसि वा देवताः स्त्रियाम्' आदि वाधकको स्मरण करावेंगे 'अत्राधिताः' इस वक्ष्यमाणसि स्वर्ग आदि १९ अपने भेद और पर्यायके सहित पुँलिंग हैं, १ स्वर्गपर्याय जैसे, 'स्वर्ग-नाक, त्रिदिव' इत्यादिक 'द्योदिवौ द्वे स्त्रियां, क्लीबे त्रिविष्टपम्' यह बडा बलवान् वाधक है इसके बिना पुँलिंग हैं, २ 'यागो यज्ञः' वा 'मखः क्रतु.' इनके भेद-अग्निष्टोम-वाजपेय आदि इनको वाधकत्व कहेंगे ३ अद्रिः गिरिः वा पर्वत, इनके भेद-जैसे मेरु सत्याद्रि-आदि इनके मध्यमे अपवाद हैं सो शैलवर्गमें कह चुके हैं, ४ 'मेघः' घन वा बादल ये इत्यादि पर्याय हैं, भेद आवर्त आदि--'अत्रस्य तु अत्र मेघः' यह क्लीब पाठ वाधक है, ५ अब्धिः-समुद्रका पर्यायभेद क्षीरोद आदि, ६ द्रुः वृक्षः शाखी आदि पर्याय और वट पीपल आदि भेद हैं, यहांभी कहीं रूपभेद आदिसे 'पाटला, शिशपा' आदिमें अपवाद कहा है ७ 'कालः दिष्ट. समयः' इस प्रकार पर्याय है और मास आदि भेद है ८

भव इत्यादिन्तं इत्यादिते कहे लिङ्ग
 वालोमेंसे किसी शब्दके सुखसे लिङ्गज्ञान
 के हेतु, मित्र कान्तादि क्रमसे कहते हैं
 १ शका राक्षसपुरी, २ शफालिका फूलका
 भेद वा वृक्षभेद—(निगुडी—निस्सा यह
 प्रसिद्ध) ३ टीका—कठिन पदकी
 व्याख्या—४ गतकी—वृक्षभेद—(अपरा
 यह प्रसिद्ध है) ५ पञ्जिका (नि-शेप
 पदकी व्याख्या) ६ आठकी—सुरसं
 प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥

सिद्धका सारिका द्विधा
 प्राचिकोलका पिपीठिका ॥
 तिन्दुकी कणिका मङ्गि
 सुरङ्गासूचिमाडय ॥ ८ ॥

१ सिद्धका वृक्षभेद २ सारिका
 पक्षीभेद—वा मयना, ३ द्विधा स्वरभेद वा
 द्विचकी ४ प्राचिना पाषिका मी वमकी
 मन्त्री वा पक्षिभेद इति स्यामी ५ सत्य
 तजका समूह ६ पिपीठिका कीड़ेका
 भेद—(चीटी—वा चीटा मी) 'इनेयां
 सीति पिपीठिक' यह व्यामीके मतसे
 पुत्रिामी है ७ तिन्दुकी वृक्षभेद
 वा लन्दुका यह प्रसिद्ध है ८ 'कणिका'
 परमाणु ९ मङ्गि 'कुट्टिताका, म-
 वा टिका १० 'सुरगा त्रिज वा 'सुरंग'
 यह प्रसिद्ध है ११ सूचि सूचि—वा
 व्यापनी १२ मङ्गि पत्तनी सिरा ॥ ८ ॥

पिच्छावितण्डाकाकिप्य
 शूर्णिं शानीद्रुणीदरम् ॥
 सातिः कन्या तयाऽऽसन्दी
 नामी राजसभापि च ॥ ९ ॥
 १ 'पिच्छ' शोमर यह प्रसिद्ध है २
 'कितण्डा' बादभेद, ३ 'काकिप्य वा
 काकिर्णा' पणका चौया माग वा कौडी,
 ४ 'शूर्णि' वा शूर्णा, शूर्णिका, शानी
 शाना' पटविशेष है 'द्रुणा' कर्णमञ्जीरा
 वा कच्छी दरम् मच्छज्जाति ॥ १ साति
 दान और अवसानका कहते हैं २ 'कन्या'
 प्रावरणान्तर—वा दुसरा किशोरी ३ 'भा
 सन्दी' आसनका भेद—वा भेताका आसन
 वा कुर्सी, ४ 'नामी वा नामि' शरी
 रिका भगविशेष—वा टोडी, ५ राजसभा,
 राजा समा राजकोठी समा वा कचहरी
 यह प्रसिद्ध है ॥ ९ ॥

सहस्री चर्षरी पारी होरा
 लडा च सिधमला ॥ लासा
 लिङ्गा च गण्डवा गृध्रसी
 चमसी मती ॥ १० ॥

१ 'सहस्री' बाजारका भण्ड—वा सार
 यह प्रसिद्ध है २ 'चर्षरी' करवान
 वा हाथका शब्द—वा दर्दरीया, कर्षक
 वाज पटत ४, 'कर्मनी' ठोका घडा,
 ५ 'पारी वा पारी हाथीके पावनी रसी,

'तु' शब्दान्त और 'रु' शब्दान्त पुल्लिङ्ग हैं, जैसे हेतुः सेतुः-धातुः मन्तुः-तन्तुः इत्यादि-कुरुः-मेरुः-किंशारुः-इत्यादि, कशेरु आदि उपलक्षण हैं, दारु, श्मश्रु प्रभृतिका तिनमें कशेरुः अस्थिविशेष वा तृणविशेष, जतु लाक्षा वा लाही ॥ १३ ॥

कपणभमरोपान्ता यद्यदन्ता
अमी अथ ॥ पथनयसटोपान्ता
गोत्रारख्याश्चरणाह्वयाः ॥ १४ ॥

क-प-ण आदि ६ वर्ण उपान्ते अन्त्य के समीपमें हैं जिनके वे तैसे यदि ये क आदि वर्णपट्टक उपान्त अदन्त हो तो पुल्लिङ्ग में होते हैं जैसे अक, लोकः, स्फटिकः, शुल्क-वल्क आदि तो पहिले ही बाधित हैं और षोप माप प्लक्ष आदि पोपान्त हैं वर्षा आदि शब्द तो पहिले ही बाधित हैं पाषाण गुण किरण आदि णोपान्त शब्द, विपाण आदि से बाधित हैं, कौस्तुभ-दर्भ-शलभ-आदि मोपान्त हैं, कुसुम्भ आदिसे बाधित हैं होम ग्राम व्यायाम-गुल्म, आदि मोपान्त, 'पद्मादे-र्वा पुसि' इत्यादि से बाधित हैं, झर्झर सीकर सीर-प्रभृति रोपान्त है अजिर आदिक बाधित हैं, रादिवर्ण षट्क उपान्त शब्द अबाधित हैं तौ पुल्लिङ्ग हैं यहा 'यद्यदन्ता' इस पूर्वोक्तका सम्बन्ध नहीं

है अथादित्वसे पकारोपान्त जैसे यूप-वाष्प-कलाप आदि बाधित हैं थकारो-पान्त-वेपथु-रोमन्य-आदि नोपान्त-इन धन-भानु-आदि-वनादि तो बाधित है योपान्त आय-व्यय-जायु-तन्तुवाय आदि, मृगया आदि तौ बाधित हैं, सोपा-न्त रस-हास-आदि, विस आदि बाधित हैं टोपान्त घट-पट-आदि, किरीट आदिको बाधितत्व कहा है, गोत्र वशमें आख्या सज्ञा है जिनकी वे गोत्रारख्य ऋपिसज्ञक हे गोत्रके आदि पुरुष ये ये प्रवराध्यायमें पढे हैं और ये अन्य अपत्यप्रत्ययके विना गोत्र वाचित्वसे लोकमें प्रसिद्ध हैं वे पुल्लिङ्ग हे जैसे भर-द्राजः गोत्रमस्माकम्, इसप्रकार कश्यप वत्स प्रभृति, चरणके और वेदशाखा की नामवाली सज्ञा पुल्लिङ्ग हैं, जैसे कठ, बहूचः इत्यादि ॥ १४ ॥

नाम्न्यकर्तरि भावे च धञ्जब्ज
ङ्णघाथुचः ॥ ल्युः कर्तरीमनि-
ज्भावे को धोः किः प्रादितोऽ-
न्यतः ॥ १५ ॥

नाम सज्ञामें और अकर्तरि च कारके मावमात्रमें भी विहित घञ् आदि सात प्रत्ययान्त पुल्लिङ्ग हैं, भावे च इस चकारसे असख्यामें भी घञ् गृहीत है

असिःसङ्ग—नन्दक आदि मेद, (इत्यादी
बाध) १ 'क्षर' बाणमेद नाराध आदि,
—इषुर्भिर्द्वयोरिति विशपो दर्शित ' १०
'भारि' शत्रुमेद आततायी आदि । ११ ।

करगण्डनेष्टदोर्दं सकण्ठकेश

मखस्त्वना ॥ अद्वाहान्ता
द्वेडमदा रात्रान्ता प्राग
सख्यका ॥ १२ ॥

१ 'क्षर' राजप्रहणके योग्य भाग,
,रक्षि' और 'पाणि' दीक्षिति ' १६ आ
दिको तो पुस्त्य बाधित है, २ 'गण्ड'
कपोठ वा गाल, 'ओष्ठ' वा दतच्छब्द,
दशमवसन आदि तो रूपमेदसे बाधित
है, ३ 'दो' प्रवेष्ट 'मुनबाहोस्तु द्वयो
रिति श्लेष' दंत' दण्ड' मेद' ज्वम,
'कंठः गळ' 'समीपगळमेदेषु कण्ठ त्रिषु
पिदुर्वुधा' इति शाश्वत' 'केश कच' व
बार, (बाल,) 'नख' 'कररुह-नबोऽङ्गी
इत्यादिना बाधित 'स्तन' 'कुच' ये सब
यथा—सम्पन्न समेद और पर्ष्याय पुँक्षिग
हैं १ 'अह' अहश्च वेह अन्त्य भिनके
के पुँक्षिग है जैसे अह' पूव पूर्वाह्न,
अह पर पराह्न द्वेभदनी समाहते इषह
—इयहमेण त्रिप मिश्राय पुस्त्य ह जैसे
सौराष्ट्रिक, युहा गरळ 'त्रिप', पुसि और
कटीबने काकोठ हे इयादि स बाधित है

रात्रान्ता यह समासान्तके एफदेरका
अनुकरण है, इसी प्रकार आगेमी 'रात्र'
शब्द है अन्तमें भिनके व जो प्राक्
असंख्यावाचक शब्द हों तो पुसि है,
जैसे अहश्च रात्रिधाहारात्र सर्वरात्र'
पूर्वरात्र वर्षोरात्र अवररात्र प्राक् अ-
रूपका यह क्यों कडा पचरात्र, गणरात्र
इनमें दीप होगा, पुष्यरात्रको अर्ध-
र्षादि पाठसे कहीकत्वमी है ॥ १२ ॥

श्रीवेष्टाद्याश्च निपाता अ
सन्नन्ता अबाधिता ॥ कशेरुज
तुवस्तुनि हिस्वा तुरुवि
रामकाः ॥ १३ ॥

१ 'धीवष्ट' आदि ये निर्मास हैं अर्थात्
इव वा गोम्द—वा सारवाचक हैं, व पुँक्षिग
हैं धीवेष्ट 'सरल' वा घृषकाष्ठ 'धीपिष्ट'
मी कहीं पाठ है, आद्यशब्दसे धीवास,
ष्टकभूप आदि, च शब्दसे गुग्गुल आदि,
२ 'असन्त, असन्त' पुँक्षिग है असन्त
जैसे, अगिरा, वेधा—'चन्द्रमा'
असन्त जैसे 'कृष्णवर्मा मध्या' आदि
'अबाधिता' क्यों कडा अस्तरस, जग्री-
कसा, सुमनसा, इम वय, इदे लोम,
'तुघरुष्य तुन्' ये दोनों क्तिम अर्थात्
अंतमें हैं भिनक व तुरविरामका' कण्ठते
है, कशरु जटु—वस्तु, इनको छोड़कर

पाटा पीढा, १० धटः तुला वा तराजू,
११ खटः अन्धकूप आदि—वा कफ—
वा तृण ॥ १७ ॥

कोट्टारघट्टहट्टाश्च पिण्डगो-
ण्डपिचण्डवत् ॥ गडुः कर-
ण्डो लगुडो वरण्डश्च किणो
घुणः ॥ १८ ॥

१ कोट्टः, दुर्ग—पुर—किला—गढ वा
कोट्टार., २ अरघट्टः,—कूपभेद—महाकूप
वा उसके ऊपर बंधा जलके निकालनेका
काष्ठ वा अरहट—पुरवट, तवघट्टः घाटाइ
यहा प्रसिद्ध है, ३ हट्ट क्रयविक्रयका
स्यान वा हट्टिया बाजार यह प्रसिद्ध है,
४ पिण्डः—मिट्टी आदिका समूह, ५ गोंडः
नाभिः वा नीचजातिभेद, ६ पिचण्डः—
धा पिचिण्डः उदर वा पेट, पिचण्ड
वत् यहाके वत् शब्दसे गडवादि शब्द
भी पुँल्लिंग हैं यह बोधित होता है, ७
गडुः—गलगडः, ८ कारण्ड.—बास आ-
दिका बना माण्डका भेद वा पिटारी वा
पुष्पमाजन, ९ लगुडः—वास आदिका
दण्ड वा लाठी, १० वरण्डः—मुखका
ग वा बदनकी व्यथा, ११ किणः—
सकी गांठिका भेद—वह भी जो
तावडा, लाठी आदिके चलानेसे

हाय आदिमें (घट्टा) स्पष्ट है, वग
और चिह्नको भी “किण” कहते हैं,
१२ घुणः, काटका काँडा वा धुन यह
प्रसिद्ध है ॥ १८ ॥

दृत्तिसीमन्तहरितो रोमन्थोद्गी-
यबुद्बुदाः ॥ कासमर्दोऽर्बुदः
कुन्दः फेनस्तूपौ सयूपकौ १९ ॥

१ दृत्ति, चामका दोना वा मसक
(भिस्तीका), २ सीमन्त, केशवेश वा
चूडा गूँथाड्डा, ३ हरित, पलाशवर्ण
वा हरियर प्रसिद्ध है, ४ रोमन्थ, पशु
जो जुगालीया चर्वग करते हैं (वा
पागुर ,) ५ उद्गीय, सामवेद, ६
बुद्बुद, जलका विकार, ७ कासमर्द
वा काशमर्दः गुल्मभेद वा रोगभेद, ८
अर्बुद, दशकोटि, ९ कुन्द, पुष्पविशेष
वा औजार रखनेका पात्र वा शिल्पभाड,
१० फेन, जलविकार, ११ स्तूप,
वटक आदि, ये ये और यूप वा यूपक
वा “ यूप ” भी बरा पूआ आदिके
नाम हैं ॥ १९ ॥

आतपः क्षत्रिये नाभिः कुणप-
क्षुरकेदराः ॥ पूरक्षुरप्रचुक्राश्च
गोलहिंगुलपुद्गलाः ॥ २० ॥

वञ्जन्त जैस, 'प्रासीदन्ति मनास्यमिन् प्रासाद, प्रास्यते इति प्रास, सिद्धिंति अनेन क्त्, प्रपतति अस्मादिति प्रपास' भावमें जैसे, 'पाक त्याग' अच् जैसे 'जय' जय, नय, अच् जैसे, कर, गर, छय, पूव, नक् जैसे 'यश्च प्रथम याच्ना' यहाँ पुंस्त्व वाचित है, नक् उपलक्षण है, 'स्वपो नन्' स्वप्, णप्रत्यय जैसे 'न्याद' घप्रत्यय जैसे, उरच्छद अयुच् जैसे, 'भेष्यु' स्यु प्रत्यय कर्त्तव्ये मंषादित्यसे पुंस्त्वमे होता है, जैसे नन्दन, रमण, मधुसूदन भावमें प्र्यु आदिस जो इमनिच् है, सो पुंस्त्व है, जैसे प्रयोर्भाष प्रथिमा, स्रदिमा, भाव एसा क्यो कहा, 'वृणोतीति वरिमा पूष्ठी' यहाँ का माप यह शब्द देहकी दीपकत्वायसे पूर्व और परमें सम्बन्ध होता है, भावमें क प्रत्यय जैस आत्सूय, प्रत्य, प्रादित और अस्यत् से पर जो पुंसङ्गक वातुहे टसम विहित जो क्रिप्रत्यय है सो पुंस्त्व है 'दारूपी निना' दारूप और भारूप मी धातु पुंसङ्गक है, प्रादित, जैसे 'प्रथि निधि आदि' अयत्तः, जैसे 'जजधि' 'इधुधिसु इयोधिति याधित्वा है' ॥ १५ ॥

इन्द्रेऽश्ववटवाश्ववटवा न
समाहृते ॥ कान्त सूर्येन्दु

पर्यायः पूर्वोऽयं पूर्वकोपि च ॥ १६ ॥

इ-इ-समाहारसङ्गकसे अन्यत्र समास इन्द्रसङ्गकमें, 'अश्ववटवो' पुंसि है, भाष उदाहरण दत्त हं 'अश्ववटवटवाश्ववटवटवा' इसी रीतिसे अश्ववटवानु, अश्ववटवे इत्यादि प्रयोगसे, समाहारे तु 'अश्ववटवम्' यह द्विव है; सूर्य, चन्द्रके पर्याय पूर्वक कान्तशब्द पुंसि है, जैसे 'सूर्यकान्त अर्ककान्त चद्रकान्त, इन्दुकान्त, सोमकान्त अयस् वा अयोवाचक पर्याय छोहवाचक पूर्वक मी कान्त शब्द पुंसि है, जैसे 'अयस्कान्त छोहकान्त' ॥ १६ ॥

वटवटवानुवाचकश्च रङ्गकश्च कुट्टकः ॥ पुरखो न्यूरव' समुद्रश्च विटपट्टघटाः खटा ॥ १७ ॥
अन पुंस्त्व विशेष पर्यन्त अनुत्तमेर अकरान्तादि क्रमसे कहा है, १ मटक-पिटकमेद वा (मरा), २ अनुवाक-पदक अशयव वा माग, ३ रङ्गक-कम्बु वा कम्बु प्रसिद्ध है, ४ कुट्टक वा कुट्टकः शृङ्खलाका कम्बु, ५ पुल माग-का अशयव, ६ पुंस्त्व, न्यूरव, मी साम-पदमे घरा भोकार, ७ समुद्रः-समुद्र-ट वा टिम्बा, ८ मि-पूर्व वा टा एवा-काष्ठ आदि का घना आमनाशय वा

इत्यादि, १० रुधिरं, शोणित रक्तं, ११ मुख, वदन वक्त्रं, १२ अक्षि-नयन, नेत्र, १३ द्रविण, धन, इस इत्यादि, १४ बल शक्ति सैन्य आदि, शक्तिमें जैसे बल शुष्मा-मेत्यादि सैन्यं चक्रमित्यादि ॥ २२ ॥

फलहेमशुल्वलोहसुखदुःख-
शुभाशुभम् ॥ जलपुष्पाणि
लवणं व्यञ्जनान्यनुलेपनम् ॥
॥ २३ ॥

१ फल फलमात्र—कपित्थ, इस इत्यादि, 'हळ' भी, २ हेम, सुवर्ण, कनकं, इस इत्यादि, ३ शुल्व, ताम्र, इस इत्यादि, ४ लोह, कालायस, इस इत्यादि, ५ सुख शर्म, शात, इस इत्यादि, ६ दुःख तु कृच्छ्रं, कष्ट, ७ शुभ—कल्याण, कुशल, इस इत्यादि, ८ अशुभ, अकल्याण, ९ जलपुष्पाणि—कुमुद—कमल—कह्लार—उत्पलानि आदि, १० लवणं, सैन्धव, इस इत्यादि, ११ व्यञ्जनं, तेमन, निष्ठान, इस इत्यादि, व्यञ्जनविशेषसे दधि—तक्र—आदिका ग्रहण है, १२ अनुलेपनं, कुंकुम आदि, यहा बाधितादन्यत् ऐसा क्यों कहा, आकाशो, विहायाः, द्यौः, अटवी अरण्यानि इस इत्यादि, इसी प्रकार अ-
भ्यत्र भी विचारना चाडिये ॥ २३ ॥

कोट्याः शतादिसंख्याऽन्या
वा लक्षा नियुतं च तत् ॥
द्वयच्छक्रमसिसुसन्नन्तं यदना-
न्तमकर्तारि ॥ २४ ॥

कोट्याः कोटिशब्द के बिना जो शत आदि संख्या है वह क्लीबमें होती है। लक्षशब्द वा विकल्पसे क्लीबमें है पक्षमें स्त्रीलिंग है, तत्शब्दसे लक्षका पर्याय नियुत यह अर्थ है, उदाहरण जैसे, 'नियुत—शत—सहस्रं—अयुतमित्यादि असन्त-इसन्त—उसन्त—और अनन्त जो द्वयच्छ वा द्विस्वर हैं वे क्लीबमें हैं, असन्त जैसे, पयः, मनः, इसन्त जैसे, सर्पिः, ज्योतिः, उसत जैसे, वपुः, यजुः, अनन्त जैसे, चर्म, शर्म, साम, नाम, इत्यादि इसीसे क्लीबत्व सिद्ध था आगे जो मर्मशब्दका उपादान है सो इसके अनित्यत्व ज्ञापनके अर्थ है, तिससे, '(गुणान्व-कारशोकेषु तमो राहौ पुमानयमित्यादि सिद्धम्)' अकर्तारि अर्थमें कर्त्तासे अन्यत्र जो अनात अन यह अतमें जिसके हैं वे क्लीब हैं जैसे, गमन, मरण, दान, करण, वरण, अकर्तारि क्यों कहा, इधमव्रश्चनः कुठारः नदयतीति नंदनः

॥ २४ ॥

१ आतप, सूर्यका प्रकाश वा उजि
 पाछा, २ नामि, राजा विशेष-वा क्षयिमे
 क्षयिपनामि नामिशब्द पुल्लिङ्ग है, ३
 कुणप' उसी प्रकार कुणप - शवमेद
 सक्तप्राण' ४ क्षुर - केशपनद्रव्य-
 नाइका शस्त्र-(धुरा)वा पशुकी खुरी, ५
 केदर, व्यवहारका द्रव्य वा पदार्थ, ६
 पूर जलप्रवाह, ७ क्षुरप्र, वाणका मेद-
 'सुरप्र' मी, ८ पुफ, शाकका मेद, ९
 गोल, कर्तुलपिच वा गोल, १ हिङ्गुल,
 रागद्रव्यका मेद वा रक्तवर्ण, ११ पुद्रळ-
 वा पुद्रळः आत्मा ॥ २० ॥

बेतालमल्लमल्लाद्य पुरोडाशो
 इपि पाट्टिश' ॥ कुल्मापो रभसश्चिव
 सक्तटाह' पतद्वह ॥ २१ ॥

१ बेताल, भूताविक्रितशब्द-२ मल्ला
 विशेष-३ शिपका अनुचर ४ द्वारपाल,
 २ मल्ल, माल, ४ पुरोडाशः वा पुरोडा'
 ३ मल्ल, बाहुयुक्तकुल्ल वा माल प्रसिद्ध,
 (सु) हविष्मेद ५ पाट्टिश अक्षमेद ६
 कुल्माप वा कुल्मास' अर्द्धे स्विक्रम यव-
 वा कुस्मित माप ७ रभस'-१ हर्ष-२
 वेग-३ तस्युक्ता-४ वा पूर्वापर-
 निवार ८ सक्तटाह कटाहके सहित
 कटाहशब्द मी पुल्लिङ्ग है, कराही यह

प्रसिद्ध है, ९ पतद्वह', निष्ठीवनपात्र
 वा पीकदान ॥ २१ ॥

॥ इति पुष्पिसप्रहः ॥

द्विहीनेऽन्यश्च खारभ्यपर्ण
 श्वभ्रहिमोदकम् ॥ शीतोष्णमां
 सरुधिरमुखासिद्रविण बन्धम्
 ॥ २२ ॥

द्विहीने स्त्री और पुरुषसे हीन मनुं
 सक्तका अभिकार है वा 'ह्रकण्ठ'
 पर्यन्त, खोकरूपसे प्रधानकरक निर्दिष्ट
 खादि शब्द २६-अपने पर्यायोंके सहित
 नपुंसक है, यहां अयत् इस वाकितसे
 जो भिन्न है वे छीन है यह साधना
 मका अर्थ कहा प्रकारसे बन्ध आभूष-
 णका संग्रह है, १ खम् इद्रिय, २ व्योम
 वा देह-३ शून्य-४ अन्न-किन्दु, ५
 पुर, ६ स्वर्ग, ७ सुखमी जैसे, छिद्रं नमः
 वियत् इत्यादि २ अरभ्य-विषिमं-
 कानर्ग-इस इत्यादि, ३ पर्ण पत्र वा
 पत्ता दल इस इत्यादि, ४ श्वभ्रं छ
 पाताल, ५ हिमं, प्राण्येय, ठण्ड, ६ उदक
 जल-नीर-पानी-इस इत्यादि, ७ शीतं,
 शीतल, इस इत्यादि, ८ उष्णं-विष्म-
 इस इत्यादि, 'शीतोष्ण गुणे शीतं
 तद्वति त्रियु, ९ मांसं, पिकितं, तत्सं वे

इत्यादि, १० रुधिरं, शोणित रक्त, ११ मुख, वदन वक्त्र, १२ अक्षि-नयन, नेत्र, १३ द्रविणं, धन, इस इत्यादि, १४ बल शक्ति सैन्य आदि, शक्तिमें जैसे बल शुष्मा-मेत्यादि सैन्यं चक्रमित्यादि ॥ २२ ॥

फलहेमशुल्बलोहसुखदुःख-
शुभाशुभम् ॥ जलपुष्पाणि
लवणं व्यञ्जनान्यनुलेपनम् ॥
॥ २३ ॥

१ फल फलमात्र—कपित्थ, इस इत्यादि, 'हल' भी, २ हेम, सुवर्ण, कनकं, इस इत्यादि, ३ शुल्ब, ताम्र, इस इत्यादि, ४ लोह, कालायस, इस इत्यादि, ५ सुख शर्म, शात, इस इत्यादि, ६ दुःख तु कृच्छ्र, कष्ट, ७ शुभ—कल्याण, कुशल, इस इत्यादि, ८ अशुभ, अकल्याण, ९ जलपुष्पाणि—कुमुद—कमल—कह्लार—उत्पलानि आदि, १० लवणं, सैन्धव, इस इत्यादि, ११ व्यञ्जनं, तेमन, निष्ठान, इस इत्यादि, व्यञ्जनविशेषसे दधि—तक्र—आदिका ग्रहण है, १२ अनुलेपनं, कुंकुम आदि, यहा बाधितादन्यत् ऐसा क्यों कहा, आकाशो, विहायाः, द्यौः, अटवी अरण्यानि इस इत्यादि, इसी प्रकार अ-भ्यत्र भी विचारना चाहिये ॥ २३ ॥

कोट्याः शतादिसंख्याऽन्या
वा लक्षा नियुतं च तत् ॥
द्व्यच्चक्रमसिसुसन्नन्तं यदना-
न्तमकर्तारि ॥ २४ ॥

कोट्याः कोटिशब्द के विना जो शत आदि संख्या है वह क्लीबमें होती है, लक्षशब्द वा विकल्पसे क्लीबमें है पक्षमें स्त्रीलिंग है, तत्शब्दसे लक्षका पर्याय नियुत यह अर्थ है, उदाहरण जैसे, 'नियुत—शत—सहस्रं—अयुतमित्यादि असन्त—इसन्त—उसन्त—और अबन्त जो द्व्यच्च वा द्विस्र्वर हैं वे क्लीबमें हैं, असन्त जैसे, पयः, मनः, इसन्त जैसे, सर्पिः, ज्योतिः, उसत जैसे, वपुः, यजुः, अबन्त जैसे, चर्म, शर्म, साम, नाम, इत्यादि इसीसे क्लीबत्व सिद्ध था आगे जो मर्मश-ब्दका उपादान है सो इसके अनित्यत्व ज्ञापनके अर्थ है, तिससे, '(गुणान्व-कारशोकेषु तमो राहौ पुमानयमित्यादि सिद्धम्)' अकर्तारि अर्थमें कर्त्तासे अन्यत्र जो अनात अन यह अतमें जिसके हैं वे क्लीब हैं जैसे, गमन, मरण, दान, करण, वरण, अकर्तारि क्यों कहा, इधमत्रश्चनः कुठारः नदयतीति नदनः

॥ २४ ॥

श्रान्त सलोपघ शिष्ट, रात्रं
प्राक्संख्ययान्वितम् ॥ पात्रा
घदन्तरेकार्या दिगुर्लक्ष्यानु
सारस ॥ २५ ॥

श्रान्तं क्लीबमें है जैसे पात्र—वहियं—
मित्रं—घण्टा—गात्र—यत्रम् ये इत्यादि,
सकार और लकार उपधा अंत्यते
पूर्ववर्ण है जिनके वे क्लीबमें है सोपध
जैसे, सुसं, बिस, अंततमस, छोपध
जैसे, कुंठं, मूळं इस इत्यादि शिष्ट यह
जो प्रागुक्तसे भिन्न है वह और वह
प्रागुक्तमी जो अन्वित है सो मी
श्रान्तादिक क्लीबमें है, शिष्ट क्यो कहा
पुत्रं—वृत्रः—ईस—कंस—पनस—शाळः
काळः—गळः—संख्यापूर्वक रात्रशब्द
क्लीबहै '(रात्राद्वाहा पुंसि)' इस्-
सूत्रमें पुंत्व प्राप्त था उसका यह अप-
वादहै, त्रिरात्रं, पंचरात्रं, सङ्ख्याया यह क्यो
कहा, अर्धरात्रः मध्यरात्रं पात्र आदि
अदन्तशब्दोंसे जो एकवचं त्रिगु समास
है वह क्लीब है, पंचरात्रं आदि पदसे
अतुर्पुंगु लक्ष्यानुसारत—अर्थात् शिष्ट-
प्रयोगके अनुसार, इससे पंचमुखी
त्रिओकी इत्यादि अपवाद है, एकवचं
क्यो कहा पंचरुपाळ पुरोडाश
दिगु यह तद्वितार्थहै ॥ २५ ॥

दन्द्दैकत्वाभ्ययीभावौ पय
सख्याभ्ययात्परः ॥ पृष्ठा
इष्टायावहूनां चोष्टिच्छाय सहती
समा ॥ २६ ॥

१ दन्द्दसमासका एकत्व और अ
भ्ययीभाव समास क्लीबमें है, दन्द्दैक्यं
जैसे पाणिपादं, शिरोम्रीं मार्दङ्गि-
पाणविंभु, अभ्ययीभाव जैसे, अत्रिभि
यथाशक्ति, उपगग, संख्या और अन्य
यसे परे जैसे, त्रिपर्यं, कापर्यं, स्त्रुपा,
व्ययादिति किं, धर्मपयं योगपयः यह
समासांतका अनुकरण है, समासमें
पृष्ठी विभक्त्यन्तसे परे जो छायाशब्द है
सो क्लीब है, बहमी बहुतीकी स्वभिनी
होय तो जैसे, 'धीनाम्, पक्षिणां छाया
विच्छायम्, इक्षुणां छाया इक्षुच्छायं,'
वहूनां ऐसा क्यो कहा कुक्षपस्य छाया
कुक्षपछाया, वा स्त्रियां यह ती कहेंगे
सहती समूहविषयमें सब शब्द क्लीबहै,
यहांमी पृष्ठा, इस्का अनुवर्धन करते
हैं, जैसे दासीनां समा दासीसमं, सुप-
समं, रक्षसम, स्त्रीसमम्निपादि, सहती
ऐसा क्यो कहा दासीनां समा दासी
समा, दासीगृहं, यह अर्थ है ॥ २६ ॥

शाखायापि परा राजामनु
भ्यार्यादराजकात् ॥ दासी

सभं नृपसभं रक्षःसभामिमा
दिशः ॥ २७ ॥

शालार्थं अर्थात् गृहार्थं-अपिशब्दसे समुदायार्थं भी जो सभाशब्द है वो अराजकात् राजशब्दसे वर्जित और राजा मनुष्य अर्थात् राजार्थक राजपर्याय और अमनुष्यार्थक रक्षः आदि शब्दसे और षष्ठ्यन्तसे परे होय तो क्लीबमे है '(शाला-गृहमर्थोऽभिधेयो यस्याः सा शालार्था) राजपर्यायसे जैसे, इनसभ, प्रभुसभ, अमनुष्यार्थसे जैसे, रक्षःसभ, पिशाचसभ, अराजकात् क्यों कहा, राजसभा 'राजपर्यायके ग्रहणसे यहा नहीं हुआ, चन्द्रगुप्तसभा, राजविशेष यह है' पष्ठ्याः यह क्यों कहा, नृपतिविषयसभा नृपतिसभा 'नृणां पतिर्यस्यां सा चासौ सभाचेति' वा नृपतिसभा, अमनुष्यार्थात् यह क्यों कहा-दासीसभा, दासीना शाला इत्यर्थः। इमा दिशः, यह दासीसभ इस आदि क्रमसे उदाहरणहैं, तिनमें दासीसभ यह समुदाय ही अर्थमे है, शेष दो शाला और सहति अर्थमे है ॥ २७ ॥

उपज्ञोपक्रमान्तश्च तदादित्वप्रकाशने ॥ कोपज्ञकोपक्रमादिकन्थोशीनरनामसु ॥ २८ ॥

१ उपज्ञा और उपक्रमान्तके आदित्वके प्रकाशनमें उपज्ञान्त और उपक्रमान्त यह समास क्लीबमें होता है, '(उपज्ञायते इति उपज्ञा॥को ब्रह्मा तस्य उपज्ञा कोपज्ञं प्रजा ॥ कस्योपक्रमः कोपक्रमं लोकः)' प्रजापतिने प्रथम बनाया था इससे उसीने आदिमें प्रजाको जाना था, यह अर्थ है, उन्हीं नरोंके मध्यमें षष्ठ्यन्तसे पर कन्था क्लीबमें है, जैसे सौशमीना कन्था सौशमिकन्थम्, उशीनरदेशवाचीसे अन्यत्र दाक्षिकन्थानामसु यह क्यों कहा, वीरणकथा ॥ २८ ॥

भावे नणकचिद्भ्यो न्ये समूहे भावकर्मणोः ॥ अदन्तप्रत्ययाः पुण्यसुदिनाभ्यां त्वहः परः ॥ २९ ॥

चकार इत्सज्ञक है जिसका वह चित् है, 'नश्च णश्च कश्च चिच्च नणकचित्तः तेभ्योऽन्ये' अर्थात् इनसे भिन्न जो 'तव्य, क्त,' आदि अदन्तधातुप्रत्यय भावमे विहित हैं वे क्लीबमें हैं, तिनमें धातु प्रत्यय जैसे, भवितव्य, भाव्य, सहित, भुक्तं, नणकचित् क्यों कहा, प्रश्नः, न्याद., आखूत्थ., वेपथुः, नणक यह घञ्का उपलक्षण है, पाकः, भावे क्यों कहा कर्ममे दोष होगा, जैसे 'कर्तव्यो धर्मसग्रहः,' समूह अर्थमें, 'जैसे भिक्षाणां

समूहो भैक्ष, गार्मिणं, औपगव, कार्कं, भावमें अदन्त जैसे, गोर्मावः गोत्वं, शुचे र्माव शौच, कर्मणि जैसे, अकृष्टस्य कर्म शौकस्यम्, राहः कर्म राज्य, चौर्व्यं, 'तद्ध प्रत्ययफां तो स्त्रीत्व कहा है, पुण्य और सुदिनशब्दसे परः, विद्विस्तसमासान्त अहन् शब्द अग्निमें है, अहाहान्त इस पुंस्त्वका अपवाद है, पुण्याहं, सुदिनाहं, सुदिन शब्द प्रसस्तार्थक है ॥ २९ ॥

क्रियाध्ययानां भेदकान्ये

८ कृत्वे प्युफ्यतोत्के ॥ चोच पिच्छ गृहस्थूण तिरिटीं मर्म योजनम् ॥ ३० ॥

क्रिया और अव्ययोंका भेदक वा

विशेषण स्त्रीय और एकत्वधनमें होते हैं, क्रियाविशेषण जैसे, मर्दं पचन्ति, मुख तिष्ठन्ति योगिन, सखीसं नायन्ति घाडा, अव्यय विशेषण जैसे, रम्यं तु सुखदं प्रातः, अयं कितने कठस्वरसे कहा है उच्यं साममे, तोटकं वृत्तभदः चोचं, छाये फलका शेष वा ताउपल केज आदिके फलको मी काई बरता है ' मोच और पेटमी २ पिण्ड गुप्ठा- वा मोरकी वोट-वा चूदा-वा सांगल वा दासलीशु-वा परम्परा आदि,

उक्त उच्यं और मुक्तं, ३ गृहस्थूण चरका खम्मा वा यून्ही, ४ तिरिटीं, बेज्ज वा शिरोमूषण, ५ मर्म, सन्धि स्थान वा इन्द्रियोंके जोड़का स्थान, ६ योजनं श्लो शचतुष्टय वा चार कोश ॥ ३० ॥

राजसूय वाजपेय गद्यपद्ये कृतौ कवेः ॥ माणिक्यमा प्यसिन्दूरचीरचीवरपिञ्जरम् ॥ ३१ ॥

१ राजसूय और २ वाजपेयं य २

पद्यके भेद है, '(राजा अतात्मक सोम सूयतेऽत्र राजसूयं वाजपेयी सुर पीयत वा पेयमत्र वाजपयम्)' ३ गद्यं, ४ पद्यं ये कवेः कृतौ अर्थात् कविकर्त्री निरुद्धन्द रचनाका गद्य, और पादसम्- हती रचनाका पद्य, कव्य कृतौ ऐसा क्यो कहा, गद्या वाक्, पद्या पद्यति, ५ माणिक्यं, रामका भेद, '(मणिके मणिपूरा स्ये मगरे मर्भं माणिक्यं,)' ६ माप्यं पदार्थविशेष वा विवरण, '(पुत्रायो कर्ष्यते यत्र वाक्ये सूत्रानुसारिणिः। स्प- दानि च कर्ष्यन्ते माप्य माप्यरिणो थिदुरिति,)' ७ सिन्दूरं, रक्त वा छाउचूर्ण, ८ चीरं वस्त्रम्, ९ चीवरं मुनिगासः वा बर, १० पिञ्जरं वा पिञ्जरम्, पदमादि बन्धनागार वा विजरा ॥ ३१ ॥

लोकायतं हरितालं विदलं
स्थालवाहिकम् ॥

१ लोकायत, चार्वाकशास्त्र, २ हरि-
ताल, धातुभेद, ३ विदल, वासका बना
पात्रभेद, ४ स्थाल, पात्रभेद वा थार वा
हाडी अन्नपात्र, पाकपात्र आदि, ५ वाहिक
कं, कुकुम वा देशभेद उस देशका उत्पन्न
कुकुम वाहकम् भी, 'बहुदेशे भव वाहक'

इति नपुसकलिंगसग्रहः ॥

पुन्नपुंसकयोः शेषोऽर्धर्चपि-
प्याककण्टकाः ॥ ३२ ॥

अब चिकस शब्दपर्यन्त पुंसि
और क्लीबमें हैं, उक्तसे भिन्नशेष है जैसे
शंख और पद्म ये २ दो निधिवाचक
पुँलिंग हैं, कम्बु नलिनका वाची तौ पुन्न-
पुसकलिंग हैं तैसे अत्रत्य शब्दभी पर्याय
वाचित है उसके पर्यायसे भिन्न हैं तो पुन्न-
पुसक लिंग होते हैं, १ अर्धर्चः अर्धर्चं
आधी ऋचा वेदभाग, ३ पिप्याक, तिळकी
खल, कंटक रोमहर्ष वा रोमांच ॥ ३२ ॥

मोदकस्तण्डकश्टकशाटकः क-
र्पटोऽर्बुदः ॥ पातकोद्योगच-
रकतमालामलका नडः ॥ ३३ ॥

१ मोदकः, भक्ष्यभेद वा (लड्डू)

२ तण्डक उपतापविशेष वा रोगविशेष,
३ टक वा तङ्क, अश्मदारणः वा पत्थर
गठनेकी टाकी, ४ शाटक. पटभेदः वा

शाडी प्रसिद्ध है, ५ कर्पटः वा कर्पटः

“वाजे पढते हैं खर्वटः” स्थानभेद वा
वस्त्रभेद, ६ अर्बुदः, सख्याभेद वा दश-
कोटि, ७ पातक ब्रह्महत्यादि, ८ उद्योग
उत्साह, ९ चरकः वा वरकः वैद्यशास्त्र
भेद, “करकः यह भी पाठ है इसका
स्यूतवस्त्र अर्थ है,” १० तमाल. वृक्ष भेद

(तमाखू) प्रसिद्ध है १ आमलकः वा आ-
मालकः धात्रीफल वा ऑंवला प्रसिद्ध है

१२ नडः भीतरी विल—वा तृणभेद ३३ ॥

कुष्ठं मुण्डं शीधु बुस्तं क्ष्वे-
डितं क्षेम कुट्टिमम् ॥ संगमं
शतमानार्मशम्बलाव्ययताण्ड-
वम् ॥ ३४ ॥

१ कुष्ठ—रोगभेद, २ पुष्कर वा कमल,

३ मुण्ड शिरः, ४ शीधु, मद्य, ५ बुस्त

भूजा मांस वा कटहल आदिके फलका

सार भाग—‘कहीं पुस्त वा शस्त पाठ

है कहीं बुस्त वा तुस्तभी पाठ है’ ६

क्ष्वेडित, बीरकाकिर्षासिंहनाद-क्षेमकुशल

‘क्षेमोऽस्त्रीलब्धरक्षणे, मोक्षको भी,’ ८

कुट्टिम गचका भेद, संगम सयोग, ९ शत

मान मानभेद, १० अर्म अक्षिरोग, ११

शम्बल वा सम्बल—वर्णका भेद, १२

अव्यय—स्वरादिनिपात वा विकार-

रहित, १३ ताण्डव वा ताण्डव्य-

नाचका भेद’ ॥ ३४ ॥

कविय कन्दकार्पास पारा
वार युगधरम् ॥ यूपं प्रमीव
पात्रीवे सूष घमसचिक्खसी
॥ ३५ ॥

१ कविय—तोडडा छगाम वा भागडोर,
२ कन्द, कमखिनीकी जड़ वा मूल कही
कम् यह पाठ है, ३ कार्पास, 'कार्पास वा
कपास वा र्ख्यं वज्रका कारण आदि,
४ "पारावार," वारं नदा आदिके दोनो
पारको क्रमसे पारं और बवार कहते हैं, ५
युगधरं—कूबरं वा रयके नूआके काठका
पुत्र करनेवाला काष्ठ वा पर्वत मेरुआदि,
६ यूपं, वा यूपं यज्ञाङ्गमेद, —अथवा यद्य
पशु बाँधनेका काष्ठमेद' ७ प्रमीव टुमरी
पेकम् वा हरोखा—मुखशाळा लिङकी
आदि, ८ यात्रीवं वा 'पात्रीव वा यज्ञ
पात्रका मेद, ९ यूपं वा नूपं—माण यह
प्रसिद्ध है, (मुद्रामलक्यूपस्तु प्राहीपि—
च ५के द्वित इति उक्त दिवके) १० घमस
चिक्खसी यर दो पात्रम् है ॥ ३५ ॥

अर्धचादौ घृतादीनां पुंस्त्वाय
वदिक घृषम् ॥ तस्रोक्तभिह लो
कावे तद्येइस्त्यस्तु शेषयत् ॥ ३६ ॥

अर्धचादौ इम पुमपुसकाधिकारपरमे
घृताधिकोको पागिनि माणिकोने पुस्त्य
आदि कला है, ये लो वन्मे प्रसिद्ध वैदिक
है इव हेतु उरहे वहा नहीं कहा और

लोकमें हैं लो व शेषयत् अर्थात् उक्तसे
भिन्न शेषहैं उनके समान शिष्टप्रयोगके
अनुसार प्राण्य है, ॥ ३६ ॥

इति पुमपुस्त्यसंमहः ॥

अथ स्त्रीपुशेषसंमहः ॥

स्त्रीपुसयोरपत्यान्ता द्विचतुः षट्
पदोरगाः ॥ जातिभेदा पुमा
ख्याञ्च स्त्रीयोगी सह मल्लकः ३७ ॥
अपत्यप्रत्यय अन्तमें हैं अिनके
वे शब्द स्त्री और पुंस्त्रियामें होतेहैं जैसे
'उपगो अपत्य पुमान् औपगव उपगो
अपत्य स्त्री औपगवी, वेदेह, वेदेही,
गार्म्य, गार्गी' 'द्विचतु षट्पदोरगाः'
द्विपद—चतुष्पद—और षट्पदवाची और
मुजगवाची जाति मेद स्त्रीपुंन है, तिनमें
द्विपदजातिमेद जैसे 'मातुपः पुमान् मा
तुपी स्त्री गोपः पुमान् स्त्री गोपी, माहणा
माहणी शूद्र, शूद्रा, अजादि मानकर टापू
है, 'चतुष्पद' जैसे, 'मृगः, मृगी इयः
इयी' षट्पद मेद जैसे, 'मंगः मगी,
मण्डिका, मण्डी, शिवा, सिमारी, स्त्रा म-
करी पिपीठिका चिट्टी' 'उरग जैसे, उर
ग उरगी, नागः, नागी 'स्त्रीयोगे'सह
पुमान्वाः अर्थात् स्त्रीवाचकशब्दयोग
से पुंवाचक शब्द स्त्री और पुंस्त्रियामें होते
हैं, जैसे इन्द्रः इन्द्राणी, 'मातुर्भाता
है, तस्य स्त्री मातुली, 'पुस्मिं वर्त

मान मातुलः स्त्रीयोगसे स्त्रीत्वमे भी हैं,
'शूद्रस्य स्त्री शूद्री,' मल्लक, आदिभी स्त्री-
पुसमें हैं मल्लकः स्त्रीमें तौ मल्लिका पुष्प-
बल्लिका भेद हैं ॥ ३७ ॥

ऊर्मिर्वराटकः स्वातिर्व-
र्णको ज्ञाटलिर्मनुः ॥ मूषा-
सृपाटी कर्कन्धूर्याष्टिः शाटी
कटी कुटी ॥ ३८ ॥

मुनिः यती इंगुदी—बुद्ध पियालवृक्ष-
भेद, पलाश आदि 'ऊर्मिः तरग, यहभी
पाठ है,' २ वराटकः कौडी स्त्रीलिगमें
वराटिका, ३ स्वातिः नक्षत्र, ४ वर्णकः
चन्दन—विलेपन, ५ जाटलि, 'ज्ञाटलिः
वा पाटलिः' भी पाठ है, पलाशवृक्षके
सदृश है, ६ मनुः 'स्वायम्भुव आदि—वा
मन्त्र, ७ मूषा, धातु गलानेका पात्र—वा
घरिआ, ८ सृपाटी, परिमाण भेद,
'सृपाटः वा स्त्री, सृपाटी वा असृपाटी,
रुधिरकी नदी, ९ कर्कन्धूः, वेरवृक्ष, १०
यष्टि, लाठी, ११ शाटि, पटभेद—वा
शाडी, १२ कटि और कट. स्त्री कटि.,
वा कटी, देहका अवयव वा कमर, १३
पु० कुटि., स्त्री कुटि. वा कुटी, गृह-
विशेष वा पत्तोंका घर, यहा मूषा
नकारान्त है ॥ ३८ ॥

इति स्त्रीपुंशेषसप्रहः ॥

अथ स्त्रीनपुंसकशेषः ॥
स्त्रीनपुंसकयोर्भावक्रिययोः ष्य-
ञ्जकाचिच्च बुञ्ज ॥ औचित्य-
मौचिती मैत्री मैत्र्यं बुञ्ज प्रागुदा-
हृतः ॥ ३९ ॥

भावक्रिययोः अर्थात् भाव और कर्म
अर्थमें वर्तमान ष्यञ् प्रत्यय और बुञ्
कहीं स्त्री और नपुंसकमें वर्तते हैं,
तिनके मध्य ष्यञ् प्रत्ययका उदाहरण
जैसे, औचित्य यह, 'उचितस्य भावः
औचित्य,' और 'औचितीभी,' मित्रस्य
कर्म मैत्र्यं मैत्री वा 'इसी प्रकार वार्द्धक,
वार्द्धका, सामग्र्य सामग्री, आर्हत्य, आर्ह-
न्तो' बुञ् प्रत्ययतौ वैरमैथुनिकादि-बुनइस
भौति पहिले कहा है, जैसे मिथुनस्य भावः
कर्म वा मैथुनिका मैथुनिक भी' ॥ ३९ ॥

षष्ठ्यन्तप्राक्पदाः सेनाछा-
याशालासुरानिशाः ॥ स्याद्वा
नृसेनं श्वनिशं गोशालामितरे च
दिक् ॥ ४० ॥

तत्पुरुषसमासमें षष्ठ्यन्त पष्ठी विभ-
क्त्यन्त प्राक्पद है जिनके ऐसे षष्ठ्यन्त
प्राक्पद सेना आदि शब्द स्त्री और नपु-
ंसकमें होवै, उदाहरण जैसे, नृणां सेना
नृसेन, वेति विकल्पसे नृसेना भी, इतरे
भिन्न पदभी इसीप्रकार उदाहरण, कर
ना चाहिये, श्वनिशं, गोशाल, यवसुर
यवसुरा, कुञ्जस्य छाया कुञ्जच्छाय

कुक्षपञ्जाया वा पष्ठीबहुवचनान्तसे पूर्व
पदकी छया हो तो ङीबहीमें होव ऐसा
पहिछे दिखाया हे ॥ ४० ॥

आद्यअन्तोच्चरपदो द्विगुश्चा
प्राप्ति नश्च ह्रस् ॥ त्रिसदृ च
त्रिसद्री च त्रितक्ष च त्रित
स्यापि ॥ ४१ ॥

आद्यन्त उच्चरपत् और अन्त उच्चर
पद द्विगुसमास पुंलिंगमें नहीं है, किन्तु
अन्यपुंसकमें होत है अन्त उच्चरपदका
जो अन्त नकार है उसका ह्रस् अर्थात्
छोपनी होता है, (भाप्—आ—अन्)
आद्यन्तात्पदका उदाहरण जैसे त्रिसदृ
यह तिस अदृ समाह्वना त्रिसदृ त्रिस
द्री मी, अन्तोच्चरपद, जैसे त्रयस्तक्षणा-
समाह्वनाक्षितक्ष, त्रितक्षी च तक्षन्
शम्भवा अत्य नकार छुत हे ॥ ४१ ॥

॥ इति अतीनपुंसकशय ॥

अथ त्रिलिङ्गोपसम्रहः ॥

त्रिपु पात्री पुनी वाटी पेटी
कुबलदादिमी ॥

पात्र आत्ति और दाडिम शम्भदात्
त्रिलिङ्ग हे, पात्र, पात्री पात्र आदि, पुनी
पुत्र पुटं वा पत्र—टी—ट, पुत्र महीका
बना इत्या वा औपश पकानेका पात्रमे
दूध आत्तिके पीनका पात्र तोमा आत्ति
पाटी, वाट—टी—ट शस्त्रा—ना मार्ग, पेटी
टी वा ता—ट पत्र—दा, पनी—डी, यह

पटारा वा पेटारीका नामहे, कुबल ङी-
उत्पद्य कमळ मोती—आदि, दाडिम—
मी-म, दाडिम्व वृक्ष वा अनार ॥

इति त्रिलिङ्गोपसम्रहः ॥

परं छिगे स्वप्रधाने द्वन्द्वे
तत्पुरुषापि तत् ॥ ४२ ॥

द्वन्द्वेकत्वका और अन्वयीभाव समा
स्का छिग पहिछे कह चुके है, स्वप्रधाने
अर्थात् उभयपद प्रधान इतरेतरारूप द्वन्द्व
समासमें और तत्पुरुष समासमें मी
जो (पर) परपदम्यछिग है
वही छिग होता है तहां द्वन्द्वसमासमें
जैसे कुम्भकुटमयूर्यादिमे, मयूरीकुम्भकुटा
दिमी, तत्पुरुषसमासमें जैसे, घाम्येनाथो
घाम्यार्थ, सर्पद्विीति सर्पमीति सर्प-
मय, वाप्यथ, कुलत्रिप्र कुर्त्तनित्रिप्र,
पूग्यकुल, विप्रकुल, आक्षणाका कुल,
इत्यादि ॥ ४२ ॥

अर्थात् प्राचलमातापन्नपूर्णा
परोपगाः ॥ तद्वितार्थो द्विगु
संख्यासर्वनामसदन्तकाः ॥ ४३ ॥

उक्त तत्पुरुषक छिगका अपवाद कह
हे, अर्थ इस पदसे, अयाता अयात्
अर्थशब्द हे अन्तमें त्रिमफे बे परो
पगा, परगामी आभ्यछिग हे, अर्थ जैसे
द्विजायायं द्विजार्थ स्व, द्विजाया यथाय
द्विजाय पय, 'आक्षणाय—र्याय, 'अर्थेन
निष्पत्ताद्योत्रिशप्यछिगाद्येतिवत्प्यम्

यह वार्तिक भी है '(प्राद्यलप्राप्तापन्नपूर्वा
परोपगा.)' पर विशेष्यको जाते हैं यह
अर्थ है, प्रादि पूर्व जैसे, अतिक्रातो माला-
मतिमालो हारः, अतिक्राता मालामतिमा-
लेयम्, अतिमालमिद, अवक्रुष्टः कोकिल-
या अवकोकिलः अलपूर्वपद जैसे, अल
कुमार्यै इत्यलकुमारिरय, अलकुमारिरियम्
अलकुमारि इद, अलब्रज्जीविक. —का-क्र,
प्राप्तजीविको द्विजः प्राप्तजीविका स्त्री प्रा
प्तजीविकामिद, इसी प्रकार आपन्नजीवि-
कः, 'तद्धितार्थो द्विगुः' अर्थात् तद्धित अ-
र्थमें द्विगुसज्ञक समास वाच्यलिंग है, पचक-
पालः—ल-ला, पुरोडाशः सख्याशब्द
सर्वनामसज्ञक और तदन्तमी परलिंग
माजी है, सख्या जैसे, एकः पुमान्, एक
कुल, द्वौ पुमासौ, द्वे स्त्रियौ, कुले च 'त्रयः
पुरुषाः तिस्रः स्त्रियः त्रीणि कुलानि, एवं
चत्वारः चतस्रः चत्वारि' षट्सज्ञकोंको
कहते हैं, विंशति आदिकोंका लिंगद्वितीय
काण्डमें कहचुके हैं, और शत आदिकोंका
तौ नपुंसकके सप्रहमें कहचुके हैं, सर्वनाम
जैसे सर्वो देशः सर्वा नदी सर्व जल इसी
प्रकार परः पुमान् 'सख्यान्तक जैसे ऊन-
प्रयः । ऊनतिस्र ऊनत्रीणि' सर्वनामान्त
जैसे परमसर्वः परमसर्वा परमसर्वम् ४३ ॥

बहुव्रीहिरदिङ्नाम्नामुन्नेयंतदु-
दाहतम् ॥ गुणद्रव्यक्रियायोगो-
पाधयः परगामिनः ॥ ४४ ॥

अदिङ्नाम्नाम् अर्थात् दिशावाचक
शब्दसे भिन्न नामवाकोंका बहुव्रीहि

समासमें अन्यलिंग होता है इसके उदा-
हरण आपसे आप विचारना चाहिये
जैसे, 'वृद्धा भार्या यस्य स वृद्धभार्यः' बहु-
धन. बहुधना बहुधन अदिङ्नाम्ना ऐसा
क्यों कहा, दक्षिणस्याः पूर्वस्याश्च दिशो-
रन्तराल दक्षिणपूर्वा गुणयोगसे द्रव्ययो-
गसे और क्रियायोगसे जो उपाधी अर्थात्
विशेषण हैं उसके धर्ममें जो प्रवृत्तशब्द है
वे धर्मोंके लिंगयोग होधें गुणयोगसे जैसे,
शुक्लः पटः—शुक्ला—शुक्ल, गन्धवती पृथ्वी
गन्धवान् अश्मा गन्धवत् कुसुम, द्रव्यके
योगसे जैसे दण्डी दण्डिनी स्त्री,
दण्डि कुल, क्रियायोगसे जैसे याचकः
याचिका याचकम् आदि ॥ ४४ ॥

कृतः कर्तर्यसंज्ञायां कृत्याः कर्त-
रि कर्मणि ॥ अणाद्यन्तास्तेन र-
क्ताद्यर्थे नानार्थभेदकाः ॥ ४५ ॥

असंज्ञामें जहा कर्ता अर्थमें कृत्सज्ञक
प्रत्यय हैं वे वाच्यलिंग हैं जैसे करोतीति
कर्ता पुमान्, कर्त्री स्त्री, कर्तृ कलत्रं
कुर्वन्-ती—त्, असंज्ञायां क्यों कहा प्रजा-
हारिः, कर्तरि क्यों कहा कृतिः, कर्म
अर्थमें और कर्ता अर्थमें वर्तमान कृत्य
प्रत्यय परगामी होते हैं कर्ममें जैसे मव्यः
(तरुः)—व्या—व्य, गन्तव्यः (ग्रामः)—
व्या—व्य, कर्तव्या भक्तिः, कर्त्तामें जैसे
वसतीति वास्तव्योऽय वास्तव्या सा
वास्तव्यं तत्, कर्त्तरि कर्मणि क्यों कहा
भाव अर्थमें तो एधितव्य त्वया तेन रक्त

इस इत्यादि अर्थमें अण् आदि तद्धितप्रत्यय
यास्त और माना अर्थके कहनेवाले वा
अमेकार्यके विशेषभूत विशिष्ट होनेसे
वाच्यखिग है जैसे कुसुम्भेन रक्ता शाटी
कौसुमी कौसुम्म पट कौसुम्मं मास,
हेम-हेमी-म, एन्द्र-न्द्री-न्द्र 'तेन रक्तं
रागात्' इससे अण् होता है और रक्ता
पर्ये इसके आदि शब्दस मधुराया आगतो
माधुरोऽय वा माधुरीयं आदि अणाय
न्ता इस इत्यादि पदसे ग्रामे मवा
ग्राम्य पुमान्, ग्रामे मवा ग्राम्या स्त्री
आदि, यद्वा यत् प्रत्यय होता है ॥ ४९ ॥

पदसंज्ञकास्त्रिषु समा युष्मद्
स्मात्तद्धययम् ॥ परविरोध श्रेय
तु श्रेयं श्लिष्टप्रयोगतः ॥ ४६ ॥

पदसंज्ञका अयात् पान्त और नास्त
संख्या, तथा कतिशब्द भी त्रिषु समा वा
स्त्रीनो खिगमें तुल्य होते हैं और निरत्यही
बहुत्व अर्थमें वर्तमान है इस कारणसे
यद्वा यत् अन्त है जैसे पडिम, पडिमा,
पडिमामि, पडिमारेतामि, कति पुमांस,
कति स्त्रियं, कति कुञ्जानि, युष्मद् और
अस्मद् शब्द तथा शिञ्स्तपद-और अव्यय
पवाचक शब्द-ये सब त्रिखिन्न और समा
न है, युष्मद् शब्द जिस त्वं स्त्री त्वं पुमान्
त्व कष्टत्रं आसद् शब्द जैसे आवां पु
मांमौ -आवां स्त्रियौ, आगं कष्टत्रं, शिद्
जिष्ठे, स्याडी मरति, पटी मरति पात्र

मरति इसी प्रकार दारा मरन्तीत्यादि,
अव्यय जैसे, उच्येः दारा उच्ये स्त्री
उच्ये कष्टत्रं उच्येः प्रासाद इत्यादिपरंमि
रोवे विप्रतिपक्षे वा विधियोंके परस्पर क्रि
यमें परखिगानुशासन होता है जैसे मानुष-
शब्द क-प-ण-म-म-र इस प्रागुक्तविधि
से पुंस्त्व ही प्राप्त था, दि चट्ट, पट्टपद इस
उच्ये उक्त स्त्रीपुंसविधिका निश्चय किया है,
जैसे मानुषोऽयं, मानुषीय, शेष जो नहीं
कहा गया नाम आदि वह श्लिष्ट महाक-
निप्रयोग और माध्यकार आदिके प्रयोग
से जानना चाहिये, यद्वा अनुसक्तशब्दोंके
खिग श्लिष्टप्रयोगसे जानने योग्य हैं, खिगा
त्रिचायक शास्त्र न करना चाहिये क्योंकि
खिगाज्ञान श्लोक वा संसारसे जान पड़ता
है यह माध्यकारका मत है ॥ ४६ ॥

इति खिगादिसप्तहर्षा ॥ १ ॥

इत्यमरसिंहकृतौ नामलिङ्गानु-
शासन ॥ सामान्यकाण्डस्तृतीयं
साम्प्रत एव समर्थित ॥ ४७ ॥

इसप्रकार अमरसिंहकृत नामलिङ्गानुशा-
सनमें सामान्य तृतीयकाण्डसाम्प्रत एव
करा ॥ ४७ ॥

इति धीमुरादायादवास्तव्यभंडितराग
स्वरूपरुतभाषाटीकासहित नामलिङ्गा-
नुशासने सामान्यकाण्डस्तृतीय समाप्त

इत्यमरकोश संपूर्णः ॥

पुस्तक मित्रनेत्र टिबाना-धर्मराज श्रीकृष्णदास,

भीरूदेवर ११ रथी-पुस्तकालय-१११

* जाहिरात *

कोष-ग्रन्थाः ।



नाम	को०	रू०	आ०
अमरकोश-मूल-छोटे अक्षरका गुटका.	०-४
अमरकोश-सटीक.	१-०
अमरकोश-भाषाटीकासमेत । शब्दानुक्रमणिकासमेत ग्लेज			१-८
” तथा रफ कागज	१-६
अनेकार्थध्वनिमंजरी-भाषामे सुगम है.	०-२
भाषीनाममाला-(छद्म भाषाकोष) इसको जोधपुर- निवासी रामसनेही साधु भावनदासजी महाराजने विशेष कर अमरकोष तथा हैम-विश्व-व्याडि-धरणि-मेदिनी आदि अनेक कोषोंका सार लेके अपूर्व ग्रन्थ बनाया है । इसमें संस्कृत तथा भाषामें प्रचलित प्रायः सभी शब्द आये हैं			१-०
शब्दार्थचिन्तामणि-यह कोषग्रन्थ बहुतही उत्तम और बृहत् है. इसमें अकारादि क्रमसे शब्द लिखे हैं व पुँल्लिङ्ग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग लिखनेके उत्तर शब्दोंकी व्युत्पत्ति व सिद्धिके लिये पाणिनि व्याकरणके सूत्र तथा शब्दोंके अर्थ व उनके लिये अनेक कोषोंके प्रमाण तथा विशिष्ट शब्दोंमें अनेक ग्रन्थोंसे उदाहरण भी दियेगये हैं, यह ग्रन्थ ४ जिब्द व ३१९३ पृष्ठोंमें है । हरएक विषयके विद्वानोंको अवश्य अपने पास रखने योग्य है	१२-०

काव्य-ग्रन्था ।



नाम

की० प० भा०

अमरुसूक्त-शृङ्गार और यदान्तपर काव्य दो टीकासहित	०-१०
अश्वघाटीकाव्य-मायाटीकासमेत	०-१
ऋतुसंहारकाव्य-कालिदासकृत और चौरकविह्वल-चौरप- शासिकाकाव्य । इसमें परशुबर्णनादि राजकुमार बामू देवर्नदनसिंहकृत छन्दोबद्ध मायाटीका है	०-७
कामाक्षिस्तुतिशतक-मूककविरचित	०-४
कालिविह्वल-मायाटीकासमेत । तथा कलिप्रभाव माया टीकासमेत । इसमें-कलियुगप्रमादवर्णन है	०-१
किरातार्जुनीयकाव्य-सटीक । ग्नेत्र कागजका दाम	१-१९
” तथा रफ कागजका	१-८
कुमारसम्भव-महाकवि कालिदासकृत और महिनायकृत संजी वनीटीकासमेत । इसमें-पार्वतीनीकी उत्पत्ति, ब्रह्मानीकी तारकासुरसे क्लेशित देवीको शिक्षा, मदनदहन, रतिविजय, पार्वतीके तपका उद्दय, पार्वतीका शिवजीसे विवाह करमेके निमित्त हिमवान्के पास सप्तशपियोंको भेजकर विवाहका निश्चय और शिव-पार्वतीनीका विवाह विधिपूर्वक वर्णित है	१-४
कृष्णलीलामृतकाव्य	०-९
कृष्णकर्णामृतकाव्य-(बहाही मत्स्यपदे)	०-४
कार्त्तिकाकण्ठाभरण-कार्त्तिकागोपाख्यास विरचित । मरोचमीय टीका तथा अमरेशरीय टिप्पणिसहित । इसमें मुजंगप्रयात रत्नदशक, तोटकराल दशक आदि दश दशक है । और	

नाम

की० रू० आ०

श्रीकृष्ण भगवान्की स्तुतिके साथ २ ऐसी उत्तम कविता है कि पंडितोंका मन मुग्ध होजाताहै ।	०-५
गीतगोविंद-राधाविनोदसमेत-भाषाटीकासहित । इसमें जयदेवगोस्वामिकृत अतिरालत सस्कृतमें रागमय राधाकृष्णकी प्रमयभक्तिके गानेका चीजें विद्यमान हैं । गानविद्या जाननेवालोंको अवश्य सग्रह करना चाहिये । यह भगवान्को अत्यन्त प्रिय है.	१-०
गीतगोविन्द-मूलमात्र.	०-२
गुरुपीयूषलहरी-गुरुनानकसाहत्रका वर्णन	०-६
घटकपरकाव्य-भाषाटीकासमेत.	०-२
दशकुमारचरित्र-(सस्कृत)	१-८
दशकुमारचरित्र-भाषाटीकासमेत छपरहाहै.		
दृष्टान्तशतक-दोहा-भा० टी० इसके श्लोक दोहोंमें यह विचित्रता है कि पूर्वार्द्धमें दृष्टान्त और उत्तरार्द्धमें दार्ष्टान्त क्रमसे कहेगयेहैं.	०-२॥
नलोदयकाव्य-सटीक-इसमें-महाराजा नल और दमयन्तीका रोचक चरित्र वर्णित है.	०-१२
पद्यमुक्तावली-इसके श्लोकोंके आदिमें क्रमसे स्वर व्यञ्जनोंके अक्षर आते हैं । यद्यपि छोटा है किन्तु देखने योग्य है.	०-१॥
पञ्चतन्त्र-मूलमात्र । विष्णुशर्माकृत नीतिशास्त्र	१-८
पञ्चतन्त्र-विष्णुशर्माकृत और प०ज्वालाप्रसादजीमिश्रकृत सुबोध भाषाटीकासमेत । यह मित्रमेद, मित्रसप्राप्ति, षाकोल्लकीय, लब्धप्रणाश, अपरीक्षितकारक इन पांच तन्त्रोंमें नीतियुक्त सर्वोत्कृष्ट है.	२-०

- मर्तृहरिशतक—नीति शृंगार तथा केाम्य भापाटीकासमेत ।
 इसके नीतिसप्तकमें निन्दाप्रशंसा शिष्टप्रशंसा मानशौर्य-
 प्रशंसा, दुर्जननिन्दा, सुजनप्रशंसा धैर्यप्रशंसा, दैवप्रशंसा,
 कर्मप्रशंसा और शृंगारशतकमें—पशुवर्णन, दुर्भिरज-
 कर्णन, स्त्रीपरित्यागप्रशंसा, यौवनप्रशंसा कामिनीग्रहण,
 सुविरक्त और वैराग्यशतकमें—तृष्णाधिकार, मदनविह्वलन,
 विषयोक्ता रूपतिरस्कार, दुर्जनपुरुषोक्ती निन्दा हास्यका वर्णन,
 मोगपद्धति, कामनिर्भेदताका स्वरूप इत्यादिका वर्णन देख-
 नेही योग्य है --- --- १-०
- मक्तिरत्नावली—श्रीमद्भागवतोद्धृत स्तुतिसंग्रह .. ०-४
- भामिनीविलास—५० महावीरप्रसाद द्विवेदीकृत भापाटीका
 सहित । इसमें—प्रस्ताविकविलास, शृंगारविलास, कल्या
 विलास, तथा शान्तविलासादि आर्यत रोचकविषय हैं पण्डित
 तोंके देखने योग्य है १-०
- भोजप्रबन्ध—मूल । कविविद्यासकृत । जाका चरित्र
 रचनीतिसंबंधी मछी मॉति वर्णित है ०-७
- भोजप्रबंध—५० श्यामसुन्दरलाल त्रिपाठीकृत भापाटीकासमेत १-०
- भोज और कालिदास—भापाटीकासमेत । राजा भोज और
 कालिदासके चातुर्वर्षकी उत्तमोत्तम कथाका संग्रह है ०-१४
- भगार्भगनिषेध—भापाटीकासमेत । इसमें मांगकी निन्दाका
 कथन मछी मॉति किया है --- --- ०-२
- मारुतिस्वयं—सटीक । जोधपुरनिवासी शिवानन्दशास्त्रीनिने
 हनुमान्जीकी ओकोत्तरमहिमाको कथितपद्योंमें वर्णन किया
 है । कवितामें यह विचित्रता है कि, पद्योंके आदिके अक्ष

रोमें रामरक्षा स्तोत्र सम्पूर्ण आगया है जो कि विद्वानोंके देखनेही योग्य है । साथही जोधपुर वैदिक पाठशालाके प्रधानाध्यापक पंडित भगवतीलालजीने इसकी ऐसी सरल टीका की है कि, कविता स्पष्ट समझमें आजाती है.	०-५
मूर्खशतक-भाषाटीकासमेत.	०-१
मेघदूतकाव्य-सटीक.	०-६
मेघदूतकाव्य-कालिदासकृत-सान्ध्य मल्लिनाथी टीका और भाषाटीकासमेत । इसमें-मेघका वर्णन अवलोकन करने योग्य है.	०-८
रघुवंशमहाकाव्य-कालिदासकृत-मल्लिनाथकृत सर्जीवनी टीका और टिप्पणीसमेत । इसमें राजादिलीपसे लेकर लव कुश तथा अग्निवर्णके चरित्रतक १९ सर्ग हैं । इसकी महिमा कौन नहीं जानता ? विद्यार्थियोको परमोपयोगी है पक्की जिल्द	१-८
"तथा सादी जिल्द	१-४
रघुवंशमहाकाव्य-सटीक तथा रामकृष्णारव्यविलोम-काठ -सटीक- ये दोनोंका एक गुटका है. महीन अक्षर.	०-१०
रघुवंशमहाकाव्य-विद्यावारिधि प० ज्वालाप्रसादजीभिश्चकृत सान्ध्य भाषाटीका पदयोजना तात्पर्यार्थ और सरलार्थसहित ग्लेजकागज	३-८
" तथा रफ कागज	३-०
१ रघुवंशमहाकाव्य-(केवल पाच सर्ग) उपरोक्त अलङ्कारोंसे युक्त भाषाटीकासमेत.	१-४
रघुवंशमहाकाव्य-सटीक सर्ग १ से ५ तक.	०-४
रघुवंशमहाकाव्य-सटीक सर्ग ६ से १० तक	०-४

मर्तुहरिशतक—नीति शृंगार तथा वैराग्य भाषाटीकासमेत ।

इसके नीतिशतकमें निन्दाप्रशंसा विद्वत्प्रशंसा मानशौर्य-
प्रशंसा, दुर्जननिन्दा, सुजनप्रशंसा धैर्यप्रशंसा, दैवप्रशंसा,
कर्मप्रशंसा और शृंगारशतकमें—पद्मकतुर्गणन, दुर्भिक्ष-
वर्णन, स्त्रीपरित्यागप्रशंसा, पौषनप्रशंसा कामिनीप्रहृष्ट,
सुभिरक और वैराग्यशतकमें—तृष्णाधिकार, मदनबिडंबन,
विषयोक्ता रूपतिरस्कार, दुर्जनपुरुषोक्ती निन्दा हास्यका वर्णन,
मोगपद्धति, कामनिर्देताका स्वरूप इत्यादिका वर्णन देख-
नेही योग्य है

१-०

भक्तिरत्नावली—श्रीमद्भागवतोद्भूत स्तुतिसंग्रह

०-४

भामिनीविलास—५० महाभारतसाद द्विपदीकृत भाषाटीका
सहित । इसमें—प्रस्ताविकविलास, शृंगारविलास, कृष्णा
विलास, तथा शान्तविलासादि अत्यंत रोचकविषय हैं पण्डित
तोंके देखने योग्य है

१-०

भोजप्रबन्ध—मूल । कविकुण्डलकृत । जाका भरिप्र
रावनीतिसंबंधी मछी मूर्ति वर्णित है

०-७

भाजप्रबंध—५० स्वामिसुन्दरछात्र त्रिपाठीकृत भाषाटीकासमेत

१-०

भोज और कालिदास—भाषाटीकासमेत । राजा भोज और
कालिदासके आदुर्यकी उचमोचम कथाका संग्रह है.

०-११

भगवद्भगनिषेध—भाषाटीकासमेत । इसमें मांगकी निन्दाका
खण्डन भली भाँति किया है

-२

मारुतिस्तव—सटीक । जोधपुरनिवासी मित्ररामचन्द्रशास्त्रीजीने
इन्द्रमानुजीकी ओकेचरमहिमाको उचितपद्योंमें वर्णन किया
है । कविताम यह विधित्रता है कि, पद्योंके आदिके अक्ष-

शृंगारादिनवरसनिरूपण—भापाटीकासमेत । इसमें—शृंगारका
अर्थात् चमत्कारी वर्णन है तथा शृंगार, वीर, कृष्णा,
अद्भुत, हास्य, मयानक, वीभत्स, रौद्रका सूक्ष्म वर्णन और
शातरसका विस्तारमें वर्णन हैं ०-४

सौन्दर्यलहरी—सटीक । इसमें—देवीकी भक्तिमय स्तुति है.... ०-३

हितोपदेश—मूलमात्र । विष्णुशर्मप्रणीत ०-७

हितोपदेश—विष्णुशर्मप्रणीत और स्वर्गीय प० बलदेवप्रसाद
मिश्रकृत भापाटीकासमेत । इसमें—नीतिसन्ध्या कथा
अतिबोधदायक लाभकी रीति इत्यादि वर्णन मलीप्रकार
किया गया है । ऐसा हितोपदेश आजतक कहीं नहीं छपा १-४

चम्पू-ग्रन्थाः



आनन्दवृन्दावन चम्पू—सटीक	२-८
चृसिंह चम्पू	०-३
भागवतचम्पू—सटिप्पण.	१-८
भार्गवचम्पू—सटिप्पण.	०-८
रघुनाथविजयचम्पू—सटिप्पण.	०-८
रामायणचम्पू	०-१२
श्रीनिवासचम्पू—सटिप्पण.	१-४

संस्कृतनाटक-ग्रन्थाः ।



अभिज्ञानशाकुन्तल—नाटक । महाकविकाळिदासकृत—दुष्यंत
राजा और कण्वकन्या शकुन्तलाका चरित्र..... १-४

नाम	की० पृ० आ०
राक्षसकाव्य—संस्कृतटीका और मापाटीकासहित	.. ०-२
रामकृष्णविलोमकाव्य—संस्कृतटीकासमेत	०-४
राधाविनोदकाव्य—मापाटीकासमेत	०-२
रमाशुकसवाद—संस्कृत मूल व प्रथम छोककी कवित्तमें टीका व मापाटीकासमेत । अति मनोरञ्जक काव्य है ...	०-२
ललितरामचरित्र—काव्यसंगीत	१-०
वसन्तश्रुतक—सटीक—संस्कृत । इसमें—वसन्तकानुक्त वर्णन बढ़ाही राचक है	०-१
विद्वन्मोदतरंगिणा काव्य—चिरंजीव मट्टाचार्यरचित गद्यपद्य विपूषित । इसमें—समशास्त्र और सर्व संप्रदायोंका सिद्धान्त दिखायाहै विशुनोंको अतीवोपयोगीहै. ..	०-४
विद्यासुन्दर और चौरपचाशिका—मापाटीकासहित ...	०-४
शिशुपालवध—(माघकाव्य) मछिनायकृत टीकासहित । इसमें—नारदजीको मगबदर्शन, शिशुपालवधार्थ सद्ब बध्याम तथा धीकृष्णको निर्मथ्रण, द्वारका समुद्रवर्णन और रेक्तपर्वतवर्णनादि २० सर्गमें अपूर्ण काव्यहै । विद्यार्थी छो पढके इसके द्वारा प्रसंगोपात्त उदाहरण दे सकेहैं.	२-८
शिशुपालवध—(माघकाव्य) पूर्ण ९ सर्गमें । विद्यार्थी छोगोंके लिये योग्यहै	१-४
श्रीरामगीतगोविन्द—सटीक । पं० जयदेवस्वामीकृत गीत गोविन्दके अनुसार इसमें भी सीतारामकी मफिकी गानेकी अलिखित संस्कृतमें रागमय चीजें बर्णित हैं ...	०-८
शृंगारतिलक—मापाटीकासहित । इसमें—शृंगाररसका अपूर्ण वर्णन है	०-४

